

भा०दि०जैनसंघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य सप्तमो दलः

श्रीयतिवृषभाचार्यरचितचूर्णिसूत्रसमन्वितम्

श्रीभगवद्गुणवराचार्यप्रणीतम्

क सा य पा हु ङं

तयोश्च

श्रीवीरसेनाचार्यविरचिता जयधवला टीका

[पञ्चमोऽधिकारः प्रदेशविभक्तिः २]

सम्पादकौ

पं० फूलचन्द्रः

सिद्धान्तशास्त्री

सम्पादक महाबन्ध, सङ्गसम्पादक

धवला

पं० कैलाशचन्द्रः

सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

प्रधानाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय

काशी

प्रकाशक

मन्त्री साहित्य विभाग

भा० दि० जैन संघ, चौरासी, मधुरा,

वि० सं० २०१५]


वीरनिर्वाणाब्द २४८५

[ई० सं० १९५८

मूर्त्यं रूप्यकद्वादशकम्

भा० दि० जैनसंघ-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य
प्राकृत संस्कृत आदि भाषाओंमें निबद्ध दि० जैनागम,
दर्शन, साहित्य, पुराण आदिको यथासम्भव
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करना



सञ्चालक

भा० दि० जैनसंघ

ग्रन्थाङ्क १-७

प्रातिष्ठान

मैनेजर

भा० दि० जैनसंघ

चौरासी, मथुरा

मुद्रक—पं० शिवमारायण उपाध्याय, बी० ए०
नया संसार प्रेस भदौनी, वाराणसी ।

Sri Dig Jain Sangha Granthamala No 1-VII
KASAYA-PAHUDAM
VII
PRADESHAVIBHAKTI

BY
GUNADHARACHARYA

WITH
CHURNI SUTRA OF YATIVRASHABHACHARYA

AND
THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF
VIRABENACHARYA THERE-UPON

EDITED BY
Pandit Phulachandra Siddhantashastri
EDITOR MAHABANDHA
JOINT EDITOR DHAVALA.

Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatirtha, Siddhantaratna,
Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jain
Vidyalyaya, Varanasi

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT,
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year—]

[—Vira Niravan Samvat 2468

Aim of the Series:—

**Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darsana, Purana, Sahitya and other works
in Prakrit Sanskrit etc, possibly with Hindi
Commentary and Translation**

DIRECTOR:—

**SRI BHARATAVARSHIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA
NO. 1. VOL. VII.**

To be had from:—

THE MANAGER
SRI DIG. JAIN SANGHA,
CHAURASI. MATHURA,
U. P. (INDIA)

Printed by
PT S N UPADHYAYA B. A
Naya Sansar Press, Bhadaini Varanasi.

800 Copies,

Price Rs. Twelve only

प्रकाशककी ओरसे

कसायपाहुडके छठे भागके प्रकाशित होनेसे छै मास पश्चात् ही उसके सातवें भागको पाठकोंके हाथोंमे अर्पित करते हुए हमे सन्तोषका अनुभव होना स्वाभाविक है ।

छठे भागमें प्रदेशविभक्तिका स्वाभित्व अनुयोगद्वार पर्वन्त भाग मुद्रित हुआ है । शेष भाग, म्नीषाम्नीष तथा स्थितिके साथ इस सातवें भागमें है । इसीसे इस भागका कलेवर छठे भागसे बहुत अधिक बढ़ गया है । इस भागके साथ प्रदेशविभक्ति अधिकार समाप्त हो जाता है और जयधवलाका भी पूर्वाधै समाप्त हो जाता है । शेष उत्तरार्थ भी सात या आठ भागोंमें प्रकाशित होगा ।

इस समय बाजारमें कागज की स्थिति युद्धकालीन जैसी हो गई है । कागजका मूल्य ज्योड़ा हो जाने पर भी बाजारमें कागज उपलब्ध नहीं है । अतः अगला भाग प्रकाशित होनेमें विलम्ब होना संभव है ।

यह भाग भा० दिगम्बर जैन संघके अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्द्र जी डोगरगढ़ तथा उनकी दानशीला धर्मपत्नी श्रीमती नवैश्यावाईजीके द्वारा प्रदत्त द्रव्यसे हुआ है । कुण्डलपुरमें संघके अधिवेशन पर सेठ साहबने जयधवलाजीके प्रकाशनके लिये ग्यारह हजार रुपया प्रदान किया था । उन वर्ष वामौरामे संघके अधिवेशनके अवसर पर आपने पाँच हजार एक रुपया इसी मदमें और भी प्रदान किया है । सेठ साहब और उनकी धर्मपत्नीकी जिनवाणीके प्रति यह भक्ति तथा उदारता अनुकरणीय है । उनकी इस उदारताके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाये, थावा है ।

सेठसाहब की इस दानशीलतामें प्रेरणात्मक सहयोग देनेका श्रेय पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त-शास्त्रीका है । आप ही जयधवलाके सम्पादन तथा मुद्रणका भार उठाये हुए हैं । अतः मैं पण्डितजी का भी आभारी हूँ ।

काशीमें गङ्गा तट पर स्थित स्व० बाबू छेदीलालजीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमें जयधवला कार्यालय अपने जन्म कालसे ही स्थित है और यह सब स्व० बाबू छेदीलालजीके पुत्र स्वर्गीय बाबू गणेशदास तथा पौत्र बा० सालिगरामजी तथा बा० ऋषभदासजीके सौजन्य तथा धर्मप्रेमका परिचायक है । अतः मैं उनका भी आभारी हूँ ।

जयधवला कार्यालय
भदौनी, वाराणसी
दीपावली-२४८२५

}

कैलाशचन्द्र शास्त्री
मंत्री साहित्य विभाग
भा० दि० जैन संघ

विषय-परिचय

पूर्वमें प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिका विचार कर आये हैं। प्रकृतमें प्रदेशविभक्तिका विचार करना है। कर्मोंका बन्ध होने पर तत्काल बन्धको प्राप्त होनेवाले ज्ञानावरणादि आठ या सात कर्मोंको जो द्रव्य मिलता है उसकी प्रदेश संज्ञा है। यह दो प्रकारका है—एक मात्र बन्धके समय प्राप्त होनेवाला द्रव्य और दूसरा बन्ध होकर सत्तामें स्थित द्रव्य। केवल बन्धके समय प्राप्त होनेवाले द्रव्यका विचार महाबन्धमें किया है। यहाँ वर्तमान बन्धके साथ सत्तामें स्थित जितना द्रव्य होता है उस सबका विचार किया गया है। उसमें भी ज्ञानावरणादि सब कर्मोंकी अपेक्षा विचार न कर यहाँ पर मात्र मोहनीयकर्मकी अपेक्षा विचार किया गया है। मोहनीयकर्मके कुल भेद अट्ठाईस हैं। सर्व प्रथम इन भेदोंका आश्रय लिये बिना और बादमें इन भेदोंका आश्रय लेकर प्रस्तुत अधिकार में त्रिविध अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे प्रदेशविभक्तिका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है। यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे विचार किया गया है वे अनुयोगद्वार ये हैं—भागाभाग, सर्वप्रदेशविभक्ति, नोसर्वप्रदेशविभक्ति, उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, जघन्य प्रदेशविभक्ति, अजघन्य प्रदेशविभक्ति, सादिप्रदेशविभक्ति, अनादिप्रदेशविभक्ति, ध्रुवप्रदेशविभक्ति, अध्रुवप्रदेशविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। मात्र उत्तरप्रदेशविभक्तिका विचार करते समय सन्निकर्ष नामक एक अनुयोगद्वार और अधिक हो जाता है। कारण स्पष्ट है।

भागाभाग—इस अनुयोगद्वारमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन चार पदोंका आश्रयकर एक बार जीवोंकी अपेक्षा और दूसरी बार सत्तामें स्थित कर्म परमाणुओंकी अपेक्षा कौन कितने भागप्रमाण हैं इसका विचार किया गया है, इसलिए इस दृष्टिसे भागाभाग दो प्रकारका है—जीवभागाभाग और प्रदेशभागाभाग। जीवभागाभागका विचार करते हुए बतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तर्वे भागप्रमाण हैं और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके विषयमें जानना चाहिए। यह श्रेय प्ररूपणा है। आदेशसे सब मार्गणाश्रमे अपनी-अपनी सख्याको जानकर यह भागाभाग समझ लेना चाहिए। प्रदेश भागाभागका विचार करते हुए सर्व प्रथम तो सामान्यसे मोहनीय कर्मकी अपेक्षा प्रदेशभागाभागका निषेध किया है, क्योंकि अवान्तर भेदोंकी विवक्षा किये बिना मोहनीय कर्म एक है, इसलिए उसमें भागाभाग घटित नहीं होता। इसके बाद ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी अपेक्षा सामान्यसे मोहनीय कर्मको कितना द्रव्य मिलता है इसका विचार करते हुए बतलाया गया है कि आठो कर्मोंका जो समुच्चयरूप द्रव्य है उसमें आबलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे सब द्रव्यमेंसे अलग करके वचे हुए शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यके आठ पुञ्ज करके आठो कर्मोंमें अलग-अलग विभक्त करदे। उसके बाद जो एक भाग बचा है उसमें पुनः आबलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग करके शेष बहुभागप्रमाण द्रव्य वेदनीयको दे दे। पुनः वचे हुए एक भागमें आबलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देने पर जो बहुभागप्रमाण द्रव्य शेष रहे उसे मोहनीयको दे दे। लब्ध द्रव्यमें पुनः आबलिके

असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो बहुभाग शेष रहे वह समान रूपसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मों में बाँट दे। लब्ध द्रव्यमें पुनः आधिलेक असंख्यातवें भागका भाग देने पर बहुभागप्रमाण बचे हुए द्रव्यको नाम और गोत्र इन दो कर्मों में बाँट दे। तथा अन्तमें लब्ध रूपमें जो एक भाग बचता है वह आयु कर्मको दे दे। इस प्रकार विभाग करनेपर मोहनीय कर्मको प्राप्त हुआ द्रव्य आ जाता है। मोहनीयकर्मको प्राप्त हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे दो प्रकारका होकर भी सब कर्मों की अपेक्षा पूर्वमें जो विभागका क्रम बतलाया है उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंको जो द्रव्य मिलता है उसका अलग अलग विचार करनेपर आयु कर्मको सबसे स्तोक द्रव्य मिलता है। नाम और गोत्र कर्मका द्रव्य परस्परमें समान होकर भी आयुकर्मके द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मको मिलनेवाला द्रव्य परस्परमें समान होकर भी नाम और गोत्रकर्मको मिले हुए द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। इससे मोहनीय कर्मका द्रव्य विशेष अधिक होता है और मोहनीयके द्रव्यसे वेदनीयकर्मका द्रव्य विशेष अधिक होता है। यह ओघप्ररूपणा है। सब मार्गाणाओंमें इसे इसीप्रकार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए।

उत्तरप्रकृतियोंमें मोहनीय कर्मके सब द्रव्यका विभाग करते हुए पहले उसमें अन्तका भाग दिलाकर एक भाग सर्वघाति द्रव्य और शेष बहुभाग देशघाति द्रव्य बतलाया गया है। देशघाति द्रव्यमें भी कषाय और नोकषाय रूपसे उसे बाँटा गया है। बादमें प्रत्येकका अपने अपने अवान्तर भेदोंमें बटवारा किया गया है। इसी प्रकार सर्वघाति द्रव्यको भी सर्वघाति प्रकृतियोंमें विभक्त करके बतलाया गया है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए मूलमें देख लेना चाहिए। गति आदि मार्गाणाओंमें विचार करते समय नरकगतिमें जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश करके अन्यत्र भी जान लेने की सूचना की गई है। इस प्रसङ्गसे गतिसम्बन्धी जिन मार्गाणाओंमें नरकगतिसे कुछ विशेषता है उसका निर्देश करके उत्कृष्ट-भागाभाग प्ररूपणाको समाप्त किया गया है। जघन्य भागाभागका भी इसी प्रकार स्वतन्त्रतासे विचार करते हुए ओघ और आदेशसे उसका अलग अलग स्पष्टीकरण किया गया है। आदेशप्ररूपणा की अपेक्षा मात्र नरकगतिमें विशेष विचार करके गतिमार्गाणाके जिन अवान्तर भेदोंमें नरकगतिके समान जघन्य भागाभाग सम्भव है उनका नाम निर्देश करके इस प्रकारको समाप्त किया गया है।

सर्व-नोसर्वप्रदेशविभक्ति—सर्वप्रदेशविभक्तिमें सब प्रदेश और नोसर्वप्रदेशविभक्तिमें उनसे न्यून प्रदेश विवक्षित हैं। मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें ये यथायोग्य ओघ और आदेशसे घटित कर लेने चाहिए।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्ति—सबसे उत्कृष्ट प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति है और उनसे न्यून प्रदेश अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके ओघ और आदेशसे जहाँ पर ये जितने सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए।

जघन्य-अजघन्यप्रदेशविभक्ति—सबसे कम प्रदेश जघन्य प्रदेशविभक्ति है और उनसे अधिक प्रदेश अजघन्य प्रदेशविभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके ओघ और आदेशसे जहाँ पर ये जिसप्रकार प्रदेश सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवप्रदेशविभक्ति—सामान्यसे मोहनीयके ज्ञय होनेके अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और इससे पूर्व सब अजघन्य प्रदेशविभक्ति है, अतः अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि विकल्पके विना अनादि, ध्रुव और अध्रुव यह तीन प्रकारकी

होती है। अब वहीं उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सो ये सादि और अध्रुव इस तरह दो प्रकार की ही होती हैं। जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए वह सादि और अध्रुव है। तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कादाचित्क है, इसलिए ये भी सादि और अध्रुव हैं। यह ओघ प्ररूपणा है। आदेशसे सब गतियाँ परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें उक्त सब प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्रुव ही होती हैं। आगे अन्य मार्गणाओमें भी इसी प्रकार विचार कर घटित कर लेना चाहिए। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व, मध्यकी आठ कपाय और पुरुषवेदके बिना आठ नोकपाय इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, अतः इनकी भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्रुव तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ अनादि, ध्रुव और अध्रुव, होती हैं। पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जो गुणितकर्मांशवाला जीव जब स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब पुरुषवेद और छह नोकपायोंके द्रव्यको संज्वलन क्रोधमें संक्रमित करता है तब संज्वलन क्रोधकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन क्रोधके द्रव्यको संज्वलनमानमें संक्रमित करता है तब संज्वलनमानकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलनमानके द्रव्यको संज्वलन रायामें संक्रमित करता है तब संज्वलन मायाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा यही जीव जब संज्वलन मायाके द्रव्यको संज्वलन लोभमें संक्रमित करता है तब संज्वलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है। इस प्रकार इन पाँचोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए ये सादि और अध्रुव हैं। तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं। मात्र पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म क्षपितकर्मांश अथःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि भी बन जाती है। तथा इन पाँचोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकारकी है। जब तक इनकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक तो यह अनादि, ध्रुव और अध्रुव है और उत्कृष्टके बाद यह सादि है। सम्बन्ध और सम्य निमिध्यात्व ये प्रकृतियाँ सादि और सान्त हैं, इसलिए इनके चारों ही पद सादि और अध्रुव हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ कादाचित्क हैं, जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए ये तीनों सादि हैं। तथा क्षपणाके पूर्व इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति नियमसे होती है इसलिए तो यह अनादि है। तथा क्षपणाके बाद पुनः संयुक्त होने पर यह सादि है। ध्रुव और अध्रुव विकल्प तो यहाँ सम्भव हैं ही। इस प्रकार इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति चारों प्रकारकी प्राप्त होती है। यह आघप्ररूपणा है। आदेशसे अचञ्चुदर्शन और भव्यमार्गणामे आघप्ररूपणा बन जाती है। मात्र भव्यमार्गणामे ध्रुव भङ्ग सम्भव नहीं है। शेष सब मार्गणाएँ परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आदि चारों विभक्तियाँ सादि और अध्रुव ही प्राप्त होती हैं।

स्वामित्व—सामान्यसे मांहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति हा स्वामी ऐसा गुणितकर्मांशिक जीव होता है जो वादरपृथिवीकायिकोंमें और वादर त्रसोमें परिभ्रमण करके अन्तमें दो बार सातवें नरकके नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कम पूरी आगु बिता चुका है। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी किस समय होता है उस सम्बन्धमें दो मत हैं। एक मतके अनुसार अन्तर्मुहूर्त नरकायु शेष रहनेपर उसके प्रथम समयमें होता है और दूसरे मतके अनुसार

नरकके अन्तिम समयमें होता है। मिथ्यात्व, बारह कपाय और ब्रह्म नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। जो गुणितकर्मांशिक दर्शनमाहनीयकी क्षण करनेवाला जीव जब मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। तथा जब वही जीव सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्मांशिक जीव होता है जो अन्तमें ईशान कल्पमें उत्पन्न होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसे अन्तमें असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराकर पत्येके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्रीवेदका पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए। जो गुणितकर्मांशिक जो व क्रमसे नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और पुरुषवेदका यथायोग्य पूरकर अन्तमें मनुष्यमें उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मका क्षय करता हुआ जब स्त्रीवेदको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब पुरुषवेदको क्रोधसंञ्चलनमें संक्रमित करता है तब क्रोधसंञ्चलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब क्रोधसंञ्चलनको मानसंञ्चलनमें संक्रमित करता है तब मानसंञ्चलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब मानसंञ्चलनको मायासंञ्चलनमें संक्रमित करता है तब मायासंञ्चलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है और वही जीव जब मायासंञ्चलनको लोभसंञ्चलनमें संक्रमित करता है तब लोभसंञ्चलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। यह आंधसे उत्कृष्ट स्वामित्व है। आंधसे सामान्य मोहनीयकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिका स्वामी क्षुपितकर्मांशिक जीव क्षुपणके अन्तिम समयमें होता है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षुपितकर्मांशिक जीव होता है जो अन्तमें दर्शनमाहनीयकी क्षण करते समय मिथ्यात्वकी दो समय कालवाली एक स्थितिको प्राप्त है। तथा वही जीव जब दर्शनमाहनीयकी क्षण किये विना मिथ्यात्वमें जाकर दीर्घ उद्वेलना कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करते हुए अपने अपने समयमें दो समय कालवाली एक स्थितिको प्राप्त होता है तब वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका स्वामी होता है। मध्यकी आठ कपायोंके विषयमें ऐसा क्षुपितकर्मांशिक जीव लेना चाहिये जो अमन्योके योग्य जघन्य प्रदेशविभक्ति करके त्रमोमें उत्पन्न हुआ है और वहाँ आगमोक्त क्रिया व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अन्तमें क्षुपण कर रहा है। ऐसे जीवके जब इनकी दो समय कालवाली एक स्थिति जप रहती है तब वह इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जो जब अनन्तानुबन्धीकी बार बार विसंयोजना कर लेता है और अन्तमें दो छत्वासठ सागर कालक राम्यक्त्वका पालन करके पुनः उसकी विसंयोजना करता है तब वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी दो समय कालवाली एक स्थितिके रहते हुए उनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका भी क्षुपितकर्मांशिक जीव ही अपनी अपनी क्षुपणके अन्तिम समयमें उद्यस्थितिके सद्भावमें जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षुपक पुरुषवेदी होता है जो जघन्य घोलमान योगसे पुरुषवेदका बन्ध करके उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें स्थित है। इसी प्रकार संञ्चलन क्रोध, मान और मायाकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी घटित कर लेना चाहिये। लोभ संञ्चलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी क्षुपक अधःकरणके अन्तिम समयमें होता है। तथा ब्रह्म नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी ऐसा क्षुपक होता है जो अन्तिम स्थिति काण्डकके संक्रमणके अन्तिम समयमें स्थित है। यह आंधसे जघन्य स्वामित्व है। आदेशसे

मूल और उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जघन्य स्वामित्व चारों गतियोंकी अपेक्षासे तो मूलमें ही कहा है, इसलिए उसे वहाँसे जान लेना चाहिए। तथा अन्य मार्गणाओंमें उक्त स्वामित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिए। यहाँ पर मूलमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म तक किस प्रकृतिके सान्तर और निरन्तर कितने स्थान किस प्रकार प्राप्त होते हैं यह सब कथन विस्तारके साथ किया है सो उसे वहाँ मूलमें ही देखकर समझ लेना चाहिये।

काल—सामान्यसे मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म तेतीस सागरकी आयुवाले नारकीके अन्तिम समयमें होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जो उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके एकैन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके अनन्तकाल तक देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है। किन्तु यदि परिमाणोंकी मुख्यतासे देखा जाय तो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब प्रकारके प्रदेशसत्त्वके कारणभूत परिणाम ही असंख्यात लोकप्रमाण हैं। और जिसने सातवें नरकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके यथात्रिधि मनुष्य पर्याय प्राप्त कर आठ वर्षकी अवस्थामें ही क्षपकश्रेणिपर आरोहणकर मोहनीयका नाश किया है उसकी अपेक्षासे देखा जाय तो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल आठ वर्ष अधिक अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। मिथ्यात्व आदि अचान्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका यह काल इसी प्रकार जानना चाहिये। मात्र कुछ प्रकृतियोंके कालमें कुछ विशेषता है। यथा—अनन्तानुबन्धीकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जो अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार विसंयोजना करता है उसके होती है, इसलिए उसका जघन्य काल मात्र अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है। जैसा कि स्वामित्वमें बतला आये हैं, चार संवलयन और पुरुषवंदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यथायोग्य क्षपकश्रेणिमें होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त यह तीन प्रकारका प्राप्त होता है। अनादि-अनन्त काल अभव्योके होता है, अनादि-सान्त काल अपनी अपनी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके प्राप्त होनेके पूर्व तक भव्योके होता है। और सादि-सान्त काल ऐसे जीवोके होता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति की है। मात्र इस प्रकार जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त होती है वह अन्तर्मुहूर्त कालतक ही पाई जाती है, क्योंकि क्षपण हो जानेसे आगे इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक साधिक दो छथासठ सागर कालतक सत्त्व पाया जाता है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर कालप्रमाण है। सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि अष्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है जो अपने अपने जघन्य स्वामित्वके समय प्राप्त होती है। तथा मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है, क्योंकि अभव्योके इसका सर्वदा सद्भाव पाया जाता है, इसलिए तो अनादि-अनन्त विकल्प बन जाता है और भव्योके अपने जघन्य स्वामित्वके पूर्व तक यह विभक्ति पाई जाती है, इसलिए अनादि-सान्त विकल्प बन जाता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक

दो छथासठ सागरप्रमाण है सो इसका खुलासा अनुत्कृष्टके समान कर लेना चाहिये । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन विकल्प होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमेंसे प्रारम्भके दो विकल्पोका खुलासा सुगम है । अब रहा सादि-सान्त विकल्प सो इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, क्योंकि विसंयोजनाके बाद इसकी संयोजना होनेपर इसका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक कुछकम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक सत्त्व पाया जाता है । लोभसंञ्चलनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके भी उक्त तीन विकल्प जानने चाहिये । मात्र इसके सादि-सान्त विकल्पका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि जघन्य प्रदेशविभक्ति हानेके बाद इसका अन्तर्मुहूर्त कालतक ही सत्त्व देखा जाता है । कालकी अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी यह ओघ प्ररूपणा है । गति आदि मार्गणाओमें अपनी अपनी विशेषताकी जानकर कालका विचार इसी प्रकार कर लेना चाहिये ।

अन्तर—एक बार मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति हानेके बाद पुनः वह अनन्त काल बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है । अथवा परिणामोकी मुख्यतासे इसका जघन्य अन्तर-काल असत्य न लोकप्रमाण भी बन जाता है । तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार मिथ्यात्व, मध्यकी आठ कपाय और पुरुषवेदके सिवा आठ नाकपायोंके विषयमें घटित कर लेना चाहिए । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अन्तरकालसम्बन्धी सब कथन उक्तप्रमाण ही है । पर विमयोजना प्रकृति होनेसे इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागरप्रमाण भी बन जाता है, इसलिए इनकी विशेषताका अलगसे निर्देश किया है । जेव नव प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षणिके समय होती है इसलिए उनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दोनों उद्भूतना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण है । तथा पुरुषवेद और चार संञ्चलन इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए इसकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । इसी प्रकार मिथ्यात्व, म्यारह कपाय और नौ नाकपायोंके विषयमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी क्षणिके अन्तिम समयमें ही जघन्य प्रदेशविभक्ति प्राप्त होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्भूतना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छथासठ सागर बन जानेसे वह उक्त प्रमाण है । लोभसंञ्चलन की जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयमात्र होकर भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । तथा सम्यक्त्वादि इन सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिके समय ही होती है, इसलिए

इसके अन्तरकालका निषेध किया है। यह ओषधप्ररूपणा है। आदेशसे गति आदि मार्गणाओंमें यह अन्तरकाल अपनी अपनी विशेषताको समझ कर घटित कर लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय—यह प्ररूपणा भी जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारकी है। नियम यह है कि जां उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वं अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हांते और जां अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वं उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हांते। यह अर्थपद है। इसके अनुसार यहाँ ओषधसे और चारो गतियोंकी अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियोंका आलम्बन लेकर भङ्गविचयका विचार करते हुए ये तीन भङ्ग निषेधन किये गये हैं—१ कदाचित् सत्र जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं, २ कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं और एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है तथा कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले नहीं हैं और नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी इसी प्रकार तीन भङ्ग कहने चाहिए। किन्तु इन भङ्गोंका कहते समय जहाँ निषेध दिया है वहाँ विधि करनी चाहिए और जहाँ विधि की है वहाँ निषेध करना चाहिए। ये भङ्ग ओषधसे तां बन ही जाते हैं। साथ ही चारो गतियोमें भी बन जाते हैं। मात्र लक्ष्यपर्याप्तमनुष्य यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा प्रत्येकके आठ आठ भङ्ग होते हैं। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी पूर्वोक्त प्रकारमें सब कथन कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य पदकी योजना करनी चाहिए।

भागभाग—इस अनुयानद्वारमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट तथा जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा कौन किसके कितने भागप्रमाण है इसका विचार किया गया है। सामान्यसे सत्र जीव अनन्त हैं। उनमेंसे अधिकसे अधिक असंख्यात जीव एक साथ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका बन्ध कर सकते हैं, इसलिए छद्बीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सत्र जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण और शेष अनन्त बहुभागप्रमाण जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले हांते हैं। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात ही हांते हैं। इसलिए इनकी अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव और असंख्यात बहुभागप्रमाण अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव हांते हैं। सामान्य नियमोंमें यह प्ररूपणा अधिकन बन जाती है, इसलिए उनमें ओषधके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र गतिसम्बन्धी शेष अवान्तर भेदोंमें अपने अपने संख्यातप्रमाणको दृष्टिमें रख कर इसका विवेचन करना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भागभागका विचार उत्कृष्टके समान ही है यह स्पष्ट ही है, इसलिए इसकी अपेक्षा प्रथक विवेचन न करके उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है। सामान्य माहनीयकर्मकी अपेक्षा भागभागका विचार नहीं किया है यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए।

परिमाण—इस अनुयोगद्वारमें उत्कृष्टादि चारो प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके परिमाणका निर्देश किया गया है। सामान्यसे माहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मोशिक जीवोंके यथास्थान हांती है और णसे जीव असंख्यात हांते हैं, इसलिए माहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात है। इसके सिवा शेष सब सप्तरी जीवोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति हानी है, इसलिए उनका परिमाण अनन्त है। मिध्यात्व, वारह कषाय और आठ नाकषायोंकी अपेक्षा यह परिमाण इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और

अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण भी उक्त प्रकारसे जान लेना चाहिए। पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दर्शनमोहनीयकी क्षणिकाके समय तथा चार संज्ञान और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षणिकाके पूर्व यथास्थान प्राप्त होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण संख्यात और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात तथा शेषकी अपेक्षा अनन्त होता है। यह आंध्रप्ररूपणा है। गतिमार्गणाके अवान्तर भेदोंमें स्वाभित्वके अनुसार अपनी अपनी विशेषताको जानकर इसे घटित कर लेना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात तथा शेषकी अपेक्षा अनन्त प्राप्त होता है। कारणका विचार स्वाभित्वका देख कर लेना चाहिए। गतिमार्गणा आदिके अन्य भेदोंमें भी स्वाभित्वका विचार कर सामान्यसे मोहनीय और सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह परिमाण जान लेना चाहिए। विशेष विचार मूलमें किया जा है।

क्षेत्र—मोहनीयकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है। तथा अनुकृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यह क्षेत्र इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन प्रकृतियोंकी सत्तावाले कुन जीव ही असंख्यात है, इसलिए इनके चारो पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। यह आंध्र प्ररूपणा है। गति आदि अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषता जानकर क्षेत्रका विचार कर लेना चाहिए।

स्पर्शन—सामान्यसे मोहनीय और छद्मोस प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग तथा अनुकृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग तथा शेष पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भाग, त्रमनालीके चादह भागमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। कारणका विचार स्वाभित्वका देखकर कर लेना चाहिए। यह आंध्रप्ररूपणा है। गति आदि अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको समझकर यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल—सामान्यसे मोहनीयकी तथा मिथ्यात्व, वारह कणाय और आठ लोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यदि नाना जीव युगपत् कर तो एक समय तक करते हैं और निरन्तर करें तो आवृत्तिके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक करते रहते हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवृत्तिके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है। तथा इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्ञान और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक साथ या लगातार करनेवाले जीव संख्यातसे अधिक नहीं होते, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। तथा इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है, क्योंकि इनकी सत्तावाले जीवोंका सर्वदा सद्भाव बना रहता है। यह ओषसे उत्कृष्ट प्ररूपणा है। जघन्य

प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार करनेपर सामान्यसे माहनीय और सभी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। यह आंधसे जघन्य प्ररूपणा है। आदेशसे सब मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंकी चारों विभक्तिवाले जीवोंका काल अपनी अपनी विशेषताका ध्यानमें रखकर जान लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर—सामान्यसे माहनीय तथा उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति यदि कोई जीव न करे तो व.मसे कम एक समयका और अधिकसे अधिक अनन्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन सबकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त होता है। तथा इन सबकी अनुत्कृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा अन्तरकालका निषेध किया है। यह आघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको जानकर यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए।

सन्निकर्ष—सामान्यसे माहनीय कर्म एक है, इसलिए उत्तम सन्निकर्ष घटित नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह अवश्य ही सम्भव है। इस अनुयोगद्वारे यह बतलाया गया है कि मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिका उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेशभक्तिकर्म रहते हुए अन्य प्रकृतियोंमेंसे किन प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है और किन प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती। तथा जिन प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है उनका प्रदेशभक्तिकर्म अपने अपने उत्कृष्ट या जघन्यकी अपेक्षा किस मात्राको लिए हुए होता है। इन प्रकार आघ और आदेशमें निरूपण कर यह प्रकरण समाप्त किया गया है।

भाव—सब कर्मोंका बन्ध औदायिक भावकी मुख्यतामें होता है और तभी जाकर उनकी सत्ता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सामान्यमें माहनीय कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवोंके औदायिक भाव जानना चाहिए।

अल्पबहुत्व—माहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे म्नाक हैं क्योंकि वे एक साथ असख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। तथा उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक माहनीय कर्मकी सत्ता पाई जाती है। इसी प्रकार माहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे म्नाक है, क्योंकि एक साथ एक कालमें वे संख्यातमें अधिक नहीं हो सकते। तथा उनमें अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तगुण हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक माहनीयकर्मकी सत्ता पाई जाती है। यह आघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताका ध्यानमें रखकर यह अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए। यह सामान्यमें माहनीय कर्मकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका विचार है, उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसे मूलको देखकर जान लेना चाहिए, क्योंकि मूलमें इसका हेतुपूर्वक विस्तारके साथ विचार किया है।

भुजगारविभक्ति—भुजगारविभक्तिमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य इन चार पदोंका अवलम्बन लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशान, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशभक्तिकर्माका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है।

पदनिक्षेप—भुजगारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं। इस अधिकारमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि तथा अवस्थितपद इन सबका आश्रय लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीन अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तरप्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है।

वृद्धि—पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं। इस अधिकारमें यथासम्भव वृद्धि और हानिके अन्तर् भेदो तथा यथासम्भव अवक्तव्यविभक्ति और अवस्थितविभक्तिका आश्रय लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है।

सत्कर्मस्थान—मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान कितने हैं इसका निर्देश करते हुए मूलमें बतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जिस प्रकार कथन किया है उसी प्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोका भी कथन कर लेना चाहिये। फिर भी विशेषताका निर्देश करते हुए प्रकृतमें प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अधिकार उपयोगी बतलाये हैं।

भीनाभीनचूलिका

पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका विस्तारके साथ विचार करने समय यह बतला आये हैं कि जां गुणितकर्मांशिक जीव उत्कर्षण द्वारा अधिकसे अधिक प्रदेशोका मञ्च्य करता है उसके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है और जो क्षणिककर्मांशिक जीव अपकर्षण द्वारा कर्मप्रदेशोंको कमसे कम कर देता है उसके जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि क्या सब कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण या अपकर्षण होना सम्भव है, इस इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिए यह भीनाभीन नामक चूलिका अधिकार अलगसे कहा गया है। साथ ही इसमें संक्रमण और उदयकी अपेक्षा भी इसका विचार किया गया है। इस सबका विचार यहाँपर चार अधिकारोंका आश्रय लेकर किया गया है। वे अधिकार ये हैं—समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

समुत्कीर्तना—इस अधिकारमें अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयसे भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वकी सूचना मात्र दी गई है। प्रकृतमें भीन शब्दका अर्थ रहित और अभीन शब्दका अर्थ सहित है। तदनुसार जिन कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदय होना सम्भव नहीं है वे अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं। और जिन कर्मपरमाणुओंके वे अपकर्षण आदि सम्भव है वे इनसे अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं।

प्ररूपणा—इस अधिकारमें अपकर्षण आदिसे भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु कौन है इसका विस्तारके साथ विचार किया गया है। उसमें भी सर्वप्रथम अपकर्षणकी अपेक्षा विचार करते हुए बतलाया गया है कि उदयवालेके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले और शेष सब कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं। तात्पर्य यह है कि उदयवालेके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण न होकर वे क्रमसे यथावस्थित रहते हुए निर्जराको प्राप्त होते हैं, इसलिए वे अपकर्षणके अयोग्य होनेके कारण अपकर्षणसे भीन

स्थितिवाले माने गये हैं। किन्तु इनके सिवा शेष जितने कर्मनिपेक हैं उनके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है, इसलिए वे इसके योग्य होनेके कारण अपकर्षणसे अमीन स्थितिवाले माने गये हैं। यहाँपर इतना विशेष समझना चाहिए कि उद्यावलिसे ऊपर प्रत्येक निपेकमे ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु होते हैं जो निकाचितरूप होते हैं, अतः उनका भी अपकर्षण नहीं होता। पर वे सर्वथा अपकर्षणके अयोग्य नहीं होते, क्योंकि दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करनेपर और चारित्रमोहनीयसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे प्रवेश करनेपर निधत्ति और निकाचनाकरणकी व्युच्छित्ति हो जानेसे अपकर्षण होने लगता है, इसलिए प्रकृतमे ये कर्मपरमाणु भी अपकर्षणसे मीन स्थितिवाले हैं इसका निर्देश नहीं किया है, क्योंकि अवस्थाविशेषमें इनमे अपकर्षणकी योग्यता मान ली गई है। परन्तु उद्यावलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु होते हैं उनमे त्रिकालमे भा ऐसी योग्यता नहीं पाई जाती है, अतः प्रकृतमे मात्र उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका ही अपकर्षणसे मीन स्थितिवाला बतलाया गया है। सासादन गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयका अपकर्षण नहीं होता, इसलिए यहाँपर भी यही समाधान समझ लेना चाहिए।

उत्कर्षणकी अपेक्षा मीन और अमीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका निर्देश करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता। उद्यावलिके बाहर यदि विवक्षित कर्मका बन्ध हो रहा हो तो ही उसके सत्तामे स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होता है। उसमे भी जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति उत्कर्षणके योग्य हो उनका ही उत्कर्षण होता है अन्यका नहीं। गुलासा इस प्रकार है—मान लो उद्यावलिसे उपरितन स्थितिमे स्थित जो निपेक हैं उसके जिन परमाणुओंकी शक्तिस्थिति अपनी व्यक्त स्थितिके बराबर है। अर्थात् जिन्हें बंधे हुए एक समय अधिक उद्यावलिमे न्यून कर्म स्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि इन कर्मपरमाणुओंमें शक्तिस्थितिका अत्यन्त अभाव है। इसी स्थितिमे स्थित निपेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय शेष है। अर्थात् जिन्हें बंधे हुए दो समय अधिक उद्यावलिसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँपर निक्षेपका तो अभाव है ही, अतिस्थापना भी कसमे कम जघन्य आवाधा प्रमाण नहीं पाई जाती। इस प्रकार इसी स्थितिमे स्थित निपेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय और तीन समय आदिको उलंघनकर जघन्य आवाधाप्रमाण शेष है। अर्थात् जिन्हें बंधे हुए जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके पूरा हो जानेपर भी निक्षेपका अत्यन्त अभाव है। इसी स्थितिमे स्थित निपेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय अधिक आवाधाप्रमाण शेष है। अर्थात् जिन्हें बंधे हुए एक समय अधिक आवाधाकालसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका एक समय अधिक आवाधाप्रमाण उत्कर्षण होकर आवाधाके उपरकी स्थितिमे निक्षेप होना सम्भव है, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके साथ एकसमय प्रमाण निक्षेप ये दोनों पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निपेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण, तीन समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण इत्यादि क्रमसे एक वर्ष, वर्षप्रथक्त्व, एक सागर, सागरप्रथक्त्व, दस सागर, दस सागरप्रथक्त्व, सौ सागर, सौ सागरप्रथक्त्व, हजार सागर, हजार सागरप्रथक्त्व, लाख सागर, लाख सागरप्रथक्त्व, कोड़ि सागर, कोड़ी सागरप्रथक्त्व, अन्तःकाण्डकोड़ी, कोड़ाकोड़ी सागर और

कोडाकोड़ी सागरपृथक्त्वप्रमाण शेष है। अर्थात् उक्त शेष स्थितिको छोड़कर बाकी की कर्मस्थिति के बराबर काल वीत चुका है तो उन कर्म परमाणुओं का आवाधाप्रमाण अतिस्थापना को छोड़कर अपनी-अपनी योग्य शेष रही शक्तिस्थितिप्रमाण स्थिति तक उत्कर्षण हाकर निक्षेप होना सम्भव है।

यहाँ यह जो एक समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थितिको माध्यम बनाकर उत्कर्षण-का विचार किया जा रहा है सो उस स्थितिमें किस निषेकके कर्मपरमाणु हैं और किसके नहीं हैं इसका विचार करते हुए बतलाया है कि जिसका बन्ध किये हुए एक समय, दो समय और तीन समय आदिके क्रमसे एक आवलि काल व्यतीत हुआ है उन सब निषेकोंके कर्मपरमाणु विवक्षित स्थितिमें नहीं पाये जाते। कारण यह है कि बन्धके बाद एक आवलिकाल तक न्यूनतम बन्धका अपकर्षण नहीं होता और आवाधा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती, अतः विवक्षित स्थितिके पूर्व एक आवलि काल तक बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंका उस स्थितिमें नहीं पाया जाना स्वाभाविक है। हाँ इस एक आवलिसे पूर्व बन्धको प्राप्त हुए समयप्रवद्धोंके कर्म परमाणु अपकर्षण होकर वहाँ पाये जाते हैं इसमें कोई बाधा नहीं आती। फिर भी ऐसे कर्म-परमाणुओंका यदि उत्कर्षण हो तो उनका निक्षेप एक समय अधिक एक आवलिकर्म कर्मस्थितिके अन्ततक हो सकता है। मात्र इनका निक्षेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके आवाधा कालके ऊपर ही होगा यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। यह दूसरी प्ररूपणा है जो नवकबन्धकी मुख्यतासे की गई है। पहली प्ररूपणा प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मों की मुख्यतासे की गई थी, इसलिए ये दोनों प्ररूपणाएँ स्वतंत्र होनेसे इनका मूलमें अलग अलग विवेचन किया गया है।

यहा दूसरी प्ररूपणाके समय अवस्तुविकल्पोंका भी निर्देश किया गया है। किन्तु प्रथम प्ररूपणाके समय उनका निर्देश नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ यह शंका हांती है कि क्या प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा एक भी अवस्तु विकल्प नहीं होता सो इसका समाधान यह है कि अवस्तु-विकल्प तो वही भी सम्भव है। अर्थात् विवक्षित स्थिति (एक समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थिति) में इससे पूर्व उदयावलिप्रमाण निषेकका सद्भाव नहीं पाया जाता फिर भी यह बात बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, इसलिए प्रथम प्ररूपणाके समय उन अवस्तु विकल्पोंका निर्देश नहीं किया है। विशेष खुचासा मूलमें यथास्थान किया ही है, इसलिए इसे वहासे विशेष रूपसे समझ लेना चाहिए।

उदयावलि के ऊपर जो प्रथम स्थिति है उसकी विवक्षासे यह प्ररूपणा की गई है। किन्तु इसके ऊपरकी स्थितिकी अपेक्षा प्ररूपणा करने पर अवस्तुविकल्प एक बढ़ जाता है, क्योंकि उदयावलि के भीतरकी सब स्थितियोंमें स्थित निषेकके कर्मपरमाणु तो इसमें पाये ही नहीं जाते, साथ ही उससे उपरितन स्थितिमें स्थित निषेकके कर्मपरमाणु भी नहीं पाये जाते; क्योंकि इन निषेकोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति इस विवक्षित स्थितिके पूर्व ही समाप्त हो जाती है। तथा भीनस्थितिविकल्प एक कम होता है, क्योंकि आवाधामें एक समयकी कमी हो जानेसे भीनस्थितिविकल्पोंमें भी एक समयकी कमी हो गई है। मात्र इसकी अपेक्षा अभीन स्थितियोंमें भेद नहीं है। यह प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार दूसरी प्ररूपणाको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। तथा आगे भी इसी प्रकार विचार कर किस निषेकके कितने कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थिति हैं और कितने कर्मपरमाणु अभीनस्थिति हैं। साथ ही उनमें अवस्तुविकल्प कितने हैं और जिनका उत्कर्षण हो सकता है उनका वह कहाँ तक होता है इत्यादि

बालोंका पूर्वोक्त प्ररूपणा और उत्कर्षण आदिके नियमोंको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। मूलमें इसका विस्तारसे विचार किया ही है, इसलिए यहां विशेष नहीं लिखा जा रहा है।

संक्रमणकी अपेक्षा महीन और अमहीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुए जितने निपेक हैं उनके कर्मपरमाणु संक्रमणसे महीनस्थितिवाले और शेष अमहीनस्थितिवाले हैं। मात्र न्यूनतम बन्धका बन्धावलि कालतक अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि नहीं होता, इतनी विशेषता यहाँ और समझनी चाहिए।

उदयकी अपेक्षा महीन और अमहीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि जिस कर्मने अपना फल दे लिया है वह उदयसे महीनस्थिति वाला है और शेष सब कर्म उदयसे अमहीन स्थितिवाले हैं।

स्वामित्व—यहाँ तक प्रकृति विशेषका आलम्बन लिए विना सामान्यसे यह बतलाया गया है कि किस स्थितिमें स्थिति कितने कर्म परमाणु अपकर्षण आदिसे महीनस्थितिवाले और अमहीन स्थितिवाले हैं। आगे मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ऐसे चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण आदिकी अपेक्षा उत्कृष्ट महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी गुणितकर्मांशिक जीव और अपकर्षण आदिकी अपेक्षा जघन्य महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी क्षपितकर्मांशिक जीव होता है। इसमें जहां विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है।

अल्पबहुत्व—इसमें मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा अपकर्षण आदिसे महीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

स्थितिगचूलिका

पहले उत्कृष्टादिके भेदसे प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विचार कर आये हैं। साथ ही अपकर्षण आदिकी अपेक्षा महीन और अमहीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका भी विचार कर आये हैं। किन्तु अभी तक उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंका विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसी विषयका विस्तारसे विचार करनेके लिए स्थितिग नामक चूलिका आई है। इसमें जिन अधिकारोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिका विचार किया गया है वे अधिकार ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

समुत्कीर्तना—इस अधिकारमें उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निपेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं यह स्वीकार किया गया है। जो कर्मपरमाणु उदय समयमें अप्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिसे अप्रस्थिति ली गई है। एक समयप्रबद्धकी विविध स्थितियोंके जितने कर्मपरमाणु उदयके समय अप्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं उन सबकी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निश्चित होते हैं, अपकर्षण और उत्कर्षण होकर भी उदय कालमें वे यदि उसी स्थितिमें स्थित रहते हैं तो उनकी निषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा

है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप्त होते हैं वे यदि उत्कर्षण या अपकर्षण हुए बिना उदयकालमें उसी स्थितिमें रहते हैं तो उनकी यथानिषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा है। तथा बन्धके समय जो कर्मपरमाणु जिस निषेकस्थितिमें प्राप्त हुए हैं वे उदयके समय यदि उसी निषेकस्थितिमें न रहकर जहाँ कहीं दिखलाई देते हैं तो उनकी उदयस्थितिप्राप्त संज्ञा है। इसप्रकार उत्कृष्टस्थितिप्राप्त आदिके भेदसे ये कर्मपरमाणु चार प्रकारके हैं यह निश्चित होता है।

स्वामित्व—इस अधिकारमें मिथ्यात्व आदि अबान्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त चार प्रकारके कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार किया गया है।

अल्पबहुत्व—इस अधिकारमें उक्त सब भेदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

इसप्रकार इतना कथन करनेके बाद चूलिका सहित प्रदेशविभक्ति अधिकार समाप्त होता है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एक जीवकी अपेक्षा काल	१-२५	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य-अजघन्य	
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभाक्तिका काल	२	भागामागका विचार	४०
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभाक्तिके कालका अन्य रूपसे निर्देश	३	परिमाण	४०-४३
शेष कर्मोंके कालका निर्देश	४	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट	
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके कालमें विशेषताका निर्देश	५	परिमाणका विचार	४०
सब प्रकृतियोंके जघन्य कालके जाननेकी सूचनामात्र	६	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य	
उच्चारणके अनुहार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कालका निर्देश	७	परिमाणका निर्देश	४३
जघन्य और अजघन्य कालका निर्देश	१७	ज्ञेयका निर्देश	४४
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	२५-३७	जघन्य और अजघन्य ज्ञेयका निर्देश	४४
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभाक्तिका अन्तर	२५	स्पर्शिका कथन	४५-५०
शेष कर्मोंके अन्तरके जाननेकी सूचना	२६	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्पर्शिका कथन	५५
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तरके विषयमें विशेषताका निर्देश	२६	जघन्य और अजघन्य स्पर्शिका कथन	४७
सब प्रकृतियोंके अन्तरकालके जाननेकी सूचनामात्र	२७	नानाजीवोंकी अपेक्षा काल	५०-५३
उच्चारणके अनुहार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तरका निर्देश	२७	उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कालका कथन	५०
जघन्य और अजघन्य अन्तरका निर्देश	३२	जघन्य और अजघन्य कालका कथन	५२
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	३७-३९	नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर	५७-५९
चूँचिकारकी सूचनामात्र	३७	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तरका कथन	५९
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेशविभाक्तिका भङ्गविचय	३७	जघन्य और अजघन्य अन्तरका कथन	५९
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य-अजघन्य प्रदेश-विभाक्तिका भङ्गविचय	३९	मन्त्रिकर्षका कथन	५५-७४
भागामाग	३९-४०	उत्कृष्ट मन्त्रिकर्षका कथन	५४
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट		जघन्य मन्त्रिकर्षका कथन	६२
भागामागका विचार	३९	अल्पबहुत्वका कथन	७४-१३३
		आयने उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व कथन	७६
		नरकगातिमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व कथन	८२
		शेष गतियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	९०
		पुण्ड्रियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	९१
		आयने जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका नकारण निर्देश	९६
		नरकगातिमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	११६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
शेष गतियोंमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	१२३	भागाभाग	२११
मनुष्यगतिमें श्लोघके समान जाननेकी विशेष सूचना	१२३	परिमाण	२१६
एकेन्द्रियोंमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	१२४	क्षेत्र	२१७
भुजगार विभक्तिका कथन	१३३-१७१	स्पर्शन	२१८
भुजगार विभक्तिके तेरह अनुयोगद्वारोका नामनिर्देश	१३३	नान जीवोंकी अपेक्षा काल	२२२
समुत्कीर्तना	१३३	नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	२२६
स्वामित्व	१३४	भाव	२२६
एक जीवकी अपेक्षा काल	१३६	अल्पबहुत्व	२२६
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	१४२	सत्कर्मस्थान	२३५-२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	१४६	मङ्गलाचरण	२३४
भागाभाग	१५०	सत्कर्मस्थानोंका कथन	२३४
परिमाण	१५३	तीन अनुयोगद्वारोका नामनिर्देश	२३४
क्षेत्र	१५५	प्ररूपणा	२३४
स्पर्शन	१५६	प्रमाण	२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा काल	१६३	अल्पबहुत्व	२३५
नानाजीवोंको अपेक्षा अन्तर	१६६	भीनाभीनचूलिका	२३५-२६६
भाव	१८६	मङ्गलाचरण	२३५
अल्पबहुत्व	१६६	भीन और अभीन पदकी विशेष व्याख्या	
पदान्तेषु	१७१-१८७	जाननेकी सूचना	२३५
पदान्तेषु और वृद्धिका स्वरूपनिर्देश	१७१	विभाषा शब्दका अर्थ	२३६
पदान्तेषुके तीन अनुयोगद्वारोके नाम	१७२	भीनाभीन अधिकारके कथनकी सार्थकता	२३६
उत्कृष्ट समुत्कीर्तना	१७२	यह अधिकार चूलिका क्यों कहा गया है इसका निर्देश	२३६
जघन्य समुत्कीर्तनाकी सूचनामात्र	१७३	प्रकृतमें चार अनुयोगद्वारोका नामनिर्देश	२३७
उत्कृष्ट स्वामित्व	१७३	समुत्कीर्तना पदका अर्थ	२३७
जघन्य स्वामित्व	१८०	समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार	२३७-२३८
उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१८५	अपकर्णण आदिकी अपेक्षा भीनस्थितिक	
जघन्य अल्पबहुत्व	१८६	कर्मोंका अस्तित्व कथन	२३७
वृद्धिविभक्ति कथन	१८७-२३४	विशेष सुलभा	२३७
तेरह अनुयोगद्वारोकी सूचना	१८७	प्ररूपणा अनुयोगद्वार	२३७-२७५
समुत्कीर्तना	१८७	कौन कर्म अपकर्णणसे भीनस्थितिक है इसका निर्देश	२३६
स्वामित्व	१८६	अपकर्णणसे अभीनस्थितिक कर्मोंका व्याख्यान	२४०
एक जीवकी अपेक्षा काल	१६३	कौन कर्म उत्कर्णणसे भीनस्थितिक है इसका निर्देश	२४२
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	२०१	कौन कर्म उत्कर्णणसे अभीनस्थितिक है इसका निर्देश	२४७
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	२०८		

विषय	विषय	पृष्ठ
एक समय अधिक उदयावलीकी अन्तिम स्थितिमें नवकर्षणके कौन कर्मपरमाणु नहीं है इसका निर्देश	२५१	पूर्वोक्त प्रत्येक भीनस्थितिक कर्म उत्कृष्ट श्राद्ध की अपेक्षा चार प्रकारके होते हैं इसका निर्देश
उसी स्थितिमें कौन परमाणु है इसका निर्देश	२५२	स्वामित्व
उस स्थितिमें नवकर्षणके जो कर्मपरमाणु हैं उनका कितना उत्कर्षण हो सकता है इसका निर्देश	२५३	२७५-३५६
दो समय अधिक उदयावलीकी अन्तिम स्थितिकी अपेक्षा कथन	२५८	मिथ्यात्वके अपकर्षणादि चारोकी अपेक्षा भीन-स्थितिक कर्मों के उत्कृष्ट स्वामी का निर्देश
तीन समय अधिक आबलिसे लेकर आबलिकम आवाधा तक की स्थितियोंकी अपेक्षा जाननेकी सूचना	२६०	सम्यक्त्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश
एक समय कम आबलिसे न्यून आवाधाकी अन्तिम स्थितिमें कितने विकल्प नहीं होते हैं और कितने विकल्प होते हैं इसका निर्देश	२६१	अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश
जो होते हैं उनमें कौन उत्कर्षणसे भीन-स्थितिक हैं और कौन अभीनस्थितिक हैं इसका निर्देश	२६३	मध्यकी आठ कथायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन
एक समय कम आबलिसे न्यून आवाधाकी अन्तिम स्थितिके विकल्पका कथन करके आगेकी एक समय अधिक स्थितिके विकल्पोंका निर्देश व उत्कर्षणसे भीना-भीन विचार	२६६	कोषसंवलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३००
उससे एक समय अधिक स्थितिकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे विचार	२७०	मानसंवलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३०२
एक समय अधिक जघन्य आवाधा तक पूर्वोक्त क्रम चलता है इसका निर्देश	२७१	मायासंवलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३०३
दो समय अधिक जघन्य आवाधासे लेकर उत्कर्षणसे भीनस्थितिक कर्मप्रदेश नहीं होते इसका निर्देश	२७२	लौभसंवलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३०३
सक्रमणसे भीनस्थितिक और अभीनस्थितिक कर्मप्रदेशोंका निर्देश	२७३	स्त्रीवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३०५
उदयसे भीनस्थितिक और अभीनस्थितिक कर्म प्रदेशोंका निर्देश	२७४	पुरुषवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३०६
		नपुंसकवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन ३०७
		छह नोकथायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन ३०८
		मिथ्यात्वकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व कथन ३१२
		सम्यक्त्वकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व कथन ३२०
		सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्वामित्व सम्यक्त्वके समान जाननेकी सूचना ३२२
		आठ कथाय, चार संवलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व ३२२
		अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व ३२८
		नपुंसकवेदकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व ३३३
		स्त्रीवेदकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व ३४६
		श्रुति-शोककी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व ३५०
		अल्पबहुत्व ३५६-३६६
		मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंमें चारोकी अपेक्षा उत्कृष्ट अल्पबहुत्व ३५६
		जघन्य भीनस्थितिक अल्पबहुत्व ३५८

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्थितिगचूलाका	३६६-४५१	नपु सकवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि	
मङ्गलाचरण	३६६	द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४२३
स्थितिग पदकी विभाषाकी सूचना	३६६	जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वाके जाननेकी सूचना	४२२
स्थितिग पदका अर्थ	३६६	सब कर्मोंके जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४२४
यह अधिकार भी चूलाका है इसका निर्देश	३६७	मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदय-स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४२४
प्रकृतोपयोगी तीन अनुयोगद्वाराका नामनिर्देश	३६७	मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४३०
तीनों अनुयोगद्वाराका लक्षणनिर्देश	३६७	सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीको मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना, साथ ही जुद्ध विशेषताका निर्देश	४२५
समुत्कीर्तना	३६६-३७४	सम्यक्त्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४३६
स्थितिप्राप्त द्रव्य चार प्रकारका है इसका निर्देश	३६७	सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी सम्यक्त्वके समान है इसका अपनी विशेषताके साथ निर्देश	४३७
उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूप कथन	३६८	सम्यग्मिथ्यात्वके निषेक और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४३८
निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७०	अनन्तानुबन्धियोंके निषेक और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४६८
यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७१	अनन्तानुबन्धियोंके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४०
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७२	वारह कषायोंके निषेक और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४२
प्रत्येकके उत्कृष्टादि चार भेदोंका निर्देश	३७३	वारह कषायोंके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४२
स्वामित्व	३७४-४४५	पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके विषयमें वारह कषायोंके समान जाननेकी सूचना	४४४
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	३७४	स्त्रीवेद, नपु सकवेद, अरति और शोकके यथानिषेकस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४५
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४००	अल्पबहुत्व	४४६-४५१
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, आठ कषाय और छह नाकषायोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना	४०३	सब कर्मोंके चारों उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तोंके अल्पबहुत्वका निर्देश	४४६
आठ कषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वमें विशेषताका निर्देश	४०३		
छह नोकषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वमें विशेषताका निर्देश	४०४		
शोधसञ्चलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४०५		
सञ्चलनमान, माया और लोभके विषयमें सञ्चलन क्रोधके समान जाननेकी सूचना	४१६		
पुरुषवेदके चारों स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वाका निर्देश	४२०		
स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वाका निर्देश	४२०		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जघन्य अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	४४९	अनन्तानुबन्धियोंके चारो जघन्य स्थितिप्राप्तो-	
मिथ्यात्वके चारो जघन्य स्थितिप्राप्तोके अल्प-		के अल्पबहुत्वका निर्देश	४५०
बहुत्वका निर्देश	४४५	स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, और शोकके	
सम्बन्धत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय,		चारो जघन्य स्थितिप्राप्तोका अल्पबहुत्व	
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके		अनन्तानुबन्धीके समान है इसका निर्देश	४५१
चारो जघन्य स्थितिप्राप्तोका अल्पबहुत्व			
मिथ्यात्वके समान है इसकी सूचना	४५०		

कसायपाहुडस्स
प दे स वि ह ती
पंचमो अत्थाहियारो



सिरि-जइवसहाइरियविरइय-बुण्णिमुत्तसमण्णिदं

सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइदं

क सा य पा हु डं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

पदेविहत्ती णाम पंचमो अत्थाहियारो



❁ कालो ।

§ १. कालो उच्चदि ति भणिदं होदि ।

❁ काल ।

§ १. कालका कथन करते हैं यह एक कथनका तात्पर्य है ।

⊗ मिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवच्चिरं काळादो होदि ।

§ २. सुगमं ।

⊗ जहण्णुक्कस्सेणोगसमओ ।

§ ३. सत्तमपुढविणेरइपस्स उक्कस्साउअस्स चरिमसमए चेव उक्कस्सपदेस-संतकम्ममुवलंभादो ।

⊗ अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवच्चिरं काळादो होदि ।

§ ४. सुगमं ।

⊗ जहण्णुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ५. चतुग्दिणिगोदे पडुच्च एसो कालणिदे सो । णिच्चणिगोदे पुण पडुच्च अणा-दिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो च होदि, अल्लद्धतसभावाणमुक्कस्स-दब्बाणुववत्तीदो । अणुक्कस्सपदेसविहत्तीए अणंतकालावट्ठाणं कथं घट्ठे ? ण, उक्कस्सपदेसट्ठाणप्पहुट्ठि जाव जहण्णट्ठाणं ति एदेसु अणंतेसु ट्ठाणेषु अणंतकालावट्ठाणं पट्ठि विरोहाभावादो ।

⊗ मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवका कितना काल है ?

§ २. यह सूत्र सुगम है ।

⊗ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट आयुके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म उपलब्ध होता है ।

⊗ अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ।

§ ४. यह सूत्र सुगम है ।

⊗ जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनोंके बराबर है ।

§ ५. चतुगोति निगोद जीवकी अपेक्षा कालका यह निर्देश किया है । नित्य निगोद जीवकी अपेक्षा तो अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल होता है, क्यों कि जिन जीवोंने त्रसभावका नहीं प्राप्त किया है उनके उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति सम्भव नहीं है ।

शंका—अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनन्त कालतक अवस्थान कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेशस्थानसे लेकर जघन्य प्रदेशस्थान तक जो अनन्त स्थान हैं उनमें अनन्त काल तक अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

❁ अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जलोगमेत्तो ति ।

§ ६. सन्ने जीवपरिणामा असंखेज्जलोगमेत्ता चेव णाणंता, तहोवदेसाभावादो । तस्सुक्कस्सपदेससंतकम्मकारणपरिणामकत्वावं मोत्तूण सेसपरिणामहाणेषु अवहाण-
कालो जह० असंखेज्जलोगमेत्तो चेव तम्हा अणुक्कस्सपदेसकालो जह० असंखेज्जलोग-
मेत्तो ति इच्छिवन्वो । ण च पदेसुत्तरादिकमेण संतकम्महाणेसु परिब्भयणणियमो
अत्थि, एकसराहेण अगंताणि हाणाणि उल्लंघियूण वि परिब्भयणुवलांभादो' । एहं
केसि पि आहरियाणं वक्खाणंतंरं । एदेषु दोसु उवदेसेसु एक्केणेव सस्सेण होदब्धं,
अण्णोणविरुद्धत्तादो । तदो एत्थ जाणिदूण वत्तन्वं ।

❁ अधवा सत्तणं पजुच्च वासपुधत्तं ।

§ ७. गुणितकम्मसियलक्खणेषाणामंतूण सत्तमाए पुडधीए उक्कस्सपदेसं कस्सि
पुणो समयाविरोहेण एहंदिस्सु मणुस्सेसु च उववज्जिय अंतोमुहत्तम्भहिअट्टवस्सेहि
संजमं पडिवज्जिय णिव्वुहं गयम्मि अणुक्कस्सदव्वस्स वासपुधत्तमेत्तकालुवलांभादो ।

❁ अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ६. कारण कि जीवोके सब परिणाम असंख्यात लोकमात्र ही हांते हैं, अन्त नहीं
होते, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता । उनमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके कारणभूव
परिणामकलापको छोड़कर शेष परिणामोंमें अबस्थित रहनेका जघन्य काल असंख्यात लोक-
प्रमाण ही है, इसलिए अनुकृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ऐसा
स्वीकार करना चाहिए । और उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशके अधिकके क्रमसे सत्कर्मस्थानोंमें
परिभ्रमण करनेका कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक साथ अन्त स्थानोंको उल्लंघन करके भी
परिभ्रमण पाया जाता है । यह किन्हीं आचार्योंका व्याख्यानान्तर है सो इन दो उपदेशोंमेंसे
एक उपदेश ही सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उपदेश परस्परमें विरोधको लिये हुए हैं,
इसलिए यहाँपर जानकर व्याख्यान करना चाहिए ।

❁ अथवा क्षपककी अपेक्षा वर्षपृथक्त्वप्रमाण काल है ।

§ ७. क्योंकि जो जीव गुणितकर्मांशिककी विधिसे आकर सातवीं पृथिवीमें उत्कृष्ट
प्रदेशसत्कर्मको करके पुनः यथाशास्त्र एकेन्द्रियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त अधिक
आठ वर्ष कालके द्वारा संयमको ग्रहणकर मुक्तिको प्राप्त होता है उसके अनुकृष्ट द्रव्यका वर्ष
पृथक्त्वप्रमाण काल उपलब्ध होता है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है
यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि गुणितकर्मांशविधिसे आकर जो अन्तमें उत्कृष्ट आयुके साथ दूसरी
बार सातवें नरकमें उत्पन्न होता है उसके अन्तिम समयमें ही मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
देखी जाती है । इसकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालके विषयमें दो उपदेश पाये

❁ एषं सेसाणं कम्माणं षादूण षेदव्वं ।

§ ८. तं जहा - अहकसाय-सत्तणोकसायाणं मिच्छत्तभंगो, जहण्णुकसकालेहि उक्कस्साणुकस्सदव्वादिस्सएहि ततो भेदाभावादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स वि मिच्छत्त-भंगो चेव । णवरि अणुकस्स० जहएण्ण अंतोमुहुत्तं, अणंतणुबंधिचउक्कं विसंजोइस्स पुणो संजुत्तो होदूण अंतोमुहुत्तेण विसंजोइदम्मि तदुवलंभादो । चहुसंज०-पुरिस० उक्क० जहण्णु० एगस० । अणुक० अणादि-अपज्ज० अणादि-सपज्ज० सादि-सपज्ज० । जो सां सादि-सपज्ज० तस्स जहण्णुक० अंतो० । इत्थि० उक्क०

जाते हैं। एक उपदेशके अनुसार वह अनन्त काल प्रमाण बवलाया है। इसकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने जो लिखा है उसका भाव यह है कि नित्य निगोद जीव दो प्रकारके हांते हैं—एक ये जो अबतक न सो निगोदसे निकले हैं और न निकलेगे। इनकी अपेक्षा सो मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त है। हां जो नित्य निगोदसे निकलकर क्रमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्त कर देते हैं उनकी अपेक्षा अनादि-सान्त काल है। पर चूर्णिसूत्रमे दोनो प्रकारके कालोका ग्रहण न कर इतर निगोद जीवोकी अपेक्षा कालका विचार किया गया है। आशय यह है कि एक बार मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके जो क्रमसे इतर निगोदमे चले जाते हैं उनके वहांसे निकलकर पुनः उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके प्राप्त करनेमे अनन्त काल लगता है, इसलिए चूर्णिसूत्रमे मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। यह एक उपदेश है। किन्तु एक दूसरा उपदेश भी मिलता है। इसके अनुसार मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अनन्तप्रमाण न प्राप्त होकर असंख्यात लोकप्रमाण बन जाता है। उन आचार्योंके मतसे इस उपदेशके कारणका निर्देश करते हुए वीरसेन आचार्य लिखते हैं कि जीवोंके कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण ही उपलब्ध होते हैं और सब प्रदेशसत्कर्मस्थानोंमे जीव क्रमसे ही प्राप्त होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, अतः जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण बननेमे कोई बाधा नहीं आती। अनुत्कृष्टके जघन्य कालके विषयमे ये दो उपदेश हैं। यह कह सकना कठिन है कि इनमेसे कौन उपदेश सच है, इसलिए यहाँ दोनोका संग्रह किया गया है। यह सम्भव है कि गुणितकर्मशिक जीव सातवें नरकके अन्तमे उत्कृष्ट प्रदेशसंचय करके और वहांसे निकलकर क्रमसे मनुष्य होकर वर्षपृथक्त्व कालके भीतर मोहनीयका क्षपण कर दे। इसलिए यहाँ मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्वप्रमाण भी कहा है।

❁ इसी प्रकार शेष कर्मोंका जानकर ले जाना चाहिए ।

§ ८. झुजासा इस प्रकार है—आठ कथाय और सात नोकषायोंका भङ्ग मिध्यात्वके समान है, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट द्वयविशेषकी अपेक्षा मिध्यात्वसे इनमे कोई भेद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी मिध्यात्वके समान ही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी बिसंयोजना करके और संयुक्त होकर जो अन्तर्मुहूर्तमे पुनः इसकी बिसंयोजना करता है उसके उक्त काल पाया जाता है। चार संज्वलन और पुरुषवदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि सान्त और सादि-सान्त है। उसमें जो सादि-सान्त काल है उसकी

जहणु० एगस० । अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुधत्तेण सादि०, उक्क०
अणंतकालं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं उक्क० पदे०वि० केव० कालादो होदि ?
जहणुकस्सेण एगसमओ ।

§ ६. एदेसिं चेव अणुकस्सदव्वकालपदुप्पायणद्वयुत्तरसुत्तं भणदि—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं अणुकस्सदव्वकालो जहणणेण
अंतोमुहुत्तां ।

अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेषार्थ—इन सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यहां सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र जिस प्रकृतिकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालमें कुछ विशेषता है उसका यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त क्यों है इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त और क्षपकश्रेणिमें सादि-सान्त कही है। क्षपकश्रेणिमें इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त कालतक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्भव है, इसलिए इनकी सादि-सान्त अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक ऐसे जीवके भी होती है जो अन्तमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण आयुके साथ असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर आयुके अन्तिम समयमें स्थित है। उसके बाद यह जीव देव होता है और देव पर्यायसे आकर ऐसे जीवका वर्षपृथक्त्वकी आयुवाला मनुष्य होकर मोक्ष जाना भी सम्भव है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद उसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका इससे कम काल सम्भव नहीं है। यही कारण है कि यहाँपर इसका जघन्य काल वर्षपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्षप्रमाण कहा है। यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल कहा गया है उनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल मिध्यात्वके समान ही है यह बिना कहे ही जान लेना चाहिए, क्योंकि कालमें मिध्यात्वसे जितनी विशेषता थी वही यहाँ पर कही गई है।

§ ६. अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यके कालका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यकी
जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।

§ १०. कुदो ? सम्मतं पद्विषण्णजिस्संतकम्मियम्मि सम्मतसंतमतोमुहुत्तं धरिय खविददंसणमोहणीयम्मि तदुवलंभादो । उक्कस्ससामियस्स वा खवयस्स अणुक्कस्सम्मि पदिय जिस्संतीकरणेण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तकालो वत्तव्वो, पुव्विन्ल्लादो वि एदस्स जहण्णभावदंसणादो ।

✽ उक्कस्सेण बेच्छ्वावट्टिसागरोधमाणि साधिरेयाणि ।

§ ११. जिस्संतकम्मियमिच्छ्वाइट्टिम्मि सम्मतं पद्विज्जिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलि० असं० भागमेत्तकालेण चरिम्युव्वेन्नणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मतं घेतूण पदमच्छ्वावट्टिं भमिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण चरिम्युव्वेन्नणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मतं घेतूण विदियद्वावट्टिं भमिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदो० असं० भागमेत्तकालेणुव्वेन्नदिसम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्तम्मि तदुवलंभादो ।

§ १०. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्वकी सत्तावाला होकर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । या इनके उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी जो क्षपक जीव इन्हें अनुत्कृष्ट करके निःसत्त्व कर देता है उसके इनके अनुत्कृष्ट द्रव्यका सबसे जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालसे भी यह काल जघन्य देखा जाता है ।

✽ उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है ।

§ ११. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो मिध्याट्टि जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर पुनः मिध्यात्वमे जाकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना करते हुए अन्तिम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और प्रथम छथासठ सागर काल तक भ्रमण करके पुनः मिध्याट्टि हुआ । तथा वहाँ पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उद्वेलना करते हुए चरम उद्वेलना काण्डककी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके द्वितीय छथासठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करता रहा और अन्तमे मिध्याट्टि होकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना की उसके उक्त काल उपलब्ध होता है ।

विशेषार्थ—यहाँपर दो चूर्णसूत्रों द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है । ऐसा करते हुए वीरसेन स्वामीने जघन्य काल दो प्रकारसे घटित करके बतलाया है । प्रथम उदाहरणमे तो ऐसा जीव लिया है जिसके इन दो कर्मोंकी सत्ता नहीं है । ऐसा जीव सम्यग्दृष्टि होकर अन्तर्मुहूर्तमे यदि इनकी क्षपणा करता है तो उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है । दूसरे उदाहरणमें ऐसा क्षपक जीव लिया है जो इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है ।

❀ जहणकाखो जखिवृष येव्बो ।

§ १२. सुगमं ।

§ १३. एवं चुण्णिमुत्तमस्सिद्धं कालपरबन्धं करिय संपहि एत्थुच्चारणाइरिय-
वक्खाणकमं भणिस्सामो । कालो दुविहो—जहणञ्चो उक्खस्सओ चेदि । उक्खस्सए
पयदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० मिच्छत्त-अट्टक०-सत्तणोक्क० उक्क० पदे०
विहरी० केवचिरं काला० ? जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० वासपुधत्तं, उक्क०
अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । एवं अणंताणु०चउक्क० । णवरि अणुक्क० ज०
अंतो० । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० पदेस० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० अंतो०,
उक्क० वेच्छावट्ठिसागरोमाणि सादि० । चदुसंज०-पुरिसवेदाणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क०

इस जीवके अन्तर्मुहूर्तमें इन कर्मोंकी नियमसे छपणा हो जाती है, इसलिए इसके भी इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है । इस प्रकार अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके ये दो उदाहरण उपस्थित कर वीरसेन स्वामी प्रथमकी अपेक्षा द्वितीयको ही प्रकृतमें उपयुक्त मानते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जितना काल है उससे दूसरे उदाहरणकी अपेक्षा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल स्पष्टतः कम है और जघन्य कालमें जो सबसे न्यून हो वही लिया जाता है । यह तो इन दोनों कर्मोंकी अनुकृष्ट प्रदेश-विभक्तिके जघन्य कालका विचार हुआ । उक्त कालका स्फोटीकरण स्वयं वीरसेन स्वामिने किया ही है । यहाँ इतना ही संकेत करना है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाका काल पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण होकर भी न्यूनाधिक है, इसलिए जहाँ जिस कर्मकी अन्तम उद्वेलनाकाण्डकी अन्तम फालि प्राप्त हो वहाँ उसके सद्भावमें रहते हुए अन्तम समयमें ही सम्यक्त्वको प्राप्त कराना चाहिए ।

❀ जघन्य कालको जानकर ले जाना चाहिए ।

§ १२. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस चूर्णिसूत्रमें जघन्य पदसे तात्पर्य मिध्यात्व आदि अष्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य द्रव्यसे है । उसका जघन्य और उत्कृष्ट जो काल हो उसे जानकर घटित कर लेना चाहिए यह बात इस चूर्णिसूत्रमें कही गई है ।

§ १३. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे कालका कथन करके अब यहाँ पर उच्चारणाचार्यके व्याख्यानके क्रमको कहेंगे । काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, आठ कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो

एगस० । अणुक० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिआं सपज्जवसिदो सादिओ सपज्ज० । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिहे सो-जहण्णु० अंतो० । इत्थिवेद० उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० दसवस्ससइस्साणि वासपुधत्तेणभहियाणि, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ १४. आदेसेण० णेरइएसु मिच्छत्त-सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० अंतो० । कुदो ? सत्तमाए पुढवीए समयाहिय-असंखे० फइयमेत्तावांसे आउए दव्वमुक्कस्सं करिय विदियसमयमादिं कादूण अंतो-मुहुत्तमेत्तकालं अणुकस्सदव्वेणच्छिय णिग्गयस्स तदुवलंभादो । णेरइयचरिमसमए पदेसस्सुक्कस्ससामितं परुविदसुत्तेण सह एदस्स वक्खाणस्स कथं ण विरोहो ? विरोहो चेव । किं तु आउवबंधयद्दाकालमि जादपदेसक्खयादो उवरिमकालपदेससंचओ बहुओ ति जइवसहाइरिओवएसो तेण णेरइयचरिमसमए चेव उक्कस्सपदेससामितं । उच्चारणा-इरियाणं पुण अहिप्पाएण उवरिमसंचयादो आउअबंधकालमि जादपदेसक्खओ

छयासठ सागरप्रमाण है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनसे जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है । उसकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

विशेषार्थ—यहाँ उच्चारणाचार्यके व्याख्यानमे वही सब काल कहा गया है जो कि चूर्णि-सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । मात्र चूर्णिसूत्रमे मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तीन प्रकार से बतलाया गया है सो यहाँ अनन्त काल और असंख्यात लोकप्रमाण काल इन दो को छोड़कर एकका ही प्रहण किया गया है, क्योंकि उक्त तीन प्रकारके कालोंमे से सबसे जघन्य काल यही प्राप्त होता है और यह निर्दिष्ट है ।

§ १४. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्व, सोलह कपाय और छह नाकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें आयुके एक समय अधिक असंख्यात स्पर्धकमात्र शेष रहने पर उक्त कर्मोंके द्रव्यको उत्कृष्ट करके और दूसरे समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक अनुत्कृष्ट द्रव्यके साथ रहकर निकलनेवाले जीवके उक्त काल पाया जाता है ।

शंका—नारकीके अन्तिम समयमे प्रदेशसत्कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध कैसे नहीं प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध तो है ही, किन्तु आयुबन्धके काल में जो प्रदेशोंका क्षय होता है उससे आगेके कालमें होनेवाला प्रदेशोंका संचय बहुत है यह यतिवृषभाचार्यका उपदेश है, इसलिए इस उपदेशके अनुसार नारकीके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशस्वामित्व प्राप्त होता है । परन्तु उच्चारणाचार्यके अभिप्रायसे आयुबन्ध कालसे आगेके

बहुओ त्ति तेण आउअबंधे चरिमसमयअपारडे चेव उक्कस्सामिणं होदि त्ति तदो आणाकणिइदाए णिण्णयाभावादो त्थप्पं काऊण वक्खाण्येय्वं । उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । णवरि अणंताणु०चउक्क० जह० एगसमओ । कुदो ? चउवीससंत-कम्मियउवसमसम्मादिद्धिम्मि सासणं गंतूण अणंताणुबंधिसंतमुप्पाइय विदियसमए णिप्पिलिदम्मि तदुवलंभादो । उक्क० तं चेव । सम्मत-सम्माणि० उक्क० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० एग०, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । तिण्हं वेदाणमुक्क० पदेस० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० जह० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि ।

कालमें होनेवाले सञ्चयसे आयुबन्धके कालमें प्रदेशोका ज्ञय बहुत होता है इसलिए आयु बन्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व अन्तिम समयमें ही अर्थात् आयुबन्ध प्रारम्भ होनेके अनन्तर पूर्व समयमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । अतएव जिताज्ञाका निर्णय न होनेसे इस विषयको स्थगित करके व्याख्यान करना चाहिए ।

उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि चौथीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो उपशमसम्यन्ट्टि नारकी जीव सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर और अनन्तानुबन्धीचतुष्क सत्त्वको उत्पन्न करके दूसरे समयमें अन्य गतिमें चला जाता है उसके एक समय काल पाया जाता है । तथा उत्कृष्ट काल वही है । अर्थात् तेतीस सागर ही है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । तीनों वेदाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सातवे नरकमें आयुबन्धसे पूर्व अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद नरकभवमें जो अन्तमुहूर्त काल शेष बचता है वह इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल है और इसका उत्कृष्ट काल सम्पूर्ण तेतीस सागर उस नारकीके होता है जिसके उस पर्यायमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती । यही कारण है कि उक्त कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए कारण सहित इस कालका निर्देश अलगसे किया है । यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य कालका निर्देश करके 'उक्क० तं चेव' कहकर उत्कृष्ट काल भी कह दिया है पर इससे यह मिथ्यात्व आदिकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट काल से अलग है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अन्यथा 'तं चेव' पद देनेकी कोई सार्थकता नहीं थी । सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट स्वामित्वके अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा जो जीव अपनी-अपनी उल्लेखनाके अन्तिम

§ १४. पदमाए जाव द्दष्टि ति मिच्छत-वारसक०-गवणोक० उक्क० पदेस० जहणुक्क० एगस० । अणुक्क० जह० पदमाए दसवस्ससहस्साणि समऊणाणि । कुदो समऊणत्तं ? उण्णणपदमसमए पदेसस्स जादुक्कस्ससंतत्तादो । सेसासु पुढवीसु जह० सगसगजहण्णट्टिदीओ समऊणाओ, उक्क० सगसगुक्कस्सट्टिदीओ । एवमणंताणु०-चउक्क०-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तार्णं । णवरि अणुक्क० ज० एगस० । सत्तमीए णिरओघं । णवरि इत्थि-पुरिस-णउंसयवेदानुक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० षावीसं सागरोवमाणि, उक्क० तेत्तीसं साग० । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० अंतो० । कुदो ण एगसमओ ? सत्तमाए पुढवीए सासणगुणेण णिग्गमाभावादो । उक्क० तेत्तीसं सागरो० ।

समयमे नरकमें उत्पन्न होता है उसके वहाँ इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक देखी जाती है, अतः इन दोनों प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। इसका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नरकमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा नरककी जघन्य स्थितिमेंसे इस एक समयको कम कर देने पर तीनों वेदोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य आयुप्रमाण हाता है और इसका उत्कृष्ट काल नरककी उत्कृष्ट आयुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ १५. पहली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नाकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्रथम पृथिवीमें एक समय कम दस हजार वर्ष है।

शंका—एक समय कम क्यों है ?

समाधान—क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट सत्त्व हांता है।

शेष पृथिवियोंमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल जहाँमें अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्गृह्य है।

शंका—एक समय क्यों नहीं है ?

समाधान—क्योंकि सातवीं पृथिवीसे सासादन गुणस्थानके साथ निर्गमन नहीं होता है।

तथा उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमें गुणितकर्माशिविधिसे आये हुए जीवके नरकमें

§ १६. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छत-सोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुदाभवग्गहर्ण० । एदं समयूणं ति किं ण उच्चदे ? ण, णेरइयेहिंतो णिग्गयस्स अपज्जतएसु अणंतरसमए उववादाभावादो । अणंताणु० चउक्क०-इत्थिवेदाणमेगस० । सन्वासिमुक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टा । सम्मत्त-सम्माभि० उक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० एग०, उक्क०

उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्व, सालह कषाय और नौ नाकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इन नरकोंमें उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। मात्र इन नरकोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य नारकियोंके समान भी सम्भव है, इसलिए इन नरकोंमें इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्रथमादि द्वादश नरकोंमें जो गुणितकर्मांशिक जीव आकर और वहाँ उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें यथाशास्त्र उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके अन्तिम समयमें होती है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर जो उक्त नरकोंमें उत्पन्न होता है उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय देखी जाती है, अतः उक्त नरकोंमें इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सातवीं पृथिवीमें अन्य सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य नारकियोंमें जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उस प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र जिन प्रकृतियोंमें कुछ विशेषता है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति तो गुणितकर्मांशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस एक समयको सातवें नरकी जघन्य स्थितिमेंसे कम कर देनेपर यहाँ उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा बाईस सागर प्राप्त होता है और इसका उत्कृष्ट काल यहाँकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व ओषके समान है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पूरा तैंतीस सागर कहा है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं बनता इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है।

§ १६. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नाकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुल्लक भवप्रहंगप्रमाण है।

शंका—इसे एक समय कम क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नारकियोंमेंसे निकले हुए जीवका अनन्तर समयमें अपर्याप्तक जीवों में उतराव नहीं होता।

अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

तिणिण पलिदोवमाणि पलिदोवमस्स असं० भागेण सादिरे० ।

§ १७. पंचिदियतिरिक्खतियम्मि छन्वीसं पयडीणमुक्क० पदे० जहण्णुक० एगसं । अणुक० ज० खुद्धा० अंतोमु०, अणंताणु० चउक०-इत्थिवेदाणमेगसं, उक्क० सव्वासिं तिणिण पलिदावमाणि पुव्वकोटिपुत्तेणअभियणि । सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणमात्थिवेदभंगो ।

अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवो भाग अधिक तीन पत्य प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने स्वामित्व के अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । आगेकी मार्गणांशमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, इसलिए आगे सब कर्मोंकी मात्र अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालका स्पष्टीकरण करेगे । तिर्यञ्चोमें जघन्य आयु क्षुल्लक भवप्रहणप्रमाण है और कार्यास्थिति अनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमें छन्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुल्लक भवप्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है । मात्र यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है । जो स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेके बाद एक समय तक तिर्यञ्चोमें रहकर देव हो जाता है उसके स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है और जिस तिर्यञ्चने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके तिर्यञ्च पर्यायमें रहनेका काल एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तिर्यञ्चो में सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय उल्लेखनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा भी बन जाता है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए । तथा जो तिर्यञ्च पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक इनकी उल्लेखना करते हुए अन्तमें तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ अधिकतर समय तक सम्यक्त्वके साथ रहते हुए इनकी सत्ता बनाये रखते हैं उनके इस सब कालके भीतर उक्त दोनो प्रकृतियोंकी सत्ता बनी रहती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भाग अधिक तीन पत्य कहा है ।

§ १७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे छन्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तिर्यञ्चोमें क्षुल्लक भवप्रहणप्रमाण और शेष दो में अन्तर्मुहूर्त है । किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोकी जघन्य स्थिति क्षुल्लक भवप्रहणप्रमाण और शेष दो की अन्तर्मुहूर्त है । तथा सबकी कार्यास्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है, इसलिए इनमें छन्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल कमसे क्षुल्लक भवप्रहण-

§ १८. पंचि०तिरि०अपज्ज० छ्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० ।
अणुक्क० ज० खुद्धाभव० समज्जणं, उक्क० अंतो० । सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमेवं चैव ।
णवरि अणुक्क० ज० एगस० । एवं मणुसअपज्जताणं ।

§ १९. मणुसतियम्मि अट्ठावीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० ।
अणुक्क० ज० खुद्धा० अंतो० समज्जणं, उक्क० सगट्ठिदी । णवरि सम्म०-सम्मामि०-
अर्णाताणु०चउक्क०-इत्थिवेद० अणुक्क० ज० एगस० । चदुसंज०-पुरिस० अणुक्क०
ज० अंतोमू० ।

प्रमाण और अन्तर्मुहूर्त कहा है तथा उत्कृष्ट काल पूर्व काटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका सामान्य तिर्यञ्चके समान यहाँ भी बन जाती है, इसलिए यहाँ इसका जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी प्ररूपणा स्त्रीवेदके समान घटित हो जाती है, इसलिए उसे उसकी प्ररूपणाके समान जानने की सूचना की है ।

§ १८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति हा जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम कर देने पर यहाँ अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए इन जीवोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसी प्रकार जानने की सूचना की है । मात्र इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका उद्वेलना की अपेक्षा एक समय काल भी प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त विभक्तिका जघन्य काल अलगसे एक समय कहा है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें यह कालप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ १९. मनुष्यत्रिकोमे अट्ठावीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और एक समय कम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी कायस्थिति-प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । तथा चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेंसे कम कर देने पर अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और शेष दो प्रकारके मनुष्योंमें एक समय कम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है । इनमें

§ २०. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० पदे० जहण्णुक० एग० । अणुक० जह० दसवस्ससहस्साणि समजणाणि, उक्क० तेतीसं सागरो० । एवं सम्मत-सम्मामि०-अणंताणु०चउकारां । णवरि अणुक० ज० एगस०, उक्क० तं चेव । एवं पुरिस-णउंसयवेदाणं । णवरि अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि ।

§ २१. भवण०-वाण०-जोइसि० छवीसं पयडीणसुक० पदे० जहण्णुक०

इसका उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनमें सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षपणाकी अपेक्षा तथा सम्याग्मिध्यात्वका उद्वेलनाकी अपेक्षा, अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर सासादन गुणस्थानके साथ विवक्षित पर्यायमे एक समय रहनेकी अपेक्षा और स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद एक समय तक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके साथ विवक्षित पर्यायमे रहनेकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा चार सज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जो आघसे घटित करके बतला आये है वह मनुष्यत्रिकमे सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ २०. देवगतिमे देवामे मिध्यात्व, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्याग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है। पुरुषवेद और नपुंसकवेदका काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ— देवामे मिध्यात्व, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणित कर्माशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होती है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है। उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। शेष प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तो यही है। मात्र जघन्य कालमे अन्तर है। सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षपणाकी अपेक्षा, सम्याग्मिध्यात्वका उद्वेलनाकी अपेक्षा और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर सासादन गुणस्थानके साथ एक समय विवक्षित पर्यायमे रहनेकी अपेक्षा एक समय काल बन जाता है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पत्योपमकी स्थितिवाले देवोंके अन्तिम समयमें होती है, इससे कम स्थितिवालेके नहीं, इसलिए तो इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमे होती है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भी जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है।

§ २१. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमे छवीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

एगस० । अणुक० जह० जहण्णट्टिदी समजणा, उक्क० अप्पणो उक्कस्सट्टिदीओ ।
णवरि अणंताणु०चउक्क० जह० एगस० । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमणंताणु०-
चउक्क०भंगो ।

§ २२. सोहम्मादि जाव सहस्सरो त्ति मिच्छत्त-वारसक०-णवणोको उक्क०
पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० सग-सगजहण्णट्टिदीओ समजणाओ, उक्क०
सग-सगुक्कस्सट्टिदीओ । अणंताणु०चउक्क०-सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं एवं चेव । णवरि
अणुक० जह० एगस०, उक्क० तं चेव ।

§ २३. आणदादि जाव णवगेवेज्जा त्ति छ्वीसं पयडीणं उक्क० पदे०

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोंमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसके जघन्य काल एक समयका अलगसे निर्देश किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान कहनेका कारण यह है कि यहाँ पर इनका भी उल्लेखनाकी अपेक्षा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २२. सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें मिध्यात्व बारह कषाय और नौ नाकपायोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इनकी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रारम्भमें कही गई बाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है । मात्र सौधर्म और ऐशान कल्पमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उस पर्यायके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य देवोंके समान यहाँ भी घटित हो जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ २३. आनत कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

जहणुक० एगस० । अणुक० जह० खुदाबंधपादो समऊणो, उक० सगद्विदी ।
णवरि अणंताणु०चउकस्स अणुक० पदे० जह० एगस० । एवं सम्मत-सम्मा-
मिच्छसाणं ।

§ २४. अणुदिसादि जाव सव्वदिसिद्धि ति सत्तावीसं पयडीणमुक० पदे०
जहणुक० एगस० अणुक० जह० जहणुद्विदी समयूणा, उक० सगुकस्सद्विदी ।
णवरि अणंताणु०चउक० अणुक० जह० अंतोमु० । सम्मत्त० उक० पदेसजहणुक०
एगस० । अणुक० जह० एगस०, उक० सगद्विदी । एवं णेद्वं जाव अणाहारि ति ।

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल
क्षुल्लकबन्धके पाठके अनुसार एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी
अपेक्षासे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्व, सोलह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
अपने अपने भवके प्रथम समयमें सम्भव है । तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति स्वामित्वके
अनुसार यद्यपि भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वामित्वप्ररूपणामे गुणित-
कर्मोशाविधिसे आकर जो द्रव्यलिङ्गके साथ मरकर और वहाँ उत्पन्न होकर विभक्तित्व वेदके
परणुकालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति बतलाई है पर
क्षुल्लकबन्धके पाठके अनुसार तीनों वेदों सहित उक्त सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण बतलाया है सो विचार कर
घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल
एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है ।
तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय
ही है, क्योंकि सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षणकी अपेक्षा तथा सम्यग्मिध्यात्वका उद्वेलनाकी
अपेक्षा एक समय काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनकी प्ररूपणा अनन्तानु-
बन्धीचतुष्कके समान जाननेकी सूचना की है । यहाँ सब प्रकृतियोंको अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ २४ अनुदिसासे लेकर सर्वार्थासिद्धि तकके देवामे सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य
काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-
प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य
काल अन्तमुहूर्त है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके एक समयको अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेंसे कम
कर देने पर सत्ताईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए
वह एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । मात्र जो वेदकसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी

§ २५. जहणण ए पयदं । हुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-एकारसकसाय-णवणोकसाय० जहणणपदे जहण्णुकस्सेण एगसमओ । अजहण्णे० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो । सम्पत्त-सम्माभिच्छत्तार्णं जहणणपदे जहण्णुक० एगसमओ । अजह० ज० अंतोमु०, उक्क० वेच्चावट्टि सागरोवमाणि सदिरियाणि । अणंताणु० चउक्क० ज० पदेस० जहण्णुक० एगस० । अज० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो सादिओ सपज्जवसिदो । जो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिहेसो—जह० अंतोमु०, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं । लोभसंजल० जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० तिण्णि भंगा । जो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जहण्णुक० अंतोमुहुत्तं ।

विसंयोजना किये बिना यहाँ उत्पन्न हुआ है और अन्तर्मुहूर्त कालमे उनकी विसंयोजना कर देता है उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक ही देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । क्षपणाकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय यहाँ भी सम्भव होनेमे वह उक्त प्रमाण कहा है । इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । उस प्रकार यहाँ तक आंधमे और चारों गतियोंमे कालका विचार किया । आगे अपनी अपनी विशेषताको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

§ २५. जघन्यका प्रकारण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनमें जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन भङ्ग हैं । उनमें जो सादि-सान्त भङ्ग है उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वामित्वके अनुसार ओघ और आदेशसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक ही होती है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल सर्वत्र एक समय कहा है । अतः यहाँ केवल सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके कालका विचार करेंगे । मिथ्यात्व आदि इक्कीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका काल अभव्यों या अभव्योंके समान भव्योंकी अपेक्षा

१२६. आदेशेण गेरइएसु मिच्छत्त-सत्तणोफसाय० जह० पदे० जहण्णुक० एग-समओ । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्पत्त-सम्पामि०-अणंताणु० चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । बारसक०-भय-हुगुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० ज० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

अनादि-अनन्त और श्तर भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व होकर लपणा द्वारा कमसे कम अन्तर्मुहूर्तमें अभाव हो सकता है और जो प्रारम्भमें, मध्यमें और अन्तमें इनकी उद्वेलना करते हुए दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छयासठ सागर काल तक इनका सत्त्व देखा जाता है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा है। इनका सत्त्व अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त नहीं होता, इसलिए ये दो भङ्ग नहीं कहे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्क अनादि-सत्तावाली होकर भी विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उनके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भङ्ग कहे हैं। तथा सादि-सान्तके कालका निर्देश करते हुए यह जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि विसं-योजनाके बाद अन्तर्मुहूर्तके लिए उनकी सत्ता होकर पुनः विसंयोजना हो सकती है। तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गलप्रमाण कहा है, क्योंकि कोई जीव इस कालके प्रारम्भमें और अन्तमें इनकी विसंयोजना करे और मध्यमें न करे यह सम्भव है। लोभकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिके भी तीन भङ्ग हैं। अनादि-अनन्त भङ्ग अभिव्योके होता है। अनादि-सान्त भङ्ग भव्याके जघन्य प्रदेशविभक्तिके पूर्व होता है और सादि-सान्त भङ्ग जघन्य प्रदेशविभक्तिके बादमें होता है। इसकी जघन्य प्रदेशविभक्ति लपक जीवके अधःकरणके अन्तिम समयमें होती है। इसके बाद इसका सत्त्व अन्तर्मुहूर्त काल तक ही पाया जाता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१२६. आदेशसे नारकियोमें मिध्यात्व और रात नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—मिध्यात्व, लीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति नारक पर्याय-में अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर हो यह भी सम्भव है, इसके बाद इनकी वहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। तथा क्षपितकर्मांशविधिसे आकर नरकमें उत्पन्न हुए जिसे अन्तर्मुहूर्त काल हो जाता है उसके पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेश-विभक्ति होती है और इससे पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति रहती है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय अनुत्कृष्टके समान घटित कर लेना चाहिए। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें

१२७. पदमाए जाव छट्टि सि मिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेदाधं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० जहण्णट्ठिदी, उक्क० सगुक्कस्सट्ठिदी । सम्मत-सम्मापि०-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगुक्कस्सट्ठिदीओ । वारसक०-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० जहण्णट्ठिदी समज्जाणा, उक्क० सगट्ठिदी । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्ठिदीओ ।

१२८. सत्तमाए मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेद--हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेतीसं सागगेवमाणि । एवं सम्मत-सम्मापिच्छत्ताणं ! णवरि अज० जह० एगस० ।

प्राप्त होनी है, उगलिण इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष कटा है । सब अट्टाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है ।

§ २७. प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है । मन्थकव, मन्थमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति आदि शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमे उत्कृष्ट आयुवाले के अन्तिम समयमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व बतलाया है, इसलिए * इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । सम्मत आदि छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य नारकिय, समान घटित कर लेना चाहिए । आगे भी जहाँ यह काल इतना कहा हो वहाँ वह इसी प्रकार जाना चाहिए । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमे होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । पुरुषवेद आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इन अट्टाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ २८. सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

बारसक-भय-दुर्गुद्धार्णं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० बावीसं सागरोवमाणि, उक्क० तेचीसं सागरोवमाणि ।

§ २६. तिरिक्खेददीए तिरिक्खेसु भिच्छत्त०--बारकसाय--भय--दुर्गुद्धित्थि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणं, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवमाणि पल्लिदो० असंखे०-भागेण सादिरियाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंतकाल-मसंखे०पो०परियट्टा ।

इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग जानना चाहिये । इतनी विघोपता है कि अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सातवीं पृथिवीमें आंधके समान म्यामित्व है, इसलिये यहाँ मिथ्यात्व आदि बारह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अनन्तमुहूर्त बन जानेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यक्त्वद्विकका भङ्ग उक्त प्रकृतियोंके समान है यह स्पष्ट ही है । मात्र इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उद्वेलनाकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय बन जानेसे यह अलगसे कहा है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न हानेके प्रथम समयमें होती है, इसलिये इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर कहा है । इन अट्टाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है ।

§ २६. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्चोवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल लुलक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तीन पत्य है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अनन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अनन्त काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

र्थ—तिर्यञ्चोकी जघन्य भवस्थिति लुलकभवग्रहणप्रमाण है और जघन्य भवस्थितिवाले जीवोंके मिथ्यात्व आदि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति

§ ३०. पंचिदियतिरिक्वतियम्मि मिच्छत्तित्थि-णुवुंसयवेद-वारसक०-भय-दुगुंघाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणंमंतोमुहुत्तं, उक० सगद्धिदी । सम्मत्त-सम्मामि०--अणंताणु०चउक्काणमेवं चैव । णवरि अज० जह० एगस० । पंचणोकसायाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० अंतो०, उक० सगद्धिदी ।

§ ३१. पंचिदियतिरिक्वअपज्जत्ताणं मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंघ० जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणं समयुणं, उक० अंतोसु० ।

होती नहीं, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल जुलकभव-महणप्रमाण कहा है । तथा तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है । यहाँ सम्यक्त्वद्विककी एक समय तक सत्ता उद्वेलनाकी अपेक्षा बन जाती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा जो पत्यके असंख्यातव भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना कर सत्त्व नाश हुए बिना तीन पत्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होकर श्रीर सम्यक्त्वको उत्पन्न कर प्रन्त तक इनकी सत्ता बनाये रखते हैं उनके इनने काल तक इनकी सत्ता दिखलाई देनेसे यहाँ उनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातव भाग अधिक तीन पत्य कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय पहले अनेक बार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान है यह स्पष्ट ही है । उसी प्रकार पुरुषवेद आदि पाँचकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए । तथा इसका जघन्य काल अन्तमुहूर्त प्रथम नरकके समान घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३०. पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्चविक्रमे मिथ्यात्व, स्वीवेद, नगु स्फवेद, वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल सामान्यसे पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्चोमे जुलकभवमहणप्रमाण और शेष दोमें अन्तमुहूर्तप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है । पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ अन्य सब स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोके समान कर लेना चाहिए । केवल दो बातोंमें विशेषता है । एक तां पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंकी जघन्य भवस्थिति अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-का जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है । दूसरे इन तीनों प्रकारके तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति पूर्वकोटि-पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है और इतने काल तक यहाँ अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति हुए बिना भी सत्ता रह सकती है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है ।

§ ३१. पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका

एवं सम्मत्-सम्मामिच्छताणं । णवरि अज० जह० एगसमओ । सत्तणोक्क० जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जहणुक्क० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

३२. मणुसतियम्मि मिच्छत्त-वारसक्क०-णवणोक्कसायाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगसमओ । अज० जह० खुदाभव० अंतोमु, उक्क० सगट्ठिदी । सम्मत्त-सम्मामि-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगट्ठिदीओ ।

जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवप्रहरणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सात नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । उसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमे होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम लुल्लकभवप्रहरणप्रमाण कहा है । सम्यक्त्वद्विकके अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है । तथा सात नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवप्रहरणके अन्तर्मुहूर्त बाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा यहाँ सभी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है ।

३२. मनुष्यत्रयमे मिध्यात्व, वारस कपाय और नौ नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योमे लुल्लक भवप्रहरणप्रमाण और शेष दोमे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंमे उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंकी जघन्य स्थिति लुल्लकभवप्रहरणप्रमाण, शेष दोकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि अधिक तीन पत्यप्रमाण होती है, इसलिए इनमें मिध्यात्व आदि बाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योमे लुल्लकभवप्रहरणप्रमाण, शेष दोमे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट काल तीनोंमें कायस्थितिप्रमाण कहा है, क्योंकि इन तीनों प्रकारके मनुष्योमे क्षणिके समय यथायोग्य स्थानमे उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उक्त कालके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती । अब रही शेष छह प्रकृतियों से इनमेसे जिन जीवोने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनामे एक समय शेष रहने पर मनुष्य पर्याप्त प्राप्त की है उनके इन दो प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा जो मनुष्य अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके मनुष्य पर्याप्तमे एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होते हैं उनके इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है, इसलिए यहाँ इन छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल कायस्थिति-

§ ३३. देवगईष देवेसु मिच्छतिस्त्रि-णवुंसयवेदाणं जह० षडे० जहणुक्कस्स० एगस० । अज० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवमणंताणु०-चउक्क०-सम्म०-सम्मामिच्छत्ताणं । णवरि अज० जह० एगस० । बारसक०-भय-दुगुंझाणं मिच्छत्तभंगो । पंचणोक० जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमुहु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

§ ३४. भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति मिच्छतिस्त्रि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० जहणुट्ठिदी, उक्क० उक्कस्सट्ठिदी । सम्पत्त०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्काणं जह० पदेस० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० उक्क०ट्ठिदी । बारसक०-भय-दुगुंझाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० जहणुट्ठिदी समयूणा, उक्क० उक्कस्सट्ठिदी । पंचणोक०

प्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होकर अभाव न हो जाय ऐसा करते हुए उनका सन्ध बनाये रखना चाहिए ।

§ ३३. देवगतिमे देवोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । उनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमे जानना चाहिए । उतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—देवोमे म्त्रामित्यकां देवते णु मिथ्यात्व, बारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर बन जाता है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और पाँच नोकपायोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनके अजघन्य प्रदेशरत्कर्मके जघन्य कालमे अन्तर है, इसलिए वह अलगसे कहा है । उनमेसे प्रारम्भकी छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय तो मनुष्योंके समान यहाँ भी घटित हो जाता है । मात्र पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति देवोमे उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्तवाद सम्भव है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ ३४. भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है ।

जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदीओ ।

६ ३५. अणुविसादि जाव अवराइदो ति भिक्खत्त-सम्माभि०-इत्थि-एवुंसय-वेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० ज० जहण्णट्टिदी, उक्क० उक्कस्सट्टिदी । सम्मत्त० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी । एवमणंताणु० चउक्क०-इस्स-रदि-अरदि-सोगाणं । णवरि अज० जह० अंतोमु० । बारसक०-पुरिस-भय-दुगुंळाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णट्टिदी समऊणा, उक्क० सगट्टिदी ।

और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। पाँच नोकधायोंकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—यहाँ बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। शेष काल सुगम है, क्योंकि उसका सामान्य देवोमे स्पष्टीकरण आये है। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।

६ ३५. अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोमे भिध्यात्व, सम्यग्भिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—यहाँ भिध्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति जघन्य आयुवाले जीवोके भवके प्रथम समयमे सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। कृतकृत्यवेदके कालमे एक समय शेष रहने पर ऐसा जीव मरकर यहाँ उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। अनन्तानु-बन्धीचतुष्क आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके अन्तर्मुहूर्त बाद प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। बारह कपाय आदि की जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति का जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ ३६. सब्बइसिद्धिम्मि मिच्छ०-सम्मामि०-बारसक०-इत्थि-पुरिस-णउंसय-वेद-भय-दुगुंझाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० तेचीसं सागरो-वमाणि समऊणाणि, उक्क० तेचीसं सागरो० । सम्म० जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तेचीसं सागरोवमाणि । अणंताणु० चउक्क०-इस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोहो०, उक्क० तेचीसं सागरोवमाणि । एवं जाणिदूण णेद्वं जाव अणाहारि ति ।

एवं कालाणुगमो समत्तो ।

❀ अंतरं ।

§ ३७. पइज्जासुत्तमेदं सुगमं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहणुक्कस्सेष अणंत-कालमसंखेज्जा पोगलपरियट्ठा ।

§ ३६. सर्वार्थसिद्धिमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक-वेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । सम्यक्त्व प्रकृतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, दास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हैं । इस प्रकार जान कर अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें हानेसे इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर कहा है । वृत्तव्यवेदकका एक समय काल यहाँ उपलब्ध हो सकता है, इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्क आदि प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्भव है, इसलिए उसका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त कहा है । सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । यहाँ तक जो काल कहा है उसे देखकर वह अनाहारक मार्गणातक घटित कर लेना चाहिए, इसलिए उसे इसके समान ले जानेकी सूचना की है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

❀ अन्तर ।

§ ३७. यह प्रतिज्ञा सूत्र सुगम है ।

❀ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

§ ३८. गुणितकर्मसियस्स अगुणितकर्मसियभावसुवणमिय जहण्णेण उक्कस्सेण वि अणंतेण कालेण विणा पुणो गुणितभावेण परिणमणसत्तीए अभावादो । जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ति अंतरं किण्ण परुविदं ? ण, तस्सुवदेसस्स अपवाइज्जमाणत्तजाणावणट्ठं तदपरुवणादो ।

⊗ एवं सेसाणं कम्माणं णोबब्बं ।

§ ३९. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा-अट्ठकसाय-अट्ठणोकसायाणं मिच्छत्तभंगो । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० मिच्छत्तभंगो ।

⊗ एवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चटुसंजलणाणं च उक्कसपदेसविहृत्तिअंतरं णत्थि ।

§ ४०. कुदो ? खवगसेटीए समुत्पण्णात्तादो ।

एवमुक्कस्सपदेसविहृत्तिअंतरं समत्तं ।

§ ३८. क्योंकि जो गुणितकर्मांशिक जीव अगुणितकर्मांशिकभावका प्राप्त होता है उसके जघन्य और उत्कृष्ट दोनो प्रकार अनन्त कालके विना पुनः गुणितकर्मांशिकरूपसे परिणमन करनेकी शक्ति नहीं पाई जाती ।

शंका—गुणितकर्मांशिक जीवका जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण क्यो नही कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वह उपदेश अपवाइज्जमाण है इस बातका ज्ञान करानेके लिए वह नहीं कहा ।

विशेषार्थ—पहले काल प्ररूपणाके समय चृणिसूत्रमें अन्य उपदेशके अनुसार मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण कह आये हैं, इसलिए यहाँ यह शंका की गई है कि उसी उपदेशके अनुसार मिध्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण भी कहना चाहिए था । वीरसेन स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि वह उपदेश अपवर्तमान है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए चृणिसूत्रकारने यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है ।

⊗ इसी प्रकार शेष कर्मोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ ३९. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—आठ कषाय और आठ नोकषायोंका भङ्ग मिध्यात्व के समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी आठ कषाय और आठ नोकषायोंके साथ परिगणाना न करके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है ऐसा कहा है सो उसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालमे मिध्यात्वसे कुछ अन्तर है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए वीरसेन स्वामीने उसका अलगसे निर्देश किया है ।

⊗ इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४०. क्योंकि इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षणकश्रेणियं उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

❀ अंतरं जहण्यं जाणिदूणं षोडश्वं ।

§ ४१. एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, जहण्यपदेसविहत्तियाणं सव्वेसिं पि अंतराभावो ।

एवमंतरं समत्तं ।

४२. संपहिं चुण्णिमुत्तेण देसामासिएण सूदमत्थमुच्चारणाइरिएण परूविदं वत्तइस्सामो । अपुणरुत्तत्थो चैव किण्णं बुच्चदे ? ण, कत्थं वि चुण्णिमुत्तेण उच्चारणाए भेदो अत्थिं त्ति तन्भेदपटुप्पायणदुवारेण पउणरुत्तियाभावो ।

§ ४३. अंतरं दुविहं—जहण्यमुक्त्तस्यं च । उक्त्तसए पयदं । दुविहो णिदे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भिच्छत्त-अट्टक०-अट्टणोक० उक्त्त० पदेस-विहत्तिअंतरं जहण्युक० अणंतकालमसंखेज्जा पोगलपरियट्टा । अणुक० जहण्युक० एगस० । सम्मत्त०-सम्मामि० उक्त्त० पदेसविहं णत्थिं अंतरं । अणुक० पदे० जह० एगस०, उक्त्त० उवट्टुपोगलपरियट्टं । अणंताणु०चउक्त्त० उक्त्त० पदे० जहण्युक० अणंत०मसंखे०-पो०परियट्टा । अणुक० जह० एगस०, उक्त्त० वेद्धावट्टिसागरोवमाणि देसूणाणि । पुरिसवेद-चट्टुसंज० उक्त्त० पदे० णत्थिं अंतरं । अणुक० पदे० जहण्युक० एगस० ।

❀ जघन्य अन्तरकाल भी जानकर ले जाना चाहिए ।

§ ४१. इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि सभी जघन्य प्रदेशविभक्तियोंका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ४२. अब चूणिसूत्रके द्वारा देशामर्षकरूपसे सूचित हुए जिस अर्थका उच्चारणाचार्यने कथन किया है उसे बतलाते हैं ।

शंका—अपुनरुक्त अर्थको ही क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कहीं पर चूणिसूत्रसे उच्चारणामे भेद है, इसलिए उस भेदके कथन द्वारा पुनरुक्त दोष नहीं आता । अर्थात् उसके पुनः कथन करने पर भी वह अपुनरुक्तके समान हो जाता है ।

§ ४३. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मिथ्यात्व, आठ कपाय और आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो द्वासासठ सागरप्रमाण है । पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक

§ ४४. आदेशेण णेरइएसु मिच्छं-चारसकं-द्वण्णोक्कं उक्कं पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्कं पदे० जहणुक्कं एगसं । सम्म०-सम्पामि०-अणंताणु०चउक्कं उक्कं पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्कं जहं एगसं, उक्कं तेतीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणम्यक्कस्साणुक्कस्सपदे० णत्थि अंतरं । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

समय है ।

विशेषार्थ—गुणितकर्माशविधि एक बार समाप्त होकर पुनः उसके प्रारम्भ होनेमें अनन्त काल लगता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय कहनेका यही कारण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण काल तक सत्त्व न पाया जाय यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क ये विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं । इनका सत्त्व अधिकसे अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व दर्शनमोहकी क्षणिके समय तथा पुरुषवेद और चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व चारित्रमोहकी क्षणिके समय होता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है ।

§ ४४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंगकवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकमें गुणितकर्माश जीवके भवमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । यह वहाँ एक पर्यायमें दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालके निषेधका यही कारण है । तथा सम्यक्त्व और तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । अब रहा अनुत्कृष्टका विचार सो मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यतः मध्यमे होती है अतः इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । सम्यक्त्व-द्विक उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं । यहाँ इनका

§ ४५. पहलाए जाव छट्टि ति मिच्छ०-बारसक०-गवणोक० उक्कसाणुकस्स-पदे० गत्थि अंतरं । सम्प०-सम्मापि० उक्क० पदे० गत्थि अंतरं । अणुक० पदे० जह० एगम०, उक्क० सगसगट्टिदीओ देसूणाओ । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० गत्थि अंतरं । अणुक० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा ।

§ ४६. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-बारसक०-अट्टणोक० उक्कसाणुकस्सपदे० गत्थि अंतरं । सम्प०-सम्मापि० ओघं । अणंताणु०चउक्क० उक्क० गत्थि अंतरं । अणुक० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि । इत्थिवेद०

सत्त्व कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव है, अतः यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । मात्र सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति मध्यमें होती है, इसलिए भी इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है और अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना एक समयके लिए नहीं होती, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षासे ही प्राप्त करना चाहिए । तीनों वेदोफी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है । यह सब अन्तर प्ररूपणा सातवें नरकमें अधिकल बन जाती है, इसलिए वहाँ सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४५. प्रथमसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिध्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है । मात्र विसंयोजनाकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन जाता है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका अलगसे विधान किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म एकबार ही प्राप्त होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा यह आयुमें अन्तर्मुहूर्त जाने पर प्राप्त होता है और ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उद्वेलना प्रकृतियाँ होनेसे वहाँ इनका कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण काल तक सत्त्व न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है ।

§ ४६. तिर्यञ्जातिमें तिर्यञ्जोमें मिध्यात्व, बारह कपाय और आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग ओषके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट

उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणुक्क० एगस० । एवं पंचिदियतिरिक्खतियस्स ।
णवरि सम्म०-सम्मामि० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क०
तिण्णि पल्लिदोवमाणि पुब्बकोट्टिपुधत्तेणभहियाणि । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अट्टा-
वीसं पयडीणमुक्कसाणुक्क० णत्थि अंतरं ।

§ ४७. मणुसगदीए मणुस्सेसु मिच्छ०-अट्टकसाय-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-
सोग-भय-दुगुंछाणं उक्कसाणुक्कस्स० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-
चउक्क० पंचिदियतिरिक्खभंगो । चदुसंजल०-पुरिस०--इत्थिवेद० उक्क० णत्थि अंतरं ।
अणुक्क० जहणुक्क० एगस० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं । मणुसअपज्ज० पंचिदिय-

प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसीप्रकार पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्र्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम ढण्डकमे कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होती है, इसलिये इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । आधमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्र्यात्वके अन्तरकालका जो भङ्ग कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिये उसे आधके समान जाननेकी सूचना की है । अनन्ताणुवन्धी-चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह गुणितकर्माशिविके देवनेसे स्पष्ट हो जाता है । पर ये विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिये यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । यहाँ स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व भांगभूमिमे पत्यका असंख्यातवों भागप्रमाण कालजाने पर होता है, इसलिये इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । इसकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे यह अन्तरप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिये उनमे सामान्य तिर्यञ्चके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन तिर्यञ्चकी कार्यस्थिति पूर्वकाटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्यप्रमाण है, इसलिये इनमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्र्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होने यहाँ इनकी अपेक्षा अन्तरकालका अलगसे निर्देश किया है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमे प्राप्त होती है, इसलिये यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

§ ४८. मनुष्यगतिमे मनुष्योमे मिश्र्यात्व, आठ कपाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिश्र्यात्व और अनन्ताणुवन्धीचतुष्कका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है । चार संज्वलन, पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों-

तिरिक्त्वअपज्जत्तभंगो ।

§ ४८. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-बारसक०-णवणोक० उक्क० अणुक्क० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं साग० देसूणाणि । एवं भवणादि जात्र उवरिमगेवज्जा ति । णवरि सगद्धिदीओ भाणिदव्वाओ । अणुदिसादि जाव सव्वट्टसिद्धि ति अट्टावीसं पयडीणमुक्कम्मसाणुक्कम्म० णत्थि अंतरं । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

में जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व आदि छ० प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एक तो इनकी भी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । दूसरे इनमें अनन्तानुबन्धीचतुष्पका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य ही प्राप्त होता है, इसलिए पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान यहाँ भी अन्तरकाल वन जाता है । चार संज्वलन आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रणिमें एक समयके लिए आँर चूणिसूत्रके अनुसार स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भोगभूमिमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल जाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियामों अन्तरकालपरूपणा सामान्य मनुष्योंके समान वन जाती है, इसलिए इनमें उनके समान जाननेकी सूचना की है । तथा स्वामित्य और कायस्थिति आदि की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोसे मनुष्य अपर्याप्तकोंमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिए यहाँ मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४८. देवगतिमे देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्पका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए । अनुदिरासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह तो स्पष्ट ही है । अब रहा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका विचार सो देवोंमें मिथ्यात्व आदि बाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्वेलना

§ ४६. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहेसो—जोपेण आदेसेण य । ओपेण मिच्छ०-एकारसक०-णवणोक्क० जहण्णाजहण्णपदे० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मापि०-जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० उवडुपोगलपरियट्ठा । अणंताणु०-चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० वेद्वान्हिसागरो० देसूणाणि । लोभसंज० ज० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एमसपत्रो ।

§ ५०. आदेसेण एरइएसु मिच्छ०-तिण्णवेद०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० । बारसक०-भय-दुगुंछा० जहण्णा-प्रकृतियाँ हैं । इनका कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक कुछ कम इकतीस सागर तक सत्त्व नहीं पाया जाता । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक और अधिकसे अधिक कुछ कम इकतीस सागर काल तक सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । भवतवासियोसे लेकर नौ प्रवैयक तकके देवोंमें यह अन्तर प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इनकी भवस्थिति अलग अलग है, इसलिए इनमें कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी भवस्थिति ग्रहण करनेकी सूचना की है । अनुदिशसे लेकर आगेके सब देवोंमें भवके प्रथम समयमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । यह जो अन्तरप्ररूपणा कही है उसे ध्यानमें रखकर आगेकी मार्गणाओंमें वह घटित की जा सकती है, इसलिए उनमें इसी प्रकार ले जानेकी सूचना की है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ४६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और नौ नांकपायोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छपासठ सागरप्रमाण है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व आदि अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षणिके समय योग्य स्थानमें होती है, इसलिए इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल बन जानेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है । तथा लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक होनेके बाद भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है ।

§ ५०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट

जहणण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मापि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०,
उक० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक० जह० णत्थि अंतरं । अज०
जह० अंतोमु०, उक० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

§ ५१. पहमाए जाव छट्ठि चि भिच्छ०-वारसक०-इत्थि-णवुंस०-भय-दुणुंछ०
जहणण।जहणण० णत्थि अंतरं । सम्मत्त०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक० जह० णत्थि
अंतरं । अज० ज० एगस० अंतोमु०, उक० सग-सगट्टिदीओ' देसूणाओ । पंच-
णोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० ।

अन्तरकाल एक समय है। वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश-
विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका
अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
कुछ कम तेतीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं
है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस
सागर है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—नरक आदि चारों गतियोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपित
कर्मशिक जोवके होनेके कारण प्रत्येकमें दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए सर्वत्र इसके अन्तर-
कालका निषेध किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका विचार करने पर नारकियोंमें
मिथ्यात्व आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति वहां उत्पन्न होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल
जाने पर सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक
समय कहा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ये दो उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क
निरयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल
बन जानेसे उन्का अलगमें निर्देश किया है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके दोनों प्रकारके
अन्तरकालको आगे भी इसी आधारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र सर्वत्र जघन्य अन्तरकाल
तो एक समान है। उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है।
केवल अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा तिर्थेच्छा और मनुष्योंमें यह कुछ कम तीन पल्य ही
कहना चाहिए। जहाँ वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भयके प्रथम समयमें
होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है। सातवीं
पृथिवीमें यह परूपणा अधिकल बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके समान
जाननेकी सूचना की है।

§ ५१ प्रथमसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद,
नर्पुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है।
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं
है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट
अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका
अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नर्पुंसकवेदकी नरकसे

१. आ०प्रती 'उक० सगट्टिदीओ' इति पाठः ।

§ ५२. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-वारसक०- इत्थि-णवुंस०--भय-दुगुंझाणं जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० ओवं । अणंताणु० चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० ज० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पळ्ळिदो० देसुणाणि । पंचणोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुकु० एगस० । एवं पंचिदियतिरिक्ख-तियस्स । णवरि सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० सगद्धिदी देसुणा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सत्तणोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुकु० एगस० ।

निकलनेके अन्तिम समयमे और शेष की नरकमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा शेष पाँच नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी सामान्य नारकियो के समान है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है।

§ ५२. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओषके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्त्य है। पाँच नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सात नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

विशेषार्थ तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्त्वमे तीन पत्त्यकी आयुके अन्तिम समयमे सम्भव है। वारह कपाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसत्त्वमे तिर्यञ्च पर्याय ग्रहण करनेके प्रथम समयमे सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओषके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए इनका भङ्ग ओषके समान जाननेकी सूचना की है। अनन्तानुबन्धी-चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक कुछ कम तीन पत्त्य काल तक न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्त्य रहा है। पाँच नोकपायोकी जघन्य प्रदेशविभक्ति तिर्यञ्चोमे उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त वाद प्रतिपत्त प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमे यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता

§ ५३. मणुस-मणुसपज्जत्तएसु' मिच्छ०-एक्कारसक०-णवणोक० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणमहियाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसणाणि । लोभसंज० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० । एवं मणुस्सिणीणं । णवरि पुरिसवेद० लोभसंजलणभंगो । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

है, उसे सामान्य तिर्यञ्चोके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तरकालमे कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अन्तरकालका निर्देश आलगसे किया है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, सांहर कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होनेके बाद यहाँ पुनः इनका भव्य सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा शेष सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद प्रतिपत्त प्रकृतियोंका बन्ध होनेके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है।

§ ५३. मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकोमे मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्करी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। लोभ संज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार मनुष्यनियोंमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे पुरुषवेदका भङ्ग लोभसंज्वलनके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोमे पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्य आदि तीनों प्रकारके मनुष्योंमे मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षणिकाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। मात्र मनुष्यनियोंमे पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य उद्वेलनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्करी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य विसंयोजनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा संज्वलन लोभकी जघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ क्षणिकाके अन्तर्मुहूर्त पूर्व होती है, इसलिए इसकी अजघन्य

§ ५४. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-णवुंस०-भय-दुगुंछा० जहण्णा-जहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोमु०, उक० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० ।

§ ५५. भवणादि जाव उवरिमगेवजा त्ति मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-णवुंस०-भय-दुगुंछा० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस० अंतोमु०, उक० सग-सगट्टिदीओ देसूणाओ ।

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। मनुष्य अपर्याप्तकोका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है यह स्पष्ट ही है।

§ ५४. देवगतिमे देवोमे मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

विशेषार्थ—देवोमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भयके अन्तिम समयमें तथा वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भयभ्रमके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होकर पुनः सत्य तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विरथोजना होकर पुनः रत्न अन्तिम अवैयक तक ही सम्भव है। आगे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना नहीं होती और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विरथोजना तो होती है पर उन जाँवोका नीचे गिरना सम्भव नहीं होनेसे पुनः सत्य नहीं होता, इसलिए इन उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। इनमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। यहाँ पुरुषवेद आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भयके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर प्रतिपत्त प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है।

§ ५५. भयनवासियोसे लेकर उपरिम अवैयक तकके देवोमे मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा

पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जहणुक्क० एगस० ।

§ ५६. अणुदिसादि जाव सव्वहसिद्धि ति अट्टावीसं पयडीणं जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमाणदभंगो । एव जाव अणाहारए ति णीदे अंतरं समत्तं होदि ।

⊗ **णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जहणुक्कस्सभेदेहि । अट्टपदं काट्टण सव्वकम्ममाणं णेदव्वो ।**

§ ५७. एदस्स सुत्तस्स देसामासियस्स उच्चारणाइरियवक्खवाणं परुवेमो । णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । तत्थ अट्टपदं—अट्टावीसं पयडीणं जे उक्कस्सपदेसस्स विहत्तिया ते अणुक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । जे अणुक्कस्सपदेसस्स विहत्तिया ते उक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । विहत्तिएहि पयदं, अविहत्तिएहि अच्चवट्टारो । एदेण उत्कृष्ट अन्तरं कुळ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ— सामान्य देयोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालको जिसप्रकार घटित करके बतला आये है उसी प्रकार यहा पर भी घटित कर लेना चाहिए ।

§ ५६. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देयोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति और शोक प्रकृतिका भङ्गा आनत कल्पके समान है । इस प्रकार अनाहारके मार्गणा तक ले जाणेपर अन्तरकाल समाप्त होता है ।

विशेषार्थ— किश्यात्व आदि कुछ प्रकृतियोंकी अपके अन्तिम समयमें और कुछकी भवके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं होनेसे उक्तका निषेध किया है । मात्र हास्य आदि चार प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति पर्यायग्रहणके अन्तर्मुहूर्त वाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

⊗ **नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे भङ्गविचय दो प्रकारका है । सो इस विषयमें अर्थपद करके सब कर्मोंका ले जाना चाहिए ।**

§ ५७. यह सूत्र देशामर्षक है । इसके उच्चारणाचार्य द्रुत व्याख्यानका कथन करते हैं— नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियांले जीव हैं वे उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्तियांले है । तथा जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियांले जीव हैं वे उत्कृष्ट प्रदेश विभक्तियांले है । यहां विभक्तियांले जीवोंका प्रकरण है, क्योंकि विभक्तियांलोंका व्यवहार नहीं

अद्वपदेण दुविहो णिहेसो—ओपेण आदेसेण । तत्थ ओपेण अट्ठावीसं पयडीणं उक्कस्सपदेसस्स सिया सव्वे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च २, सिया अविहत्तिया विहत्तिया च ३ । अणुक्कस्सपदेसस्स सिया सव्वे जीवा विहत्तिया १, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च २, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ३ । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्वदेवे त्ति । मणुसअपज्ज० अट्ठावीसं पयडीणं उक्कस्सपदेसविहत्तियाणं अविहत्तिएहि सह अट्ठ भंगा । अणुक्कस्सपदेसविहत्तियाणं पि अविहत्तिएहि सह अट्ठ भंगा वत्तवा । एवं णेदव्वं जाव जणाहारि त्ति ।

है । इस अर्थपदेके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—आंच और आदेश । ओषसे कदाचिन् सब जीव अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-अविभक्तियाले हैं १ । कदाचिन् अविभक्तियाले बहुत जीव हैं और विभक्तियाला एक जीव है २ । कदाचिन् अविभक्तियाले बहुत जीव हैं और विभक्तियाले बहुत जीव हैं । अनुकृष्ट प्रदेशोंकी अपेक्षा कदाचिन् सब जीव विभक्तियाले हैं १ । कदाचिन् बहुत जीव विभक्तियाले हैं और एक जीव अविभक्तियाला है २ । कदाचिन् बहुत जीव विभक्तियाले हैं और बहुत जीव अविभक्तियाले हैं ३ । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सब देवोमें जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तियाले जीवोंके अविभक्तियाले जीवोंके साथ आठ भङ्ग होते हैं । तथा अनुकृष्ट प्रदेश-विभक्तियाले जीवोंके भी अविभक्तियाले जीवोंके साथ आठ भङ्ग करने चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यदा अट्ठाईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले और अविभक्तियाले तथा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तियाले और अविभक्तियाले जीवोंके भङ्ग करके फिर चार गतियोंमें बं वतलाये गये हैं । उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट योगसे होती है । यह सदा सम्भव नहीं है, इसलिए कदाचिन् एक ही जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला नहीं होता, कदाचिन् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तियाला होता है और कदाचिन् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा तीन भङ्ग होते हैं । भङ्ग मूलमें ही पड़े हैं, अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर भी तीन भङ्ग ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कदाचिन् सब जीव अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं, कदाचिन् शेष सब जीव अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं और एक जीव अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका धारक नहीं होता और कदाचिन् नाना जीव अनुकृष्ट प्रदेश-विभक्तिके धारक होते हैं और नाना जीव अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक नहीं होते, इसलिए इस अपेक्षासे भी तीन भङ्ग घन जाते हैं । लब्धपर्याप्त मनुष्योंका ढाड़कर गति मार्गणाके अन्य सब भेदोंमें यह ओष प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओषके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्य अपर्याप्तक यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुकृष्ट दोनों प्रदेशविभक्तियालोंके अपने-अपने अविभक्तियालोंके साथ एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग बन जानेसे उनका संकेत अलगसे किया है । भङ्गोंकी यह पद्धति अनाहारक मार्गणातक अपनी-अपनी विशेषताके साथ घटित हो जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक उक्त प्ररूपणाके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ ५८. जहण्णए पयदं। तं चैव अट्टपदं। णवरि जहण्णमजहण्णं ति भाणिदव्वं। अट्टावीसं पयडीणं जहण्णपदेसविहत्तियाणं तिण्णि भंगा। अजहण्णपदेसविहत्तियाणं पि तिण्णि चैव भंगा। एवं सव्वएोरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्वदेवा ति। मणुसअपज्ज० जहण्णाजहण्ण० अट्ट भंगा। एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति।

एवं णाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो।

§ ५९. संपहि एदेण अहियारेण सूचिदसेसाहियाराणमुच्चारणं भणिस्सामो। भागाभागो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि। उक्कस्से पयदं। दुविहो णिदं सो—ओघेण आदेसेण य। ओपेण छव्वीसं पयडीणमुक्क० पदेसविहत्तिया जीवा सव्व-जीवाणं केव० ? अणंतभागो। अणुक० सव्वजीवाणं केव० ? अणंता भागा। सम्म०-सम्मापि० उक्क० पदेसविहत्ति० सव्वजी० के० ? असंखेज्जदिभागो। अणुक० सव्वजी० के० ? असंखे० भागा। एवं तिरिक्खोघं।

§ ५८. जघन्यका प्रकरण है वही अर्थपद है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुकृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए। अट्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके तीन भङ्ग होते हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके भी तीन भङ्ग होते हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सब देवोंमें जानना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्तकोमें जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग होते हैं। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहले उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंकी अपेक्षा ओघसे और चारो गतिओमें जहाँ जितने भङ्ग सम्भव है वे घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेने चाहिए। मात्र यहाँ उत्कृष्ट और अनुकृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ।

§ ५९. अब इस अधिस्कारमें सूचित हुए शेष व्यधिकारोंकी उच्चारणाका कथन करते हैं। भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? अनन्तवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्त बहुभागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मोहनीयकी सत्तासे युक्त कुल जीव राशि अनन्तानन्त है। उसमेंसे ओघसे इक्कीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात हो सकते हैं। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात हो सकते हैं। शेष सब जीव अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए यहाँ छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

§ ६०. आदेसेण णेरइएसु अट्टावीसं पयडीणं उक्कं सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । अणुक्कं असंखेज्जा भागा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिन्द्रियतिरिक्ख-मणुसं—मणुसअपज्जं—देव-भवणादि जाव अवराइदं ति वत्तव्वं । मणुसपज्जं—मणुस्सिण-सव्वट्टसिद्धेसु अट्टावीसं पयडीणमुक्कं पदे० सव्वजी० केव० ? संखे० भागो । अणुक्कं संखेज्जा भागा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

§ ६१. जहण्णए पयदं । जहण्णए उक्कस्सभंगो । णवरि जहण्णाजहण्णं ति भाणिदव्वं । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

एवं भागाभागो समत्तो ।

§ ६२. परिमाणं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्मे पयदं । दुविहो णिहे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छं वारसकं—अट्टणोको उक्कमपदेसविहत्तिया

प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त बहुभागप्रमाण कहे हैं । संख्यकत्व और सम्यग्भिध्यात्वकी सत्तावाले ही कुल जीव असंख्यात होते हैं । उनमें भी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले चासंख्यातवें भागप्रमाण हो सकते हैं । शेष अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी प्रपञ्चा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यात बहुभागप्रमाण कहे हैं । सामान्य तिर्यञ्च अनन्तप्रमाण हैं, इसलिए इस मार्गणमें ओघ प्ररूपणा बन जानेमें उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ६०. आदेसारे नारकियोमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके बितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, देव और भयनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें कथन करना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वादिभिक्षिके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके बितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव बहुभागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां जिन मार्गणाओंकी संख्या असंख्यात है उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण बतलाये है । तथा जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है उनमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण बतलाये हैं । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६१. जघन्यका प्रकरण है । जघन्यका भू उक्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ६२. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कपाय और आठ नोकपायोंकी

केचिया ? असंखेज्जा । अणुक० पदे० केचि० ? अणता । सम्मत्त०-सम्माभि० उक्क० पदेसवि० केचि० ? संखेज्जा । अणुक० केचि० ? असंखेज्जा । चदुसंज०-पुरिस० उक्क० पदे० केचि० ? संखेज्जा । अणुक० पदे० केचि० ? अणता ।

§ ६३. आदेसेण णिरय० सत्तावीसं पयडीणमुक्क०-अणुक० पदे० केचि० ? असंखेज्जा । सम्मत्त० उक्क० पदे० के० ? संखेज्जा । अणुक० पदे० केचि० ? असंखेज्जा । एवं पढमाए । विद्यादि जाव सत्तमि ति अट्ठावीसं पयडीणमुक्कस्स०-अणुकस्स० केचि० ? असंखेज्जा ।

§ ६४. तिरिक्खवर्गए तिरिक्खेसु छब्बीसं पयडीणं उक्क० पदे० केचि० ? असंखेज्जा । अणुक० केचि० ? अणता । सम्मत्त० उक्क० पदे० केचि० ? संखेज्जा । अणुक० केचि० ? असंखेज्जा । सम्माभि० उक्कस्साणुक० केचि० ? असंखेज्जा ।

उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।

विशेषार्थ आधसे चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणिमे होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । शेष कथना सुगम है ।

§ ६३. आदेशसे नारकियोमे सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीमे लेकर सातवी पृथिवी तकके नारकियोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—यहां सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीके नारकियोंमें कृतकृत्य-वेदकसम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं और इनका अधिकसे अधिक परिमाण संख्यात होता है, इसलिए इनमे सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है । इसी प्रकार आगे भी अपने अपने परिमाण और दूसरी विशेषताओंको जान कर सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण ले आना चाहिए । उल्लेखनीय विशेषता न होनेसे हम अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं ।

§ ६४. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?

पंचिन्द्रियतिरिक्त्व--पंचि० तिरिक्त्वपञ्जत्ताणं पदमपुढविभंगो । पंचिन्द्रियतिरिक्त्व-
जोणिणीणं विदियपुढविभंगो । पंचिन्द्रियतिरिक्त्वअपञ्ज० अद्वावीसं पयडीणमुक्त्सा-
णुक० पदे० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं मणुसअपञ्ज०-भवण०-वाण०-ओदिसिए त्ति ?

§ ६५. मणुसगदि० मिच्छ०-बारसक०-द्वण्णोक० उक्त्साणुक० पदे०
असंखेज्जा । सम्म०-सम्मायि०-चहुसंज०-तिण्णिवेदाणमुक्त्सा० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० पदे० वि० केत्ति० ? असंखेज्जा । मणुसपञ्जत्त०-मणुसिणीसु सव्वहसिद्धि०
अद्वावीसं पयडीणमुक्त्सा०-अणुक० पदेस० केत्ति० ? संखेज्जा ।

§ ६६. देवगदीए देवेषु सोहम्मादि जाव सहस्सरो त्ति पदमपुढविभंगो ।
आणदादि जाव अवरारदो त्ति अद्वावीसं पयडीणं उक्त्सा० पदे० वि० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं गेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

असंख्यात हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमे पहली पृथिवीके समान
भङ्ग हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना
चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोमे कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि
जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान
जाननेकी सूचना की है । परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव
नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी
सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६५. मनुष्यगतिसं मनुष्योंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
चार संख्यलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनु-
त्कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी और
सर्वार्थमिद्धिके देवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने
हैं ? संख्यात हैं ।

६६. देवगतिसं देवोंमें तथा सौधमं कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें पहली
पृथिवीके समान भङ्ग हैं । आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें अट्ठाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—बारहवें कल्प तक तिर्यञ्च भी मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहाँ तकके
देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जानने की सूचना की है । तथा
आनेके देवोंमें मनुष्य ही मर कर उत्पन्न होते हैं, इसलिए अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात प्राप्त होनेसे वहाँ वह उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन
सुगम है ।

§ ६७. जहणणए पयदं । दुविहो णिहं सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छवीसं पयडीणं जह० केत्ति० ? संखेज्जा । अज० केत्ति० ? अणंता । सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्जा । अज० के० ? असंखेज्जा । एवं तिरिक्खाणं ।

§ ६८. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणं जह० के० ? संखेज्जा । अज० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ज०-देव-भवणादि जाव अवरइदो त्ति । मणुसपज्ज०-मणुसिणी-सव्वट्ठसिद्धि० सव्वपदा० के० ? संखेज्जा । एवं णेद्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ६७. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश—ओघसे छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणका समय यथायोग्य स्थानमें होती है । यतः इनकी क्षण करण करनेवाले जीव संख्यात होते हैं । अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त होते हैं यह स्पष्ट ही है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अन्य विशेषताओंके रहते हुए अपनी अपनी उल्लेखनाके अनन्त समयमें होती है । यतः ये जीव भी संख्यात ही होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात होते हैं यह स्पष्ट ही है । सामान्यसे तिर्यञ्च अनन्त होते हैं, इसलिए उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र उनमें स्वामित्वका विचार कर परिमाण घटित करना चाहिए ।

§ ६८. आदेशसे नारकियोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्च त्रिदय तिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवां जानना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थ-सिद्धिके देवांमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोसे लेकर पूर्वोक्त सब मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते हैं, इसलिए सर्वत्र अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । तथा मनुष्य पर्याप्त आदि तीन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है और शेषका असंख्यात है, इसलिए इनमें अपने अपने परिमाणके अनुसार अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवों का परिमाण कहा है ।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

§ ६६. खेताणुगमो दुबिहो—जहण्णओ उक्कस्सओ च । उक्कस्से पयदं । दुबिहो णिहंसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण द्दुव्वीसं पयदीणमुक्कं पदे-विहत्तिया केवडि खेते ? लोगं असंखे-भागे । अणुक्कं केव- ? सव्वलोगे । सम्म-सम्मामि- उक्क-अणुक्कं पदे- केव- ? लोगं असंखे-भागे । एवं तिरिक्खाणं ।

§ ७०. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयदीणमुक्कं-अणुक्कं लोगं असंखे-भागे । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेवा त्ति । एवं णेद्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ७१. जहण्णए पयदं । दुबिहं णिहंसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वपयदीणं जह-अज- उक्कस्साणुक्कस्सपदे-भंगो । एव सव्वमगणामु णेद्वं ।

§ ६६. खेताणुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे द्दुव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—द्दुव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संज्ञी पञ्चन्द्रिय जीव करते हैं और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहां ओघसे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उक्त प्रकृतियोंकी सत्तावाले शेष सब जीवोंके सम्भव हैं और उनका क्षेत्र सर्व लोक है, इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सामान्य तिर्यञ्चोमें यह क्षेत्र घटित हो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७०. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पूर्वोक्त सामान्य नारकी आदि उक्त मार्गणाओका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार विचार कर क्षेत्र घटित किया जा सकता है, इसलिए उन मार्गणाओमें उक्त क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके समान है । इसी प्रकार सब मार्गणाओमें ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सर्वत्र सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वका देखनेसे

§ ७२. पोसणं दुविहं—जहणणमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०-ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयडीणमुक्क० पदेसविहत्तिएहि केवडियं खेतं पोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वलोगो । सम्म०-सम्माणि० उक्क० पदे० केव० ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० लो०ग० असंखे०भागो अट्ठचोदस भागा देसूणा सव्वलोगो वा ।

§ ७३. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणमुक्क० लो०ग० असंखे०भागो । अणुक्क० लो०ग० असंखे०भागो छचोदस भागा देसूणा । एवं सत्तमाए । पढमाए पुढवीए खेतभंगो । विदियादि जाव वडि चि अट्ठावीसं पयडीणमुक्क० खेतं । अणुक्क० लो०ग० असंखे०भागो एक-वे-तिण्णि-चत्तारि-पंचचोदस भागा देसूणा ।

विदित होता है कि इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोका क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोके समान बन जाता है, इसलिए उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७२. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने सर्वे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्वे लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके स्वाभित्त्वको देखनेसे विदित होता है कि उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा छव्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रिय आदि जीवोके भी सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका स्पर्शन सर्वे लोकप्रमाण कहा है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग है, क्योंकि ये जीव पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होते, इसलिए इनका वर्तमान स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण ही प्राप्त होता है । तथा देवोके विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और मारणाण्णतिक व उपपादपदकी अपेक्षा सर्वे लोकप्रमाण बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है ।

§ ७३. आदेशसे नारकियोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए । पहली पृथिवीमे क्षेत्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार और कुछ कम पाँच बटे

§ ७४. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु छव्वीसं पयडीणमुक्क० लोग० असंखे०-
भागो । अणुक्क० सव्वलोगो । सम्म०-सम्मामि० उक्क० खेतं । अणुक्क० लोग०
असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सव्वपंचिदियतिरिक्खेसु अट्टावीसं पयडीणं उक्क०
लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० लोगस्स असंखे०भागो सव्वलोगो वा । एवं
सव्वमणुस्साणं ।

§ ७५. देवगदीए देवेसु अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेतभंगो । अणुक्क० लोग०
असंखे०भागो अट्ट-णवचोइसभागा देसूणा । एवं सोहम्मिसाणाणं । भवण०-वाण०-
जोइसि० अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेतं । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्टुट्ट-अट्ट-

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहां जिस नरकका जो स्पर्शन है उसे ध्यानमे रखकर सब प्रकृतियोंकी
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका अतीत स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ७४. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्भिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे अट्टाईस प्रकृतियों-
की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब मनुष्योंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्च समस्त लोकमे पाये जाते हैं, इसलिए इनमें छव्वीस प्रकृतियोंकी
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका वर्तमान और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । मात्र
सम्यक्त्व और सम्यग्भिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका वर्तमान स्पर्शन लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका वर्तमान
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व-
द्विककी अपेक्षा कही गई विशेषता सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी बन
जाती है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका वर्तमान स्पर्शन
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । सब मनुष्योंमें भी
यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान जाननेकी सूचना की
है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७५. देवगतिमे देवोमे अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके
कुल्ल कम आठ और कुल्ल कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
सौधर्म और ऐशान कल्पमे जानना चाहिए । भवनवासी, ध्यन्तर और ज्योतिषी देवोमें अट्टाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुल्ल कम साढ़े तीन, कुल्ल कम

णवचोइस० देसूणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्सारो ति अट्टावीसं पयडीणं उक्क० खेत्तं । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्टचो० देसूणा । आणदादि जाव अच्चुदो ति अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेत्तं । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो इचोइस० देसूणा । उवरि खेत्तभंगो । एवं णेद्व्वं जाव अणाहारए त्ति ।

§ ७६. जहण्णए पयर्द । दुविहो णिइसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छ्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो । अज० सव्वलोगो । सम्म-सम्मापि० जह० अज० लोग० असंखे०भागो अट्ट-चोइ० देसूणा सव्वलोगो वा ।

§ ७७. आदेसेण णेरइएसु अट्टावीसं पयडीणं ज० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो इचोइस० देसूणा । एवं सत्तमाए । पट्टमाए पुट्टवीए खेत्तभंगो । विदियादि जाव इट्टि ति अट्टावीसं पयडीणं जह० खेत्तं । अज० लोग०

आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंने अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प-तकके देवोंने अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आगे क्षेत्रके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र अपने अपने वर्तमान आदि स्पर्शनको ध्यानमें रख कर सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकार है—ओघ और आदेश । ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति एके-निद्रयादि जीवोंके भी सम्भव है और देवोंके विहारवत्स्वस्थान आदिके समय भी हो सकती है । तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ही, इसलिए इनकी दोनों प्रकारकी प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७७. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग

असंखे० भागो एक-बे-तिण्णि-वतारि-पंचचोइस भागा वा देसूणा ।

§ ७८. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु छव्वीसं पयडीणं जह० खेचं । अज० सब्व-लोगो । सम्म०-सम्माभि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा । सब्व-पंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्सेसु छव्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० लोगस्स असंखेज्जदिभागो सब्वलोगो वा । सम्म०-सम्माभि० जह०-अज० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा ।

§ ७९. देवगदीए देवेसु छव्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइस० देसूणा । सम्म-सम्माभि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइस० देसूणा ।

§ ८०. भवण०-वाण०-जोइसि० वावीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०-

है । दूसरीसे लेकर छठी तककी पृथिवियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार और कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—नारकियोंमें और उनके अवान्तर भेदोंमें उच्छ्र और अनुच्छ्र प्रदेश-विभक्तिकी अपेक्षा जो स्पर्शन घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । आगे भी अपनी अपनी विशेषता जानकर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए ।

§ ७८. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें छव्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ७९. देवगतिमें छव्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तियाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ तथा कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य देवोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति दीर्घ आयुवाले देवोंमें होती है और उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनकी अपेक्षा स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८०. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-

भागो । अज० लोग० असंखे० भागो अद्दुह-अद्द-णवचो० देखूणा । सम्म-सम्मामि० जह०-अज० लोग० असंखे० भागो अद्दुह-अद्द-णवचोदस० देखूणा । णवरि ओदिसि० सम्म०-सम्मामि० जह० लोग० असंखे० भागो अद्दु हा वा अद्दचोद० देखूणा । अणंताणु०४ जह० लोग० असंखे० भागो अद्दु ह-अद्दचोद० देखूणा । अज० लोग० असंखे० भागो अद्दु ह-अद्द-णवचो० देखूणा ।

§ ८१. सोहम्मीसाण० देवोषं । णवरि अणंताणु० चउक० जह० लोगस्स असंखे० भागो अद्दचोद० देखूणा ।

§ ८२. सणक्कुमारादि जाव सहस्सरो ति वावीसं पयडीणं जह० खेवं । अज० लोग० असंखे० भागो अद्दचो० देखूणा । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु० चउक०

वाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्त-वाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देवोमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोमें एकैन्द्रियोमें मारणागतिक समुद्रघात करते समय अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति नहीं होती, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-वाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण नहीं कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८१. सौधमं और णशाण कल्पके देवोमें सामान्य देवोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सौधमद्विकमें विदारवत्स्वस्थान आदिके समय भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति बन जाती है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण भी कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ८२. सनत्कुमारसे लेकर सहस्सार कल्प तकके देवोमें बार्हस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति-

जह०-अज० लोग० असंखे० बांगो अहुचोह० देखूणा । आणदादि जाव अचुदो हि वावीसं पयदीणं जह० खोग० असंखे० भागो । अज० खोग० असंखे० भागो खोह० देखूणा । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु० चउक० जह०-अज० लोग० असंखे० भागो खोह० देखूणा । उवरि खेतभंगो । एवं वेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

❀ सच्चकम्माणं थाणाजीवेहि काखो कायव्वो ।

§ ८३. सुगमवेदं सुत्तं । संपहि एदेण मुत्तेण सूचिदत्थस्स उच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—काखो दुविहो, जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त-वारसक०-अट्ठणोक० उक्क० पदेसवि० जह० एगसमओ, उक्क० आबलि० असंखे० भागो । अणुक० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मामि०-चहुसंज०-पुरिसवेद० उक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अणुक० सव्वद्धा ।

वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोमे बाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनसे ऊपरके देवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग हैं । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

❀ सब कर्मोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल करना चाहिए ।

§ ८३. यह सूत्र सुगम है । अब इस सूत्रसे सूचित हुए अर्थकी उच्चारणा बतलाते हैं । यथा, काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक हो और द्वितीय समयमें न हो यह सम्भव है, इसलिए सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा मिध्यात्व आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी अपेक्षा लगातार असंख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है और शेष सात प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी

§ ८४. आदेशेण षेरइएमु सत्तावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्मच० ओषं । एवं पदमाए । विदियादि जाव सत्तमि ति अहावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा ।

§ ८५. तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ताणं पदमपुढविभंगो । पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीणं विदियपुढविभंगो । एवं पंचिंदिय-तिरिक्खअपज्जत्ताणं ।

§ ८६. मणुस्सगदीए मणुस्स० मिच्छत्त-बारसक०-झण्णोक्क० उक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मामि०-चदुसंजल० तिण्हं वेदाणमुक्क० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अणुक्क० सव्वद्धा । मणुसपज्ज०-मणुसिणीमु अहावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क०

अपेक्षा निरन्तर संख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा ऐसा समय नहीं प्राप्त होता जब किसी प्रकृतिकी सत्ता न हो, इसलिए सबकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वेदा कहा है।

§ ८४. आदेशसे नारकियोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वेदा है। सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक पृथिवीमें अहाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वेदा है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओषके समान बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ८५. तिर्यञ्जगतिये तिर्यञ्ज, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्ज और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्ज पर्याप्त जीवोंमें पहिली पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्ज योनिनी जीवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रारम्भके तीन प्रकारके तिर्यञ्जोमे कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहिली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ८६. मनुष्यगतिये मनुष्योंमें मिथ्यात्व, बारह कक्षय और छह बोक्षायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वेदा है। सम्यक्त्व, सम्मग्मिथ्यात्व, चार संखलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वेदा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोमे अहाईस

संखे० सक्वा । अणुक० सक्वद्धा । एवमाणदादि जाव सक्वहसिद्धि ति ।

§ ८७. मणुसअपज्ज० छ्वीसं पयहीणसुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । अणुक० जह० सुधाभव० समऊणं, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मापि० एवं चेव । णवरि अणुक० जह० एगस० ।

§ ८८. देवगदीए देवाणं पढमपुडविभंगो । एवं सोहम्मादि जाव सहस्सारो ति । भवण०-वाण०-जोइसि० विदियपुडविभंगो । एवं णेद्व्वं जाव अणाहारि ति ।

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंमें जिस प्रकार ओघमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल इनमें अपने स्वामित्वके अनुसार संख्यात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी परिगणना यहाँ सम्यक्व आदिके साथ की है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देव तो संख्यात होते ही हैं । आनतादिमें ये ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय बननेसे उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८९. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग इसीप्रकार है । इनकी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गीणा है । यह सम्भव है कि इस मार्गीणामें नाना जीव जुल्लक भव तक ही रहें । इसलिए इस कालमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवग्रहणप्रमाण बन जानेसे यहाँ छ्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जुल्लक भवग्रहणप्रमाण कहा है । तथा इस मार्गीणाका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल उक्त काल प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व ये उद्धे लना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जानेसे उक्त काल प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ९०. देवगतिमें देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सौधर्मकल्पसे लेकर सहस्वार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गीणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सौधर्मादि देवोंमें भी प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग बन जानेसे इनके समान जाननेकी सूचना की है । तथा भवनत्रिकमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव मर कर

१ ८६. जहणए पयदं । दुविहो णिहसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अद्वावीसं पयडीणं जह० पदे० केव० ? जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अज० सब्बदा । एवं सब्बणिरय-सब्बतिरिक्ख-सब्बमणुस्स-सब्बदेवा त्ति । णवरि मणुस्स-अपज्ज० अद्वावीसं पयडीणं जह० पदे० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अज० जह० खुदाभवग्गहणं समयूणं, सत्तणोकसायाणमंतोमुहुत्तं, सम्म०-सम्मामि० एगस०; सब्बेसिमुक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

❁ अंतरं । णाणाजीवेहि सड्वकम्माणं जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा ।

१ ६०. एदेण सुत्तेण सूचिदजहणुक्कस्संतराणमुच्चारणं वतइस्सामो । तं जहा—

नही उत्पन्न होते, इसलिए इनमे दूसरी पृथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

१ ८६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भव प्रहरणप्रमाण है, सात नोकपायोंका अन्तमुहूर्तप्रमाण है तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिके समय होती है । यह सम्भव है कि एक या अधिक जीव एक समय तक ही इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करे और यह भी सम्भव है कि क्रमसे नाना जीव संख्यात समय तक इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते रहें, इसलिए ओघसे इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । अपने अपने स्वाभित्त्वको देखते हुए सब नारकी आदि मार्गणाओमें यह काल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यअपर्याप्तकोमें विशेषता है । बात यह है कि वह सान्तर मार्गणा है, इसलिए उसमें सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अलग अलग प्राप्त होता है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण प्राप्त होता है । विशेष विचार स्वाभित्त्वको देखकर कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

❁ अन्तर । नाना जीवोंकी अपेक्षा सब कर्पोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

१ ६०. इस सूत्रसे सूचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको उच्चारणके अनुसार बतलाते

अंतरं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अट्ठावीसं पयहीणमुक्कं पदे० जह० एगसगओ, उक्क० अणंतकाख-मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । अणुक्क० णत्थि अंतरं । एवं सब्बणेरइय-सब्बतिरिक्ख-सब्बमणुत्स-सब्बदेवा ति । णवरि मणुसअपज्ज० अट्ठावीसं पयहीणमणुक्कं जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

§ ६१. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण जहा उक्कस्संतरं परुविदं तथा जहण्णाजहण्णंतरपरुपणा परुवेदव्वा ।

§ ६२. सण्णियासो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ

हैं । यथा—अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तक जीवोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ — उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक जीवोंके होती है । यह सम्भव है कि गुणितकर्मांशिकविधिसे आकर एक या नाना जीव एक समयके अन्तरसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अलग अलग उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करें और अनन्त कालके अन्तरसे करें, इसलिए यहाँ आघसे और गति मार्गणाके सब भेदोमे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । यहाँ सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । मात्र मनुष्यअपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमे अपने अन्तरकालके अनुसार अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे जिस प्रकार उत्कृष्ट पदके आश्रयसे अन्तरकाल कहा है उस प्रकार जघन्य और अजघन्य प्रदेश-विभक्तिके अन्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपितकर्मांशिक जीवके होती है, इसलिए सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ६२. सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव

वारसकसाय-इणोफसायाणं नियमा विहितो । तं तु उक्त्सादो अणुक्त्सं वेदाण-
पदिर्दं अन्तभागहीणं असंखेज्जभागहीणं वा । इत्थि-णवुंसयवेदाणं नियमा अणुक्त्स-
विहितो असंखेज्जभागहीणो । इत्थिवेददब्बेण संखेज्जगुणहीणेण होदब्बं, णेरइय-
इत्थिवेदबंधगद्धादो कुरवित्थिवेदबंधगद्धाप लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धा संखेज्जभागबहु-
यागा । एवं संखेज्जगुणत्तादो कुरवेसु इत्थिवेदपूरणकालो एगगुणहाणीए असंखेज्जदि-
यागो ति कट्टु णासंखे०भागहीणत्तं जुत्तं, तत्थ असंखेज्जाणं गुणहाणीणमुवल्लंभादो ।
णोवल्लंभो असिद्धो, 'रदीए उक्त्सदब्बादो इत्थिवेदुक्त्सदब्बं संखेज्जगुणं' इदि उवरि
भण्णमाणअप्पाबहुअसुत्तेण तत्थ असंखेज्जाणं गुणहाणीणमुवल्लंभादो । णवुंसयवेद-
दब्बेण वि संखेज्जभागहीणेण होदब्बं, ईसाणदेवेसु णवुंसयवेदेण त्थावरबंधयद्धं सयल्लं
लद्धण तसबंधगद्धाप पुणो संखेज्जखंडीकदाए लद्धबहुभागत्तादो । कुरवीसाणदेवेसु
इत्थि-णवुंसयवेदाणि आवूरिय णेरइएसुप्पज्जिय उक्त्ससीकयमिच्छत्तस्स असंखे०भाग-
हाणी होदि ति वोत्तुं जुत्तं, तेत्तीसं सागरोवमेसु गल्लिदासंखेज्जगुणहाणिदब्बस्स
णिरयगइसंचयं मोत्तण कुरवीसाणदेवेसु संचिददब्बस्स अब्हाणविरोहादो । तम्हा

वारह कषाय और छह नोकपायोकी नियमसे विभक्तिवाला होता है । किन्तु वह इसकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभागहीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो नियमसे असंख्यातभागहीन प्रदेशविभक्तिवाला होता है ।

शंका — स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा हीन होना चाहिए, क्योंकि नारकियोंमें जो स्त्रीवेदका बन्धक काल है उससे तथा देवकुरु और उत्तरकुरुमे जो स्त्रीवेदका बन्धककाल है उससे प्राप्त हुआ नपुंसकवेदका बन्धक काल संख्यात बहुभाग अधिक देखा जाता है । इसप्रकार संख्यातगुणा होनेसे देवकुरु उत्तरकुरुमे स्त्रीवेदका पूरणकाल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ऐसा मानकर उसे असंख्यातवें भागहीन मानना उचित नहीं है, क्योंकि वहां असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं और उनका प्राप्त होना असम्भव भी नहीं है, क्योंकि रतिके उत्कृष्ट द्रव्यसे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट द्रव्य संख्यातगुणा है इस प्रकार आगे कहे जानेवाले अल्पबहुत्व सूत्रके अनुसार वहाँ असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं । तथा नपुंसकवेदके द्रव्यको भी संख्यातवें भाग हीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके साथ समस्त स्थावर बन्धक कालको प्राप्त करके पुनः त्रसबन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर बहुभाग प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि उत्तरकुरु-देवकुरु और ऐशान कल्पके देवोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पूरकर तथा नारकियोंमें उत्पन्न होकर मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागहानि होती है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तेतीस सागरप्रमाण कालके भीतर असंख्यात गुणहानिप्रमाण द्रव्यके गल जाने पर नरकगतिस्मन्धी सञ्चयको छोड़कर कुरु और ऐशान कल्पके देवोंमें संचित हुए द्रव्यका अवस्थान माननेमें विरोध आता है, इसलिये असंख्यातभागहीनपना नहीं बनता है ?

असंखेज्जभागहीणत्तं ण घट्ठे ति ? ण, कुरवीसाणदेवेसु उक्कस्सीकपइत्थि-ण्णुसयवेव-
दब्बं णेरइप्पुप्पज्जिय उक्कस्ससंकिसेणुक्कइय उक्कस्सीकयमिच्छत्तस्स इत्थि-ण्णुसयवेव-
दब्बाणमसंखे०भागहाणिं पट्ठि विरोहाभानादो । एगगुणहाणीए असंखे०भागपेत्तकालेण
तेवीससागरोवमेसु द्विददव्वमुक्कइय सयलदव्वस्स असंखे०भागमेत्तं चेव तत्थ घरेदि
त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । किं च गुणिदकम्मंसिए 'ववरिणीणं
द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं हेडिणीणं द्विदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं' ति वेयणासुत्तादो
च णव्वदे जहा असंखे०भागो चेव गलदि ति । चहुसंजलण-पुरिसवेद० णियमा
अणुक्क० संखेज्जगुणहीणा । सम्मतसम्माभिच्छत्ताणं णियमा अविहत्तिओ, गुणिद-
कम्मंसियत्तादो । एवं बारसकसाय-इणोक्कसायाणं ।

समाधान—नहीं, क्योंकि कुरूवासी जीवोंमें और गेशान कल्पके देवोंमें उत्कृष्ट किये गये
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके द्रव्यको नारकियोंमें उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संकलेश द्वारा उत्कर्षित करके
जिसने मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट किया है उसके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका द्रव्य असंख्यात
भागहीन होता है इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—एक गुणद्वानिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा तेतीस सागर कालके
भीतर स्थित द्रव्यका उत्कर्षण करके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको ही वहाँ
धारण करता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है । दूसरे गुणितकर्मांशिक जीवमें उपरितन
स्थितियोंके निपेकका उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियोंके निपेकका जघन्य पद होता
है ऐसा जो वेदनासूत्रमें कहा है उससे जाना जाता है कि असंख्यातवों भाग ही गलता है ।

चार संखलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे
अविभक्तिवाला होता है, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव गुणितकर्मांशिक
है । इसी प्रकार बारह कपाय और छह नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वाभी
एक समान है, इसलिए मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ
जिस प्रकारका सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष बन जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य
है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि बारह कपायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी
सागरप्रमाण है और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति संक्रमसे प्राप्त होती है जो चालीस
कोड़ाकोड़ी सागरसे एक आबलि कम है, अतः मिथ्यात्वकी गुणितकर्मांशविधि करते हुए जिस
जीवके तीस कोड़ाकोड़ी सागर व्यतीत हो गये हैं उसके आगे इन कर्मोंकी गुणितकर्मांशविधि
करानी चाहिए । इस प्रकार करानेसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन कर्मोंकी भी
उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त हो जाती है । अन्यथा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन
कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति रहती है । इसी प्रकार इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके
समय मिथ्यात्वकी भी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति घटित कर लेनी चाहिए । यह इन

§ ६३. सम्मामि० उक० पदेसविहतिओ मिच्छत्त-सम्मात्तार्णं णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा । अट्टक०-अट्टणोक० णियथा अणुक० असंखे०भागहीणा । चदु-संज०-पुरिस० णियमा अणुक० संखेज्जगुणहीणा । सम्मतमेवं चेव । जवरि मिच्छत्तं णत्थि । सम्मामि० णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा ।

§ ६४. इत्थिवेद० उक० विहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०--सत्तणोक० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा । चदुसंज०-पुरिस० णियमा अणुक० संखेज्ज०गुणहीणा ।

उन्नीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा परस्पर सन्निकर्षका विचार हुआ । अब रहे शेष कर्म सो इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय तीन वेद और चार संज्वलन कषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती, अतः उस समय इन सात कर्मोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति कही है । जो गुणितकर्मांशिक जीव मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कर रहा है उसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता यह स्पष्ट ही है । शेष कथन परामर्श करके समझ लेना चाहिए ।

§ ६३. सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । आठ कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो नियमसे संख्यातगुणी हीन होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके इसी प्रकार सन्निकर्ष करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता । तथा इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है ।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्मांशिक जीव क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रमण होने पर सम्यग्मिथ्यात्वका और सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यक्त्वमे संक्रमण होने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । इस प्रकार जिस समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनोंका सत्त्व रहता है किन्तु वह अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन अनुकृष्टरूप ही रहता है, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेसे तो असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमे संक्रमण हो लेता है । तथा सम्यक्त्वमे अभी सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यका संक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन कहा है । इसी प्रकार सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन घटित कर लेना चाहिए । इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं रहता यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६४. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है ।

१. ता० प्रती 'असंखे०गुणहीणा' इति पाठः । २. ता० प्रती 'असंखे०गुणहीणा' इति पाठः ।

एवं गर्तुंसयवेदस्स ।

§ ६४. पुरिसवेद० उक्क० पदेसविहत्तिओ चटुसंज० गियमा अणुक्क० संखे०-
गुणहीणा । छण्णोकसाव० गियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । कोपसंज० उक्क०
पदे०विहत्तिओ हेट्टिह्माणं गियमा अविहत्तिओ । तिण्णं संज० गियमा अणुक्क० संखे०-
गुणहीणा । पुरिस० गियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । माणसंज० उक्क० पदेस-
विहत्तिओ हेट्टिह्माणमविहत्तिओ । माया-लोभसंज० गियमा अणुक्क० संखे०गुणहीणा ।
कोधसंज० गियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । मायासंज० उक्क० पदेसविहत्तिओ
लोभसंज० गियमा अणुक्क० संखे०गुणहीणा । माणसंजलण० गियमा अणुक्क०
असंखेज्जगुणहीणा । लोभसंजलण० उक्क० पदे०विहत्तिओ मायासंजलण० गियमा
अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा ।

चार संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

विशेषार्थ—जो जीव बारह कषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके यथाविधि भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके पत्यका असंख्यातवर्षा भागप्रमाण काल जाने पर स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्ति होती है। उस समय मिथ्यात्व आदि बीस प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातवर्षा भागप्रमाण हीन हो जाती है, क्योंकि उस समय तक इनका इतना द्रव्य अधःस्थितिगलना आदिके द्वारा गल जाता है और जिनका अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण सम्भव है उनके द्रव्यका संक्रमण भी हो जाता है। फिर भी यहाँ पर अधःस्थितिगलनाके द्वारा गलनेवाले द्रव्यकी मुख्यता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमें होती है। उसकी मुख्यतासे भी इसी प्रकार सन्निकर्ष प्राप्त होता है, इसलिए उसे स्त्रीवेदकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ६५. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके चार संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। छह नाकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाले जीवके पुरुषवेद और संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता है। तीन संज्वलनोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा पूर्वकी शेष सब प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता है। मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। क्रोधसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभ-संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है। मान-संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है। लोभ-संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति

§ ६६. आदेशेण णेरइएसु मिच्छ० उक्क० पदेसविहृतिओ सोलसक०-द्वण्णो० गियमा विहृतिओ । तं तु वेढाणपदिदा अर्णतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा । तिहं वेदाणं गियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । सम्मत्त०-सम्माभिच्छत्ताण-मविहृतिओ । एवं सोलसक०-द्वण्णोकसायाणं । सम्म० उक्क० पदेसविहृतिओ चारसक०-णवणोक० गियमा अणुक्क० असंखेज्जभागहीणा । सम्मामि० उक्क० पदे०विहृति० सम्म० गियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० गियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । इत्थिवेद० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०-सोलसक०-अट्ठणोक० गियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेदस्स एवं चेव । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहीणा, उक्कट्ठणाए विणा देवेसु होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय छह नोकषाय और चार रांज्वलनका, क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय पुरुषवेद और मान आदि तीन संज्वलन का, मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय शेष तीन संज्वलनोंका, मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट-प्रदेशविभक्तिके समय मान संज्वलन और लोभसंज्वलनका तथा लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके समय मायासंज्वलनका भी सत्त्व रहता है, इसलिए जहाँ जिन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष सम्भव है वह कहा है । मात्र विवर्त्तितकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जिन प्रकृतियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होने पर होती है उन प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति असंख्यात-गुणी हीन पाई जाती है और जिन प्रकृतियोंके स्थितिकाण्डकोंका घात होना शेष रहता है उनकी प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन पाई जाती है ।

§ ६६. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव सोलह कषाय और छह नोकषायोकी नियमसे विभक्तिवाला होता है । किन्तु वह इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाला होता है तो उसके इनकी दो स्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है—या तो अनन्तभाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है या असंख्यातभाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । यह सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके सत्त्व से रहित होता है । इसी प्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायोकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जाना चाहिये । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ऋद्ध कषाय और नौ नोकषायोकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाले जीवके सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यात भाग हीन होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणी हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, क्यों कि उत्कर्षणके बिना

गलिदासंस्वेज्जगुणहाणिशादो । गुणिककम्मंसियउक्कड्ढिमिच्छत्तद्ववे जहासरुवेण सम्मस-
सम्मामिच्छत्तेसु संकंते असंस्वे०भागहीणं किण्ण जायदे ! ण, सम्मादिदिओकड्ढुणाए
धूलीकयहेट्ठिमगोवुच्छामु असंस्वे०गुणहाणिमेत्तासु गलिदासु असंस्वे०गुणहाणिदंसणादो ।
एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवरि सम्म० उक्क० पदे०-
विहत्तियो मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० गियमा अणुक्क० असंस्वे०भागहीणा ।
सम्मामि० गियमा उक्क० । एवं सम्मामि० ।

§ ६७. तिरिक्ख०--पंचिदियतिरिक्ख--पंचि०तिरि०पज्जत्त० देवगदीए देव०
सोहम्मादि जाव उवरिमगेवज्जा ति णेरइयभंगो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु विदिय-
पुढविभंगो । एवं भवण०--बाण०--जोदिसियाणं । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तार्णं
पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि सम्म० उक्क० पदेसविहत्ति० सम्मामि० तं तु
वेट्ठाणपदिदं अणंतभागहीणं असंस्वे०भागहीणं । सेसपदा गियमा अणुक्क० असंस्वे०-
देवोमे असंख्यात गुणहानियो गल जाती है ।

शंका—गुणितकर्मांशिक जीवके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यका उत्कर्षण करके और उसे उसी
रूपमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रान्त कर देने पर इनका द्रव्य असंख्यातभाग हीन क्यों
नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके अपकर्षणके द्वारा अधस्तन गोपुच्छाओंके स्थूल
हां जानेसे असंख्यात गुणहानियोंके गल जाने पर असंख्यातगुणहानि देखी जाती है ।

इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिये । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके
नारकियामे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिकाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नांकपायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियम-
से उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनी है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव
उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सत्त्व नहीं होनेसे उनका सन्निकर्ष नहीं कहा । परन्तु द्वितीयादि
पृथिवियोंमे कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वहाँ सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिके समय सबका सत्त्व स्वीकार किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६८. तिर्यञ्च, पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, देवगतिये सामान्य देव
और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोमे नारकियोंके समान भङ्ग है । पञ्चोन्द्रिय-
तिर्यञ्च योनिनियोमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और
ज्योतिषी देवोमें जानना चाहिए । पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च
पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकाले
जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी
होती है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभाग

भागहीणा । एवं सम्मामि० । एवं मणुस्सअपज्ज० ।

§ ६८. मणुसतियम्मि ओघं । णवरि मणुस्सिणीसु बुरिसवेद० उक्क० पदेस-
विह० इत्थिवेद० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । अणुहिसादि जाव सच्चवट्टसिद्धि
त्ति मिच्छ० उक्क० पदे०वि० सम्मामिच्छत्त-सोलसक०-द्वण्णोक० णियमा तं तु
विद्धानपदिदा अणंतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा । सम्मत्त० णियमा अणुक्क०
असंखे०भागहीणं । तिण्हं वेदाणं णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । एवं
सोलसक०-द्वण्णोक०-सम्मामिच्छत्ताणं । सम्मत्त० उक्क० पदे०विहत्ति० बारसक०-
णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । इत्थिवेद० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०-
सम्मामि०-सोलसक०-अद्वण्णोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । सम्म०

हीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है । शेष प्रकृतियोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोमें इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान
सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो विशेषता सामान्य नारकियोंमें बतला आये हैं वही यहाँ तिर्यञ्च,
पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम
प्रवेयक तकके देवोंमें घटित हो जाती है, इस लिए इनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी
सूचना की है । दूसरी पृथिवीके समान पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी और भयनत्रिकोमें कृतकृत्यवेदक
सम्पत्ति जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उसके
समान जाननेकी सूचना की है । पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक यह मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र
मिध्यादृष्टि जीव होते हैं इसलिए इसमें अन्य प्ररूपणा तो पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान
बन जाने से उनके जाननेकी सूचना की है । किन्तु इसके सिवा जो विशेषता है उसका अलगसे
निर्देश किया है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है यह
स्पष्ट ही है ।

§ ६८. मनुष्यत्रिकोमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुष-
वेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभवाले जीवके स्त्रीवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो
असंख्यातगुणी हीन होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिध्यात्वकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी नियमसे उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभाग हीन होती है या असंख्यातभागहीन
होती है ! सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुण हीन होती
है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यतभागहीन होती है । इसी
प्रकार सोलह कषाय, छह नोकषाय और सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके
मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति

णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा । एवं जनुंस० । पुरिसवेदस्स देवोषं । एवं जेद्वं
जाव अणाहारि चि ।

§ ६६. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओषेण आदेसेण य । ओषेण
मिच्छत्तस्स जहण्णपदेसविहत्तिओ सम्म०-सम्मामि०-एकारसक०-तिण्णिवेद० णियमा
अजहण्ण० असंखेज्जगुणब्भहिया । लोभसंज०-इण्णोको० णियमा अजह० असंखेज्जभाग-
ब्भहिया । सम्मतगुणेण पंचिदिएसु वेद्धान्हिसागरोवमाणि हिंदंतेण संचिदिदिवहुण-
हाणिमेत्तपंचिदियसमयपवद्धानं सगसगजहण्णदब्बादो असंखेज्जगुणत्तं योत्तूण
णासंखेज्जभागब्भहियत्तं, एइदियउक्कस्सजोगादो वि पंचिदियजहण्णजोगस्स असंखे०-
गुणत्तुलंभादो । एत्थ परिहारो बुच्चदे—जदि वि वेद्धान्हिसागरोवमेसु लोभसंजलणं
णिरंतरं बंधंती वि सगजहण्णदब्बादो विसेसाहियं चेव, अप्पदरकालम्मि भीणदब्बादो

होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो
असंख्यातगुणी हीन होती है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।
पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओषसे जो सन्निकर्ष कहा है वह मनुष्यत्रिकमे अविक्ल घटित हो जाता
है, इसलिए उनमे ओषके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यनियोमे पुरुषवेदकी
मुख्यतासे सन्निकर्षमे कुछ विशेषता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । अनुदिश
आदिमे सब देव सम्यग्दृष्टि हांते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवोसे विशेषता होनेके कारण उनमें
सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षका अलगसे निर्देश किया है । विशेष स्पष्टीकरण स्वामित्वको
देखकर कर लेना चाहिए । आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताको
जानकर सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

§ ६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे
भिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व, सम्यग्भिध्यात्व, ग्यारह कषाय और
नीन वेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभ-
संज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग
अधिक होती है ।

शंका—सम्यक्त्व गुणके साथ जो पञ्चेन्द्रियोंमे दो झ्यासठ सागर काल तक परिभ्रमण
करता है उसके सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिप्रमाण पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध अपने
अपने जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणे होते हैं असंख्यातवें भाग अधिक नहीं, क्योंकि
एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट योगसे भी पञ्चेन्द्रिय जीवका जघन्य योग असंख्यातगुणा पाया
जाता है ?

समाधान—यहाँ उक्त शंकाका समाधान करते हैं—दो झ्यासठ सागर कालके भीतर
लोभसंज्वलनका निरन्तर बन्ध करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्यसे वह विशेष अधिक ही होता

भुजगारकालमि संचिदद्वस्स असंखे० भागवभियत्तादो । केसि पि सगजहण-
दव्वादो संखे० भागवभियं संखे० गुणमसंखेज्जगुणं वा किण्ण जायदे ? ण, असंखेज्ज-
भागवभियं चेव, उक्कस्सजोगेण वेत्थावट्ठिसागरोवमाणि परिभमिदसम्मादिट्ठिमि वि
अप्परकालादो भुजगारकालस्स णियमेण विसेसाहियस्सेवुवलंभादो । एदं कुदो उव-
लवभदे । 'णियमा असंखे० भागवभिया' ति उच्चारणाइरियवयणादो । कम्मपदेसानं
भुजगारप्पदरभावो किंणिबंधणो ? ण, मुक्कंधारपवत्तचंदमंदलभुजगारप्पदराणं व
साहावियत्तादो । जदि अप्पदरकालमि भणीमाणदव्वादो भुजगारकालमि संचिद-
दव्वं विसेसाहियं चेव होदि तो त्वविदकम्मंसियदव्वादो गुणितकम्मंसियदव्वेण वि
विसेसाहिएवेव होदव्वं ? ण च एवं, वेदणाए चुण्णिमुत्तेण च सह विरोहादो
ति सच्चं विसेसाहियं चेव, किं तु ण विरोहो, सवयणविरोहं
मोत्तुण तंतंतरत्थेण विरोहाणव्वुवगमादो । वयेणा-चुण्णिमुत्ताणव्वुवएसो

है, क्योंकि अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होता है ।

शंका—किन्हीं जीवोंके अपने जघन्य द्रव्यसे संख्यातवें भाग अधिक, संख्यातगुणा अधिक या असंख्यातगुणा अधिक क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं क्योंकि असंख्यातवें भाग अधिक ही होता है, क्योंकि उद्भृष्ट योगके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके भी अल्पतर कालसे भुजगार काल नियमसे अधिक ही उपलब्ध होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—उच्चारणाचार्यके 'नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक है' इस वचनसे उपलब्ध होता है ।

शंका—कर्म प्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद किस निमित्तसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल और कृष्णपक्षमें चन्द्रमण्डल स्वभावतः बढ़ता और घटता है उसी प्रकार यहाँ पर कर्मप्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद स्वभावसे होता है ।

शंका—यदि अल्पतर कालके भीतर नष्ट होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सञ्चित होनेवाला द्रव्य विशेष अधिक ही होता है तो क्षणिककर्मांशिकके द्रव्यसे गुणितकर्मांशिक जीवका द्रव्य भी विशेष अधिक होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर वेदना और चूर्णिसूत्रके साथ विरोध आता है ?

समाधान—विशेष अधिक है यह सत्य है तो भी वेदना और चूर्णिसूत्रके साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि स्ववचन विरोधको छोड़ कर दूसरे ग्रन्थमें प्रतिपादित अर्थके साथ आनेवाले विरोधको नहीं स्वीकार किया गया है ।

वेदना और चूर्णिसूत्रोंका उपदेश है कि अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे

अप्पदरकालम्म भिज्जमाणदव्वादो भुजगारकालम्म गुणितकम्मंसियविसयम्मि संचिज्जमाणदव्वं कत्थ वि असंखेज्जभागव्वभहियं, कत्थ वि संखेज्जभागव्वभहियं, कत्थ वि संखेज्जगुणव्वभहियं, कत्थ वि असंखेज्जगुणमत्थि । तेण तत्थ गुणितकम्मंसियकालो कम्मट्ठिदिमेत्तो । खविदकम्मंसियम्मि पुण भुजगारकालम्म संचिददव्वादो अप्पदरकालम्म भीणदव्वमसंखे०भागव्वभहियं, कत्थ वि संखेज्जभागव्वभहियं संखेज्जगुणव्वभहियमसंखेज्जगुणव्वभहियं च । एदं कुदो णव्वदे ? कम्मट्ठिदिमेत्तखविदकम्मंसियकालपदुप्पायणादो । उच्चारणाए पुण गुणितकम्मंसियम्मि अप्पदरकालम्म भीणदव्वादो भुजगारकालम्म संचिददव्वं विसेसाहियं चेव । एदं कुदो णव्वदे ? लोभसंजलणस्स जहण्णदव्वादो वेखावट्ठिकालव्वभंतरे पंचिदियजोगेण संचिदं पि लोभसंजलणदव्वं विसेसाहियं चेवे त्ति वयणादो । जदि एवं तो उच्चारणाए कम्मट्ठिदिमेत्तो गुणितकम्मंसियकालो किपट्ठं परुविदो ? भुजगारकालम्म सगअसंखेज्जदिभागमेत्तदव्वसंगहणट्ठं ।

१००. सम्मापिच्छत्तस्स जहण्णपदेसविहत्तिओ पिच्छ०-पण्णारसक०-तिण्णि-

गुणितकर्मांशिकके विपर्ययभुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य कहीं पर असंख्यातवे भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवे भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है । इस लिए वहाँ गुणितकर्मांशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण है । परन्तु क्षपितकर्मांशिकके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुए द्रव्यसे अल्पतर कालके भीतर त्तयको प्राप्त होनेवाला द्रव्य कहीं पर असंख्यातवे भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवे भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्षपितकर्मांशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है । उससे जाना जाता है ।

परन्तु उच्चारणके अनुसार गुणितकर्मांशिकसम्बन्धी अल्पतरकालके भीतर त्तयको प्राप्त हुए द्रव्यसे भुजगारकालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—लोभसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे दो छयासठ सागर कालके भीतर पञ्चेन्द्रिय जीवके योग द्वारा सञ्चित हुआ भी लोभसंज्वलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है । इस वचनसे जाना जाता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उच्चारणमें गुणितकर्मांशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण किसलिए कहा है ?

समाधान—भुजगार कालके भीतर अपना असंख्यातवाँ भाग अधिक द्रव्यका संग्रह करनेके लिए कहा है ।

§ १००. सम्यग्विध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, पन्द्रह कषाय और

वेद० नियमा अज० असंखे०गुणव्यहिया । लोभसंज०-द्वण्णोक० नियमा अज० असंखे०भागव्यहिया । सम्भत्त० नियमा अविह्वत्तिओ । सम्यत्तस्स जहणपदेस-विह्वत्तिओ मिच्छ०-सम्मामि०-एकारसक०-त्तिणिवेदाणं नियमा अज० असंखे०-गुणव्यहिया । लोभसंज०-द्वण्णोक० नियमा अज० असंखे०भागव्यहि० । कारणं पुब्बं परुविदं ति नेह परुविज्जे ।

§ १०१. अणंताणु०कोध० जहणपदे० मान-माया-लोभाणं नियमा तं तु विट्ठाणपदिदा अणंतभागव्यहि० असंखे०भागव्यहिया वा । मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-एकारसक०-त्तिणिवेदाणं नियमा अज० असंखे०भागव्यहिया । लोभ-संज०-द्वण्णोक० नियमा अज० असंखे०भागव्यहिया । एवं मान-माया-लोभाणं । अपक्खत्वाणकोध० जह० पदेसविह्वत्तिओ सत्तकत्तायाणं नियमा विह्वत्तिओ । तं तु वेट्ठाणपदिदा अणंतभागव्यहिया असंखे०भागव्यहिया । तिणिवेदाणं-त्तिणिवेद० नियमा अज० असंखे०गुणव्यहि० । लोभसंज०-द्वण्णोक० नियमा अज० असंखे०-

तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । तथा वह सम्यक्त्वका नियमसे अविभक्तिवाला होता है । सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कपाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । कारण पहले कह आये हैं, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते ।

§ १०१. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सात कपायोकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति या अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । तीन संज्वलन और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । वह शेष प्रकृतियोंका नियमसे

१. आ०प्रती 'असंखे०भागव्यहिया वा । एवं' इति पाठः । २. आ०प्रती 'द्वण्णोक० अज०' इति पाठः ।

भागम्भ० । सैसाणं पयडीणं गियमा अविहत्तिओ । एवं सत्तकसायाणं । कोधसंज० जह० पदेसविहत्तिओ माण-मायासंज० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । लोभसंज० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० । सैसाणं पयडीणं गियमा अविहत्तिओ । माणसंज० जहणपदेसविहत्तिओ मायासंज० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । लोभसंजल० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० । मायासंज० जह० पदेसविहत्तिओ लोभसंज० गियमा अज० असंखे०गुणम्भहिया । सैसाणमविहत्तिओ । लोभसंज० जह० पदे० विह० एकारस०-तिण्णिवेद० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । इण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० ।

§ १०२. इत्थिवेद० जह० पदे०विहत्तिओ तिण्णसंज०-पुरिस० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । लोभसंज०-इण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागम्भहियं । एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेद० जह० पदेस० तिण्णसंज० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । लोभसंज० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० । इस्स० जह० पदे० विहत्तिओ तिण्णसंज०-पुरिसवेद० गियमा अज० असंखे०गुणम्भहि० । लोभसंज०

अविभक्तिवाला होता है। इसी प्रकार सात कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। क्रोधसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मानसंज्वलन और मायासंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियोंका नियमसे अविभक्तिवाला होता है। मानसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। मायासंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। वह शेष प्रकृतियोंका अविभक्तिवाला होता है। लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कपाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है।

§ १०२. लीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभ संज्वलन और छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है। लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है। हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है।

णियमा अजह० असंखे०भागम्भ० । पञ्चणोक० णियमा तं तु वेहाणपदिदा अणत-
भागम्भ० असंखे०भागम्भहि० । एवं पञ्चणोकसायाणं ।

§ १०३. आदेशेण णेरूपसु मिच्छ० जह० पदेसविहत्तियो सम्म०सम्माधि०
णियमा अज० असंखे०गुणम्भहिया । बारसक०णवणोक० णियमा अज० असंखे०-
भागम्भहिया । इत्थिणवुंसयवेदानं होहु णाम असंखे०भागम्भहियत्त, मिच्छत्तं गंतुण
पडिवक्खबंधगद्धाए चरिमसमयम्मिं जहणणसंतकम्मत्तुवल्लंभादो । ण सेसकम्माणं,
तेत्तीससागरावमेसु पंचिदियजोगेण एईदियजोगं पेक्खिदूण असंखे०गुणेण संचिदत्तादो
त्ति ? ण एस दोसो, खविदकम्मंसियजहणणदव्वं पेक्खिदूण गुणिदकम्मंसियभुजगार-
कालम्मिं संचिददव्वस्स असंखे०गुणहीणत्तादो । एदं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव
सण्णियासादो । एवं संते जहणणदव्वदो उक्कस्सदव्वमसंखे०गुणं ति भणिदवेयणा
सुण्णिमुत्तेहि विरोहो होदि त्ति ण पच्चवट्ठेयं, भिण्णोवएसत्तादो । सम्म० जह०

लोभसंञ्चलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक
होती है । पाँच नोकपायोकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है या अजघन्य प्रदेश-
विभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या
तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार पाँच
नोकपायोकी मुख्यतासे सम्मिन्कर्वै जानना चाहिए ।

§ १०३. आदेशसे नारकियोम मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी
अधिक होती है । बारह कपाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है
जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

शंका — स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग अधिक
होती, क्योंकि मिध्यात्वमे जाकर प्रतिपन्न प्रकृतिके बन्धक कालके अन्तिम समयमे जघन्य
सत्कर्म उपलब्ध होता है । परन्तु शेष कर्मोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग
अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि तेत्तीस सागरकी आयुवाले जीवोमे एकेन्द्रिय जीवके योगको
देखते हुए असंख्यातगुणे पञ्चन्द्रिय जीवके योगद्वारा उनका द्रव्य सञ्चित होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षणिकमांशिक जीवके जघन्य द्रव्यको
देखते हुए गुणितकमांशिक जीवके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा हीन
होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ।

समाधान—इसी सम्मिन्कर्वैसे जाना जाता है ।

शंका—ऐसा होने पर जघन्य द्रव्यसे उत्कृष्ट द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन
करनेवाले वेदना चूर्णिसूत्रोंके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भिन्न उपदेश है ।

पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त०-बारसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागम्भहि० ।
सम्मामि०--अणंताणु०चउक० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । सम्मामि० जह०
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त०-बारसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० ।
अणंताणु०चउक० गियमा० अज० असंखे०ज्जगुणम्भहिया ।

§ १०४. अणंताणु०कोध० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त०-बारसक०-णवणोक०
गियमा अज० असंखे०ज्जभागम्भहिया । सम्म०-सम्मामि० गियमा अज० असंखे०-
गुणम्भ० । माण-माया-लोभाणं गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा अणंतभागम्भहिया
असंखे०भागम्भ० वा । एवं माण-माया--लोभाणं । अपच्चक्त्वाणकोध० जह०
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त०-सत्तणोक० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० । सम्म०-
सम्मामि०-अणंताणु०चउक० गियमा अज० असंखे०गुणम्भ० । एकारसक०-भय-
दुगुंझं गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा --अणंतभागम्भहिया असंखे०भागम्भहिया वा ।
एवमेकारसक०-भय-दुगुंझाणं ।

सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

§ १०४ अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व और सात नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १०५. इत्थिवेद० जह० पदेसविहृत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-अट्ठणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भहि० । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० णियमा अज० असंखे०गुणब्भहिया । एवं पुरिस-णयुंसयवेदानं । णयुंसयवेदे जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०भागब्भहियत्तं होदु णाम, पुरिसवेदे पुण जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०-गुणब्भहियत्तं मोत्तूण णासंखेज्जभागब्भहियत्तं, सम्मतं घेतूण तेत्तीससागरोवममेत्तकालं बंधेण विणा अवट्ठिट्ठत्तादो ति ? ण, तेत्तीससागरोवमाणि सम्मतगुणेण अवट्ठिट्ठस्स मिच्छत्तद्वं पि पुरिसवेदजहण्णसंतकम्मियभिच्छत्तद्वत्तादो असंखे०भागहीणं चेव । एदस्साइरियस्स उवदंसेण गुणिद-त्वविदकम्मंसिएसु चरिमणिसेगप्पहुडि विसेसहीण-कमेण हेट्ठा जाव समयाहियआवाहा ति ट्ठिट्ठिं पडि पदेसावट्ठाणादो । कुदो एदं णव्वेदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । अणुलोम-बिलोमपदेसरयणासु का एत्थ सच्चिल्लिया ण णव्वेदे आणाकणिट्ठदाए तेण दोण्हमुवएसाणमेत्थ संगहो कायव्वो ।

§ १०६. इत्थस्स जह० पदेसविहृत्तिओ मिच्छत्त०-वारसक०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भहिया । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० णियमा

§ १०५. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

शंका—नपुंसकवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होवे, परन्तु पुरुषवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुणें अधिकको छोड़ कर असंख्यातवें भाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्वको ग्रहण करके तेतीस सागर प्रमाण काल तक बन्धके विना वह अवस्थित रहता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ अवस्थित रहनेवाले जीवके जां मिथ्यात्वका द्रव्य होता है वह भी पुरुषवेदके जघन्य सत्कर्मवाले जीवके मिथ्यात्वके द्रव्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम ही होता है । इस आचार्यके उपदेशानुसार गुणितकर्मांशिक और क्षुण्णितकर्मांशिक जीवके अन्तिम निषेकसे लेकर नीचे एक समय अधिक आवाधाकालके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके प्रति विशेष हीन क्रमसे प्रदेशोंका अवस्थान पाया जाता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है ?

अनुलोम और विलोम प्रदेशरचनाके मध्य कौनसी प्रदेशरचना समीचीन है यह उत्तरोत्तर जिनवाणीके क्षीण होते जानेसे ज्ञात नहीं होता, इसलिए दोनों उपदेशोंका यहाँ पर संग्रह करना चाहिए ।

§ १०६. हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कषाय और सात नोकपायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

अज० असंखे०गुणब्भ० । रदि० णियमा तं तु विट्ठाणपदिदा अणंतभागब्भ०
असंखे०भागब्भहिया वा । एवं रदीए ।

§ १०७. अरदि० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छ०-वारसक०-सत्तणोक० णियमा
अज० असंखे०भागब्भहिया । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक० णियमा अज०
असंखे०गुणब्भ० । सोग० णियमा तं तु विट्ठाणपदिदं अणंतभागब्भ० असंखे०-
भागब्भ० वा । एवं सोगस्स । एवं सत्तमाए । पढमादि जाव द्दिट्ठि ति एवं चेव ।
णवरि इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहणणपदेसवि० अणंताणु०चउक० अविहत्तिओ ।

§ १०८. तिरिक्खवादीए तिरिक्खाणं पढमपुढविभंगो । णवरि इत्थि-णवुंसय-
वेद० जह० विहत्तिओ मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं णियमा
अविहत्तिओ । एवं पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्जत्ताणं । पंचि०तिरि०जोणिणीणं
पढमपुढविभंगो ।

§ १०९. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त० जह० पदेसविहत्तिओ सम्म०-
सम्मामि० णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । सोलसक०-भय-दुगुञ्ज० णियमा तं तु
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हांती है
जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और
अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित
होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी
प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

§ १०७ अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कपाय और सात
नाकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हांती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हांती है जो
असंख्यातगुणी अधिक हांती है । शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य
प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति हांती है तो वह दो स्थान पतित हांती
है । या तो अनन्तवें भाग अधिक हांती है या असंख्यातवें भाग अधिक हांती है । इसी प्रकार
शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।
पहिलीसे लेकर छठी पृथिवी तक इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसक-
वेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाला हांता है ।

§ १०८. तिर्यञ्चगतिये तिर्यञ्चोंका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व
और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अविभक्तिवाला हांता है । इसी प्रकार पञ्चन्द्रिय
तिर्यञ्च और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त जीवोंके जगनना चाहिए । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें
पहिली पृथिवीके समान भङ्ग है ।

§ १०९. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति हांती है जो असंख्यातगुणी

विद्याणपदिदा—अणंतभागम्० असंखे०भागम्० वा । सप्तणो० गियमा अज० असंखे०भागम्० । एवं सोलसक०-अय-दुर्गुद्धाणं ।

§ ११०. सम्म० जह० पदेसविहत्तिओ सम्मामि० गियमा अज० असंखे०-गुणम्० । मिच्छ०-सोलसक०-णवणो० गियमा अज० असंखे०भागम्० । एवं सम्मामि० । णवरि सम्मत्तस्स गियमा अविहत्तिओ ।

§ १११. इत्थिवेद० जह० पदे०वि० सम्म०-सम्मामि० गियमा अज० असंखे०गुणम्० । मिच्छ०-सोलसक०-अट्ठणो० गियमा अज० असंखे०भागम्० । एवं पुरिस-णवुंसयवेदानं ।

§ ११२. हस्सस्स जह० पदेसविहत्तिओ रदि० गियमा तं तु विद्याणपदिदा—अणंतभा० असंखेज्जभागम्भिया वा । सेसमित्थिवेदभंगो । एवं रदीए ।

§ ११३. अरदि० जह० पदे०विहत्तिओ सोग० गियमा तं तु विद्याणपदिदं । सेसं हस्सभंगो । एवं सोगस्स । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

अधिक होती है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सात नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यता सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११०. सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिध्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । मिध्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यह सम्यक्त्वकी नियमसे अविभक्तिवाला होता है ।

§ १११. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । मिध्यात्व, सोलह कपाय और आठ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११२. हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । शेष भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११३. अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । शेष भङ्ग हास्यके समान है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

§ ११४. मणुसमदीए मणुस्साणमोघं । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० जम्हि जम्हि भणदि तम्हि णियमा अज० असंखे०भागब्भिया । इत्थिवेद० जह० पदे०विहत्तिओ णवुंस० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० ।

§ ११५. मणुसिणीमु ओघं । णवरि पुरिसवेद-णवुंसयवेद० जम्हि जम्हि भणदि तम्हि तम्हि णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । णवुंस० जह० पदे०विहत्तिओ इत्थिवेद० किं जहण्णा किमजहण्णा ? णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । पुरिसवेद० जह० पदे०विहत्तिओ एकारसक०-इत्थिवेद० णियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । लोभसंज०-सत्तणोक्क० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एत्थ लोभसंजलण-पुरिसवेदाणमधापवत्तकरण्णरिममए जहण्णसामित्ते अवसिद्धे संते तेसिमण्णोणं पेक्खियूण तं तु विहाणपदिदा त्ति वत्तव्वे असंखे०भागब्भइयत्तणियमो किंणिबंधणो त्ति चित्ति वत्तव्वं ।

§ ११६. देवगदीए देवाणं तिरिक्खोघं । भवण०-वाण०-जोदिसि० पढम-पुडविभंगो । सोहम्मोसाणप्पहुडि जावुरिमगेवज्जो त्ति देवोयो । अणुहिसादि जाव सव्वहसिद्धि त्ति मिच्छ० जह० पदे०विहत्तिओ सम्म०-सम्मामि० णियमा तं तु

§ ११४. मनुष्यगतिमें मनुष्योका भङ्ग आघके समान है । मनुष्य पर्याप्तकामे इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद जहाँ जहाँ कहा जाय वहाँ वहाँ यह नियमसे अजघन्य असंख्यातवर्ग भाग अधिक होता है । स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके नपुंसकवेद प्रदेशविभक्ति स्यान् है और म्यान् नहीं है । यदि है तो नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

§ ११५. मनुष्यनियोमे आघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रदेशविभक्ति जहाँ जहाँ कही जाय वहाँ वहाँ नियमसे अजघन्य असंख्यातवर्ग भाग अधिक होती है । नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके स्त्रीवेद प्रदेशविभक्ति क्या जघन्य होती है या अजघन्य होती है ? नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है । पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय और स्त्रीवेदकी नियमसे असंख्यातगुणी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । लोभसंज्वलन और मात नोकषायोंकी नियमसे असंख्यातवर्ग भाग अधिक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यहाँ पर लोभसंज्वलन और पुरुषवेदका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे जघन्य स्वामित्व अवशिष्ट रहने पर परस्पर देखते हुए उनकी परस्पर जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । उसमें भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है इस प्रकार कथन करने पर असंख्यातवर्ग भाग अधिकका नियम किंनिमित्तक होता है इस बातका विचार कर कथन करना चाहिए ।

§ ११६. देवगतिमें देवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर उपरिम प्रवेयक तक दोनोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथैसिद्धितकके देवोंमें

विहाणपदिदा-अणंतभागब्भ० असंखे०भागब्भ० वा । बारसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं ।

§ ११७. अणंताणु०कोष० जह० पदे०विहत्तिओ पिच्छ०-सम्म०-सम्माधि०- बारसक०-णवणोक० णियमा [अजह०] असंखे०भागब्भ० । माण-माया-लोहाणं णियमा तं तु विहाणपदिदा—अणंतभागब्भ० असंखे०भागब्भहिया वा । एवं माण-माया-लोहाणं ।

§ ११८. अपच्चक्खाणकोष० जह० पदे० एकारसक०-पुरिस०-भय-हुगुंछ० णियमा तं तु विहाणपदिदा—अणंतभाग० असंखे०भागब्भहिया वा । छण्णोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवमेकारसक०-पुरिसवेद-भय-हुगुंछाणं ।

§ ११९. इत्थिवेद० जह० पदे०विहत्तिओ बारसक०-अट्ठणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवं णवुंसयवेदस्स । हस्स० जह० पदे०विहत्तिओ बारसक०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । रदि० णियमा तं तु

मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवे भाग अधिक होती है या असंख्यातावे भाग अधिक होती है । बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११७. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी जघन्य प्रदेश-विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवे भाग अधिक होती है, या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११८. अपत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । छह नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११९. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और आठ नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कपाय और सात नोकपायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें

विद्यापदिदा—अणंतभागम्भ० असंखे०भागम्भहिया वा । एवं रदीए ।

§ १२०. अरदि० जह० पदे०विहत्तिओ बारसक०-सत्तणो० गियमा अज० असंखे०भागम्भ० । सोगस्स गियमा० तं तु विद्यापदिदा—अणंतभागम्भ० असंखे०भागम्भ० वा । एवं सोगस्स । एवं जाणिदूण णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

§ १२१. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

❀ अण्पावहुअं ।

§ १२२. सुगममेदं ।

❀ सव्वत्थोवमपण्णक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससं तकम्मं ।

§ १२३. सत्तमाए पुढवीए गुण्णिकम्मंसियणेइयम्मि तेत्तीसाउअचरिमममए वट्टमाणम्मि जदि वि उक्कस्सं जादं तो वि थोवं, साहावियादां ।

भाग अधिक होती है । रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश-विभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तत्वं भाग अधिक होती है या असंख्यातत्वं भाग अधिक होती है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १२०. अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कषाय और सात नोकषायोकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातत्वं भाग अधिक होती है । शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तत्वं भाग अधिक होती है या असंख्यातत्वं भाग अधिक होती है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानकर ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले जघन्य स्वामित्वका निर्देश कर आये हैं । उसे देखकर ओघ और आदेशसे जघन्य सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए । जहाँ कुल विशेषता है या तन्त्रान्तरसे भिन्न मतका निर्देश किया है वहाँ वीरसेनस्वामीने उसका अलगसे विचार किया ही है ।

इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

§ १२१. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

❀ अण्पावहुत्व ।

§ १२२. यह सूत्र सुगम है ।

❀ अपत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ १२३. सातवीं पृथिवीमे गुणितकर्मांशिक नारकीके तेतीस सागर आयुके अन्तिम समयमें विद्यमान रहते हुए यद्यपि अपत्याख्यान मानका द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी वह स्तोक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

❁ कोषे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२४. पुक्खिलमुत्तादो अपच्चक्खाणं ति अणुवट्टदे तेण अपच्चक्खाण-कोषे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ति संबंधो कायव्वो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलि० असंखे० भागेण माणदब्बे खंडिदे तत्थ पयस्वंडमेत्तो । एदं कुदो णव्वदे ? सुत्ताविरोहिआइरियवयणादो ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२५. जादि वि एकम्मि चेव द्वाणे पदेससंतकम्ममुक्कस्सं जादं तो वि कोष-पदेसग्गादो मायापदेसग्गमावलियाए असंखे० भागपडिभागेण विसेसाहियं । कुदो ? साहावियादो ।

❁ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२६. केत्तियमेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागपडिभागेण ।

❁ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२७. कं० मेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागेण लोभदब्बे खंडिदे तत्थ पयस्वंडमेत्तेण । कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२४. पूर्वोक्त सूत्रसे अप्रत्याख्यान इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए । विशेषका प्रमाण कितना है ? अप्रत्याख्यान मानके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सूत्राधिकरुद्ध आचार्यवचनसे जाना जाता है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२५. यद्यपि एक ही स्थानमें प्रदेशसत्कर्म उत्कृष्ट हुआ है तो भी क्रोधके प्रदेशाग्गसे मायाका प्रदेशाग्र आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२६. कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❁ उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२७. कितना अधिक है ? लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर वहां जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि यह भिन्न प्रकृति है ।

- ❁ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १२८. सुगमं ।
- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १२९. सुगमं ।
- ❁ लोभस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १३०. सुगमं ।
- ❁ अण्णाणुबधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १३१. सुगमं ।
- ❁ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १३२. सुगमं ।
- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १३३. सुगमं ।
- ❁ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
§ १३४. सुगमं ।
- ❁ सम्माभिच्छुत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
- ❁ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १२८. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १२९. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे प्रत्याख्यान लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १३०. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १३१. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १३२. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १३३. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
§ १३४. यह सूत्र सुगम है ।
- ❁ उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३५. सत्तयाए पुढवीए अणंताणुबंधिलोभद्वस्सद्ववादो आवलि० असंखे०भागपडिभागेण अण्वाभियमिच्छत्तुक्कस्सदव्वपमाणत्तादो । सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिय तसकाइएसु उप्पज्जिय तत्थ तसद्धिदि समाणिय पुणो एदिएसु दो-विण्णि-भवग्गहणाणि गमिय मणुस्सेसुवज्जिय तत्थ अंतोमुहुत्तण्णभियअट्ठवस्साणि गमिय सम्मतं पडिवज्जिय मिच्छत्तदव्वे सम्माभिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्माभिच्छत्तपदेसग्ग-मुक्कस्सं होदि । ण च एदं दव्वमणंताणुबंधिलोभद्ववादो विसेसाहियं, सम्मतसरूवेण असंखेज्जपल्लिदोवमपट्टमउग्गमूलमेतसमयपबद्धाणं गयत्तादो' गुणसेडिणिज्जराए पडि-समयमसंखे०गुणं समयपद्धाणं गलिदत्तादो च ? ण, दोहि वि पयारेहि णट्ठदव्वस्स अणंताणुबंधिलोभद्ववे आवलियाए असंखे०भागेण खंडेदे तत्थ एयखंडमेत्तमिच्छत्त-पयडिविसेसस्स असंखे०भागमेत्तदसणादो । तं पि कुदो ? सम्मतदव्वस्स गुण-संकमभागहारेण खंडिदमिच्छत्तदव्वस्स एयखंडपमाणत्तादो । गुणसेडिणीए णट्ठदव्व-भागहारस्स गुणसंकमभागहारं पेक्खिदूण असंखेज्जगुणत्तादो च । तम्हा अणंताणु-बंधिलोभद्ववादो सम्माभिच्छत्तदव्वं विसेसाहियं ति सिद्धं ।

§ १३५. क्योंकि सातवीं पृथिवीमें अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट द्रव्यमें आवलिके असंख्यातबे भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उनना मिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्वमें अधिक पाया जाता है ।

शंका—सातवीं पृथिवीसे निकल कर और त्रसकार्थिकोंमें उत्पन्न होकर वहां त्रसस्थिति-का समाप्त करके पुनः एकेन्द्रियमें दो तीन भव बिताकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर वहां अन्त-मुहूर्त अधिक आठ वर्ष जाने पर सम्यक्त्वका प्राप्त करके मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त होता है । परन्तु यह द्रव्य अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यसे विशेष अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण समयप्रवृद्ध सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे परिणत हो जाते हैं और गुणश्रेणित्तिर्जराके द्वारा प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणं समयप्रवृद्धोंका गलन हो जाता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकारों से जो मिथ्यात्वका द्रव्य नष्ट होता है वह अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातबे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे तत्रमात्र मिथ्यात्व प्रकृति विशेषके असंख्यातबे भागमात्र देखा जाता है ।

शंका—वह भी क्यों है ?

समाधान—क्योंकि गुणसंकमभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यके भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे तत्रमात्र सम्यक्त्वका द्रव्य है और गुणश्रेणिके द्वारा नष्ट होनेवाले द्रव्यका भागहार गुणसंकमभागहारको देखते हुए असंख्यातगुणा है, इसलिए अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ ।

❁ सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३६. सम्मामिच्छतादो सम्मत्तस्स विसेसाहियत्तं ण घट्ठे, षुण्णिकम्मसिय-
च्छत्तवेणोगंतुण पणुस्सेसुववज्जिय अट्ट वस्साणि गमिय पुणो दंष्ट्रणमोहं स्ववेंतेण
मिच्छत्तदव्वे सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मामिच्छत्तमुक्कस्सं होदि । पुणो तत्तो
उबार अंतोमुहुत्तं गुणसेट्ठिणिज्जराए सम्मामिच्छत्तदव्वस्स णिज्जरणं करिय पुणो
सम्मामिच्छत्ते सगुक्कस्सदव्वादो असंखे०भागहीणे सम्मतस्सुवरि पक्खित्ते सम्मत-
दव्वस्सुक्कस्सत्तुवलंभादो त्ति ? ण एस दोसो, सम्मामिच्छत्ते उक्कस्से जदि संते पच्छा
गुणसेट्ठिणिज्जराए णिज्जरिदसम्मामिच्छत्तदव्वादो पुवं सम्मत्तसरूवेण ट्ठिददव्वस्स
असंखे०गुणत्तुवलंभादो । ण च असंखेज्जगुणत्तमसिद्धं, ओक्कट्टुक्कट्टुणभागहारदो गुण-
संकमभागहारस्स असंखे०गुणहीणत्तणेण तस्मिद्धिदंसणादो ।

❁ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३७. भवट्ठिदीए चरिमसमयट्ठिदसत्तमपुट्टविणेइयमिच्छत्तुक्कस्सदव्वं
पेक्खिदूण सम्मतुक्कस्सदव्वम्मि गुणसेट्ठिणिज्जराए णिज्जिण्णपल्लिदोवमस्स असंखेज्जिदि-
भागमेत्तसमयपबद्धानमूणत्तुवलंभादो ।

❁ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

❁ उससे सम्पक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३६. शंका—सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे सम्यक्त्वका द्रव्य विशेष अधिक घटित नहीं
होता, क्योंकि गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और आठ वर्ष बिताकर
पुनः दर्शनमोहका क्षण करनेवाले उसके द्वारा मिध्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिध्यात्वमे प्रक्षिप्त करने
पर सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य उत्कृष्ट होता है । पुनः उसके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक गुणश्रेणि-
निर्जराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यकी निर्जरा करके पुनः अपने उत्कृष्ट द्रव्यके असंख्यातवें भागहीन
सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यके सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट होनेके बाद
गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य निर्जीर्ण होता है तो भी उस द्रव्यके निर्जीर्ण होनेके
पूर्व ही उससे सम्यक्त्वरूपसे स्थित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है । और उसका
असंख्यातगुणा होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे गुणसंकमभागहार
असंख्यातगुणा हीन होता है, इससे उसके निर्जीर्ण होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुणे होनेकी सिद्धि
हो जाती है ।

❁ उससे मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३७. क्योंकि भवस्थितिके अन्तिम समयमे स्थित हुए सातवीं पृथिवीके नारकीके
मिध्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यको देखते हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा निर्जीर्ण
होनेसे पत्यके असंख्यातवें भागमे जितने समय हों उतने समयप्रबद्धप्रमाण कम पाया जाता है ।

❁ उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

१३८. कुदो ? देसघादितादो । पुव्वुत्तासेसपयडीओ जेण सव्वघाइल्लव्वणाओ तेण तासिं पदेसग्गं हस्सपदेसग्गस्स अणंतिमभागो ति भणिदं होदि । जदि सव्वघाइफहयाणं पदेसग्गमणंतिमभागो होदि तो हस्सस्स देसघादिफहयपदेसग्गस्स अणंतिमभागोण तस्सव्वघादिफहयाणं पदेसग्गोण होद्वं ? होदु णाम, देसघादिफहएसु अणंताणमणुभागपदेसग्गुणहाणीणं संभवुवलंभादो ।

❁ रवीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३९. केतियमेतेण ? हस्ससव्वदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेतेण । दोण्हं पयडीणं बंधगद्धासु सरिसासु संतीसु कुदो रदिपदेसग्गस्स विसेसाहियणं ? ण, हुकमाणकाले एव तेण सरुव्वेण हुकणुवलंभादो ।

❁ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

१४०. इत्थिवेदबंधगद्धादो जेण हस्स-रदिबंधगद्धा संखे०गुणा तेण रदिदव्वस्स संखे०भागेण इत्थिवेददव्वेण होदव्वमिदि ? सच्चं, एवं चेव जदि कुरवे मोत्तुण अण्णत्थ इत्थिवेददव्वस्स संचओ कदो । किंतु कुरवेसु हस्स-रदिबंधगद्धादो इत्थिवेद-

१३८. क्योकि यह देशघाति प्रकृति है । यतः पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सर्वघाति हैं, अतः उनके प्रदेश हास्यके प्रदेशोंके अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यदि सर्वघाति स्पर्धकोंके प्रदेश अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं तो हास्यके प्रदेशाप्रके अनन्तवें भागप्रमाण उसके सर्वघातिस्पर्धकोंके प्रदेश होने चाहिए ?

समाधान—होवें, क्योकि देशघाति स्पर्धकोंमें अनन्त अनुभाग प्रदेश गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं ।

❁ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३९. कितना अधिक है ? हास्यके सब द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

शंका—दोनों प्रकृतियोंके बन्धक कालोंके समान होने पर रतिका प्रदेशाप्र विशेष अधिक कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योकि, बन्ध होनेके समयमें ही उस रूपसे उसका बन्ध उपलब्ध होता है ।

❁ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

१४०. शंका—स्त्रीवेदके बन्धक कालसे यतः हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यातगुणा है, अतः रतिके द्रव्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्त्रीवेदका द्रव्य होना चाहिए ?

समाधान—सत्य है, यदि कुरूको छोड़कर अन्यत्र स्त्रीवेदके द्रव्यका सञ्चय किया है तो इसी प्रकार ही सञ्चय होता है । किन्तु देवकुरु और उत्तरकुरुमें हास्य और रतिके बन्धक कालसे

बंधगद्धा संखे०गुणा, लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धाबहुभागत्तादो । इत्थिवेदस्स च कुरवेसु संषओ कदो । तेण रदिदब्वादो इत्थिवेददब्बं संखेज्जगुणं ति सिद्धं ।

❀ सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४१. कुदो ? कुरवित्थिवेदबंधगद्धादो तत्थतणसोगबंधगद्धाए विसेसाहियत्तादो । केत्थियमेत्तो विसेसो ? इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०भागमेत्तो ।

❀ अरयीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४२. केत्थियमेत्तेण ? सोगदब्बे आवलियाए अंसंखे०भागेण खंडिदे तत्थ पयखंडमेत्तेण ।

❀ णवुंसयवेदउक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४३. कुदो ? ईसाणदेवअरदि-सोगबंधगद्धादो तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्धाए विसेसाहियतुवलंभादो । केत्थियमेत्तो विसेसो ? हस्स-रदिबंधगद्धं संखेज्जखंडं करिय तत्थ बहुखंडमेत्तो ।

❀ दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४४. ईसाणदेवसु णवुंसयवेदबंधगद्धादो दुगुंछाबंधगद्धाए ईसाणं गदिय-

स्त्रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा हैं, क्योंकि वहां पर नपुंसकवेदके बन्धक कालकी अपेक्षा स्त्रीवेदका बन्धक काल बहुभागप्रमाण उपलब्ध होता है और देवकुरु तथा उत्तरकुरुने स्त्रीवेदका सम्बन्ध प्राप्त किया गया है, इसलिए रतिके द्रव्यसे स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है ।

❀ उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४१. क्योंकि देवकुरु और उत्तरकुरुने प्राप्त होनेवाले स्त्रीवेदके बन्धक कालमें वहां पर शोकका बन्धक काल विशेष अधिक है । विशेषका प्रमाण किनना है ? स्त्रीवेदके बन्धक कालके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

❀ उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४२. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आचलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ उससे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४३. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें प्राप्त होनेवाले अरति और शोकके बन्धक कालसे वहां पर नपुंसकवेदका बन्धक काल विशेष अधिक उपलब्ध होता है । विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके बन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण है ।

❀ उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४४. क्योंकि ईशान-कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके बन्धक कालसे जुगुप्साका बन्धक

पुरिसवेदबंधगद्दामेत्तेण विसेसाहियत्तुवलंभादो ।

✽ भये उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४५. केत्तियमेत्तेण ? दुगुंद्दादव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

✽ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४६. केत्तियमेत्तेण ? भयदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

✽ कोहसंजलण्णे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १४७. को गुणगारो ? सादिरेयद्वरूवाणि । तं जहा—मोहणीयदव्वस्स अद्धं नोकसायभागो $\frac{१}{२}$ । कसायभागो वि एत्तिओ चेव । तत्थ हस्स-सोगाणमगे, रदि-अरदीणमगे, भयस्स अण्णेगो, दुगुंद्दाए अवरगे, वेदस्स अण्णेगो ति । एवं नोकसायदव्वे पंचहि विहत्ते पुरिसवेददव्वं मोहणीयदव्वस्स दसमभागमेत्तं $\frac{१}{१०}$ । कोहसंजलणदव्वं

काल इशान कल्पमे गये हुए जीवोके स्त्रीबेद और पुरुषवेदके बन्धक कालप्रमाण होनेसे विशेष अधिक उपलब्ध होता है ।

✽ उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४५. कितना अधिक है ? जुगुप्साके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

✽ उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४६. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

✽ उससे क्रोध संज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १४७. गुणकार क्या है ? साधिक छठ अंक गुणकार है । यथा—मोहनीयके द्रव्यका अर्थ भागप्रमाण नोकपायका द्रव्य है $\frac{१}{२}$ । कपायका हिस्सा भी इतना ही है । नोकपायोंके द्रव्यमेंसे हास्य और शोकका एक भाग है, रति और अरतिका एक भाग है, भयका अन्य एक भाग है, जुगुप्साका अन्य एक भाग है और वेदका अन्य एक भाग है । इस प्रकार नोकपायके द्रव्यमे पाँचका भाग देने पर पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है $\frac{१}{१०}$ । क्रोधसंज्वलनका द्रव्य भी मोहनीयके द्रव्यके पाँच षटे आठ भागप्रमाण प्राप्त होता है,

१. ता० प्रती 'हस्ससोगाणमगे भयस्स अण्णेगो' इति पाठः ।

२. ता० प्रती $\frac{२}{१०}$ । 'कोहसंजलणदव्वं' इति पाठः ।

पि मोहणीयदव्वस्स पंचद्वभागमेत्तं,संगहिदसयलणोकसायदव्वत्तादो $\frac{५}{८}$ । पुब्बिन्ल-

पुरिमवेददव्वेण एदम्मि कोधदव्वे भागे हिदे सादियेत्तुत्तुवाणि गुणगारो होदि ।

❁ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४८. के०मेत्तेण ? सगपंचमभागमेत्तेण ।

❁ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४९. के०मेत्तेण ? सगद्वभागमेत्तेण ।

❁ लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५०. के०मेत्तेण ? सगसत्तमभागमेत्तेण ।

❁ णिरयगदीए सब्वत्थोवं सम्मामिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ १५१. कुदो ? गुणिकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तमुक्कस्सं काहिदि ति विवरीयं गंतूण उवसमसम्पत्तं पांडवज्जिय

क्योंकि इसमें नोकपायका समस्त द्रव्य सम्मिलित है $\frac{५}{८}$ । इसलिए पूर्वोक्त पुरुषवेदके द्रव्यका

इस कोषके द्रव्यमे भाग देने पर साधिक छह अंशप्रमाण गुणकार होता है ।

उदाहरण— $\frac{५}{८} \div \frac{१}{१०} = \frac{५}{८} \times \frac{१०}{१} = \frac{५०}{८} = ६ \frac{१}{४}$ । इससे स्पष्ट है कि पुरुषवेदके द्रव्यसे

कोष संज्वलनका द्रव्य साधिक छह गुणा है ।

❁ उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४८. कितना अधिक है ? अपने पाँचवें भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण—कोधसं० $\frac{५}{८} \div \frac{१}{८} = \frac{६}{८}$ मानसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❁ उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४९. कितना अधिक है ? अपने छठे भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण— $\frac{६}{८} \times \frac{१}{६} = \frac{१}{८}$; $\frac{६}{८} \div \frac{१}{६} = \frac{१५}{८}$ मायासंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❁ उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५०. कितना अधिक है ? अपने सातवें भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण— $\frac{७}{८} \times \frac{१}{७} = \frac{१}{८}$; $\frac{७}{८} \div \frac{१}{७} = \frac{४९}{८}$ लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❁ नरकगतियें सम्पत्तिमध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोके है ।

§ १५१. क्योंकि गुणितकर्मांशिकविधिसे आकर और सातवीं पृथिवीमें उपन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वको उत्कृष्ट करेगा पर विपरीत जाकर और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर

सामित्तचरिमसमए द्विदजीवम्मि मिच्छत्तपदेसगं पलिदोवमस्स असंखे० भागमेत्तगुण-
संकमभागहारेण खंडिय तत्थ एयखंडस्स सम्मापिच्छत्तसरूवेण परिणदस्सुवलंभादो ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

१५२. सत्तमतुद्धविणेरइयचरिमसमए सयलदिवट्टुगुणहाणिमेत्तसमयपबद्धाण-
सुवलंभादो । को गुणगारो सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारो ।

❀ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१५३. सुगमं ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१५४. सुगमं ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१५५. सुगममेदं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❀ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१५६. केत्तियमेत्तेण ? अपच्चक्खाणलोभउक्कस्सपदेससंतकम्मे आवलियाए
असंखेज्जदिभागेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सहावदो ।

जो जीव स्वाभित्तके अन्तिम समयमे स्थित है उसके मिध्यात्वके प्रदेशोमे पत्यके असंख्यातर्वे
भागप्रमाण गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे वह सम्यग्मिध्यात्वरूपसे
परिणत हो जाता है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

१५२. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके अन्तिम समयमे समस्त द्रव्य डेढ़ गुणहानि-
गुणित समयप्रवद्धप्रमाण उपलब्ध होता है । गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रमभागहार
गुणकार है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१५३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१५४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१५५. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१५६. कितना अधिक है ? अप्रत्याख्यान लोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममे आवलिके
असंख्यातवे भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा
स्वभाव है ।

❁ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५७. सुगमं, अणंतरपरुविदकारणत्तादो ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५८. कुदो ? सहावदो चेष, तथा भावेणावट्टाणदंसणादो ।

❁ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५९. पहिल्लसुत्तट्टिदपच्चक्खाण० लोभे उक्क० पदेससंतकम्मं विसे० एसु सुत्तेसु तिष्ठु वि संबंधणिज्जं । सेसं सुगमं ।

❁ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६०. सुगममेदं सुत्तचउट्टयं ।

❁ सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६१. कुदो ? गुणितकम्मंसियलक्खणेणागतूण सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिय दो-तिण्णिभवग्गहणाणि तसकाइएसुप्पज्जिय पुणो समाणिदतसट्टिट्ठादो एइदिएसुव-

❁ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५७. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूर्व कारणका कथन कर आये हैं ।

❁ उससे प्रत्याख्यानमायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५८. क्योंकि स्वभावसे ही उस रूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

❁ उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५९. पहले सूत्रमें स्थित प्रत्याख्यान पदका 'लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है' यहाँ तकके इन तीनों ही सूत्रोंमें सम्बन्ध कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६०. ये चारों सूत्र सुगम हैं ।

* उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६१. क्योंकि जो जीव मुणितकर्माशिकविधिसे आकर और सातवीं पृथिवीसे निकलकर त्रसकायिकोंमें द्वां तीन भव धारण कर अनन्तर त्रसस्थितिको समाप्त कर एकेन्द्रियोंमें

बज्जिय बद्धमणुसाउओ मणुसेसुप्पज्जिय पज्जतीओ समाणिय जिरयाउअबंधपुरस्सरं पढमसम्मत्तमुप्पाइय दंसणमोहणीयक्खवणं चारभिय कदकरणिज्जो होदुण अंतोमुहुत्तमेत्तसम्मत्तगुणसेट्ठिगोवुच्छामु अणंताणुबंधिलोभमावलियाए असंखे०भागेण खंडिय तत्थेगखंडमेत्तेण तत्तो अब्भदियदिवदुगुणहाणिपमाणं मिच्छत्तसयलद्वं पयदिविसेसदव्वादो असंखेज्जगुणहीणगुणसेट्ठिणिज्जराणिज्जिण्णदव्वमेत्तेणुणं धरिज्जण द्विदजीवम्मिणेरइएसुप्पणपढमसमए वट्टमाणम्मि सम्मत्तुक्खसपदेससामियम्मि तथाभाबुवलंभादो ।

❊ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६२. केत्तियमेत्तेण ? जिरयादो उव्वट्टिय सम्मत्तमुक्खस्सं करेमाणस्स अंतराले जहाणिसेयसरूवेण गुणसेट्ठिणिज्जराए च णट्टदव्वमेत्तेण । तं च केत्तियं ? सगदव्वे पल्लिदोषमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तं । ण च एदं मिच्छत्तुक्खसपदेससामियम्मि असिद्धं, चरिमसमयणेरइयम्मि गुणिदकम्मंसियलक्खणेण समाणिदकम्मट्ठिदिचरिमसमए वट्टमाणम्मि अविणट्टसरूवेण तस्सुचलंभादो ।

❊ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ १६३. कुदो ? देसघादित्तेण सुल्लहपरिणामिकारणत्तादो । ण च अणंतिम-

उत्पन्न हो और मनुष्यायुका बन्ध कर मनुष्यामे उत्पन्न हो तथा पर्यायियोंको पूर्ण कर नरकायुके बन्धपूर्वक प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा दर्शनमोहनीयके क्षयका प्रारम्भ कर कृतकृत्य होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण सम्यक्त्वकी गुणश्रेणि गोपुच्छाओमे, अनन्तानुबन्धी लोभको आवलिके असंख्यातर्वे भागका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उससे अधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यको प्रकृतिविशेषके द्रव्यसे असंख्यातगुणे हीन गुणश्रेणि निर्जराके द्वारा निर्जीर्ण हुए द्रव्यसे हीन द्रव्यको, धारण कर स्थित है उसके नारकियोंमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोके स्वामीरूपसे विद्यमान रहते हुए उस प्रकारसे प्रदेशसत्कर्म देखा जाता है ।

❊ उससे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६२. कितना अधिक है ? नरकसे निकलकर सम्यक्त्वको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके अन्तराल कालमें यथानियेक क्रमसे और गुणश्रेणिनिर्जरारूपसे जितना द्रव्य नष्ट होता है उतना अधिक है ।

शंका—कह कितना है ?

समाधान—अपने द्रव्यमें पत्यके असंख्यातर्वे भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है । और यह मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोके स्वामित्व कालमे असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो गुणितकर्माशिकविधिसे आकर कर्मस्थितिको समाप्त करनेके अन्तिम समयमे नरकपर्यायके अन्तिम समयवाला होता है उसके मिथ्यात्वका समस्त द्रव्य उक्त प्रकारसे नष्ट हुए बिना पाया जाता है ।

❊ उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १६३. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके सञ्चयका कारण सुलभ परिणाम है । अनन्तर्वे

भागत्तणेण त्योवयरारणं चैव सव्वघादिसरूवेण परिणमणमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तथा परूवियत्तादो । तदो देसघादिपाहम्मणेण पुब्बिह्लादो एदस्साणंतगुणत्तमिदि सिद्धं । को गुण० ? अपवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो ।

❁ रदीए उक्कस्सपदेससत्तकम्मं विसेसाहियं ।

१६४. सुबोहमेदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❁ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससत्तकम्मं संखेज्जगुणं ।

१६५. कुदो ? गुणितकम्मंसियलक्खणेणागंतूण असंखेज्जवस्साउएसु इत्थिवेदपदेससत्तकम्मं गुणेदूण अगदिकागदिष्णाएण दसवस्ससहस्साउअदेवेसुप्पज्जिय तसद्धिदीए समत्ताए एइदिएसु सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय णात्तरीयण्णाएण पंचिदिएसु-ववज्जिय णिरयाउअं बंधिदूण णेरइएसुप्पण्णपढमसमए वट्टमाणम्मि इत्थिवेदुक्कस्सपदेस-सामियणेरइयम्मि आंघपरूविदबंधगद्धामाहप्पमस्सियूण कुरवेसु लद्धओघुक्कस्सपदेस-सत्तकम्मादो किंचूणस्स पयडित्थिवेदुक्कस्सदव्वस्स रदीए संखेज्जगुणहीणबंधगद्धा-मंचिदुक्कस्ससत्तकम्मादो संखेज्जगुणत्तं पडि विरोहाभावादो । ण च अवंतराले णट्टदव्वं पेक्खिदूण तस्स तथाभावविरोहो आसंकणिज्जो, असंखे० भागत्तणेण तस्स पाहणिया-

भागरूपसे स्तोत्र परमाणुओंका ही सर्वघातिरूपसे परिणामन होता है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि भागभागप्ररूपणामे उस प्रकार कथन कर आये हैं । इसलिए देशघातिकी प्रधानता होनेसे पूर्वोक्त प्रकृतिसे यह अनन्तगुणी है यह बात सिद्ध है । गुणकार क्या है ? अभव्योसे अनन्तगुणा और सिद्धोके अनन्तवे भागप्रमाण गुणकार है ।

❁ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१६४. यह सूत्र सुबोध है, क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

१६५. क्योंकि जो गुणितकर्मशविधिसे आकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर और स्त्रीवेदके प्रदेशसत्कर्मको गुणित करके अगतिका गति न्यायके अनुसार दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर तथा त्रसस्थितिके समाप्त होने पर एकेंन्द्रियोंमें सबसे जघन्य अनन्तमूर्त काल तक रहकर नान्तरीय न्यायके अनुसार पञ्चेंन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और नरकायुका बन्ध करके नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके स्थित है उसके यद्यपि ओषधमें कहे गये बन्धक कालके माहात्म्यके अनुसार देवकुरु और उत्तरकुरुमें प्राप्त हुए ओष उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे कुछ कम द्रव्य पाया जाता है फिर भी प्रकृति स्त्रीवेदका उत्कृष्ट द्रव्यके रतिके संख्यातगुणे हीन बन्धक कालके भीतर सञ्चित हुए उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्मसे संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता ! यदि कोई ऐसी आशंका करे कि जिस स्थलमें ओष उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है उस स्थलसे लेकर यहाँ तकके अन्तरालमें नष्ट हुए द्रव्यको देखते हुए उसका तत्प्रमाण होनेमें विरोध आता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरालमें जो द्रव्य नष्ट होता है वह कुल द्रव्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, इसलिए

भावादो इत्थिवेदपयडिविसेसादो वि तस्स असंखे०गुणहीणत्तादो च ।

❁ सोगे उक्कस्सपदेससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६६. सुगममेदं सुत्तं, ओघम्मि परुविदकारणत्तादो ।

❁ अरदीए उक्कस्सपदेससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६७. के०मेत्तेण ? सोगदन्वभावलियाए असंखे०भागेण खंडिदेयखंडमेत्तेण ।

कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❁ णत्तुं सयवेदे उक्कस्सपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६८. ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि, ओघम्मि परुविदबंधगद्धाविसेसमासेज्ज विसेसाहियत्तसिद्धीदो । ण च बंधगद्धाविसेससंचओ णेरइयम्मि असिद्धो, ईसाण-देवेचरणेरइयम्मि परमणिहृदकालेण पत्तत्तप्पज्जायम्मि किंचूणसगोषुकस्ससंचयसिद्धीए वाहाणुवत्तंभादो ।

❁ दुगुं छ्वाए उक्कस्सपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६९. ध्रुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदबंधगद्धासु वि संचयुवत्तभादो ।

❁ भए उक्कस्सपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

उसकी कांई प्रधानता नहीं है । तथा स्त्रीवेदरूप प्रकृतिविशेष होनेके कारण भी वह असंख्यातगुणा दीन है ।

* उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका निर्देश ओघ प्ररूपणाके समय कर आये है ।

* उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६७. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि इमका कारण प्रकृति विशेष है ।

* उससे नपुंसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६८. यहां पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि ओघमें कहे गये बन्धक कालका आश्रय लेकर इसके विशेष अधिकपनेकी सिद्धि होती है । यदि कहा जाय कि बन्धक काल विशेषमें होनेवाला सञ्चय नारकियोमें नहीं बनता सो भी बात नहीं है, क्योंकि जो ईशान कल्पका देव क्रमसे नारकियोमें उत्पन्न होता है उसके यथासम्भव कमसे कम कालके द्वारा उस पर्यायके प्राप्त होने पर कुछ कम अपने ओघ उत्कृष्ट द्रव्यके सञ्चयकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं आती ।

* उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६९. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, इसलिए इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोमें भी सञ्चय होता रहता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७०. पयडिविसेसस्स तारिसत्तादो ।

⊗ पुरिसवेदे उक्कस्सपद ससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ १७१. अपडिवक्खत्तणेण धुवबंधिणो भयस्स गिरंतरसंचिहुक्कस्सदव्वादो सप्पडिवक्खपुरिसवेदपदेसग्गस्स कयं विसैसाहियत्तं ? ण, एदस्स वि सोहम्मं पल्लिदो-वपाउट्ठिदिअब्भंतरे सम्मतगुणपाहम्मणेण असवत्तस्स धुवबंधित्तेण पूरणुवलंभादो । ण च गिरयगईए इदमसिद्धं, सब्बलहुएण कालेण अविणट्ठेणेयत्तेण संचिददव्वेण णेरहए-मुप्पणपढमसमए तस्सिद्धीदो । एवमविं दोण्हं धुवबंधीणं पदेसग्गेण सरिसेण होदव्वमिदि ण बोत्तुं जुत्तं, पयडिविसेसेण आवल्लियाए असखेज्जदिभागेण खंडिदेय-खंडमेत्तेण उवसपसेदीए गुणसंकमभागहारेण पडिच्छिदणोकसायदव्वयेत्तेण च पुरिस-वेदस्स विसैसाहियत्तवलंभादो ।

⊗ माणसंजलणे उक्कस्सपद ससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ १७२. कुदो ? पुरिसवेदभागादो माणसंजलणस्स भागस्स चउवभाग-

§ १७०. क्योंकि प्रकृति विशेष होनेसे यह इसी प्रकारकी है ।

* उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७१. शंका—भय अप्रतिपक्ष और ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, अतः निरन्तर सञ्चित हुए उसके उत्कृष्ट द्रव्यसे सप्रतिपक्षरूप पुरुषवेदका प्रदेशसमूह विशेष अधिक कैसे अधिक हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सौधर्म कल्पमें आयुकी एक पत्यप्रमाण स्थितिके भीतर सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे प्रतिपक्ष रहित इस प्रकृतिमें भी ध्रुवबन्धीरूपसे प्रदेशोंकी पूर्ति उपलब्ध होती है । यदि कहा जाय कि नरकगतिमें यह असिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि अतिशीघ्र कालके द्वारा इस प्रकार सञ्चित हुए द्रव्यको नष्ट किये बिना जो नारकियोंमें उत्पन्न होता है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उसकी सिद्धि होती है ।

शंका—इस प्रकार होने पर भी दोनों ही ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंका प्रदेशसमूह समान होना चाहिए ?

समाधान—यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो प्रकृतिविशेष होनेके कारण आवल्लिके असंख्यातवें भागसे भयका द्रव्य भाजित होकर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुष-वेदमें विशेष अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है । दूसरे उपशमश्रेणियों गुणसंक्रमभागहारके द्वारा नोकपायोंका द्रव्य इसमें संक्राम्त हो जानेसे भी इसका द्रव्य विशेष अधिक उपलब्ध होता है । इसलिए ध्रुवबन्धिनी होते हुए भी इन दोनों प्रकृतियोंका द्रव्य एक समान नहीं है ।

* उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७२. क्योंकि पुरुषवेदके भागसे मानसंज्वलनका भाग एक चौथाई अधिक उपलब्ध

६. आ०प्रलौ 'एवमवि' इति पाठः ।

म्भहियत्तुवलंभादो । तं जहा—पुरिसवेदद्वं मोहणीयसव्वद्वं पेक्खियूण इसमभाणो होदि, मोहसव्वद्वंस्स कसाय-णोकसायाणं समपच्चित्तस्स पंचमभाणत्तादो कसाय-णोकसायदव्वेसु पुरिसवेदभागपभाणेण कीरमाणेसु पुष पुष पंचसलागाणसुवलंभादो च । माणसंजलणदव्वं पुष मोहणीयसव्वद्वं पेक्खियूण अद्दयभागो, कसायभागस्स संजलणेसु चउद्दा विहज्जिय हिदत्तादो । तदो मोहसयलदव्वदसमभाणभूदपुरिसवेद-सव्वसंचयादो तदद्दमभाणमेत्तमाणसंजलणपदेससंचओ चउग्गभागम्भहियो त्ति सिद्धं, तम्मि तप्पमाणेण कीरमाणे चउग्गभागम्भहियसयलेगसलागुवलंभादो ।

§ १७३. एत्थ अब्बुप्पणकुप्पायणद्धं संदिद्धिविहिं वत्तइस्सामो । तं जहा—मोहणीयसयलदव्वपमाणं चालीस ४० । तदद्दमेत्तो कसायभागो एसो २० । णोकसायभागो वि तत्तिओ चव २० । पुणो णोकसायभागे पंचहि भागे हिदे भाग-लद्धमेत्तमेत्तियं पुरिसवेददव्वपमाणमेदं होदि ४ । कसायभागे वि चहुहि भागे हिदे लद्धमेत्तं पमाणं संजलणदव्वमेत्तियं होदि ५ । एदं च पुरिसवेदभागे चउहि मागे हिदे जं भागलद्धं तम्मि तत्थेव पक्खित्ते उप्पज्जदि त्ति तस्स तदो चउग्गभागम्भहियत्त-

होता है । यथा—पुरुषवेदका सब द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए दसवें भागप्रमाण है, क्योंकि एक तो मोहनीयके सब द्रव्यको कषाय और नोकषायमे समानरूपसे विभक्त कर देने पर पुरुषवेदका द्रव्य प्रत्येकके पाँचवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । दूसरे कषाय और नोकषायके द्रव्यके पुरुषवेदका जो भाग हो तत्प्रमाणरूपसे विभक्त करने पर अलग अलग पाँच शलाकाएँ उपलब्ध होती हैं । परन्तु मानसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए उसके आठवें भाग-प्रमाण है, क्योंकि कषायका द्रव्य संज्वलनोमे चार भागरूप विभक्त होकर स्थित है । इसलिए मोहनीयके सब द्रव्यके दसवें भागरूप पुरुषवेदके समस्त सञ्चयसे मोहनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागरूप मानसंज्वलनका प्रदेशसञ्चय एक चतुर्थांशप्रमाण अधिक है यह सिद्ध हुआ, क्योंकि इस द्रव्यको पुरुषवेदके द्रव्यके प्रमाणरूपसे करने पर चतुर्थ भाग अधिक एक शलाका उपलब्ध होती है ।

विशेषार्थ—तात्पर्य यह है कि पहिले मोहनीयके सब द्रव्यको आधा कषायमें और आधा नोकषायमे विभक्त कर दो । उसके बाद कषायके द्रव्यका एक चौथाई मानसंज्वलनको दो और नोकषाय द्रव्यका एक पञ्चमांश पुरुषवेदको दो । इस प्रकारसे विभाग करने पर मानसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागप्रमाण प्राप्त होता है और पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके समस्त द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदके द्रव्यसे मानसंज्वलनका द्रव्य एक चौथाई अधिक कहा है ।

§ १७३. अब यहाँ पर अब्युत्पन्न जीवोंकी व्युत्पत्ति बढ़ानेके लिए संदृष्टिविधि बतलाते हैं । यथा—मोहनीयके समस्त द्रव्यका प्रमाण ४० है । उसके अर्धभागप्रमाण कषायका द्रव्य यह है २० । नोकषायका भाग भी उतना ही है २० । पुनः नोकषायके भागमें पाँचका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुषवेदका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है ४ । कषायके भागमें भी चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है वह मानसंज्वलनका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है ५ । पुनः पुरुषवेदके भागमे चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे उसीमें मिला देने पर यह मानसंज्वलनका द्रव्य उत्पन्न होता है, इसलिए यह मानसंज्वलनका

मसंदिद्धं सिद्धं ।

✽ क्रोधसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७४. सुगममेत्य कारणं, पयडिविसेसस्स बहुसो परूविदत्तादो ।

✽ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७५. पयडिविसेसस्स तहाविहत्तादो ।

✽ लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७६. एत्य जइ वि संदिहीए चउण्हं संजलणानं भागा सरिसा तहा वि अत्थदो पयडिविसेसेण आवलियाए असंखे०भागपडिभागिएण विसेसाहियत्तमत्थि चेवे त्ति घेतव्वं । सेसं सुगमं ।

एवं गिरयगइओघुक्कस्सदंडओ समत्तो ।

✽ एषं सेसाणं गवीणं णादूणं षोदव्वं ।

§ १७७. एदस्स अप्पणासुत्तस्स संखेरुइसिस्सा णुग्गहट्ठं दव्वट्टियणयावलंबणेण पयट्टस्स पज्जवट्टियपरूवणा पज्जवट्टियजणाणुग्गहट्ठं कीरदे । तं जहा—एत्य ताव गिरयगईए चेव पुढविभेदमासेज्ज विसेसपरूवणा कीरदे । कथं पुण एदस्स गिरयगईदो अब्बदिरित्तस्स सेसत्तं जदो इमा परूवणा सुत्तसंबद्धा हवेज्ज त्ति ? ण एस

द्रव्य पुरुषवेदके द्रव्यसे एक चौथाई अधिक है यह असंदिग्ध रूपसे सिद्ध हुआ ।

✽ उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७४. यहाँ पर कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणका अनेक बार कथन कर आये हैं ।

✽ उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७५. क्योंकि प्रकृतिविशेष इसी प्रकारकी होती है ।

✽ उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७६. यहाँ पर यद्यपि संदृष्टिमें चारों संज्वलनोंके भाग समान दिखलाये हैं तथापि वास्तवमें प्रकृतिविशेष होनेके कारण आबलिके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके अनुसार मायासंज्वलनके द्रव्यसे लोभसंज्वलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है ऐसा यहांपर ग्रहण करना चाहिए ।

इस प्रकार नरकगतिसम्बन्धी ओघ उत्कृष्ट दण्डक समाप्त हुआ ।

✽ इसी प्रकार शेष गतियोंमें जानकर अल्पबहुत्व ले जाना चाहिए ।

§ १७७. संक्षेप रूचिवाले शिष्योंके अनुग्रहके लिए द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुए इस मुख्य सूत्रका पर्यायार्थिक शिष्योंका अनुग्रह करनेके लिए विशेष कथन करते हैं । यथा—सर्व प्रथम यहाँपर नरकगतिके ही पृथिवीभेदोंके आश्रयसे विशेष कथन करते हैं ।

शंका—यदि यह सूत्र नरकगतिसे अपृथग्भूत अर्थका कथन करता है तो फिर सूत्रमें 'क्षेप' पदका प्रयोग कैसे किया जिससे यह कथन सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला होवे ?

दोसो, सामण्णादो विसेसाणं कथंचि भेददंसणेण सेसत्तसिद्धीदो । 'उपयुक्तादन्वः शेष' इति न्यायात् ।

§ १७८. तत्थ पढमपुढवीए णिरओघभंगो । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवरि सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं सव्वत्थोवं कादव्वं, कदकरणिज्जस्स तत्थुपत्तीए अभावादो । तत्तो सम्मामिच्छते उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखे०गुणं । कारणं सुगमं । एत्तिओ चेव विसेमो णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि ।

§ १७९. तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्जत्ताणं देवगईए देवाणं च सोहम्मादि जाव सव्वट्ठसिद्धि ति पढमपुढविभंगो । णवरि सामित्तविसेसो जाणेष्वो । पंचि०तिरि०जोणिणी-पंचि०तिरि०अपज्ज०-मणुसअपज्ज०-भवन०-वाण०-जोदितियाणं विदियादिपुढविभंगो । मणुसतियस्स ओघभंगो । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासिय-भावेण इंदियमग्गणेयदेसभूदएइंदिएसु त्थोवचहुत्तपरूवणट्ठसुत्तरसुत्तकलावं भण्णदि ।

❀ एइंदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ १८०. एत्थ एइंदिएसु ति सुत्तणिदोसो' सेसिदियपदिसेहफलो । सव्वेहितो उवरि वुच्चमाणसव्वपदंसेहितो थोवं अप्पयरं सव्वत्थोवं । किं तं ? सम्मत्ते उक्कस्स-

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सामान्यसे अपने अवान्तर भेदोंमें कथञ्चित् भेद देखा जाता है, इसलिए 'शेष' पद द्वारा उनके ग्रहणकी सिद्धि होती है। विवक्षित विषयसे अन्य 'शेष' कहलाता है ऐसा न्यायवचन है।

§ १७८. यहाँ प्रथम पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इसीप्रकार भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इन पृथिवियोंमें सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक करना चाहिए, क्योंकि वहाँपर कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता। उससे सम्यग्मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है। कारण सुगम है। इन पृथिवियोंमें इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र कहीं भी अन्य विशेषता नहीं है।

§ १७९. तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, देवगतिमें सामान्य देव आर सौधर्मसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देव इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्वामित्व जान लेना चाहिए। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और उपोतिषी इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग हैं। मनुष्यत्रिकर्म आशके समान भङ्ग है। अब शेष मार्गणाओके देशामर्षकरूपसे इन्द्रियमार्गणाके एकदेशभूत एकेन्द्रियोमें अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रकलाप कहते हैं—

❀ एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है।

§ १८०. यहाँ 'एकेन्द्रियोंमें' इस प्रकार सूत्रमें निर्देशका फल शेष इन्द्रियोंका निषेध करना है। सबसे ऊपर कहे जानेवाले सब प्रदेशोंसे स्तोक अर्थात् अल्पतरको सर्वस्तोक कहते हैं।

पदेससंतकम्भं । सैसपद्विषदिसैहफलो सम्पत्तिगिहो सो । अणुकस्सादिबिषण्णिवारण-
फलो उकस्सपदेससंतकम्भगिहो सो । उवरि बुच्चमाणासेसपयडिपदेसुकस्ससंचयादो
सम्पत्तुकस्सपदेससंतकम्भं थोवयरं ति बुत्तं होइ ।

⊗ सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्भमसंखेज्जगुणं ।

§ १८१. को गुणगारो ? सम्पत्तगुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जदिभागो ।
तस्स को पढिभागो ? सम्मामिच्छत्तगुणसंकमभागहारपढिभागो । कुदो ? गुणिद-
कम्भंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उप्पज्जिय सगाउडिदीए अंतोमुहुत्ताव-
सेसियाए विवरीयभावं गंतूण उवसमसम्भत्तं पडिवज्जिय सम्पत्त-सम्मामिच्छत्ताणि
सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारेणावुरिय सव्वलहुं मिच्छत्तं गंतूणुवद्विदसमाणे पच्छायद-
पंचिदियतिरिक्खभवग्गहणे एइदिएसुप्पण्णपढमसमयवट्टमाणजीवे सम्पत्तादसुकस्स-
दव्वादो सम्मामिच्छत्तुकस्सपदेससंतकम्भस्स गुणसंकमभागहारविसेसादो तहाभावुव-
लंभादो । भागहारविसेसो च कत्तो णव्वदे ? गुणसंकमपढमसमए मिच्छत्तादो जं
सम्पत्ते संकमदि पदेसग्गं तं थोवं । तम्मि चेव समए सम्मामिच्छत्ते संकमदि पदेसग-
मसंखेज्जगुणं पढमसमए सम्मामिच्छत्तसरूवेण संकंतपदेमपिडादो विदियसमए
सम्पत्तसरूवेण संकंतपदेसग्गमसंखेज्जगुणं । तम्मि चेव समए सम्मामिच्छत्ते संकंत-
सर्वस्तोक क्या है ? सम्यक्त्वमे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म । सूत्रमे 'सम्यक्त्व' पदके निर्देशका फल
शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है । 'उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म' पदके निर्देशका फल अनुत्कृष्ट आदि
विकल्पांका निवारण करना है । आगे कहे जानेवाले समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशोंके उत्कृष्ट सञ्चयसे
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म स्तोकतर है यद् उक्त कथनका तात्पर्य है ।

⊗ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ १८१. गुणकार क्या है ? सम्यक्त्वके गुणसंकमभागहारके असंख्यातवें भागप्रमाण
गुणकार है । उसका प्रतिभाग क्या है ? सम्यग्मिध्यात्वका गुणसंकमभागहार प्रतिभाग है, क्योंकि
जो जीव गुणितकर्माशिक विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होकर अपनी आयु-
स्थितिमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर मिध्यात्वसे विपरीत भावका जाकर और उपशमसम्यक्त्वका
प्राप्त कर सबसे जघन्य गुणसंकम भागहारके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर और अतिश्रीघ्न
मिध्यात्वको प्राप्त कर मर कर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोमें उत्पन्न हो अनन्तर मर कर एकेन्द्रियोंमें
उत्पन्न होकर उसके प्रथम समयमे विद्यमान है उसके सम्यक्त्वके आदेश उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा
सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म गुणसंकमभागहार विशेषके कारण उस प्रकारका अर्थात्
सम्यक्त्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे असंख्यातगुणा अधिक पाया जाता है ।

शंका—भागहारविशेष किस कारणसे जाना जाता है ?

समाधान—गुणसंकमके प्रथम समयमें मिध्यात्वमेंसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमण
को प्राप्त होता है वह स्तोक है । उसी समयमें जो प्रदेशसमूह सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त
होता है वह उससे असंख्यातगुणा है । प्रथम समयमें सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुए
प्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड असंख्यातगुणा है ।

पदेसगमसंखेज्जगुणं ति एदस्स' अत्थविसेस्स उवरि कुत्तणिक्खस्स दंसणादो । अंतोह्नुत्तगुणसंकमकालवर्भतरावुरिद'सम्मत्तसव्वदव्वसंदोहादो गुणसंकमकालचरिमेग- समयपडिच्छिदसम्माभिच्छत्तपदेसपु'जस्स असंखेज्जगुणत्तुवल्लदीदो च तत्थे कस्स तहा- भावो ण विरुज्झदे ।

❀ अपञ्चक्रवाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

१८२. एत्थ कारणं बुद्धदे । तं जहा-सम्मामिच्छत्तं मिच्छत्तसयल- दव्वस्स असंखे० भागो, गुणसंकमभागहारेण खंदिद्वयखंडमेत्तस्सेव मिच्छत्तदव्वादो' सम्मत-सम्माभिच्छत्तसरूवेण परिणमणुवलंभादो । अपञ्चक्रवाणमाणो पुण मिच्छत्त- सरिसो चैव, पयडिद्विसंस्स अप्पाहणियादो । तदो मिच्छत्तस्स असंखे० भागमेत्त- सम्माभिच्छत्तदव्वादो थोरुक्खएण मिच्छत्तसरिसअपञ्चक्रवाणमाणपदेससंतकम्ममसंखेज्ज- गुणं ति ण एत्थ संदेहो । को गुणगारो ? सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारो ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१८३. पर्याद्विसेसेण पुंत्तव्वल्लदव्वे आवाल्याए असंखे० भागेण खंदिदे तत्थेयखंडपमाणेण ।

तथा उसी समयमे सम्यग्मिध्यात्वमे संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड उससे असंख्यातगुणा है इस प्रकार यह अर्थविशेष आगे सूत्रमे निबद्ध हुआ देखा जाता है । तथा गुणसंक्रमके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालके भीतर जा द्रव्यसमूह सम्यक्त्वको मिलता है उससे गुणसंक्रम कालके अन्तिम एक समयमे सम्यग्मिध्यात्वमे संक्रान्त हुआ प्रदेशपुञ्ज असंख्यातगुणा है, इसलिये संक्रम भागहारके उस प्रकारके होनेमे विरोध नहीं आता ।

* उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ १८२. यहाँ पर कारणका कथन करते हैं । यथा—सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य मिध्यात्वके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर लब्ध एक भागप्रमाण द्रव्य ही मिध्यात्वके द्रव्यमे से सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वरूपसे परिणमन करता हुआ उपलब्ध होता है । परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य मिध्यात्वके ही समान है, क्योंकि प्रकृतिविशेषकी प्रधानता नहीं है । इसलिये मिध्यात्वके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे मौंटै रूपसे मिध्यात्वके समान अप्रत्याख्यान मानका प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है इसमें सन्देह नहीं है । गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहार गुणकार है ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । यहाँ पूर्वोक्त द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

१. ता० प्रती '—असंखेज्जगुणं एदस्स' इति पाठः । २. ता० प्रती '—गुणसंकमकालवर्भतरा- पुरिद-' इति पाठः । ३. ता० प्रती 'मिच्छत्तदव्वादो' इति पाठः ।

⊗ **मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८४. कुदो ? पयडिविसेसादो । केत्तियमेत्तेण ? कोधदब्बमाबलियाए असंखे-
भागेण खंडेयुण तत्थेयखंडमेत्तेण । एदं कुदो णव्वदे ? परमगुरुणमुव्वदेसादो । ण
चप्पलओ', णाणविण्णाणसंपण्णाणं तेसिं भयवंताणं मुसावादे पयोजणाभावादो ।

⊗ **लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८५. कुदो, पयडिविसेसेण, पुब्बुत्तपमाणेण पयडिविसेसादो चेय एदस्स
अहियत्तुवलंभादो ।

⊗ **पक्कस्साणमाये उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८६. जइ वि सव्वेसिं कसायाणमोपुक्कस्सपदेससंतकम्मसामियणेरइयचर-
जीवे पच्छायदपंचिदियतिरिक्खभवग्गहणम्मि एइदिएसुप्पणपट्ठमसमए वट्टमाणम्मि
अकमंण सामितं जादं तो वि विस्समादो चेय पुब्बिक्खलादो एदस्स विसेसाहियत्तं
पडिबज्जेयवं, जिणाणमण्णहावाइत्तादो । ण हि रागादिअविज्जासंपुम्मुक्का जिणिंदा
वितथमुव्वइसंति', तेधु तक्कारणाणमणुवल्लदीए ।

⊗ **कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

* उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८४. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । कितना अधिक है ? क्रोधके द्रव्यमें आबलिके
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुके उपदेशमें जाना जाता है । परन्तु वे चपल नहीं हो सकते, क्योंकि
ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न भगवत्स्वरूप उनके मृया भाषण करनेका कोई प्रयोजन नहीं है ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८५. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है, अतः प्रकृतिविशेष होनेके कारण ही इसका प्रमाण
पूर्वोक्त प्रकृतिके प्रमाणसे अधिक पाया जाता है ।

* उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८६. यद्यपि सभी कपायांका ओघसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म नारकियोंके अन्तिम समयमें
प्राप्त होता है, इसलिए वहाँसे पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोमें भव धारण करनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न
होने पर उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुए सबका एक साथ उत्कृष्ट स्वागित्व प्राप्त हुआ
है तो भी स्वभावसे ही पहलेकी प्रकृतिसे इसका द्रव्य विशेष अधिक जानना चाहिए, क्योंकि
जिनदेव अन्यथावादी नहीं होते । तात्पर्य यह है कि रागादि अविद्या संघसे रहित जिनेन्द्रदेव
असत्य उपदेश नहीं करते, क्योंकि उनमें असत्य उपदेश करनेका कारण नहीं पाया जाता ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१. आ० प्रती 'पक्कस्सओ' इति पाठः । २. ता० प्रती 'वितथ (थ) मुव्वइसंति' आ० प्रती
'वितथमुव्वइसंति' इति पाठः ।

§ १८७. कुदो ? सहावविसेसादो । न हि भावस्वभावाः पर्यनुयोज्याः, अन्यत्रापि तथातिप्रसङ्गात् । विशेषप्रमाणं सुगमं, असकृद्विदुष्टत्वात् ।

✽ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८८. सुगममेदं, पयडिविसेसवसेण तहाभाबुल्लंभादो ।

✽ कोमे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८९. एदं पि सुगमं, विस्ससापरिणामस्स तारिसत्तादो ।

✽ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९०. पयडिविसेसेण आवलियाए' असंखे० भागपडिभागिएण । कुदो ? पयडिविसेसादो ।

✽ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९१. सुगममेदं, पयडिविसेसेण तहावडिदत्तादो ।

✽ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९२. विस्ससादो आवलियाए असंखे० भागेण खंदिदुब्बिद्वद्वमेतेण

§ १८७. क्योंकि ऐसा स्वभावविशेष है । और पदार्थों के स्वभाव शंका करने योग्य नहीं होते, क्योंकि अन्यत्र वैसा मानने पर अतिप्रसङ्ग दोष आता है । विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि उसका अनेक बार परामर्श कर आये हैं ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसरूपसे उसकी उपलब्धि होती है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८९. यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि स्वभावसे इसका इसप्रकारका परिणामन होता है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९०. कारण कि प्रकृतिविशेष आवलिके असंख्यातवें भागके प्रतिभागरूपसे है, क्योंकि प्रकृतिविशेष है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण यह उस प्रकारसे अवस्थित है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९२. क्योंकि पूर्वोक्त प्रकृतिके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इसमें स्वभावसे अधिक उपलब्ध होता है ।

अद्वियत्तुवक्षभादो । एदं कुदो णन्वदे ? परमाहरियाणमुपपसादो ।

⊗ लोभे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६३. सुगमपेत्य कारणं, अणंतरिषिद्धिदत्तादो ।

⊗ मिच्छुत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६४. जदि वि दोण्हमेदासि पयडीणमेवत्य चेव' शुब्धिकम्मंसियजेरइयचर-
पच्छायदपंचिदियतिरिक्खपवगहणमिच्छाइट्टिजीवे एइदिएसुपुण्णपहमसमयसंतिदे
सामितं ज्जदं तो वि पयडिचिसेसेण विसेसाहियत्तं मिच्छत्तस्स ण विसुभ्भदे, वज्ज-
कारणादो अणंतरकारणस्स बलिदत्तादो ।

⊗ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ १६५. कुदो ? सव्वथाइत्तेण पुब्बुत्तासेसपयडीणं पहेसपिण्डस्स देसघादि-
हस्सपदेसपुंजं पेक्खियूणाणंतिमभागत्तादो । जेदमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तथा
साहियत्तादो ।

⊗ रवीए उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६६. जइ वि दोण्हमेदासि पयडीणं बंधगद्धाओ सरिसाओ तो वि पयडि-

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम आचार्यों के उपदेशसे जाना जाता है ।

⊗ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६३. यहाँ कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर निर्देश कर आये हैं ।

⊗ उससे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६४. यद्यपि अनन्तानुबन्धी लोभ और मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंका गुणित
कर्मांशिक नारकियोमे से आकर पञ्चेन्द्रिय तिरिञ्च मिथ्यादृष्टि होनेके बाद एकेन्द्रियोमे उत्पन्न
होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए, एक ही स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ है तो भी
प्रकृतिविशेष होनेके कारण मिथ्यात्वके द्रव्यका विशेष अधिक होना विरोधको नहीं प्राप्त होता,
क्योंकि बाह्य कारणकी अपेक्षा आन्तरिक कारण बलिष्ठ होता है ।

* उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १६५. क्योंकि पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सर्वघाति हैं । उनका प्रदेशपिण्ड देशघाति
हास्य प्रकृतिके प्रदेशपुञ्जकी अपेक्षा अनन्तर्वे भागप्रमाण है । और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि
भागभागपरूपणामे उस प्रकारसे सिद्ध कर आये हैं ।

⊗ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६६. यद्यपि इन दोनों प्रकृतियोंका बन्धक काल समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेके

विसेसमासेज्ज विसेसाहियत्तं य विरुद्धकदे, इत्थमाण्णसंखे जेय वहरथाम्हेण परिणाम-
दंसणादो ।

⊗ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १६७. कुरवेसु इस्स-रदिबंधगद्धादो संखेज्जगुणसुणबंधगद्धाप इत्थिवेदं पूरेऊण
दसवस्ससइस्साउअदेवेसु योचयरदब्बमधद्धिदीए माखेयूण एईहएण्णप्यणपडमसमय-
महिपट्टियजीवम्मि तस्स तदो संखेज्जगुणत्तुवलंभादो ।

⊗ सोगे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६८. सुगममेदं, ओघपरुविदबंधगद्धाविसेसवसेण संखे०भागवमहियत्तुव-
लंभादो ।

⊗ अरधीए उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६९. सुगमं, पयडिविसेसस्स असइं परुविदत्तादो ।

⊗ णब्बुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २००. कुदो ईसाणदेवाणमरदि-सोगबंधगद्धादो विसेसाहियतत्त्यतणतस-
यावरबंधगद्धासंबंधिणयुंसयवेदबंधकाले संचिदत्तादो ।

कारण इसका विशेष अधिक होना विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस प्रकृतिरूप बन्ध होते
समय या संक्रमण होते समय ही इस प्रकारका परिणामन देखा जाता है ।

⊗ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १६७. क्योंकि जो जीव देवकुरु और उत्तरकुरुमें हास्य और रतिके बन्धक कालसे
संख्यातगुणें अपने बन्धक कालके भीतर स्त्रीवेदका पूरकर अनन्तर दस हजार वर्षकी आयुवाले
देवोमे अधःस्थितिगलनाके द्वारा अत्यन्त स्तोत्र द्रव्यको गला कर एकेंद्रियोमे उत्पन्न होता
है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे स्थित रहते हुए स्त्रीवेदमें रतिके द्रव्यसे संख्यातगुणा
द्रव्य पाया जाता है ।

⊗ उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघमे कई गये बन्धक काल विरोधके धरासे
शोकमें संख्यातवाँ भाग अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है ।

⊗ उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६९. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविरोधरूप कारणका अनेक धार कथन कर
आये हैं ।

⊗ उससे नपुंसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २००. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ के त्रस
और स्थावरके बन्धककालसम्बन्धी विशेष अधिक कालमें नपुंसकवेदका सम्पन्न होता है ।

❁ **धुगुं द्याप उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ २०१. धुवबंधितेण इत्थि-पुरिसवेदबंधगद्दामु वि संबउवलंभादो ।

❁ **भय उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ २०२. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❁ **पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ २०३. केत्तियमेत्तेण ? भयदब्बमावलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडेयूण तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सोहम्मो सम्मतपहावेण धुवबंधिते संते पुरिसवेदस्स पयडि-विसेसादो अहियत्तुबलंभादो ।

❁ **माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ २०४. के०मेत्तेण ? पुरिसवेददब्बचउठभागमेत्तेण । सेसं सुगमं ।

❁ **कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ २०५. एत्थ पुव्विन्लसुत्तादो संजलणगहणमणुवट्टे । पयडिविसेसादो च विसेसाहियत्तं । सेसं सुगमं ।

❁ **मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

* उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०१. क्योंकि ध्रुवबन्धी होनेसे इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोंमें भी सञ्चय उपलब्ध होता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ ३०२. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०३. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि सौधर्म कल्पमें सम्यक्त्वके प्रभाववश पुरुषवेद ध्रुवबन्धी हो जाता है, इसलिए प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसमें अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है ।

* उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०४. कितना अधिक है ? पुरुषवेदके द्रव्यका एक चौथाई अधिक है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०५. यहाँ पर पूर्वके सूत्रमेंसे संज्वलन पदकी अनुवृत्ति होती है और प्रकृतिविशेष होनेके कारण इसका द्रव्य विशेष अधिक सिद्ध होता है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे संज्वलन मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ **खोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ २०६. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि, पयव्विसेसमेत्तकारणत्तादो' । एवं जाव अणाहारए ति सुत्ताविरोहेण आगमणियणेहि उक्कस्सप्पाबहुअं चित्तिव णेद्वं । किमद्वमेदस्स एइदियउक्कस्सपदेसप्पाबहुअदंडयस्स देसामासियभावेण संगहियासेस-मग्गणाविसेसस्स विसेसपरूवणा तुम्हेहि ण कीरदे? ण, सुगमत्थपरूवणाए फलाभावेण तदकरणादो । ण सेसमग्गणप्पाबहुअपरूवणाए सुगमत्तमसिद्धं, ओघग्गमग्गणेइदिय-दंडएहि चेव सेसासेसमग्गणं पाएण गयत्यत्तदंसणादो । संपहि उक्कस्सप्पाबहुअ-परिसमत्तिसमणंतरं जहावसरपत्तजहण्णपदेसप्पाबहुअपरूवणदं' जइवसइभयचंतो पइज्जासुत्तमाइ ।

❀ **जहएणदंडओ ओघेण सकारणो भव्हिदि ।**

§ २०७. एदस्स वत्तव्वपइज्जासुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—अप्पाबहुअं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सयं चेदि । तदुभयविसेसयत्तेण दंडयाणं पि तव्ववएसो । तत्थ सउक्कस्सदंडयपडिसेहफलां जहण्णदंडयणिहेसो । जइ एवं ण वत्तव्वमेदं, उक्कस्स-

❀ **उससे संज्वलन लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।**

§ २०६ ये दोनो ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृति विशेषमात्र है । इस प्रकार आगममें निपुण जीवोंको सूत्रके अधिराधरूपसे अनाहारक मार्गणा तक उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका विचार कर ले जाना चाहिए ।

शंका—देशामर्षकरूपसे जिसमें समस्त मार्गणासम्बन्धी विरोधता का संग्रह हो गया है ऐसे इस पकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व दण्डककी विशेष प्ररूपणा आप क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इसकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, उसका कोई फल नहीं है, इस लिए अलगसे प्ररूपणा नहीं की है । यदि कहा जाय कि शेष मार्गणाओंमें अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी सुगमता असिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि आघदण्डक, गतिमार्गणादण्डक और एकेन्द्रिय-दण्डकके कथनसे प्रायः कर समस्त मार्गणाओंका ज्ञान देखा जाता है ।

अब उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकी समाप्तिके अनन्तर यथावसर प्राप्त जघन्य प्रदेशअल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए यतिवृषभ भगवान् प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

❀ **जघन्य दण्डक कारण सहित ओघसे कहेंगे ।**

§ २०७. इस वक्तव्यरूप प्रतिज्ञासूत्रके अर्थका विवरण करते हैं । यथा—अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । इन दोनोंसे विशेषित होकर दण्डकोंकी भी वही संज्ञा है । उनमेंसे जघन्य दण्डकके निर्देश करनेका फल अपने उत्कृष्ट दण्डकका निषेध करना है ।

शंका—यदि ऐसा है तो 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि

दंडयस्स पुब्बमेव परुविदत्तादो परिसैसियण्णएण एदस्स अनुत्तिसिद्धीदो त्ति ? ण एस दोसो, भंदबुद्धिसिस्साणुग्गहट्ठं तथा परुवणादो । अदो चेव एदस्स वि पइज्जा-सुत्तस्स सदाणुसारिसिस्सस्स पोच्छहणफलस्स उवण्णासो सहलो, अण्णहा पेक्खा-पुब्बयारीणमणादरणीयत्तादो । एदेण सव्वसत्ताणुग्गहकारित्तं भयवंताण सूचिदं । अहवा जहण्णसामित्तमि परुविदअजहण्णहाणवियण्णामणंतभेयभिण्णार्णं गिरारयरणहं जहण्णदंडयणिहेसो त्ति वत्तव्वं ।

§ २०८. तस्स दुविहो णिहेसो—आघेण आदेशेण य । तत्थ आदेशंबुदासह-मोघेणे त्ति वयणं । वक्खाणकारयाणमाइरियाणं पोच्छाहणफलो सकारणो भणिहिदि त्ति सुत्तावयवणिहेसो, अण्णहा अवलंबणाभावेण छद्दमत्थाणं थोवबहुत्तकारणावगमण-परुवणाणं तंतजुत्तिविसयाणबणुववत्तीदो । दिसादरिसणमेत्तं चेदं, सम्पत्तजहण्ण-पदेससंतकम्मदो सम्मामिच्छत्तजहण्णपदेससंतकम्मबहुत्तमेत्ते चेव उवरिमपदाणं बीज-पदभावेण सुत्ते कारणपरुवणादो । एत्थ सह कारणेण वट्टमाणो जहण्णदंडओ ओघेण भणिहिदि त्ति पदसंबंधो कायव्वो । सेसं सुगमं ।

✽ सत्त्वत्थोषं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं ।

उत्कृष्ट दण्डकका पहले ही कथन कर आये हैं, इसलिए पारिशेष न्यायके अनुसार बिना कहे ही इसकी सिद्धि हो जाती है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मन्दबुद्धि शिष्यका अनुग्रह करनेके लिए उस प्रकारसे कथन किया है और इसीसे ही शब्दानुसारी शिष्यकी पृच्छाके फलस्वरूप इस प्रतिज्ञासूत्रका भी उपन्यास सफल है, अन्यथा प्रज्ञापूर्वक व्यवहार करनेवालोंके लिए यह आदरणीय नहीं हो सकता । इससे भगवान् सब जीवोंका अनुग्रह करनेवाले होते हैं यह सूचित होता है । अथवा जघन्य स्वाभित्तके समय कहे गये अनन्त भेदोंके लिए हुए अजघन्य स्थानोंके विकल्पोंका निराकरण करनेके लिए सूत्र मे 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश करना चाहिए ।

§ २०८. उसका निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । उनमेंसे आदेश निर्देशका निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'ओघसे' पदका निर्देश किया है । व्याख्यानकारक आचार्योंकी पृच्छाके फलस्वरूप 'सकारण कहेंगे' इस सूत्रावयवका निर्देश किया है, अन्यथा अल्पबहुत्वके कारणका जो भी ज्ञान है उसका कथन छद्मस्थोंके बिना अवलम्बनके आगमयुक्ति पुरस्सर है यह नहीं बन सकता । यह सूत्र दिशाका आभासमात्र करता है, क्योंकि सम्यक्त्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म बहुत है इतने मात्रसे उपरिम पद बीजपदरूपसे सूत्रमें कारणका निरूपण करते हैं । यहाँ पर कारण सहित विद्यमान जघन्य दण्डक ओघसे कहेंगे इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

✽ सम्पत्त्वमे जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोका है ।

१ २०६. एदस्स जहणप्पाबहुअदंडयमूलमुत्तस्स अवयवत्थपरूवर्णं कस्तापो ।
 तं जहा—सन्वेहितो उवरि बुधमाणासेसपयडिजहणपदेसपडिबद्धपदेहितो
 थोवमप्ययरं सव्वथोवं । किं तं ? सम्मत्ते' जहणपदेससंतकम्मं । एत्थ सेस-
 पयडिपडिसेहफलो सम्मतणिहेसो ; जहणणिहेसो अजहणादिवियप्पणिवारणफलो ।
 डिदि-अणुभागादिबुदासट्ठो पदेसणिहेसो । बंधादिविसेसपडिसेहहं संतकम्मं ति
 वयणं । ख्विदकम्मंसियलक्खणेष्णागंतूण णिरदिचारेहि असिधाराचरियाए कम्महिदि-
 पेत्तकालं संचरिय थोवाउएसु असण्णिपचिदिणमुववज्जिय देवाउअबंधवसेण देवेसुप्पज्जिब
 छप्पज्जितिसमाणणवावारेण अंतोमुहुत्ते गदे उक्कस्सअपुव्वकरणादिपरिणामेहि गुणसंहि-
 णिज्जरमुक्कस्सं काउण उवसमसम्मत्तल्लभपढमसमयप्पहुडि सव्वजहणमुणसंकमकालेण
 सव्वुक्कस्सगुणसंकमभागहारेण च थोवयरं मिच्छत्तदव्वं सम्मत्तसरूवेण परिणमाविय
 वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय वेद्धावडिसागरोवमाणि परिभमिय मिच्छत्तं गंतूण दीहुब्बेद्धण-
 कालेणुव्वेल्लिय सम्मत्तचरिमफालिं मिच्छत्तसरूवेण परिणमाविय एगणिसेगं हुसमय-
 कालं धरेयुगं हिदजीवस्स य सम्मत्तजहणपदेससंतकम्मं सेसपयडिजहणपदेसेहितो'

१ २०६. जघन्य अल्पबहुत्व दण्डके मूलरूप इस सूत्रके अवयवोंके अर्थका कथन करते हैं । यथा—सबसे अर्थात् आगे कही जानेवाली सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रदेशोंसे स्तोक अर्थात् अल्पतर सर्वस्तोक कहलाता है । वह सर्वेन्तो कया है ? सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशरात्कर्म । यहाँ सम्यक्त्व पदके निर्देशका फल शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है । जघन्य' पदके निर्देश करनेका फल अजघन्य आदि विकल्पका निवारण करना है । स्थिति और अनुभाग आदिका निवारण करनेके लिए 'प्रदेश' पदका निर्देश किया है । बन्ध आदि विशेषका निषेध करनेके लिए 'सत्कर्म' यह वचन दिया है । जो क्षपितकर्माशिक विधिसे आकर निरतिचाररूपसे अस्मिधारा चर्चाके द्वारा कर्मस्थितिप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके पुनः स्तोक आयुवाले असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और देवायुका बन्ध होनेसे देवोंमें उत्पन्न होकर ब्रह्म पर्याप्तियोंको पूर्ण करने रूप व्यापारके द्वारा अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर अपूर्वकरण आदि परिणामोंके द्वारा उत्कृष्ट गुणश्रणिनिर्जरा करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर सबसे जघन्य गुणसंक्रम काल और सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके स्तोकतर द्रव्यको सम्यक्त्वरूपसे परिणामा कर अनन्तर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर सबसे दीर्घ उद्वेलना कालके द्वारा अन्तम सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिका मिथ्यात्वरूपसे परिणामा कर दो समय कालकी स्थितिवाले एक निषेधको धारण कर स्थित है उसके सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंको देखते हुए स्तोकतर होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—इसका स्तोकपना कैसे है ?

१. ता०प्रती किंतु (तं) सम्मत्ते' वा०प्रती किंतु सम्मत्ते' इति पाठः । २. ता०प्रती '—जहणप-
 पदेहितो' इति पाठः ।

थोवयरं ति वुचं होदि । कुदो एदस्स थोवचं ? ओकइ कुइणभागाहारगुणिदगुणसंक-
मुक्कस्स भागहारपदुप्पणाए वेळावडिसागरोवमणाणागुणहाणिसलागाणमणोण्णंभत्थ-
रासीए दीहुव्वेन्नकालम्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमणोण्णंभत्थरासिणा चरिम-
फाल्लिआयामेण च गुणिदाए ओवट्टिददिवट्टुगुणहाणिमेसेईदियंसमयपबद्धपमाणत्तादो ।
एदं च दव्वं उवरिमपयडिपदेसेहितो थोवयरत्तस्स णायसिद्धत्तादो । हंतं वि सव्वत्थोव-
मसंखेज्जसययपबद्धपमाणं ति घेत्तव्वं, हेट्ठिमासेस भागहारकळावादो समयपबद्धगुणगार-
भूददिवट्टुगुणहाणीए असंखेज्जगुणत्तादो । समयपबद्धगुणगारकारणो जहण्णदंडओ
भणिहिदि ति पइज्जं काऊण एदस्स मूलपदस्स थोवते कारणभभणंतस्स मुत्तयारस्स
पुब्बावरविरोहदोसो ति णासंकणिज्जं, थोवादो एदम्हादो अण्णेसिं बहुत्तकारण-
परूवणाए मुत्तयारेण पइण्णाए कदत्तादो । सुगमं वा एत्थ कारणमिदि तदपरूवण-
माइरियभटारयस्स ।

❁ सम्मामिच्छुत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१०. कुदो ? सम्मतस्स पमाणेगेगट्ठिदीहितो सम्मामिच्छत्तपमाणेगेग-
ट्ठिदीणमसंखेज्जगुणत्तवत्तभादो । कुदो उभयत्थ भज्ज-भागहारणं सरिसत्ते संते सम्मत-

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका गुणसंक्रम भागहारके साथ गुणा कर जो
लब्ध आवे उससे उत्पन्न हुई जो दो छ्वासठ सागरोकी नानागुणहानि शलाकाओंकी अन्योन्या-
भ्यस्तराशि उसे दीर्घ उद्वेलन कालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे
और अन्तिम फालिके आयामसे गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिमात्र
एकेन्द्रियोंके समयप्रबद्धोमें भाग देने पर इसका प्रमाण आता है और यह द्रव्य उपरिम
प्रकृतियोंके प्रदेशोसे स्तोक्तर हैं यह न्यायसिद्ध है । यह सबसे स्तोक् हांता हुआ भी असंख्यात
समयप्रबद्धप्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नीचेके समस्त भागहारकलापसे
समयप्रबद्धकी गुणकारभूत डेढ़ गुणहानि असंख्यातगुणी है ।

शंका—समयप्रबद्धके गुणकारके कारणके साथ जघन्य दण्डक कहेगे ऐसी प्रतिज्ञा
करके इस मूलपदके स्तोक्पनेके कारणको नहीं कहनेवाले सूत्रकार पूर्वापर विरोधरूप दोषके भागी
ठहरते हैं ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रकारने स्तोक्क रूप सम्यक्त्वके
द्रव्यसे अन्य प्रकृतियोंके द्रव्यके बहुत होनेका कारण कहेगे ऐसी प्रतिज्ञा की है । अथवा यहाँ पर
कारण सुगम है, इसलिए आचार्य भट्टारकने उसका कथन नहीं किया ।

❁ उससे सम्यग्मिध्यात्वमं जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१०. क्योंकि सम्यक्त्वप्रमाण एक एक स्थितिसे सम्यग्मिध्यात्वप्रमाण एक एक स्थिति
असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है ।

शंका—उभयत्र भज्यमान और भागहारराशिसे समान होते हुए सम्यक्त्व और

सम्प्रापिच्छत्तसमाणद्विद्विदगोबुच्छाणमेवं विसरिसत्तं ? ण, मिच्छत्तादो सम्पत्त-
सरूवेण परिणमतदन्वस्स गुणसंकमभागहारो ततो चेव सम्प्रापिच्छत्तसरूवेण
संकमतपदेसग्गुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जगुणहीणत्तवत्तंभादो । ण चेदमसिद्धं,
गुणसंकमपदमसमए मिच्छत्तादो जं सम्पत्ते संकमदि पदेसग्गं [तं] योवं । तस्मिं चैव
समए सम्प्रापिच्छत्ते संकमदि पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ति सुत्तादो तस्स सिद्धीए ।
ण च भागहारविसेसमतरेण दन्वस्स तद्भाभावो जुज्जेदे, विरोहादो । एत्थ सम्प्रापि०
गुणसंकमभागहारोवद्विदसम्पत्तगुणसंकमभागहारो गुणगारो । कथं पुण विसेस-
यादवसेणं पुंन्वमेव सम्पत्तस्स जहण्णत्ते संते उवरि पलिदोवमस्स असंखे० भाग-
मेत्तद्धानं गतूण पत्तजहण्णभावं सम्प्रापिच्छत्तपदेसग्गं ततो असंखेज्जगुणं, उवरुवरि
एगेगोबुच्छविसेसाणं हाणिदंसणादो । तदो ण एदस्स असंखेज्जगुणत्तं सम्पमवगमदि
त्ति संदेहेण पुल्लमाणट्टिययस्स सिस्सस्स अहिप्पायमासंक्रिय सुत्तयारो पुच्छा-
सुत्तं भणदि—

❀ केण काणेण ?

२११. एदस्स भावत्यो जइ उवरिमसम्प्रापिच्छत्तुव्वेज्जणकालम्भंतरे असंखेज्ज-

सम्यग्मिध्यात्वकी समान स्थितियोमे स्थित गोपुच्छाएँ इस प्रकार विसदृश कैसे होती हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्यात्वमेसे सम्यक्त्वरूप परिणामन करनेवाले द्रव्यके
गुणसंक्रम भागहारसे उसीमेसे सम्यग्मिध्यात्वरूप संक्रम करनेवाले प्रदेशसमूहका गुणसंक्रम
भागहार असंख्यातगुणा हीन उपलब्ध होता है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गुणसंक्रमके
प्रथम समयमे मिध्यात्वमेसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमे संक्रमणको प्राप्त होता है वह स्तोको है
और उसी समयमे सम्यग्मिध्यात्वमे संक्रमणको प्राप्त होनेवाला प्रदेशसमूह असंख्यातगुणा है इस
सूत्रसे उसकी सिद्धि होती है और भागहारविशेषके बिना द्रव्यका उस प्रकारका होना बन नहीं
सकता, क्योंकि विरोध आता है।

यहाँ पर सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्मिध्यात्वका असंख्यातगुणा द्रव्य लानेके लिए
सम्यग्मिध्यात्वके गुणसंक्रमभागहारसे भाजित सम्यक्त्वका गुणसंक्रमभागहार गुणकार है।
विशेष घातके वशसे सम्यक्त्वके द्रव्यके पहले ही जघन्य हो जाने पर उससे आगे पत्थके
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सम्यग्मिध्यात्वका प्रदेशसमूह
उससे असंख्यातगुणा कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे आगे उसमें एक एक गोपुच्छ विशेषोंकी
हानि देखी जाती है, इसलिए इसका असंख्यातगुणा होना समीचीन नहीं प्रतीत होता इस प्रकारके
सन्देहसे जिसका हृदय पुल रहा है उस शिष्यके अभिप्रायकी आशंका कर सूत्रकार पृच्छासूत्र
कहते हैं—

* इसका कारण क्या है ?

§ २११. इस सूत्रका भावार्थ यह है कि यदि सम्यग्मिध्यात्वके उपरिम उद्वेलन कालके

१. ता०प्रती 'विसेस (वाद) भावबलेवा' इति पाठः ।

गुणहाणीओ संभवति तो तासिमण्णोण्णम्भत्तरासी गुणसंक्रमभागहारणे किं हरिसी संखेज्जगुणा असंखेज्जगुणा संखेज्जगुणहीणा असंखेज्जगुणहीणा वा चि ण निच्छओ क्खं सक्खिज्जदि । तथा च कथमेदस्स असंखेज्जगुणसं परिच्छिज्जदे ? ण च तत्थ असंखेज्जाओ गुणहाणीओ णत्थि चेवे ति वाचुं जुत्तं, तद्भावमाह्वयपमाभाषुव-
लंभादो चि । एवं विरुद्धबुद्धीए सिस्सेण कारणविसयाए पुच्छाए कदाए कारण-
परूवणाहुवारेण तस्संदेहणिरायरणहमुत्तरमुसमाइरिओ भणदि—

ॐ सम्मत्ते उब्बेत्थिदे सम्मामिच्छत्तं जेष कालेण उब्बेत्थे वि पदम्मि काले एकं पि पदेसगुणहाणिद्वान्तंरं णत्थि एदेण कारणेण ।

§ २१२. एदस्स सुत्तस्स अबयवत्थो सुगमो । एत्थ पुण पदसंबंधो एवं कायब्बो । सम्मत्ते उब्बेत्थिदे संते जेष कालेण सम्मामिच्छत्तमुब्बेत्थेदि पदम्मि काले एकं पि पदेसगुणहाणिद्वान्तंरं जेष णत्थि एदेण कारणेण सम्मत्तादो सम्मामिच्छत्तस्स असंखेज्जगुणत्तं ण विरुद्धभदे इदि । जइ वि पुव्वमेव सम्मत्तसंतकम्मे जहण्णे जादे पल्लिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तमद्धानुमुवरि गंतूण सम्मामिच्छत्तपदेस-
संतकम्मं जहण्णं जादं तो वि तदो तस्स असंखेज्जगुणत्तं जुज्जदे, तस्स कालस्स एग-
गुणहाणीए असंखे०भागत्तेण तेत्तियमेत्तमद्धानं गदस्स वि थोवयरगोबुच्छाविसेसाण

भीतर असंख्यात गुणहानियाँ सम्भव होवें तो उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि गुणसंक्रमभागहारके क्या समान होती है या संख्यातगुणी होती है या असंख्यातगुणी होती है या संख्यातगुण हीन होती है या असंख्यातगुण हीन होती है यह निश्चय करना शक्य नहीं है और ऐसी अवस्थामें इसका असंख्यातगुणा होना कैसे जाना जाना है ? वहाँ असंख्यात गुणहानियाँ नहीं ही हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभावका प्राहक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार विरुद्ध बुद्धिवाले शिष्यके द्वारा कारणविषयक पृच्छा करने पर कारणकी प्ररूपणा द्वारा उसके सन्देहका निराकरण करनेके लिए आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं—

* इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वकी उद्वेलना होने पर जितने कालमें सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना होती है उस कालके भीतर एक भी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर नहीं है ।

§ २१०. इस सूत्रका अर्थवत्थो अथ सुगम है । यहाँ पर पदसम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिए—सम्यक्त्वकी उद्वेलना हो जाने पर जितने काल द्वारा सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करता है इस कालमें यतः एक भी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर नहीं है इस कारणसे सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यका असंख्यातगुणा होना विरोधको प्राप्त नहीं होता । यद्यपि सम्यक्त्वका सत्कर्म पहले ही जघन्य हो गया है और उसके पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान आगे जा कर सम्यग्मिध्यात्वका प्रदेशसत्कर्म जघन्य हुआ है तो भी सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुणा है यह बात बन जाती है, क्योंकि वह काल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उतने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छाविशेषोंकी ही हानि देखी जाती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

चेव परिहाणिर्दसणादो ति वुत्तं होदि । एदम्मि अद्धाने पदेसगुणहाणिहाणंतरं जत्थि चि एदं कुदो परिच्छिज्जदे ? एदम्हादो चेव जिणवयणादो । ण च पमाणं पमाणंतर-
पवेक्खदे, अणवत्थापसंगादो । ण च एदस्स पक्कणत्तं सज्जसमं, जिणवयणत्तण्णहा-
णुववत्तीदो एदस्स पमाणभावसिद्धीदो । कथं सज्ज-साहणाणमेयत्तमिदि ण पक्कवट्टेयं,
स-परप्पयासयपदीव-पमाणादीहि परिहरिदत्तादो । तदो सुत्तं पमाणत्तादो पमाण-
तरणिरवेक्खमिदि सिद्धं ।

❀ अणानाणुबंधिमाणे जहण्णपदे ससं तकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१३. एत्थ समणतरादीददेसामामियमुत्तेण आदिदीवयभावेण सूचिदं
कारणपरूवणं भणिस्सामो । तं जहा—दिवड्डुगुणाहाणिगुणिदेगेइंदियसमयपवब्दे
अंतोमुहुत्तोवट्टिदो कहुक्कड्डण-अपापवत्तभागहारेहि वेद्धावट्टिअम्भंतरणाणागुणहाणि-
सलागाणमण्णोण्णवत्थरासिणा च चरिमफालिगुणिदेगेवट्टिदे असंखेज्जसमयपवब्द-
पमाणमर्णानाणुबंधिमाणजहण्णदव्वमागच्छदि । एदं पुण पुव्विल्लजहण्णदव्वादो
असंखेज्जगुणं, तन्थ इह वुत्तासेसभागहारेसु संतेसु दीहुव्वेल्लणकाल्ळम्भंतरणाणागुणहाणि-

शंका—इम अध्यानमे प्रदेशगुणाहानिस्थानान्तर नहीं है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ।

समाधान—इसी जिनवचनसे जाना जाता है । और एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने पर अनवस्था दोष आता है । इसकी प्रमाणात्ता साध्यसम है यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अन्यथा वह जिनवचन नहीं बन सकता, इसलिए उसकी प्रमाणात्ता सिद्ध है ।

शंका—साध्य और साधन एक ही कैसे हो सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीपक और प्रमाण आदिक स्व-पर प्रकाशक होते हैं, इनसे उस शंकाका परिहार हो जाता है । इसलिए सूत्र प्रमाण होनेसे प्रमाणा-
न्तरकी अपेक्षा नहीं करता यह सिद्ध हुआ ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१३. यहाँ पर इससे अनन्तर पूर्व कहा गया देशामर्षक सूत्र आदिदीपक भावरूप है, इसलिए उस द्वारा सूचित होनेवाले कारणका कथन करते हैं । यथा—डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रबद्धमें अन्तमुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार, अधःप्रवृत्त-भागहार और अन्तिम फालिसे गुणित दो छयासठ सागरके भीतरकी नाना गुणहानिशाला-काओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि इन सबका भाग देने पर अनन्तानुबन्धी मानका असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण जघन्य द्रव्य आता है । परन्तु यह सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि बहोपर यहाँ कहे गये समस्त भागहार तो हैं ही । साथ ही दीर्घ उल्लेख

१. आ०प्रती 'पक्कवट्टियं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'पदेस पुव्विल्लजहण्णदव्वादो' इति पाठः ।

सल्लागाणमणोण्णभत्थरासिभागहारस्स अहियत्तुबल्लभादो । ण च अधापवत्तभागहारो तत्थ णत्थि ति तस्स तहाभावविरोहो आसंकणिज्जो, तहुज्जेसे गुणसंकमभागहारस्स सव्वुकहस्सुवर्लभादो । ण च अधापवत्तभागहारादो गुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जगुणहीणत्तं, तहाभावपट्टिबंधयमथापवत्तभागहारस्स असंखे०भागादो गुणसंकमभागहारपट्टिभागियादो दीहुव्वेज्जणकालभंतरणाणागुणहाणिसल्लागाणमणोण्णभत्थरासिस्स असंखेज्जगुणत्तादो अणंताणुबंधिविसंजोयणचरिमफालीदो उव्वेज्जणचरिमफालीए असंखेज्जगुणत्तुबल्लभादो च । एदं पि कुदो णव्वदे ? जहण्णट्टिदिसंकमप्पावहुए णिरयगइमग्गणापट्टिबद्धे अणंताणुबंधीणं विसंजोयणचरिमफालीए जहण्णभावमुवगयजहण्णट्टिदिसंकमदो उव्वेज्जणाचरिमफालीए जहण्णभावंसम्मामिच्छत्तजहण्णट्टिदिसंकमस्स असंखेज्जगुणत्तपरुवयमुत्तादो । करणपरिणामेहि पत्तघादाणंताणुबंधिचरिमफालीदो मिच्छादिट्टिपरिणामेहि घादिदावसेसिदसम्मामिच्छत्तचरिमफालीए असंखेज्जगुणत्तस्स णायसिद्धत्तादो च । तदो चेव सव्वुकहस्सुव्वेज्जणकालणोण्णभत्थरासीदो असंखे०गुणो गुणगारो एत्थ वक्खाणाइरिएहि परुविदो ण विरुद्धभादे । गुणसंकमभागहारोवट्टिदअधापवत्तभागहारादो चरिमफालिगुणगारस्स गुरुवपमबलेण असंखे०-

कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यन्तराशिरूप भागहार अधिक उपलब्ध होता है । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि वहाँ पर अधःप्रवृत्तभागहार नहीं है, इसलिए उसके उस प्रकारके माननेमें विरोध आता है सो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्तिस्वरूप वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट गुणसंकमभागहार उपलब्ध होता है । यदि कहा जाय कि अधःप्रवृत्तभागहारसे गुणसंकमभागहार असंख्यातगुणा हीन होता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकारको प्रतिबन्ध करनेवाला अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातवे भागप्रमाण है, गुणसंकमभागहारका प्रतिभागी होनेसे दीर्घ उद्वेलना कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यन्तराशि असंख्यातगुणी है और अनन्तानुबन्धी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे उद्वेलनाकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है ।

शंका—यह भी किम प्रमाणमें जाना जाता है ?

समाधान—नरकगतिमार्गणा से सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य स्थितिसंकम अल्पबहुत्वके प्रकरणमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिमेंसे जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सम्यग्मिध्यात्वका जघन्य स्थितिसंकम असंख्यातगुणा है ऐसा कथन करनेवाले मूत्रसे जाना जाता है ।

तथा करण परिणामोके द्वारा घातको प्राप्त हुई अनन्तानुबन्धीकी अन्तिम फालिसे मिध्यादृष्टिसम्बन्धी परिणामोके द्वारा घात होकर शेष बची सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी होती है यह न्यायसिद्ध बात है और इसलिए ही यहाँ पर व्याख्यानाचार्यों के द्वारा सर्वोत्कृष्ट उद्वेलनाकालकी अन्यान्याभ्यन्तराशिसे असंख्यातगुणा कहा गया गुणकार विरोधको प्राप्त नहीं होता । गुणसंकमभागहारसे भाजित अधःप्रवृत्तभागहारसे अन्तिम फालिका गुणकार गुरुके

गुणत्तञ्जुवगमादो । एसो च गुणगारो विगिदिगोवुच्छमवहंभिय परुविदो । परमत्तदो पुण ततो वि असंखे० गुणो पत्तिदो० असंखे० भागमेत्तो । एत्थ गुणगारो विगिदिगोवुच्छादो असंखेज्जगुणो, गुणभेदिगोवुच्छं मोत्तूण तित्से एत्थ पाहणिया-भावादो ।

।हणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

११४. एत्थ पुत्तिल्लमुत्तादो अणंताणुबंधिग्गहणमणुवट्टावेद्वं । जइ वि अणंताणुबंधिचउक्कत्स समाणसामियत्तं तां वि पयडिविसेसवसेण विसेसाहियत्तं ण विरुज्झदे । सेसं सुगमं ।

⊗ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

११५. कारणमेत्थ सुगमं, अणंतरपरुविदत्तादो ।

⊗ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

११६. सुगममेदं सुत्तं, पर्याडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

⊗ मिच्छत्तो जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

११७. कुदो अणताणुबंधिलोभ-मिच्छत्ताणं अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगो त्ति सामित्तुत्तुवलंभेण समाणसामियाणमण्णोणं पेक्खियूण असंखेज्जगुणहीणाहिय-

उपदेशबलसे असंख्यातगुणा स्वीकार किया गया है। यह गुणकार विकृतिगोपुच्छाका अवलम्बन लेकर कहा गया है। परमार्थसे तो उससे भी असंख्यातगुणा है जो पत्यके असंख्यातवै भाग-प्रमाण है। यहाँ पर गुणकार विकृतिगोपुच्छासे असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि गुणश्रेणियोंपुच्छाको छोड़कर उसकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१४. यहाँ पर पहलेके सूत्रसे अनन्तानुबन्धी पदका प्रहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए। यद्यपि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेसे विशेष अधिकमना विरोधको नहीं प्राप्त होता। शेष कथन सुगम है।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१५. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका पहले कथन कर आये हैं।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ ११६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृतिविशेष है।

* उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१७. शंका—अनन्तानुबन्धियोका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है इस प्रकारके स्वामित्व सूत्रके उपलक्ष्य होनेसे समान स्वामीबाले अनन्तानुबन्धी लोभ और मिथ्यात्वका द्रव्य एक दूसरेको देवते द्रुग् असंख्यातगुणा हीन और असंख्यातगुणा अधिक कैसे बन सकता है ?

भावो ? ण, खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण देवेसुववज्जिय अणंताणुबंधि विसंजोएयूण पुणो अंतोमुहुत्तसंजुत्तावत्थाए सेसकसायदब्बं दिवइगुणहाणिगुणिदेगेइदिवसमय-पबद्धादो उक्कड्ढिदमेत्तपथापवत्तभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडपमाणं तदसंखेज्जदिभागत्थेण अप्पहाणीकयणवक्कबंधमणंताणुबंधिसखूवेण परिणमाविय सम्मत्तलाभेण वेद्धावहीओ गालिय विसंजोयणाए हुचरिमसमयट्ठिदजीवम्मि पत्तजहण्णभावस्स अणंताणुबंधि-लोभदब्बस्स अधापवत्तभागहारेण विणा जहण्णभावसुवगयमिच्छत्तजहण्णपदेससंत-कम्मादो असंखेज्जगुणहीणत्तस्स णाइयत्तादो । एत्थ गुणगारो अधापवत्तभागहारादो असंखेज्जगुणो । कथं मूलदब्बादो मूलदब्बस्स अधापवत्तभागहारे गुणगारे संते तं मोत्तुण तत्तो असंखेज्जगुणत्वं गुणगारस्स ? ण, अणंताणु० विसंजोयणाचरिम-फालीदो दंसणमोहक्खवणचरिमफालीए असंखेज्जगुणहीणत्तेण तहाभावं पडि विरोहा-भावादो । ण च चरिमफालीणं तहाभावो असिद्धो, जहण्णट्ठिसंक्रम्पावहुअसुत्त-बलेण तस्सिद्धीदो । एसो विगिदिगोपुच्छागुणगारो वुत्तो । समुदायगुणगारो पुण तप्पाओग्गो पल्लिदो० असंखे० भागयंतो, पुण्विल्लगुणसेट्ठिगोवुच्छादो एत्थतणगुण-सेट्ठिगोवुच्छाए दंसणमोहक्खवणपरिणामपाहम्मेण तावदिगु०त्तुवलंभादो । एसो

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस जीवने क्षणिककर्मांशिक विधिसे आकर और देवोमे उत्पन्न होकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है। पुनः जिसने अनन्तुहर्त काल तक उसकी संयुक्तवस्थामें रहते हुए डेढ़ गुणहानिसे गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबलद्वमेसे उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यसे अधःप्रवृत्तभागहारका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आते तत्प्रमाण शेष कषायोके द्रव्यका अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमाया है। यद्यपि यहाँ पर उस एक भागका असंख्यातवा भाग नवकबन्धका द्रव्य भी अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत होता है पर उसकी प्रधानता नहीं है। उसके बाद जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर दो क्षयासठ सागर काल तक उक्त द्रव्यका गलाते हुए विसंयोजनाके द्विचरम समयमें स्थित है उसके जघन्य भावको प्राप्त हुआ अनन्तानुबन्धी लोभका द्रव्य अधःप्रवृत्तभागहारके विना जघन्य भावको प्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशात्कर्मसे असंख्यात-गुणा हीन होता है यह बात न्याय है। यहाँ पर गुणकार अधःप्रवृत्तभागहारसे असंख्यातगुणा है।

शंका—मूल द्रव्यसे मूल द्रव्यका अधःप्रवृत्तभागहार रूप गुणकार रहते हुए उसे छोड़कर गुणकार उससे असंख्यातगुणा कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे दर्शन-माहत्त्वप्रणाली अन्तिम फालि असंख्यातगुणी हीन होनेसे गुणकारके उस प्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। और अन्तिम फालियोका उस प्रकारका होना असिद्ध है यह बात भी नहीं है, क्योंकि जघन्य स्थितिसंक्रमके अल्पबहुत्वका कथन करनेवाले सूत्रके बलसे उसकी सिद्धि होती है।

यह विकृतिगोपुच्छाका गुणकार कहा है। समुदायरूप गुणकार तो तत्प्रायोभ्य पत्यके असंख्यातत्वं भागप्रमाण है, क्योंकि पहलेकी गुणश्रेणि गोपुच्छान्ने यहाँकी गुणश्रेणि गोपुच्छा दर्शनमोहर्नायकी क्षणया करनेवाले जीवोके परिणामोकी प्रधानतावश उतनी गुणी उपलब्ध होती

च गुणमारो एत्थ पहाणो विसोहिपरिणामाइसयवसेण । गुणसेट्ठियाहृत्पं कुदो परिच्छिज्जादे ?

सम्मत्तुप्पत्ती वि य सावयविरए अणुंतकम्मंसे ।
दंसणमोहक्खववए कसायउवसामए य उवसंते ॥१॥
खवए य खीणमोहे जिणे य स्थियमा भवे असंखेज्जा ।
तन्विचरीदो कालो संखेज्जगुणा य सेट्ठीए ॥२॥

इदि पदम्हादो गाहासुत्तादो ।

❊ अप्पाबहुअपरूपणाणे जहणपदेसंतकम्ममसंखेज्जगणं ।

२१८. कुदो ? खविदकम्मसियलक्खणेण अथवसिद्धियपाओग्गजहण-
संतकम्मं काऊण पुणो तसेसु पल्लिदो० असंखे० भागमेतकालं संजमासंजम-संजम-सम्मत्त-
परिणमणवारेहि बहुकम्मपुग्गल्लालणं काऊण चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण पुणो
वि एइदिएसुववज्जिय पल्लिदो० असंखे० भागमेतकालेण कम्मं हदसमुप्पत्तियं काऊण
समयाविरोहेण मणुसेसुववज्जिय देसूणपुव्वकोडिमेतकालं संजमगुणसेट्ठिज्जरं काऊण
कदासेसकरणज्जो हांदूण अंतोमुहुत्तावसेसे सिज्जिभदववए चारित्तमोहक्खववणाए
अब्भुट्ठिय अगियट्ठिअद्दाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अहकसायचरिमफालिं परसरूवेण
संखुहिय उदयावलियपविट्ठगोबुच्छाओ गालिय डिदजीवम्मि पुव्वमपरिभमिद-
वेत्थावट्ठिसागरोवम्मि एगणिसेगे हुसमयकालट्ठिदिगे मेसे पत्तजहणणभावस्स
है । और विशुद्धिरूप परिणामांके अतिशयवश यह गुणकार यहाँपर प्रधान है ।

शंका—गुणश्रेणिका माहात्म्य किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सम्यक्त्वोत्पत्ति, श्रावक, विरत, अनन्तानुबन्धी कषायकी विसंयोजना करनेवाला, दर्शनमोहका क्षपक, चारित्रमोहका उपशामक, उपशान्तकषाय, क्षपक, स्त्रीणमोह और जिन इन स्थानामें उत्तरात्तर असंख्यातगुणी निर्जरा हानी है । परन्तु उस निजरामें लगनेवाला काल उससे विपरीत अर्थात् अन्तके स्थानसे प्रथम स्थानतक प्रत्येक स्थानमें संख्यातगुणा संख्यातगुणा है ॥१-२॥ इसप्रकार इन गाथासूत्रोंसे गुणश्रेणिका माहात्म्य जाना जाता है ॥१-२॥

❊ उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१८. क्योंकि क्षुत्पिनकर्मशविधिसे अमव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके पुनः त्रसोमें पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वरूप परिणमण आरो-
के द्वारा कर्मके बहुत पुद्गलोंको गलाकर तथा चार बार कषायोंका उपशामन करके अनन्तर पुनः एकैन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके यथाशास्त्र मनुष्योंमें उत्पन्न होकर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण काल तक संयम गुणश्रेणि-
निर्जरा करके पूरी तरह कृतकृत्य होकर सिद्ध होनेके लिए अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर चारित्र-
मोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत होकर अनिष्टसिक्करणके कालमें संख्यात बहुभाग जानेपर आठ कषायोंकी अन्तिम फालिको पररूपसे संक्रमण करके तथा उदयावलिमें प्रविष्ट हुई गोपुच्छाओको गलाकर जो जीव स्थित है वह मिथ्यात्व का जघन्य द्रव्य करनेवालेके समान दो क्षयासठ सागर

एदस्स पुबिद्धजहणदब्बादो गाल्लिद्वेद्धावट्टिसागरोवममेत्तणिसेगादो असंख्वेज्जगुणत्तस्स णायसिद्धत्तादां । गुणगारो पुण ओकडुक्कडुणभागहारगुणिद्वेद्धावट्टिसागरोवम-
णाणागुणहाणिसलागणं अण्णोण्णभत्थरासीदो दंसण-चरित्तमोहक्खवयचरिमफालि-
विसेसमासेज्ज असंख्वेज्जगुणो ति घेतव्वा, विगिदिगोवुच्छाणं तद्दाभावदंसणादो ।
गुणसेट्ठिपाहम्मंण पुण तप्पाओगंपलिदोवमासंख्वेज्जभागमेत्तो पहाणगुणगारो साहेयव्वा,
तत्थ परिणामाणुसारिगुणगारं भोत्तण दब्बाणुसारिगुणगाराणुवलंभादो ।

❊ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१६. कथमेदंसिं समानसामियाणं हीणाहियभावो ? ण, हुक्कमाणकाले चं व
पयट्टिविसेसेण त्हासरूवेण हुक्कमाणुवलंभादो । विसेसपमाणमेत्थ सुगमं ।

❊ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२०. एत्थ कारणमणंतरपरुविदत्तादो सुगमं ।

❊ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२१. कारणपरुवणं सुगमं ।

❊ पच्चक्खाणमाणं जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

काल तक परिभ्रमण नहीं करता, इसलिए उसके दो समय कालवाली एक स्थितिके शेष रहने पर जो जघन्य द्रव्य होता है वह दो छयासठ सागर कालप्रमाण निषेकोंका गलाकर प्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है यह न्यायसिद्ध बात है। परन्तु गुणकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणित दो छयासठ सागरप्रमाण नाना गुणहानिशालाकाओकी अन्यान्याभ्यन्त राशिसे दर्शनमाहनीय और चरित्रमाहनीयके क्षपककी अग्निम फालि विशेषका देखते हुए असंख्यातगुणा है जेन्ना यहाँ प्रदण करना चाहिए, क्योंकि विकृतिगोपुच्छाणं उस प्रकारकी देखी जाती हैं। परन्तु गुणश्रणिकी मुख्यतासे तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण प्रधान गुणकार साध लेना चाहिए, क्योंकि वहांपर परिणामानुसारी गुणकारको छोड़कर द्रव्यानुसारी गुणकार उपलब्ध होता है।

❊ उससे अपत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१६ श्लोका—समान स्वामीवाले इन कर्मोंमें हीनाधिक भाव कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सञ्चय होते समय ही प्रकृतिविशेष होनेके कारण उस रूपसे इनका सञ्चय होता है। विशेष प्रमाण यहाँ पर सुगम है।

❊ उससे अपत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व ही कथन कर आये हैं।

❊ उससे अपत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२१. कारणका कथन सुगम है।

❊ उससे पत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१. आ० प्रती '—पाहम्मंण त्पाओगं' इति पाठः । २. आ० प्रती 'हुक्कडुववभादो' इति पाठः ।

§ २२२. कुदो ? पयडिबिसेसादो ।

* कोहे जहणपदेससंतकम्मं बिसेसाहियं ।

§ २२३. कुदो ? विस्ससादो ।

* मायाए जहणपदेससंतकम्मं बिसेसाहियं ।

§ २२४. कुदो ? सहावदो । सेसं सुगमं ।

* लोमे जहणपदेससंतकम्मं बिसेसाहियं ।

§ २२५. एदाणि मुत्ताणि सुगमाणि । कोत्तयमेत्तेण ? आवलियाए असंखे०-
भागपडिभागियपयडिविसेसमेत्तेण ।

* कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ २२६. कुदो ? देसघादित्तेण सुलहपरिणापिकारणत्तादो । अदो चेव कथ-
मसंखेज्जसमयपबद्धमेत्तपच्चक्खाणलोभगुणसेटिसरूवजहणदव्वादो समयपबद्धस्स
असंखे०भागपमाणकोहसंजलणजहणदव्वमणंतगुणं ति णासंकणिज्जं, समयपबद्धगुण-
गारादो देसघादिपदेसगुणगारस्स अणंतगुणत्तादो । जदि वि सुहुमणिगोदजहणउववाद्-
जोगेण बद्धसमयपबद्धमेत्तं कोधसंजलणजहणदव्वं होज्ज तो वि सव्वघाइयपच्चक्खाण-

§ २२२. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२३. क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२४. क्योंकि ऐसा स्वभाव है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२५. ये सूत्र सुगम हैं । कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग
देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना प्रत्याख्यान लोभमें विशेषका प्रमाण है ।

* उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २२६. क्योंकि यह देशघाति है, इसलिये इस रूप परिणामानेका कारण सुलभ है ।

शंका—क्रोधमें संज्वलन देशघाति है केवल इसलिये असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण
प्रत्याख्यान लोभके गुणश्रेणिरूप जघन्य द्रव्यसे समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण क्रोध-
संज्वलनका जघन्य द्रव्य अनन्तगुणा कैसे है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि समयप्रबद्धके गुणकारसे देशघाति
प्रदेशोंका गुणकार अनन्तगुणा है । यद्यपि क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य सूक्ष्म निगोदियाके
जघन्य उपपाद योग द्वारा बांधे गये समयप्रबद्धप्रमाण होवे तो भी वह सर्वघाति प्रत्याख्यान

१ आ०प्रती 'बिसे० । विस्ससादो' इति पाठः । २. आ०प्रती 'बिसे० । सहावदो' ।

लोभजहणदवादो अणंतगुणमेव । किं पुण तदो असंखे० गुणपंचिद्वियघोलमाणजहण-
जोगवद्धसमयपबद्धस्स असंखेज्जभागमेत्तचग्गिफालिदव्वमिदि बुणं होदि ।

⊗ माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२७. एत्थ कारणं बुरुचदे—क्रोधसंजलणजहणदव्वमेगसमयपबद्धमेतं
होदूण मोहमव्वदव्वस्स चउभागपमाणं, चउन्विहवंधगेण बद्धत्तादो । एदं पुण एगसमय-
पबद्धमोहणीयदव्वस्स तिभागमेत्तं माण-माया-लोभेसु तिहा विहंजिय छिदत्तादो ।
तदो विसेसाहियत्तं जुज्जदे तिभागव्वहियमिदि उत्तं होदि । एत्थ संदिहीए चउवीस
२४ पमाणमोहणीयदव्वपडिवद्धाए अब्बुप्पणगसिस्साणं पबोहो कायव्वो ।

⊗ पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२८. कुदो ? मोहणीयदव्वस्स दुभागपमाणत्तादो । तं पि कुदो ? पंचविध-
बंधयस्स मोहणीयसमयपबद्धमेत्तणोकसायभागभागित्तादो मोहणीयतिभागमेत्तमाण-
संजलणदवादो तदद्वमेत्तपुरिसवेददव्वं दुभागेणव्वहियं होदि ति भावत्थो ।

लोभके जघन्य द्रव्यमे अनन्तगुणा ही है । तिरुपर चरमफालिका द्रव्य मृक्षम निगोदियाके
जघन्य उपपादयोगसे असंख्यातगुणे पचेन्द्रियके घोलमाण जघन्य योगद्वारा बांधे गये समय-
प्रबद्धके असंख्यातवे भागप्रमाण है इसलिए उसका कहना ही क्या है यह इसका तात्पर्य है ।

⊗ उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२७. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं—क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य एक समय-
प्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहके सब द्रव्यके चौथे भागप्रमाण है, क्योंकि उसका संज्वलनका
बन्ध होते समय बन्ध हुआ है, किन्तु वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहनीयके सब
द्रव्यका तीसरा भाग है, क्योंकि वह मान, माया और लोभ इन तीनों भागोंमें विभक्त होकर
स्थित है । इसलिए जो क्रोध संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे मान संज्वलनका जघन्य द्रव्य विशेष
अधिक कहा है वह युक्त है । क्रोधसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे मानसंज्वलनका जघन्य द्रव्य तीसरा
भाग अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब यहाँ संदृष्टिसे मोहनीयके सब द्रव्यको
२४ मानकर अच्युत्पन्न शिष्योंको ज्ञान कराना चाहिये ।

उदाहरण—मोहनीयका सब द्रव्य २४; संज्वलन क्रोध ६, संज्वलन मान ६, संज्वलन
माया ६, संज्वलन लोभ ६ । संज्वलन क्रोधकी बन्ध व्युच्छित हो जाने पर संज्वलन मानका
जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय, संज्वलनमान ८, माया ८, लोभ ८ इसप्रकार बैठवारा
होता है । $८ - ६ = २ = \frac{६}{३}$

⊗ उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२८. क्योंकि यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है ।

शंका—यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण कैसे है ?

समाधान— जो जीव पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा
है उसके मोहनीयका जो समयप्रबद्ध नोकपायको प्राप्त होता है वह सब पुरुषवेदको मिल जाता है,
इसलिये यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है । इसका यह आशय है कि मोहनीयके

❁ मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २२६. दोण्हं पि मोहणीयस्स अद्धपमाणचे संते कुदो पुब्बिण्णदो षदस्स विसैसाहियसं ? ण, पयडिविसैसेण पुब्बिण्णदव्वमावलि० असंखे०यागेण खंडिय तथेयखंडमेतेण एदस्स अडियत्तवलंभादो ।

❁ णवुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २३०. एत्थ कारणं बुच्चदे । तं जहा—मायासंजलणस्स चरिमसमयणवकबंधो दुसमयूणदोआवालियमेत्तद्धानुवरि गंतूण एगसमयपवद्धस्स असंखेज्जा भागा होदूण जहणपदेससंतकम्मं जादं । णवुंसयवेदस्स पुण असंखेज्जपंचिदियसमयपवद्धसंजुत्तगुणसेट्ठिदव्वं जहणं जादं । तदो किंचूणसमयपवद्धमेत्तजहणदव्वादो असंखेज्जसमयपवद्धपमाणणवुंसयवेदजहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं होदि त्ति ण एत्थ संदेहो ।

❁ इत्थिवेदस्स जहणपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २३१. कुदो सरिसपरिणामेहि कयगुणसेटीणं दोण्हं पि सरिसत्ते संते णवुंसयवेदपयडिविगिदिगोबुच्छाहितो इन्धिवेदपयडिविगिदिगोबुच्छाणमसंखेज्जगुणत्तादो । तं पि तीसरे भागप्रमाण मान संज्वलनके द्रव्यसे माहनीयका आधा पुरुषवेदका द्रव्य दूसप भाग अधिकहोता है ।

* उससे माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२६. शंका—पुरुषवेद और मायासंज्वलन इन दोनोंको ही माहनीयका आधा आधा प्रमाण प्राप्त है फिर पहलेसे यह विशेष अधिक क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके कारण इसमें विशेष अधिक द्रव्य पाया जाता है । पुरुषवेदके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना इसमें विशेष अधिक है ।

* उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २३०. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं । जो इस प्रकार है—माया संज्वलनका जो अन्तिम समयका नवक बन्ध है वह दो समय कम दो अवलिप्रमाण स्थान आगे जाकर एक समयप्रबद्धका असंख्यात बहुभाग प्रमाण रह जाता है और वही जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता है । किन्तु नपुंसकवेदका पञ्चेन्द्रियके असंख्यात समयप्रबद्धोंसे संयुक्त गुणश्रेणीका द्रव्य जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता है, इसलिए कुछ कम समयप्रबद्धप्रमाण माया संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है इसमें कोई सन्देह नहीं ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३१. क्योंकि यद्यपि दोनोंकी गुणश्रेणियाँ सदृश परिणामोंसे की जाती हैं, इसलिये वे समान हैं तो भी नपुंसकवेदकी प्रकृति गोपुच्छाओंसे स्त्रीवेदकी प्रकृति और विवृति गोपुच्छाएँ असंख्यातगुणी होती हैं ।

कुदो ? बंधाभावे ननुसयवेदस्सेव तिसु पल्लिदोवमेसु इत्थिबेदगोबुच्छाणं गलणाभावादो । कदो चेव सामित्तसुत्ते 'तिपल्लिदोवमिपसु णो उववण्णो' इदि वुत्तं, वेद्धावट्टिसागारोवमेसु व तत्थुववादे' पओजणाभावादो । एत्थ गुणगारो तिपल्लिदोवमग्भंतरणाणाणुण-हाणिसल्लागाणमण्णोण्णग्भत्थरासी । दोण्हं पि गुणसेदीओ सरिसीओ ति पुष द्विविय पुणो ननुसयवेदगोबुच्छं ततो असंखे०गुणइत्थिवेदगोबुच्छादो अवणिय द्विविदे जं सेसं सगअसंखेज्जभागमेत्तमहियदव्वं तेण विसेसाहियं ति वुत्तं होदि । एदं विसेसाहियवयणं णावर्यं, जंहा सव्वत्थ गुणसेट्ठिविण्णासो परिणामाणुसारिओ चेव ण दव्वाणुसारि ति । अण्णहा पयददव्वस्स पुत्विन्लदव्वादो असंखे०गुणत्तं मोत्तूण विसेसाहिय-भावाणुववचीदो ।

❀ इस्से जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २३२. कुदो ? अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णसंतकम्मेण तसेसु आगंतूण बहुएहि संजमासंजम-संजमपरियट्ठणवारोहि चउट्टि कसायउवसमणवारोहि य बहुकम्मपदेसणिज्जरं

शंका—ऐसा क्यों होता है ?

समाधान—बन्धके अभावमे नपुंसकवेदके समान तीन पल्य कालके भीतर स्त्रीवेदकी गोपुच्छाए' नहीं गलती हैं । अर्थात् जिसके नपुंसकवेदका जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह पहले जिस प्रकार उत्तम भोगमूमिमें तीन पल्य काल तक नपुंसकवेदकी गोपुच्छाए' गला आता है उस प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य द्रव्यवालेको पहले यह क्रिया नहीं करनी पड़ती है, इसलिये इसके तीन पल्य कालके भीतर गलनेवाली गोपुच्छाए' बच जाती हैं और इसीलिये स्वामित्व सूत्रमे स्त्री-वेदके जघन्य द्रव्यको प्राप्त करनेवाला 'तीन पल्यकी आयुवालोंमें नहीं उत्पन्न होता' यह कहा है क्योंकि इसे दो छयासठ सागर काल तक सम्यग्दृष्टियोंमें परिभ्रमण कराना है । अब इस कालके भीतर तीन पल्यकी आयुवालोंमें भी उत्पन्न कराया जाता है तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता ।

तीन पल्यके भीतर नानागुणहानि शलाकाओंकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि प्राप्त हो वह यहाँ गुणकारक प्रमाण है । दोनोंकी गुणश्रेणियाँ समान हैं, अतः उन्हें अलग स्थापित करो । अनन्तर नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओसे असंख्यातगुणी स्त्रीवेदकी गोपुच्छाओमेसे नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंको घटा कर स्थापित करने पर जो अपनेसे असंख्यातवां भाग अधिक द्रव्य शेष रहता है उतना स्त्रीवेदका जघन्य द्रव्य विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । सूत्रमे जो यह 'विशेषाधिक' वचन है सो वह ज्ञापक है जिससे यह ज्ञापित होता है कि गुणश्रेणिका विन्यास सब जगह परिणामके अनुसार होता है द्रव्यके अनुसार नहीं होता । यदि ऐसा न माना जाय तो प्रकृत द्रव्य पिछले द्रव्यसे असंख्यातगुणा प्राप्त होता है उसे छोड़कर विशेषाधिकता नहीं बन सकती है ।

❀ उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २३२. क्योंकि अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया और वहाँ अनेक-वार संयमासंयम और संयमकी पलटन करते हुए तथा चार बार कषायोंकी उपशमना कर बहुत

काऊण फलाभावेण वेच्छावट्ठीओ अपरिभमिय तदो कयेण पुच्चकोट्टअमणुस्सभवे दीहट्ठं संजमणुणसेट्ठिणिज्जरं काऊण खवणाए अन्नुट्ठिदजीवेण चरिमट्ठिदिस्वंडए चरिमसमयअणिल्लेविदे छणोकसायाणं जहणणसामित्तिहाणादो । एत्थ मुणगारो उक्कट्टणभागहारगुणिदचरिमफालिपदुप्पणवेद्धावट्ठि सागरोवमणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णभत्थरासी पुच्चिल्लगुणसेट्ठिगोबुच्छागमणदत्तप्पाओगपल्लिदो० असंखे०-भागमेत्तरूवोवट्ठिदो । कुदो ? वेद्धावट्ठिसागरोवमाणमपरिभमणादो । सयलसमत्थाए चरिमफालीए पत्तसामित्तभावादो च हेट्ठिल्लरासिस्स तच्चिवरीयसरूवत्तादो च ।

❀ रदीए जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३३. एदंसि सरिससामियत्ते वि पयटिविसेसेण विसंसाहियत्तमेत्थ दट्ठवं । सुगमं ।

❀ सोगे जहणणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २३४. कुदो ? पुच्चिल्लबंधगद्धादो संपहियबंधगद्धाए संखेज्जगुणत्तादो ।

❀ अरदीए जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३५. कुदो ? पयटिविसेसादो ।

❀ दुगुंछाए जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

कर्मप्रदेशोकी निर्जरा की । यथा विशेष लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण नहीं किया । तदनन्तर क्रमसे एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्य भवमे दीर्घ काल तक संयमको पालका और गुणश्रेणि निर्जरा करके जब यह जीव क्षणिके लिये उद्यत होता है तब अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतन होनेके अन्तिम समयमे छह नाकपायोंका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण उत्कर्षणभागहार गुणित अन्तिम फालि प्रत्युत्पन्न दो छयासठ सागरकी नानागुणानियोंकी अन्यान्याभ्यस्तराशिमे पहलेकी गुणश्रेणिगोपुच्छाओंको लानेके लिए स्थापित किये गये तत्परयोग्य पत्यके असंख्यातवं भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना है, क्योंकि दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण नहीं कराया है और पूरी तरहसे समर्थ अन्तिम फालिमे स्वामित्वकी प्राप्ति हुई है । तथा पिछली राशि इससे विपरीत स्वरूपवाली है ।

* उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३३. इन दोनोका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेषके कारण पूर्व प्रकृतिसे इस प्रकृतिमें विशेष अधिक द्रव्य जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

* उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २३४. क्योंकि पूर्व प्रकृतिके बन्धकालसे इस प्रकृतिका बन्धकाल संख्यातगुणा है ।

* उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३५. इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३६. ध्रुवबंधितादो हस्स-रदिबंधगद्दाए वि एदिस्से बंधुवलंभादो । केचित्तिय-
मेत्तो विसेस्सो ? हस्स-रदिबंधगद्दाजणिदसंचयमेत्तो । सेसं सुगमं ।

❁ भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३७. कुदो ? पयडिविसेसादो विशेषमात्रमत्रकारणमुद्घोषयामः ।

* लोभसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३८. एत्थ कारणं युच्चदे । तं जहा-भयदब्बं^१ मोहणीयसव्वदव्वस्स दसम-
भागो । लोभसंजलणदव्वं पुण मोहदव्वस्स अट्टमभागो, कसायभागस्स चउसु वि
संजलणेसु विहंजिय द्विदत्तादो । अण्णं च लोभसंजलणदव्वमधापवत्तकरणचरिम-
समयम्मि जहणं जादं । भयपदेसमं पुण तत्तो उवरि अंतोमुहुत्तमेत्तगुणसेदि-
गोवुच्छामु गल्लिदामु गुणसंकमदव्वे च परिहीणे अणियट्टिअद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण
पत्तजहणभावमेदेण कारणेण एदासिं पयडीणं पदेसस्स हीणाहियभावो ण विरुज्झदे ।

एवमोपजहणदंडओ सकारणो समत्तो ।

❁ थिरयगईए सव्वत्थोवं सम्मत्ते जहणपदेससंतकम्मं ।

§ २३९. एदस्स आदेसजहणप्पाबहुअमूलपदपरुवयसुत्तस्स अत्थपरुवणा

§ २३६. क्योकि जुगप्सा प्रकृति ध्रुवबन्धिनी है । हास्य और रतिके बन्धकालमे भी
इसका बन्ध पाया जाता है । कितना अधिक है ? हास्य और रतिके बन्धकालमे जितना
सञ्चय होता है उतना अधिक है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३७. क्योकि प्रकृति विशेष ही इस विशेषका कारण है यहाँ हम यह कहते हैं ।

* उससे लोभ संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३८. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं जो इस प्रकार है—भयका द्रव्य तां मोहनीयके
सब द्रव्यका दसवां भाग है । परन्तु लोभसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यके आठवां
भाग है, क्योकि कपायोंका हिस्सा चारो संज्वलनोंमें विभक्त होकर स्थित है । दूसरा कारण
यह है कि लोभ संज्वलनका द्रव्य अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य हो जाता
है परन्तु भयका द्रव्य इसके आगे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण गुणश्रेणिय गोपुच्छाओंके गला देने पर और
गुणसंक्रमके द्रव्यके घट जानेपर अनिष्टित्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जानेपर
जघन्य होता है इसलिये इन दोनों प्रवृत्तियोंका हीनाधिकभाव विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

इस प्रकार कारणसहित ओषसे जघन्य दण्डकका कथन समाप्त हुआ ।

* नरकगतिमें सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे थोड़ा है ।

§ २३९. आदेशसे जघन्य अल्पबहुत्वके मूलपदका कथन करनेवाले इस सूत्रका

१. ता०प्रतौ 'ध्रुवचदे भयदब्बं' इति पाठः ।

सुगमा ।

⊗ सम्मामिच्छुत्ते जहणणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुण ।

§ २४०. सुगममेदं सुत्तं, ओघादो अविसिद्धकारणत्तादो ।

⊗ अणंताणुणं धिमाणे जहणणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

§ २४१. एत्थ सुणगारो तप्पाआंग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तो । कुदो ? सुण-
सेदीदरगोबुच्छाकयविसेसादो चरिमफालिविसेसावलंबणादो च सेसोवट्टणादिविण्णासो
अवहारिय पुन्वावराणं सिस्साणं सुगमो ।

⊗ कोहे जहणणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४२. पयद्विविसेसादो ।

⊗ मायाए जहणणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४३. विस्ससादो ।

⊗ लोभे जहणणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । वज्झकारणणिरवेक्खो वत्थुपरिणामो ।

⊗ मिच्छुत्ते जहणणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

अर्थ सरल है ।

* उससे सम्यग्मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणाके समय जो इसका कारण कहा है उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । दोनो जगह कारण एक समान है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४१. यहाँ गुणकारका प्रमाण तद्योग्य पत्न्यका असंख्यातर्वा भाग है, क्योंकि यहाँ गुणश्रेणि और उनसे भिन्न गोच्छात्रोके कारण तथा अन्तिम फालिविशेषके कारण विशेषता आजाती है । आगे पीछेका विचार करके शेष अपवर्तन आदिका विन्यास सब शिष्योंको सुगम है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४२. इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४३. क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४४. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यहाँ विरोधाधिकका बाध कारण नहीं है, वस्तुका परिणाम ही ऐसा है ।

* उससे मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४५. को गुणकारो ? अधापवत्तभागहारो चरिमफाली च अण्णोण-
गुणाओ ! कुदो ? हेट्टिमरासिणा तेतीससागरोवमाणणागुणहाणिसत्तागाण-
मण्णोण्णअभत्थरासीए ओकङ्कु कङ्कणभागहारपटुप्पण्णअधापवत्तभागहारेण चरिमफालीए
च गुणिदाए ओवट्टिददिवडुगुणहाणिगुणिदेगेईदियसमयपवद्धपमाणेण उवरिमरासिम्मि
अधापवत्तचरिमफालिगुणगारविरहिदपुव्वुत्तभागहारोवट्टिददिवडुगुणहाणिगुणिदेगेईदिय-
समयपवद्धपमाणम्मि भागे हिदे एत्तियमेत्तगुणगारुवलंभादो । पुव्विन्ल्लविगिदि-
गोवुच्चमस्सियूण एसा गुणगारपरुवणा कया । तत्थतणगुणसेट्ठिगोवुच्चमस्सियूण
भण्णमाणे पुव्विन्ल्लगुणगारो तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागेण ओवट्टे यव्वो ।
कारणं सुगमं ।

❁ अपचक्रस्वाणमाये जहण्णपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

: २४६. कुदो ? असण्णपच्छायदपढमपुहविउप्पण्णपढमसमयवट्टमाणखविद-
कम्मसियम्मि पत्तजहण्णसामित्तणेण एकस्से वि गुणहाणीए गलणाभावादो ।
मिच्छत्तसस पुण अंतोयुहुत्तणतेतीससागरोवममेत्तकालं गालिय जहण्णसामित्तविहाणेण
तेत्तियमेत्तगोवुच्च्छाणं गलणुवलंभादो । अदो चेय तेतीससागरोवममभंतरणाणागुण-
हाणिसत्तागाअण्णोण्णअभत्थरासी उकङ्कणभागहारपटुप्पाइदो एत्थ गुणगारो ।

§ २४५. गुणकार क्या है ? अधःप्रवृत्तभागहार और अन्तिम फालि इनका परस्पर गुणा
करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकार है, क्योंकि तेतीस सागरकी नानागुणहानिशलाकाओकी
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे, अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार गुणित अधःप्रवृत्तभागहारसे और अन्तिम
फालिसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समय-
प्रबद्धमं भाग देनेपर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण अधस्तन राशिका अधःप्रवृत्त की अन्तिम फालिरूप
गुणकारसे रहित पूर्वोक्त भागहारसे भाजित जो डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध
तत्प्रमाण उपरिम राशिमे भाग देनेपर उक्त प्रमाण गुणकार उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त विवृति
गोपुच्छाका आश्रय लेकर यह गुणकारकी प्ररूपणा की है। वहाँकी गुणधेखिगोपुच्छाका आश्रय
लेकर कथन करने पर पूर्वोक्त गुणकारको तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवत् भागसे भाजित करना
चाहिए। कारण सुगम है।

❁ उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदंशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४६. क्योंकि असंखियोमेसे आकर जो क्षपित कर्मांशिक जीव प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न
होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अप्रत्याख्यान मानका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे
एक भी गुणहानिका गलन नहीं हुआ है। परन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर काल
व्यतीत कर जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे वहाँ उसकी उतनी गोपुच्छाएँ गल गई हैं। और
इसीलिए ही उत्कर्षणभागहारसे उत्पन्नकी गई तेतीस सागरके भीतरकी नानागुणहानिशलाकाओं-
की अन्योन्याभ्यस्त राशि यहाँ पर गुणकार है।

१. आ० प्रती 'गुणिदेगेसमयपवद्ध' इति पाठः । २. सा० प्रती 'सत्तागा [य] अथचक्रासहिष-
रासी' इति पाठः ।

❁ कोहे जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४७. अ एत्थ किं वि वत्तव्वमत्थि, पयडिविसेसमेतस्स कारणत्तादो ।

❁ मायाए जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४८. सुगममेदं, अणंतरपरुविदकारणत्तादो ।

❁ लोभे जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४९. एत्थ पक्खओ सुगमो ।

❁ पक्खक्खाणमाणे जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५०. सुगममत्र कारणं, स्वभावमात्रानुबन्धित्वात् ।

❁ कोहे जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५१. ण एत्थ वत्तव्वमत्थि । कुदो ? विस्ससादो । केदियमेतो विसेसो ?
आवलि० असंखे० भागपडिभागियपयडिविसेसमेतो ।

❁ मायाए जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५२. एत्थ कारणमणंतरपरुविदत्तादो सुगमं ।

* उससे अप्रत्याख्यात क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४७. यहाँपर कुछ भी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रकृतिविशेष मात्र ही विशेष अधिक होनेका कारण है ।

* उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४९. यहाँ पर कारणका कथन सुगम है ।

* उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि वह स्वभावमात्रका अनुबन्धी है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५१. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म स्वभावसे अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? प्रत्याख्यानमानके जघन्य द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इस प्रकृतियों विशेषका प्रमाण है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५२. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं ।

❁ लोभे जहणपदे ससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २५३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एदम्हादो चव रागाइअविज्जा-संघुत्तिणजिनवरवयणादो । ण च तारिसेसु आरिसकारएसु चप्पलस्स संबवो, विरोहादो ।

❁ इत्थिवेदे जहणपदे ससंतकम्मं मणंतगुणं ।

§ २५४. कथं सम्मत्तपाहम्मेण बंधविरह्दिसरूवत्तादो आपण विणा तेत्तीस-सागरोवमेसु गल्लिदावसिद्वस्सेदस्स पुच्चिवल्लादो तच्चिवरीदसरूवादो अणंतगुणत्तमिदि णासंकणिज्जं, देसघाइत्तेण सुलहपरिणामिकारणस्सेदस्स तदो तप्पडिणीयसहावादो अणंतगुणत्तस्स णाइयत्तादो ।

❁ एवुंसयवेदे जहणपदे ससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५५. दोण्हमेदासिं पयहीणं पुच्चुत्तकालम्भंतरे सरिसीसु वि गुणहाणीसु गल्लिदासु बंधगद्धावसेण पुच्चिवल्लजहणदव्वादो एदस्स संखेज्जगुणत्तं ण विरुज्भदे । सेसं सुगमं ।

❁ पुरिसवेदे जहणपदे ससंतकम्मं मसंखेज्जगुणं ।

❁ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५३. य सूत्र सुगम हैं, क्योंकि रागादि अविद्यासंघसे उत्तीर्ण हुए जिनवरके ये वचन हैं । आर्षकर्ता जिनवरोके उस प्रकार होनेपर उनमें चपलता सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके ऐसा होनेमें विरोध आता है ।

❁ उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २५४. शंका—एक तो सम्यक्त्वकी प्रमुखतासे बंधनेवाली प्रकृतियोसे यह विरुद्ध-स्वभाववाली है । दूसरे आयके बिना तेतीस सागर कालके भीतर गलकर यह अवशिष्ट रहती है, इसलिए भी यह पूर्वोक्त प्रकृतिकी अपेक्षा उससे विपरीत स्वभाववाली है, अतएव यह प्रत्याख्यान लोभसे अनन्तगुणी कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशघाति होनेसे तथा सुलभ परिणाम कारणक यह प्रकृति होनेसे यह प्रत्याख्यान लोभसे प्रत्यनीक स्वभाववाली है, अतः इसके द्रव्यका अनन्तगुणा होना न्यायप्राप्त है ।

❁ उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २५५. इन दोनो ही प्रकृतियोंकी पूर्वोक्त कालके भीतर समान गुणहानियोंका गलन होता है तो भी बन्धक कालवश पूर्वोक्त प्रकृतिके जघन्य द्रव्यसे इसका द्रव्य संख्यातगुणा होता है इसमें कोई विरोध नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

❁ उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २५६. एत्थ गुणगारो तेतीससागरोवमणाणागुणहाणि सलागाणमणोष्ण-
म्भत्यरासी संखेज्जरूवोवट्टिकडु कडुख भागहारगुणिदो, असपिणपञ्चायदपडमपुदवि-
खेरइयम्मि वोलाविदपडिवक्खबंधगद्धम्मि पत्तजहएणभावने अगल्लिदंभतोमुहुत्तण-
तेतीससागरोवमत्तणिसेगस्स पुच्चिन्लादो तप्पडिवक्खसहाबादो तावदि गुणसे विरोहा-
णुवलंभादो ।

✽ हस्से जहएणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५७. एत्थ कारणां बंधगद्धाप संखेज्जगुणत्तं । ण च बंधगद्धाणुरूवो ण
होइ, विरोहादो ।

✽ रदीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२५८. पयडिविसेमो एत्थ पच्चओ सुगमो ।

✽ सोगे जहएणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५९. बंधगद्धावसेण ।

✽ अरदीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६०. पयडिविसेवसेण ।

✽ दुगुंल्लाप जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५६. यहाँ पर गुणाकारका प्रमाण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारमें संख्यातका भाग
देकर जो लब्ध आवे उससे तेतीस सागरकी नामागुणहानिशालाकाओकी अन्योन्याभ्यस्तराशिके
गुणित करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना है, क्योंकि अमंश्रियोमेसे आकर पहली पृथिवीके
नारकीमे प्रतिपन्न प्रकृतिके बन्धककालके व्यतीत होने पर जघन्यपनेके प्राप्त होनेमे अन्तर्मुहूर्त
कम तेतीस सागरप्रमाण इस निषेकका पहलके उसके प्रतिपन्न स्वभाव निषेकसे उतना गुणा
होनेमे कोई विरोध नहीं आता है ।

✽ उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २५७. इसका कारण बन्धक कालका संख्यात होना है । और बन्धककालके अनुरूप
सञ्चय नहीं होता है यह बात नहीं है, क्योंकि बन्धककालके अनुरूप सञ्चय नहीं होने पर विरोध
आता है ।

✽ उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५८. प्रकृतिविशेष ही यहाँ पर कारण है, इसलिए वट सुगम है ।

✽ उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५९. क्योंकि उसका कारण बन्धककाल है ।

✽ उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६०. क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

✽ उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६१. ध्रुवबंधित्ते ण हरस-रइबंधगद्धाए वि एदिस्से बंधुलंभादो ।

* भए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६२. दोणं पि मोहणीयस्स दसमभागे कुदो हीणाहियभावो ? ण पयडिविसेसमस्सियूण तहाभावुवलंभादो ।

* माणसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६३. मोहणीयसव्वदव्वस्स अट्टमभागत्तादो ।

* कोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

* मायासंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

* लोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६४. एदाणि तिण्णिण वि सुत्ताणि अब्भंतरीकयपयडिविसेसकारणाणि सुगमाणि । संपहि एदेण गिरयगइसामण्ण पडिबद्धजहएणप्पाबहुअदंडएण सगंतो-णिक्खित्तासेसणिरयगइमग्गणाबयणेण पुध पुध सत्तणं पि पुढवीणमप्पाबहुअं परुविदं चेव । णवरि सामित्तविसोसो तदणुसारेण च गुणयारविसोसो णायव्वो । णत्थि अण्णो विसोसो ।

एवं गिरयगइजहएणदंडओ समत्तो ।

§ २६१. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति होनेसे हास्य और रतिके बन्धकालमें भी इसका बन्ध पाया जाता है ।

* उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६२. शंका—ये दोनों प्रकृतियाँ मोहनीयके दसवें भागप्रमाण हैं, इसलिए इनके प्रदेशोंमें हीनाधिकपना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके आश्रयसे उस प्रकार हीनाधिकरूपसे प्रदेश पाये जाते हैं ।

* उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६३. क्योंकि मोहनीयके सब द्रव्यके आठवें भागप्रमाण इसका द्रव्य है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६४. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इन सूत्रोंमें जितना अल्पबहुत्व कहा है वे अलग अलग प्रकृतियाँ हैं । अब समस्त नरकगतिके अन्तर्भेद नरकगतियों अन्तर्लान हैं, इसलिए नरकगति सामान्यसे सम्बन्ध रखनेवाले इस अल्पबहुत्व दण्डके द्वारा अलग अलग सातों ही पृथिवियोंका अल्पबहुत्व कह ही दिया है । इतनी विशेषता है कि स्वामित्वविशेष जान लेना चाहिए । यहाँ अन्य कौई विशेषता नहीं है ।

❁ जहा गिरयगईए तथा सब्वासु गईसु ।

§ २६५. एदस्स अप्पणामुत्तस्स आलावसामण्णमवेक्खिय पयट्टस्स सामित्त-
तदणुसारिगुणगारविसेसणिरवेक्खस्स अत्यपरूवणा अवहारिय सामित्तविसेसाणं
सुगमा । एदेण गइसामण्णप्पणामुत्तेण मणुसगईए वि गिरओघभंगे अइयप्पसत्ते
तव्बुदासहुवारेण तत्थ अववादपरूवणद्वमुत्तं सुत्तं भणदि—

❁ एवरि मणुसगदीए ओघं ।

§ २६६. एत्थ एवरि सहो पुब्बिन्ल्लप्पणादो एदस्स विसेससूचओ । को सो
विसेसो ? मणुसगईए ओघमिदि मणुसगइओघालावमण्णोहिंयं लहदि त्ति वुत्तं होइ ।
तदो ओघालावो अण्णोहिओ एत्थ कायव्वो, मणुसगइसामण्णप्पणाए तदविरोहादो ।
विसेसप्पणाए पुण अत्थि भेदो, मणुमपज्जराएसु सुवदो बहिब्भूदइत्थिवेदोदएसु
णवुंसयवेदस्सुवरि ओघम्मि विसेसाहियभावेण पदिदइत्थिवेदस्स चरिमफालिमाहप्पेण
असंखेज्जगुणत्तवत्तंभादो । मणुसिणीसु वि माणसंजलस्सुवरि मायासंजलणे जहण्ण-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । इत्थिवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं असंखेज्जगुणं;
गुणसेडीए पाहणियादो । णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं, वेद्दावदीण-

* जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पबहुत्व है उसी प्रकार सब मार्गार्थोंमें
जानना चाहिए ।

§ २६५. स्वामित्व और उसके अनुसार गुणकारविशेषकी अपेक्षा किये बिना आलाप-
सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुए इस अर्पणा सूत्रकी अर्थप्ररूपणा सुगम है । इस गतिमार्गार्था-
संबन्धी अर्पणासूत्रके आश्रयसे मनुष्यगतिमें भी सामान्य नारकियोंके समान भङ्गका अतिप्रसङ्ग
प्राप्त होने पर उसके निराकरण द्वारा वहाँ पर अपवादका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

❁ इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिमें ओघके समान भङ्ग है ।

§ २६६. यहाँ पर 'एवरि' शब्द पहलेके सूत्रसे इसमें विशेषका सूचक है ।

शंका—यह विशेष क्या है ?

समाधान—'मनुष्यगतिमें ओघके समान है' ऐसा कहनेसे मनुष्यगतिमें ओघ आलाप
न्यूनधिकतासे रहित होकर प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, इसलिए न्यूनता और
अधिकतासे रहित ओघ आलाप यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति सामान्यकी विषेक्षा होने
पर उसमें ओघ आलापके घटित होनेमें विरोध नहीं आता । विशेषकी विषेक्षा होनेपर तो भेद
है ही, क्योंकि स्त्रीवेदके उदयसे रहित मनुष्यपर्याप्तकोंमें नपुंसकवेदके ऊपर ओघमें विशेष
अधिकरूपसे प्राप्त हुआ स्त्रीवेद अन्तिम फालिके माहात्म्यसे असंख्यातगुणा उपलब्ध होता है ।
मनुष्यनियोगमें भी मान संव्वलनमें ऊपर माया संव्वलनमें जघन्य प्रदेशस्तर्कमें विशेष अधिक
है । उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशस्तर्क असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणभेदकी प्रबानता

मगलणादो अधापवत्तचरिभसमए देसूणपुव्वकोडिणिज्जरादव्वपरिहीणसगसयल-
दव्वेण सह जहण्णसामित्तविधानादो । इस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं, दोणं
पि देसूणपुव्वकोडिणिज्जराए सरिसीए संतीए बंधगद्धावसेण संखेज्जगुणत्तुवलंभादो
त्ति । एसो च विसेसो दव्वट्टियणयमस्सियूण सुत्तयारेण ण विवक्खिओ । पज्जवट्टिय-
णयावलंबणे पुण वक्खाणाइरिएहिं वक्खाणेयव्वो, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति
न्यायात् । सुगममन्यत् । संपहिं सेसमगगणाणं देसामासियभावेण इंदियमगगणावयव-
भूदएइंदिएभु जहण्णपावहुअपरूवणहमुत्तमुत्तपबंधमाह—

❁ एइंदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्तो जहण्णपदे ससंतकम्मं ।

§ २६७. कुदो ? खविदकम्मंसियस्स भमिदवेळावर्त्तसागरावमस्स दीहुव्वेळ्ळण-
कालहुचरिभसमए वट्टमाणस्स दुसमयकालट्टिदिपयणित्सेयट्टिदसुहुत्थोवयरजहण्ण-
दव्वग्गाहणादो

❁ सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदे ससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २६८. एत्थ कारणमोघसिद्धं । गुणगारो च सुगमो ।

❁ अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदे ससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

है । उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनितम फालिके कारण असंख्यातगुणा है । उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है, क्योंकि दो छयासठ सागर प्रमाण निषेकोके नहीं गलनेसे अधःप्रवृत्तकरणके अनितम समयमें कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण निर्जराको प्राप्त हुए द्रव्यसे हीन अपने समस्त द्रव्यके साथ जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है । उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है, क्योंकि दोनो ही कर्माकी कुछ कम एक पूर्वकोटि-काल तक होनेवाली निर्जराके समान होते हुए भी बन्धक कालके वशसे पुरुषवेदके जघन्य प्रदेश-सत्कर्मसे हास्यका जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा उपलब्ध होता है । इस प्रकारके इस विशेषकी द्रव्याधिकतयका आश्रय लेकर सूत्रकारने विवक्षा नहीं की है । परन्तु पर्यायाधिकतयका अवलम्बन लेकर व्याख्यानार्थको व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्यायवचन है । शेष कथन सुगम है । अब शेष मार्गणाओके देशामर्षकरूपसे इन्द्रियमार्गणाके अद्यान्तर भेद एकेन्द्रियोमें जघन्य अल्पबहुत्वके कथन करनेके लिए आगेके सूत्रकलापको कहते हैं—

❁ एकन्द्रियोमें सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ २६७. क्योंकि जो क्षपितकर्मांशिक जीव दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर चुका है उसके दीर्घ उद्वेलनकालके द्विपरम समयमें विद्यमान रहते हुए दो समय कालकी स्थिति-वाले एक निषेकमें स्थित अत्यन्त स्तोकतर जघन्य द्रव्यका ग्रहण किया है ।

❁ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २६८. यहाँ पर कारण ओषके समान सिद्ध है और गुणकार भी सुगम है ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी पानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २६६. को गुणगारो ! वेद्वावद्विसागरोवमदीहुव्वेन्लणकालणाणागुणहाजि-
सलागाणमएणोएणअन्थरासी गुणसंकमोहुक्कडुणभागहारचरिमफालीहि गुणिय
अधापवत्तभागहारोणोवद्विदो । कुदो ? खविदकम्मंसियस्स अभवसिद्धियपाओगजहण-
संतकम्मियस्स तसेमुपपज्जिय विसंजोइअणंताणुबंधिचउकस्स पुणो अंतोमुहुत्तसंजुत्तस्स
फलाभावेण अभमादिदवेद्वावद्विसागरोवमस्स एइदिएसुप्पणपढमसमए जहण-
सामित्तपरूवणादो । कुदो वेद्वावद्विसागरोवमपरिब्भमणे फलाभावो ? ण, एइदिएसु-
प्पत्तिअण्णहाणुववतीए । पुणो वि मिच्छत्तं गच्छमाणेण अधापवत्तेण पद्विद्धिज्जमाण-
वेद्वावद्विसागरोवमभंततरंसंचिददिवडुगुणहाणिगुणिदपंचिदियसमयपबद्धमेत्तसेसकसाय-
दव्वस्स पुव्वपरूविदसामियजहणणदव्वादो जोअगुणगारमाहूपेण असंखेज्जगुणत्तेण
फलाणुवत्तंभादो । णिरयगईए वि अणंताणुबंधिचउकसामियस्स अपरिब्भमिद-
वेद्वावद्विसागरोवमस्स एइदियजहणसंतकम्मेणेव पवेसणे एदं चेव कारणं वत्तव्वं,
तत्थेव इत्थिवेदजहणसंतकम्मादो बंधगद्धावसेण णवुंसयवेदजहणसंतकम्मस्स संखेज्ज-
गुणत्ते एवं तिपल्लिदोवमवेद्वावद्विसागरोवमाणमपरिब्भमणं कारणत्तेणं परूवेयव्वं ।

§ २६६. गुणकार क्या है ? दो छयासठ सागरोंपम दीर्घ उद्वेलन कालके भीतर प्राप्त नाना
गुणहानि शलाकाआकी अन्वोन्याभ्यस्त राशिको गुणसंक्रमभागहार, अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार
और प्रतिम फालिसे गुणित करके अधःप्रवृत्तभागारका भाग देने पर जो लब्ध श्रावे उतना
गुणकार है, क्याकि जो लुपितकर्मशिक जीव अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोमे
उत्पन्न हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विमंयोजना करके और अन्तमुहूर्तमें
उमसे संयुक्त होकर कोई लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना
एकेन्द्रियोमे उत्पजा हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका
कथन किया है ।

शंका—दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण करना निष्फल क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा उसकी एकेन्द्रियोमे उत्पत्ति बन नहीं सकती है ।

फिर भी मिथ्यात्वमें जाकर अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा संक्रमणको प्राप्त हुए और दो छयासठ
सागर कालके भीतर सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिगुणित पञ्चोन्द्रियके समयप्रबद्धमात्र शेष कषायोंके
द्रव्यके पहले कहे गये स्वामित्वविषयक जघन्य द्रव्यसे योग गुणकारके माहात्म्य बश असंख्यात-
गुणे होनेके कारण कोई फल नहीं उपलब्ध होता ।

नरकगतिमें भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका स्वामित्व कहते समय उसे दो छयासठ
सागर काल तक परिभ्रमण न करा कर एकेन्द्रियोमे जघन्य सत्कर्मरूपसे प्रवेश कराने में यही
कारण कहना चाहिए । तथा वहीं स्त्रीवेदके जघन्य सत्कर्मसे बन्धक काल बश नपुंसकवेदके
जघन्य सत्कर्मके संख्यातगुणे होने पर इसी प्रकार तीन पत्य और दो छयासठ सागर कालके
भीतर परिभ्रमण नहीं करना कारणरूपसे कहना चाहिए ।

❁ कोहे जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

❁ मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ लोभे जहण्णपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७०. एदाणि सुत्ताणि सगतोक्खित्तपयडिविसेसपच्चयाणि सुगमाणि त्ति ण वक्खाणायरो कीरदि ।

❁ मिच्छुत्ते जहण्णपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

§ २७१. एत्थ चोदओ भणइ—जहा तुम्हेहि पुत्विज्जमणंताणुबंधीणं जहण्ण-
सामित्तं परुविदं तथा मिच्छत्तादो तेसिं जहण्णपदेससंतकम्मेणासंखेज्जगुणेण होदब्बं,
मिच्छत्तस्स वेद्धावट्ठीओ भमादियसम्मत्तादो परिवडिय एइदिएसुप्पण्णपढमसमए जहण्ण-
सामित्तदंसणादो तेसिमण्णहा सामित्तविहाणादो च । ण च मिच्छत्तजहण्णसामिणा
वि वेद्धावट्ठिसागरोवमाणि ण हिंदिदाणि त्ति वोत्तुं जुत्तं, अण्णहा तस्स जहण्ण-
भावाणुवत्तीदो तदपरिब्भमणे कारणाणुवलंभादो च । एदम्हादो उवरिमअपच्चक्खाण-
माणजहण्णपदेससंतकम्मस्स असंखेज्जगुणत्तण्णहाणुवत्तीए च तस्सिद्धीदो । ण च
अथापवत्तभागहारोदो वेद्धावट्ठिसागरोवमब्भंतरणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णभत्थ-

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७०. उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेका कारण प्रकृतिविशेष होना यह बात इन सूत्रोंमें ही गर्भित होनेसे ये सुगम हैं, इसलिए इनका व्याख्यान नहीं करते हैं ।

* उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २७१. शंका—यहाँ पर प्रश्न करनेवाला कहता है कि जिस प्रकार तुमने पहले अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य स्वामित्व कहा है उसी प्रकार मिथ्यात्वमें उनका जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म असंख्यातगुणा होना चाहिए. क्योंकि सम्यक्त्वके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके और मिथ्यात्वमें गिर कर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका जघन्य स्वामित्व देखा जाता है और अनन्तानुबन्धियोंका इससे अन्यथा प्रकारसे जघन्य स्वामित्वका विधान किया है। यदि कहा जाय मिथ्यात्वका जघन्य स्वामी भी दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण नहीं करता है सो उसका ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर मिथ्यात्वका जघन्यपना नहीं बन सकता है, दूसरे दो छयासठ सागरके भीतर परि-
भ्रमण नहीं करनेका कारण उपलब्ध नहीं होता। इससे तथा आगे जो अप्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा कहा है वह अन्यथा बन नहीं सकता इससे भी उक्त कथनकी सिद्धि होती है। कोई कहे कि उत्कर्षणभागहारके द्वारा उत्पन्न की गई दो छयासठ सागर कालके भीतर जो नाना गुणद्वानिशलाकाओकी अन्योन्याभ्यस्त राशि है वह अधःप्रवृत्तभागहारसे

रासीए उक्कडुणभागहारपदुप्पणाए असंखेज्जगुणहीणत्तावलंबणेण पयददोसपरिहारो समंजसो, तत्तो तिस्से असंखेज्जगुणत्तपदुप्पाययउवरिमप्पाबहुअदंडएण सह विरोह-
प्पसंगादो । वेद्धावट्टिसागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाणं पि तत्थ तत्तो असंखेज्ज-
गुणत्तुवलंबादो उव्वेद्धणकालणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णभत्थरासीदो वि तस्सा-
संखेज्जगुणहीणत्तस्साणंतरमेव परुविदत्तादो च । तम्हा सामित्ताहिप्पाएणेवंविहेण
हेट्टुवरि णिवदेयव्वमेदेणप्पाबहुएण ? ण त्हाव्वुवगमो जुज्जंतओ, सुत्तेणेदेण सह
विरोहादो । ण चेदमण्णहा काउं सक्किज्जइ, जिणाणमण्णहावाइत्तादो । तदो ण
पुव्वुत्तमणंताणुबंधिजहण्णसामित्तगुणगारो वा घटंतओ त्ति ? एत्थ परिहारो वुच्चदे—
सच्चमेवेदं जइ सामित्तं त्हाविहमेत्थ जहणत्तेणावलंबियं, तत्थ समणंतरपरुविददोसस्स
परिहरेउमसकियत्तादो । किं तु अणंताणुबंधीणं पि मिच्छत्तस्सेव वेद्धावट्टीओ भमादिय
जहण्णसामित्तविहाणेण पयददोसपरिहारो दट्टव्वो, तस्स णिवज्जत्तादो । ण एत्थ
विं पुव्वपरुविददोसो आसंकणिज्जो, वयाणुसारिआयावलंबणेण तस्स परिहारोदो ।
ण संजुत्तावत्थाए पि एस पसंगो, तदण्णत्थ एव्विहणियमभुव्वगमादो भमिदवेद्धावट्टि-

असंख्यातगुणी हीन होती हैं, अतः इस बातका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत दोषका परिहार बन जायगा सो उसका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इस कथनका उससे अर्थात् अधःप्रवृत्तभागहारसे उसे अर्थात् दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई अन्योन्याभ्यस्त राशिको असंख्यातगुणा उत्पन्न करनेवाले उपरिम अल्पबहुत्वदण्डकके साथ विरोधका प्रसङ्ग आता है, दूसरे वहाँ पर दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाएँ भी उससे असंख्यातगुणी, उपलब्ध होती हैं, तीसरे उद्वेलन कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भी वह अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातगुणा हीन होता है यह अनन्तर पूर्व ही कह आये हैं, इसलिए स्वामित्वके अभिप्रायके अनुसार इस अल्प-
बहुत्वका इस प्रकार अर्थात् हमारे द्वारा बतलाई गई विधिके अनुसार आगे पीछे रचना चाहिए । परन्तु वैसा मानना युक्त नहीं है, क्योंकि इस सूत्रके साथ विरोध आता है और इस सूत्रका अन्यथा कर नहीं सकते, क्योंकि जिनेन्द्रदेव अन्यथावादी नहीं होते । इसलिए अनन्तानुबन्धीके जघन्य स्वामित्वका पूर्वोक्त गुणकार घटित नहीं हाता ?

समाधान—अब यहाँ पर इस शंकाका परिहार करते हैं—यह सत्य ही है यदि उस प्रकारके जघन्य स्वामित्वका यहाँ पर अवलम्बन किया जावे, क्योंकि उस प्रकारसे जघन्य स्वामित्वके अवलम्बन करने पर अनन्तर पूर्व कहे गये दोषका परिहार करना अशक्य है । किन्तु मिथ्यात्वके समान ही दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण कराकर अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य स्वामित्वका विधान करनेसे प्रकृत दोषका परिहार जान लेना चाहिए, क्योंकि यह कथन निर्दोष है । यदि कोई यहाँ पर भी पहले कहे गये दोषकी आशंका करे तो उसका ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि व्ययके अनुसार आयका अवलम्बन करनेसे उसका परिहार हो जाता है । संयुक्तावस्थामें भी यही प्रसङ्ग आता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उस

सागरोवमखविदकम्मंसियम्मि तथाविहणियमावलंबणादो च । जइ एवं, गिरयगईए मिच्छत्ताणंताणुबंधीणं वेद्धावढ्दीओ भमादिय परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गेदूण गेरईएसु-
प्पाइय तेत्तीससागरोवमाणि योवूणाणि सम्मत्तमणुपालविय जहण्णसामित्तं दायव्व-
मिदि ? ण एदं पि दोसाय, विरोहाभावेण तथाब्धुवगमादो । ण च वेद्धावढ्दि-
सागरोवमाणि परिभमिदस्स तेत्तीससागरोवमपरिभ्रमणासंभवेण पच्चवट्ठेयं, वेद्धावढ्दि-
बहिब्भूदसागरोवमपुधत्तमेत्तसम्मत्त कालपरूवयसंक्रमसामित्तमुत्तबलेण तदविरोहसिद्धीए
ण सो पसंगो । इत्थि-णवुंसयवेदाणमादेसजहण्णसामियस्स वि तत्थुवएसंतरमस्सियूण
पयारंतरेण सामित्तविहाणादो । तं जहा—एत्थ वे उवएसा एको ताव सव्वासि
बंधपयडीणमाएण वयाणुसारिणा होदव्वमिदि । अण्णेणो णायानुसारी वओ, वयाणु-
सारी वा आओ' । किंतु सव्वपयडीणमप्पणो मूलदव्वाणुसारेण समयविरोहेण
संक्रमो होइ ति । तत्थ पढमोवएसमस्सिदूण पयट्ठेदं मिच्छत्ताणंताणुबंधीणमादेस-
जहण्णसामित्तप्पाबहुगं च इत्थि-णवुंसयवेदाणमोघजहण्णसामित्तं पि तदणुसारी' चेव ।

अवस्थाके सिवा अन्यत्र उस प्रकारका नियम स्वीकार किया गया है । दूसरे जो क्षपितकर्माशिक
जीव दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर चुका है उसके उस प्रकारके नियमका अव-
लम्बन लिया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करा कर और
परिणामोके निमित्तमे मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा नारकियोमे उत्पन्न कराकर कुछ कम तेतीस
सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कराकर नरकगतिमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका
जघन्य स्वामित्व देना चाहिए ?

समाधान—यही भी दोषाधायक नहीं है, क्योंकि विरोधका अभाव होनेसे उस प्रकारसे
उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व स्वीकार किया है । यदि कोई कहे कि जो दो छयासठ सागर
काल तक परिभ्रमण करता रहा है उसका तेतीस सागर काल तक परिभ्रमण करना असम्भव है सो
ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो छयासठ सागरप्रमाण कालके बाहर सागर
पृथक्त्वप्रमाण सम्यक्त्वके कालका कथन करनेवाले संक्रमस्वामित्वसूत्रके बलसे उक्त कथन
अविरोधी सिद्ध होनेसे उक्त दोषका प्रसङ्ग नहीं आता है । तथा खीवेद और नपुंसकवेदके आदेश
जघन्य स्वामिका भी वहाँ पर उपदेशान्तरका आश्रय लेकर प्रकारान्तरसे स्वामित्वका विधान
किया है । यथा—इस विषयमे दो उपदेश हैं—प्रथम उपदेश तो यह है कि सब बन्ध प्रकृतियोंके
व्ययके अनुसार आय होना चाहिए । दूसरा उपदेश यह है कि आयके अनुसार व्यय नहीं होता
तथा व्ययके अनुसार आय भी नहीं होता किन्तु सब प्रकृतियोंका अपने अपने मूल द्रव्यके
अनुसार आगममे प्रतिपादित विधिके अनुसार संक्रम होता है । उनमेसे प्रथम उपदेशके अनुसार
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धियोंका आदेश जघन्य स्वामित्वविषयक अल्पबहुत्व प्रवृत्त हुआ

१. ता०प्रती 'वयाणुसारी आओ' इति पाठः । २. ता०प्रती '—जहत्थं वि सामित्तं तदणुसारी'
इति पाठः ।

तत्थ सोदएण साभित्तविहाणद्धं वेच्चावट्ठीओ भमाडिय मिच्छत्तट्ठोवणादो तेसिमेव जहण्ण-
साभित्तमादेसपडिबद्धं विदियउषएसावसंबणेण पयट्ठं, तत्थ तदणुसारणेवप्पाबहुअ-
परूवणुवल्लंभादो । तम्हा अहिप्पायभेदमिममासेज्ज सव्वत्थ मुत्ताणपचिरोडो घटावेयव्वो
त्ति ण किंचि दुग्घदं पेच्च्आमो । तदो सिद्धमायाणुसारिवयावल्लंसिसाभित्तावल्लंबणे-
णाणंताणुबंधिलोभादो मिच्छत्तमसंखेज्जगुणमिदि । एत्थ गुणगारो अधापवत्तभागहारो
पुव्वसुत्ते वि उव्वेल्लण०णाणागुणहाणिसल्लागाणमण्णोण्णम्भत्थरासीदो असंखेज्जगुणो
त्ति घेत्तव्वो, हेट्ठिमरासिणा उवरिमरासिम्मि भागे हिदे तट्ठोवल्लंभादो ।

❁ अप्पाबहुअपरूपखा जहण्णपदेससंतकम्मसंखेज्जगुणं ।

§ २७२. एत्थ गुणगारो वेच्चावट्ठिसागरोवमणाणागुणहाणिसल्लागाणमण्णोण्ण-
म्भत्थरासीदो असंखे०गुणो ।

❁ कोवे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७३. एदाणि मुत्ताणि सुट्ठु सुगमाणि ।

हे । तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका ओष जघन्य स्वामित्व भी उसीके अनुसार प्रवृत्त हुआ है । उनमेंसे स्वांदायसे स्वामित्वका कथन करनेके लिए दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण कराकर मिथ्यात्वका संकमण हो जानेसे उन्हींका आदेशप्रतिबद्ध जघन्य स्वामित्व द्वितीय उपदेशका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि वहां पर उसीके अनुसार ही अल्प-बहुत्वका कथन उपलब्ध होता है, इसलिए इस भिन्न अभिप्रायका आश्रय लेकर सर्वत्र सूत्रोंमें अविरोध स्थापित कर लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी दुर्घट नहीं देखते हैं ।

इसलिए सिद्ध हुआ कि आयके अनुसार व्ययका अवलम्बन लेनेवाले स्वामित्वका अव-लम्बन लेनेसे अनन्तानुबन्धी लोभसे मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यतगुणा है । यहां पर गुणकार अधः-प्रवृत्तभागहार है जो पहलेके सूत्रमें भी उद्वेलन भागहारकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा है ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधःस्तन राशिका उपरिम राशिमें भाग देने पर उसकी उपलब्धि होती है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २७२. यहाँ पर गुणकार दो छयासठ सागरकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७३. ये सूत्र अत्यन्त सुगम हैं ।

❁ पञ्चकखाण्यमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❁ छोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❁ पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ २७५. कुदो ? देसघाइत्तादो बहूणं परिणामिकारणाणमुवलंभादो ।

❁ इत्थिवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २७६. कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०गुणत्तादो । एत्थ चोदओ भणइ, कथं वेद्धाबट्टिसागरोवमाणि परिभमिय एइदिपमुप्पणपदमसमए जहण्णभावमुवगयस्सेदस्स तन्निवरीदसरूवादो पुरिसवेददव्वादो अमंखेज्जगुणहीणत्तं मुच्चा संखेज्जगुणत्तं जुज्जे । ण च एदमविविक्खय एइदियजहण्णसंतकम्मस्सेव संगहो त्ति वीत्तुं जुत्तं, एदमहादो तस्स असंखे०गुणत्तेण जहण्णभावानुववचीदो तदविवक्खाए फलाणुवलंभादो च । तदो ण एदं सुत्तं समंजसमिदि । एत्थ परिहारो वुच्चे—ण एसो

* उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विरोध अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विरोध अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७४. ये सूत्र सुगम हैं ।

* उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २७५. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके परिणामन करानेके बहुतसे कारण पाये जाते हैं ।

* उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २७६. क्योंकि पुरुषवेदके बन्धक कालसे स्त्रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो छथासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य भावको प्राप्त हुआ वेद उसके विपरीत स्वभाववाला होनेसे पुरुषवेदके द्रव्यसे असंख्यातगुणे हीनको छोड़कर संख्यातगुणा कैसे बन सकता है । यदि कहा जाय कि इसकी अविषया करके एकेन्द्रियके जघन्य सत्कर्मका ही संग्रह किया है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एकेन्द्रियका जघन्य सत्कर्म असंख्यातगुणा होनेसे जघन्यभावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उसकी अविषया करनेमें कोई फल नहीं उपलब्ध होता, इसलिए यह सूत्र ठीक नहीं है ?

समाधान—यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं—इस स्त्रीवेदके जघन्य स्वामीको दो

इत्थिवेदजहण्णसामिओ^१ वेद्धावट्टिसागरोवमाणि भमादेयव्वो, तब्भमणे फलाणुबलंभादो ।
सो^२ च कुदो ? वेद्धावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय सम्मत्तादो परिबडिय इत्थिवेदं
बंधमाणस्स पुरिसवेदादो अधापवत्तभागहारेण इत्थिवेदम्मि संकममाणदव्वस्स असंखेज्ज-
पंचिदियसमयपबद्धमेत्तस्स एइदियपाओग्गजहण्णपदेससंतकम्मं पेक्खियूण असंखेज्ज-
गुणत्तादो । तं पि कुदो णव्वदे ? अधापवत्तभागहारादो जोगुणगारस्स असंखेज्ज-
गुणत्तपरुवयमुत्तादो । तदो एइदियसंचयस्स पाहणियादो बंधगद्धावसेण संखेज्ज-
गुणत्तमविरुद्धं सिद्धं ।

❁ हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २७७. कुदो ? इत्थिवेदबंधगद्धादो एइदिएसु हस्स-२इबंधगद्धाए संखेज्ज-
गुणत्तादो ।

❁ रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७८. पयडिविसेसेण ।

❁ सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

छयासठ सागर काल तक नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि उस कालके भीतर घुमानेमें कोई फल नहीं पाया जाता ।

शंका—यह किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण करके और सम्यक्त्वसे च्युत
होकर स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाले जीवके पुरुषवेदमेंसे अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा स्त्रीवेदमें
संक्रमणको प्राप्त होनेवाला पञ्चन्द्रियके असख्यात समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य एकेन्द्रियके योग्य
जघन्य प्रदेशसत्कर्मको देखते हुए असंख्यातगुणा होता है ।

शंका—वह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—अधःप्रवृत्त भागहारसे यांगगुणकार असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन
करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है ।

इसलिए एकेन्द्रियके सञ्चयकी प्रधानता होनेसे बन्धक कालके वशसे पुरुषवेदके द्रव्यसे
स्त्रीवेदका द्रव्य अविरोधरूपसे संख्यातगुणा सिद्ध होता है ।

* उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २७७. क्योंकि स्त्रीवेदके बन्धक कालसे एकेन्द्रियोमें हास्य और रतिका बन्धक काल
संख्यातगुणा है ।

* उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७८. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

१. ता०प्रती 'य एस दोसो इत्थिवेदजहण्णसामिओ' इति पाठः । २. ता०प्रती 'फलाणुबलंभादो
च । सो' इति पाठः ।

§ २७६. बंधगद्गाए तहवद्गाणादो ।

* अरवीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८०. पयडिविसेसादो ।

* एणुंसयवेदे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२८१. कुदो ? एइंदियअरदि-सोगबंधगद्गादो तत्थतणणुंसयवेदबंधगद्गाए विसेसाहियत्तादो । केत्तियमेत्तां बंधगद्गाविसेसो ? हस्स-रदिवंधगद्गाए संखेज्जभाग-मेत्तो । तदणुसारेण च दन्वविसेसो परूवेयव्वो ।

* दुगुंछाए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८२. धुवबंधितादो ।

* भए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८३. पयडिविसेसेण तहावद्गाणादो ।

* माणसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८४. मांहणीयदसमभागं पेक्खियुण तदद्वमभागस्स विसेसाहियत्ते संदंहा-भावादो ।

* कोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

* मायासंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७६. क्योंकि बन्धक काल उस प्रकारसे अवस्थित है ।

* उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८०. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८१. क्योंकि एकेन्द्रियोमे अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ पर नपुंसकवेदका बन्धक काल विशेष अधिक है । बन्धककाल विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके बन्धककालके संग्यातबंध भागप्रमाण है । और उसीके अनुसार द्रव्यविशेषका कथन करना चाहिए ।

* उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८२. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है ।

उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८३. क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेसे उसका उस रूपसे अवस्थान है ।

* उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८४. क्योंकि मोहनीयकं दसम भागको देखते हुए उसका आठवाँ भाग विशेष अधिक होता है इसमें सन्देह नहीं है ।

* उससे क्रोध सज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे माया सज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❁ लोभसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८५. सुगमं ।

एदेण देसाभासियदंडएण सूचिदसेमासेसमग्गणाओ अणुमग्गिदब्बाओ जाव अणाहारि ति ।

एवमप्पावहुअं समत्तं ।

❁ एत्तो भुजगारं पदणिकखेव वड्डीओ च कादब्बाओ ।

§ २८६. एत्तो उवरि भुजगारं परूविय तदो पदणिकखेव-वड्डीओ कायवाओ ति उवरिमाणंतरमुत्तावेक्वां सुत्तत्यसंबंधो कायव्वां । संपडि एदस्स अत्थसमप्पणा-सुत्तस्स सूचिदासेसपरूवणस्स दव्वट्टियणयावत्तं विसिस्साणुग्गहकाग्गिओ भगवदीए उच्चारणाए पसाएण पज्जवट्टियपरूवणं भणिस्सामो । तं जहा—भुजगारविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरसाणियोगादाराणि समुक्तित्ता जाव अप्पावहुए ति । तत्थ समुक्तित्ताणु-गमेण हुविहो णिहेसो—ओघेण अःदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-वारमक०-पुरिस०-भय-दुग्गुच्छाणमत्थि भुज० अप्प० अवट्टिदविहत्तिओ । सम्म०-सम्मामि० अत्थि० भुज० अप्प० अवत्तव्वमवट्टिदं च । अणताणुवधिचउक्कस्स अत्थि भुज० अप्प० अवट्टिद० अवत्तव्वं । इत्थिवेद०-णवुंमय०-हस्स-रइ-अरइ-रोगाणमत्थि भुज० अप्प० विहत्तिओ । अवट्टिदं च उवसमसेदीए । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-

❁ उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८५. ये सूत्र सुगम हैं । इस देशामर्षकदण्डकका अवलम्बन लेकर अनाहारक मार्गणा तक समस्त मार्गणाओंका अनुमार्गण करना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

❁ इससे आगे भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

§ २८६. इससे आगे भुजगारका कथन करके अनन्तर पदनिक्षेप और वृद्धिका कथन करना चाहिए इस प्रकार उपरिम अनन्तर सूत्रकी अपेक्षा करके इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए । अब समस्त परूपणाओंको सूचन करनेवाले और द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले शिष्योंका अनुग्रह करनेवाले और मुख्यरूपसे अधिकारका सूचन करनेवाले इस सूत्रकी भगवती उच्चारणाके प्रसादसे विशेष परूपणा करते हैं । यथा—भुजगार विभक्तिमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक । उनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघसे मिध्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है । तथा उपशमश्रेणिमें अवस्थितविभक्ति है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तियेय्य, सब मनुष्य, देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम

सन्वमणुस्स-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि मणुसतियवदिरितेसु इत्थि-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमवट्ठिदं णत्थि । अण्णं च पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंढ० अत्थि भुज० अप्प० अवट्ठि० । सत्तणोकसायाणमत्थि भुज० अप्प० । सम्मत्त०-सम्मामि० अत्थि अप्पदरविहती । अणुदिसादि जाव सन्वट्ठसिद्धि ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक०-इत्थि-णवुंस० अत्थि अप्पदरविहती । णवरि सम्म०-सम्मामि० भुजगारो वि दीसइ उवसमसेदीए कालं कादूण तत्थुप्पण्णउवसमसम्माइट्ठिम्मि ति तमेत्थ ण विवक्खियं, तदविवक्खाए कारणं जाणिय वत्तव्वं । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० अत्थि भुज० अप्प० अवट्ठि० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुज० अप्प०-विहत्तिओ, उवसमसेदीदो अण्णत्थ एदेसिमवट्ठिदपदाभावादो । एवं जाव अणाहारि ति ।

समुत्तण गदा ।

§ २८७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छ० भुज०विहती कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्ठिस्स । अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्ठिस्स वा सासणसम्माइट्ठिस्स वा । अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठिस्स वा मिच्छाइट्ठिस्स वा । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० कस्स ?

मैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकों छोड़कर शेषमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति नहीं है । और भी—पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । सात नाकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति भी दिखलाई देती है जो उपशमश्रेणामे मरकर वहाँ उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टिके होती है परन्तु उसकी यहाँ विधत्ता नहीं है । उसकी विवक्षा न होनेका कारण जानकर कहना चाहिए । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है, क्योंकि उपशमश्रेणिके सिवा अन्यत्र इसका अवस्थितपद नहीं पाया जाता । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ २८७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किससे होती है ?—अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । सम्यक्त्व

अण्णद० सम्माइडिस्स । अवडि० कस्स ? अण्ण० सासणसम्माइडिस्स । अप्प० कस्स ? अण्ण० सम्माइडि० मिच्छाइडिस्स वा । अण्णताणु०चलकस्स मिच्छत्त-भंगो । एवरि अवडि० कस्स ? अण्ण० मिच्छाइडिस्स । अवत्त० कस्स ? अण्णद० विसंजोइय पुणो संजुत्तपढमसमए वट्टमाणयस्स । बारसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवडि० कस्स ? अण्ण० सम्माइडि० मिच्छाइडि० । इत्थि०-णवुंस० भुज०-विहत्ति० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइडिस्स । अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० मिच्छाइडि० वा । हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं भुज०-अप्पद० कस्स ? अण्ण० सम्मा० मिच्छाइडिस्स वा । एदेसिं छण्णं पि एोकसायाणं अवडि० कस्स ? अण्णद० चारित्त-मोहउवसामयस्स सब्बुवसामणाए वट्टमाणयस्स । पुरिस० भुज०-अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० मिच्छाइडिस्स वा । अवडि० कस्स ? अण्णद० सम्माइडिस्स । एवं सब्बणोरइय--तिरिक्ख--पंचिंदियतिरिक्खतिय--मणुसतिय--देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । एवरि छण्णोकसायाणमवडिदविहत्ती मणुसतियवदिरित्तमग्गणासु णत्थि । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवडि० कस्स ? अण्णद० सम्म० सम्मामि० । अप्प० कस्स० अण्णद० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० कस्स ? अण्ण० । अणुहिसादि जाव सब्बहा ति मिच्छ०-

और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सासादनसम्यग्दृष्टिके होती है । अल्पतर-विभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टिके होती है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर विसंयोजना करनेके बाद पुनः संयुक्त होनेके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके होती है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टिके होती है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टिके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टिके होती है । इन छहों नोकपयोंकी अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? सर्वोपशामनाके साथ विद्यमान चारित्रमोहनीयकी उपशामना करनेवाले अन्यतर जीवके होती है । पुरुषवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतमें सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह नोकपयोंकी अवस्थितविभक्ति मनुष्यत्रिकके सिवा अन्य मार्गणाओंमें नहीं हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयार्थ और मनुष्य अपयार्थ जीवोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । सात नोकपयोंकी भुजगार और

सम्म०-सम्मामि०-अणताणु०चउक०-इत्थि०-णनुंस० अप्प० कस्स ? अएणद० ।
 बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० तिण्णि वि पदाणि कस्स ? अण्णद० । चउणो०
 भुज०-अप्प० कस्स ? अण्णद० । एवं जाव अणाहारए त्ति ।

सामित्तं गदं ।

§ २८८. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
 अणताणु०चउकाणं भुज०विहती केवचिरं ? जहएणेण एगसमओ, उक० पल्लिदो०
 असंखे०भागो । अप्प०विह० जह० एगस०, उक० वेद्धावट्ठि० सागरोवमाणि
 सादिरैयाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० संखेज्जा समया । एवरि मिच्छ०
 उक० द्धावल्लियाओ । अणताणु०चउक० अवत्त० जहण्णुक० एगस० । सम्म०-
 सम्मामि० भुज० जहण्णुक० अंतोमु० । अप्प० जह० अंतोमु०, उक० वेद्धावट्ठि-
 सागरो० सादिरैयाणि पल्लिदो० असंखे०भागेण । अवत्त० जहण्णुक० एगस० ।
 अवट्ठि० जह० एगस०, उक० द्धावल्लियाओ । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० भुज०-
 अप्प० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक०
 संखेज्जा समया अंतोमुहुत्तं वा उवसमसेहि पडुच्च । इत्थि०-एणुंस० भुज० जह०

अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे
 मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रावेद और नपुंसकवेदकी
 अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा
 के तीनों पद किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं । चार नाकपायोंका भुजगार और
 अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
 जानना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

§ २८८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
 मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक
 समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल
 एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो ङ्घासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका
 जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इतनी विवेकता है कि मिध्यात्वकी
 अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवलि है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और
 उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो ङ्घासठ सागर है । अवक्तव्यविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और
 उत्कृष्ट काल छह आवलि है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतर
 विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।
 अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय अथवा

एगस०, उक० अंतोमु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक० वेच्चावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । हस्स-रइ-जरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक० अंतोमुहुत्तं । एदेसिं छण्णोक० अवट्टिं जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।

अन्तर्मुहूर्त है उपशमश्रेणिकी अपेक्षा । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इन छह नोकपायीकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—ओषसे मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्ति मिध्या-दृष्टि जीवके होती है । मिध्यात्वमें भुजगारका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । इनकी अल्पतरविभक्ति मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनोंके होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भमें उपशमसम्यक्त्वके साथ रखकर और मध्यमें सम्यग्मिध्यात्वमें ले जाकर वेदकसम्यक्त्वके साथ उत्कृष्ट काल तक रखकर मिध्यात्वमें भी यथासम्भव काल तक अल्पतर-विभक्ति करानेसे यह काल प्राप्त होता है । इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है । मात्र सासादनगुणस्थानमें मिध्यात्वकी अवस्थितविभक्ति उसके पूरे उत्कृष्ट काल तक बनी रहे यह सम्भव है, इसलिए यहाँ मिध्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवलिप्रमाण कहा है । अवक्तव्यविभक्ति बन्ध या सत्त्वके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति उपशमसम्यक्त्वके समय होती है और इसका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इन दो प्रकृतियों की भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इनकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय अनन्तानुबन्धीके समान तथा अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवलि मिध्यात्वके समान घटित कर लेना चाहिए । बाह्य कषाय आदिकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति मिध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनोंके होती है पर इनका उत्कृष्ट काल मिध्यादृष्टिके ही सम्भव है, क्योंकि वहाँ पर इनके ये दोनो पद पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक हो सकते हैं, इसलिए इनके इन दोनो पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है । तथा उपशमश्रेणिमें अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका अवस्थितपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भुजगारपद तो अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है पर इनका अल्पतरपद साधिक दो छथासठ सागर काल तक भी सम्भव है, इसलिए इनके इन दोनो पदोंका जघन्य काल एक समय तक भुजगारका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और अल्पतरका उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है । हास्यादिका बन्ध

§ २८६. आदेशेण णेरइएसु मिच्छ० भुज० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि देसूणाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया छावलिाया वा । एवमणंताणु०चउक्कस्स । णवरि अवत्त० जहण्णुक्क० एगस० । अवट्ठिदस्स वि संखेज्जा चेव समया उक्कस्स-कालो वत्तव्वो । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह० उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि । अवत्त० जहण्णुक्क० एगसमओ । अवट्ठि० ओघभंगो । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० सत्तद्व समया । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरो० देसूणाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोग० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

सम्यग्दृष्टिके भी बदलता रहता है, इसलिए इनके अल्पतर और भुजगारपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है । इन छह नोकषायोका अवस्थितपद उपशमश्रेणिके भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ २८८. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है अथवा छह आवलि है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितविभक्तिका भी उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही कहना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । खीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काल ओघको देखकर घटित कर लेना चाहिए । मात्र अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट कालमें जहाँ विशेषता है उसे और उपशमश्रेणिके कारण अवस्थित पदके कालमें जो विशेषता आती है वह यहाँ सम्भव न होनेसे उसे अलगसे घटित कर जान लेना चाहिए ।

§ २६०. पदमाए जाव छट्टि ति मिच्छ० भुज० ओषं । अप्प० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी भाणिदव्वा । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तइसमया आवलिया वा । सम्म०-सम्मापि० भुज० जह० उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदीओ । अवत्त०-अवट्टि० ओषभंगो । अणताणु०-चउक्कस्स मिच्छत्तभंगो । णवरि अवत्त० जहणणुक्क० एगस० । अवट्टिदं उक्क० संखेज्जा चेव समया । बारसक०-पुरिस०-भय-दुण्डुं० ओषो । इत्थि-णयुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी देख्णा । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं णिरओषभंगो ।

§ २६१. तिरिक्खवर्गईए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-अणताणु०-चउक्कागमोषो । णवरि अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०-भागेण सादिरेयाणि । पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि तिण्णि पलिदो० पुव्व-कोट्टिपुधत्तेणअभहियाणि । सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० ओषं । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०-भागेण सादिरेयाणि । पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि तिण्णि पलिदो० पुव्वकोट्टिपुधत्तेणअभहियाणि । बारसक०-

§ २६०. पहली पृथिवी से लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार विभक्तिका काल ओषके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय अथवा छह आवलि है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्य और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित-विभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात ही समय है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका काल अपनी स्थितिप्रमाण कहा है वहाँ अपने अपने नरककी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

§ २६१. तिर्यञ्चगतमें तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तिर्यञ्चोंमें पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पल्य है तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अव्यक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तिर्यञ्चोंमें पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पल्य है और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक

पुरिस०-भय-दुग्ध० ओषो । णवरि अवट्टि० अंतोमुहुत्तं णत्थि । इत्थि०-णवुंस० भुज्ज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवमाणि । जोणिणीसु देसूणाणि । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोषो । णवरि अवट्टिदं णत्थि ।

§ २६२. पंचितिरिक्त्वअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दुग्ध० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्माभि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्तएसु ।

§ २६३. मणुसतिए पंचिदियतिरिक्त्वभंगो । णवरि इत्थि०-णवुंस० अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवमाणि पुव्वकोटिभागेण सादिरेयाणि । मणुसणीसु देसूणाणि । बारसक०-णवणोक० अवट्टि० ओषभंगो ।

तीन पल्य है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषधके समान हैं। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल नहीं है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है। मात्र योनिनी जीवोमे यह काल कुछ कम तीन पल्य है। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषधके समान हैं। इतनी विरोधता है कि इनका अवस्थित पद नहीं है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी कायस्थिति पूर्व कोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है। इसलिए इनमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोका काल उक्तप्रमाण कहा है वह अपनी अपनी कायस्थितिको ध्यानमे रखकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र तिर्यञ्चोकी कायस्थिति अनन्त काल है पर उनमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर-विभक्ति पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पल्य काल तक ही बन सकती है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार शेष कालको भी विचार कर घटित कर लेना चाहिए।

§ २६०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यातसमय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सात नोकषायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमें जानना चाहिए।

§ २६३. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है। इतनी विरोधता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है। मात्र मनुष्यनियोमें कुछ कम तीन पल्य है। बारह कषाय और नौ नोकषायोके अवस्थित पदका भङ्ग ओषधके समान है।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त एक पूर्वकोटिके त्रिभाग अधिक तीन पल्य काल तक सम्यक्त्वी हो सकते हैं और इनके इतने काल तक स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका

§ २६४. देवगईए देवेसु मिच्छत्त-अणंताणु० चउक्क० भुज०-अवद्धि० अणंताणु० चउक्क० अवत्त० ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवद्धि०-अवत्त० ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंळ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि बारसक०-पुरिम०-भय-दुगुंळ० अवद्धि० उक्क० संखेज्जां समया । चदुगोकसाय० अवद्धिदं णत्थि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । एवरि जत्थ तेत्तीसं सागरोवमाणि तत्थ सगद्धिदी भाणिदग्वा । भवण०-वाण०-जोदिसि० इत्थि०-एवुंस० सगद्धिदी देसूणा ।

§ २६५. अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस० अप्पद० जहणुक्कस्से० जहणुक्कस्सद्धिदीओ । सम्म० अप्प० जह० एगस०

अनपतर पद वन जाता हैं । मात्र मनुष्यनीमे यह काल कुछ कम तीन पत्य ही प्राप्त होता है । इसलिए इन तीन प्रकारके मनुष्योमे उक्त दो वेदोके अत्यन्तर पदका उक्त काल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ २६४. देवगतिमे देवोमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा चार नाकपायोकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसीप्रकार भवन-वासियोसे लेकर उपरिम प्रवैयक्तकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां पर तेतीस सागर कहे हैं वहां पर अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषा देवोमे ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—सौधर्मादिकमे सम्यग्दृष्टि जीव अपने पूरे काल तक पाये जाते हैं और भवनत्रिकमें नहीं, इसलिए यहाँ भवनत्रिकमे ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है और सौधर्मादिकमें पूरी अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २६५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और

कदकरणिजं पडुब, उक० सगट्टिदी । अर्णताणु०चउक० अप्प० जह० अंतोमु०,
उक० सगट्टिदी । बारसक०-सत्तणोक० देवोघं । एवं जाव अणाहारि सि ।

कालाणुगमो समतो ।

§ २६६. अंतराणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०
भुज०विहत्तीए अंतरं जह० एगस०, उक० बेद्धावट्टिसागरो० सादिरैयाणि । अप्प०
जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक०
असंखेज्जा लोगा । भुजगार-अप्पदरकालाणमण्णोणमणुसंधिय ट्टिदाणमवट्टिदविहत्तीए
अंतरत्तेण गहणादो । कथं पादेक्कं पलिदो० असंखे०भागपमाणाणमण्णोणसंबंधेण
एम्महत्तं ? ण, बहुलेयरपक्खाणं व असंखेज्जपरियट्टणवारेट्टि तेसिं तथाभावे विरोहा-
भावादो । सम्म०-सम्माणि० भुज०-अप्प० जह० अंतोमु०, अवत्त०-अवट्टि० जह०
पलिदो० असंखे०भागो, उक० सन्वेसिं पि उवट्टुपोमगलपरियट्टं । अणंताणु०चउक०

उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वकी अल्पतरविभक्तिका कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण
है । बारह कषाय और सात नोकषायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसीप्रकार अनाहारक
मार्गणातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिशसे लेकर सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमे मिथ्यात्व,
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक अल्पतर पद
होता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिको
ध्यानमे रख कर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

§ २६६. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो
छयासठ सागरप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । यहाँ पर भुजगार और अल्पतरविभक्तिके कालोंको
परस्पर रोककर स्थित हुए जीवोंकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल ग्रहण किया है ।

शंका—भुजगार और अल्पतरविभक्तिमेसे पत्येकका काल पत्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है, इसलिए इन दोनोंके सम्बन्धसे इतना बड़ा काल कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षके समान असंख्यात बार परिवर्तनोंका
अवलम्बन लेकर भुजगार और अल्पतरविभक्तिके उसप्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी

भुज० मिच्छन्तभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० उवट्टुपोगलपरियट्टं । वारसक०-भय-हुगुंछ० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० मिच्छन्तभंगो । एवं पुरिस० । णवरि अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० उवट्टुपोगलपरियट्टं । इत्थि० भुज० जह० एगस०, उक्क० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं णवुंस० । णवरि भुज० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्धावट्टिसागरो० तीहि पलिदोवमेहि सादिरेयाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । छण्णोक्क० अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० उवट्टुपोगलपरियट्टं ।

भुजगारविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार नपुंसकवेदके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन पत्न्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । छह नाकपायोकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

विशेषार्थ—मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति मिध्यात्व गुणस्थानमे होती है और मिध्यात्व गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर दो छथासठ सागरप्रमाण है, इसलिए यहाँ मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर कहा है । यहाँ साधिकसे मिध्यात्व गुणस्थानमे मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका काल ले लिया है । मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ इसकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । मिध्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात लोकप्रमाण है इस बातका स्पष्टीकरण मूलमे ही किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका कमसे कम काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनकी अवक्तव्यविभक्ति उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ऐसे जीवके होती है जिसके इनका सत्त्व नहीं है और उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करनेका जघन्य अन्तर पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए तो इनकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा इनकी अवस्थित-

§ २६७. आदेशेण षेरइएसु मिच्छ० भुज०-जबट्टि० जह० एगस०, उक०
तेतीसं सागरो० देख्णाणि । अप्प० जह० एगस०, उक० पळिदो० असंखे०भागो ।
सम्म०-सम्मापि० भुज०-जबट्टि०-अवत्त० जह० पळिदो० असंखे०भागो, अप्प०

विभक्ति सासादन गुणस्थानमे होती है, इसलिए इनकी अवस्थितविभक्तिका भी जघन्य अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यह सम्भव है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त चार पद हों और मध्यमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना हो जानेसे न हों, अतः यहाँ इनके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव यदि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना न करे तो दो छ्थासठ सागर काल तक अल्पतरविभक्ति होती है, इसलिए तो इनकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिके समान उक्त कालप्रमाण कहा है और यदि विसंयोजना कर दे तथा मिथ्यात्वमें जाकर संयुक्त होकर अल्पतरविभक्ति करे तो इनकी अल्पतरविभक्तिका भी उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होनेसे वह भी उक्त कालप्रमाण कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक जैसा मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका घटित करके मूलमे बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी दो बार विसंयोजना होकर पुनः संयुक्त होनेमे जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त लगता है और विसंयोजना होकर संयुक्त होनेकी क्रिया अर्ध पुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमे एक बार हो तथा दूसरी बार अन्तमे हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। बारह कपाय, भय और जनुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके इन दोनो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे उतना कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदके सब पदोका भङ्ग इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इसके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्थासठ सागरप्रमाण है और भुजगार-विभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्थासठ सागरप्रमाण और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। नपुंसकवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी भुजगार-विभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर तीन पल्प अधिक दो छ्थासठ सागर प्राप्त होनेसे उक्त काल प्रमाण कहा है। हास्यादि चार सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ स्त्रीवेद आदि उक्त छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिमें प्राप्त होती है और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके सब पदोका जघन्य अन्तर सुगम होनेसे घटित करके नहीं बतलाया है सो जान लेना।

§ २६७. आदेशेस नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और

जह० अंतोमु०, उक्क० सन्वेसिं पि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० चत्तारिं वि पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । बारसक० पुरिस०-भय-दुगुंळ० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरिं अवट्टि० णत्थि । एवं पढमादि जाव सत्तमा त्ति । णवरिं सगट्टिदी देसूणा भाणियन्वा ।

§ २६८. तिरिक्खवर्गए तिरिक्खेसु भिच्छ० भुज० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पल्लिदोवमाणि पल्लिदो० असंखे०भाएण सादिरेयाणि । अप्प०-अवट्टि० ओघो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० उवट्टुपोगलपरियट्टं । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादिरेयाणि । अप्प० देसूणाणि । अवट्टि०-

सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । पहली पृथिवीमे लेकर मातर्वी पृथिवी तक इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघमे हम सब प्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंका अन्तर काल घटित करके बतला आये हैं । यहाँ नरकमें अपनी-अपनी विशेषताको ध्यानमें लेकर और यहाँके उत्कृष्ट कालको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । मात्र नरकमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे यहाँ स्त्रीवेद आदि छह नोकपायोंके अवस्थितपदका निषेध किया है । प्रत्येक नरकमें भी इन्हीं विशेषताओंको ध्यानमें लेकर, यह अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

§ २६८. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्जोमे मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भाग अधिक तीन पत्य है । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाधै पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और

अवस० ओघो । बारसक०-पुरिस०-भय-हुगुंझा० ओघो । णवरि पुरिस० अवडि० जह० एगस०, उक० तिण्ण पल्लिदो० देसूणाणि । इत्थि० भुज० जह० एगस०, उक० तिण्ण पल्लिदो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक० अंतोसु० । णवुंस० अप्प० ओघो । भुज० जह० एगस०, उक० पुव्वकोटी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि० अवडि० णत्थि ।

§ २६६. पूर्वविद्यतिरिक्त्वति ए मिच्छ० भुज०-अवडि० जह० एगसमभो, उक० सगहिदी देसूणा । अप्प० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे० भागो । अणंताणु० चउक० भुज०-अवडि० मिच्छसभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक० तिण्ण

उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र अल्पतरविभक्तिका कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थित और अवकल्पविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका भद् आंघके समान है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है ।

विशेषार्थ— कोई तिर्यञ्च पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण काल तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा । उसके बाद तीन पत्यकी आयुके साथ भोगभूमिमे उत्पन्न हो वहाँ भी आयुके अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा, इस प्रकार भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तीन पत्य इरी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतरविभक्ति उत्तम भोगभूमिमे कुछ कम तीन पत्य ही बन सकती है, क्योंकि तिर्यञ्चोमे वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यग्दृष्टिके स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्ति नहीं होती और तिर्यञ्चोमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए इनमें स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । परन्तु नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिज तिर्यञ्चके ही प्राप्त होता है और इनमे वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए तिर्यञ्चोमे नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २६६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अनन्तानु

पल्लिदो० देसूणाणि । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे० भागो, अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वपदाणं सगट्टिदी देसूणा । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंखा० भुज०-अप्पदर० ओघो । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । पुरिस० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंसय०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं तिरिक्खोघो ।

॥ ३००. पंचि० तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंखा० भुज०-अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० जह० एग-समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । सम्म०-सम्मामि० अप्प० णत्थि अंतरं ।

॥ ३०१. मणुस्समगईए मणुस्सतियस्स पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि छण्णोक० अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकांडिपुअत्तं । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह०

बन्धीचतुष्कर्की भुजगार और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । अवक्तव्य-विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्याने भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग आंशके समान है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । मात्र पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका नष्ट सामान्य तिर्यञ्चोके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । इसे ध्यान में रखकर यहाँ अन्तर काल घटित करके बतलाया गया है । शेष विशेषता स्वामित्वको ध्यानमें रखकर जान लेनी चाहिए ।

॥ ३००. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्तकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सात नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतरपद होता है, इसलिए उसके अन्तर कालका निषेध किया है ।

॥ ३०१. मनुष्यगतिमें मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर

अंतोमु०, उक्क० सगद्धिदी देसूणा । मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जतभंगो ।

§ ३०२. देवगईए देवेसु भिच्छ० भुज०-अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० एकतीसं सागरो० देसूणाणि । अप्पद० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो । सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०-भागो, उक्क० एकतीसं सागरो० देसूणाणि । अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० तं चेव । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० चहुण्हं पि एकतीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० णेरइयभंगो । इत्थि०-णवुस० भुज० जह० एग०, उक्क० एकतीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति एवं चेव । णवरि सगद्धिदी भाणियन्वा ।

पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे और पूर्वकोटिप्रथक्त्वके अन्तरसे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्वप्रमाण कहा है । तथा मनुष्यत्रिकमें उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगार होकर कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके भीतर ज्ञायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है या अधिकसे अधिक पूर्वकोटि प्रथक्त्व कालके अन्तमे ज्ञायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त्वप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३०२. देवगतिमें देवोमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्थके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर बही है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपद नहीं है । भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रबैयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहलानी चाहिए ।

§ ३०३. अणुदिसादि जाव सव्वद्दा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क०-इत्थि-णवुंस अप्प० णत्थि अंतरं । बारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंद्धा० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० सगट्ठिदी देसूणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि ति ।

अंतरं गदं ।

§ ३०४. षाण्णजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुविहो णिदो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयदीणं सव्वपदाणि णियमा अत्थि । णवरि अणंताणु०चउक्क० अवत्त० पुरिस०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सांग० अवट्ठि० भयणिज्जं । सम्म०-सम्मामि० अप्प० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं तिरिक्खेसु । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३०५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंद्धा० भुज०-

विशेषार्थ—देवोमे नौव प्रवेयक तक ही मिध्यादृष्टि हांते हैं, इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर अपने स्वामित्वके अनुस्तर यहाँ पर अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३०३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुदन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग आपके समान हैं । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिशसे लेकर आगेके देवोमे सब सम्यग्दृष्टि हांते हैं, इसलिए उनमे मिध्यात्व आदि नौ प्रकृतियोंकी एक अल्पतरविभक्ति हांनेसे उसके अन्तर कालका निषेध किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ३०४. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भङ्ग विचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंके सब पद नियमसे हैं । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुदन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति भजनीय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३०५. आदेशसे नारक्तियोंमे मिध्यात्व, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी

अप्प० गियमा अत्थि । अवट्ठि० भयणिज्जा । एत्थ भंगाणि तिण्णि । सम्म०-सम्मामि०-छण्णोक्क० ओघो । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि । अण्णताणु०चउक्क० भुज०-अप्प० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं सव्वणेरइय-पंचिदिय-तिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि मणुसतिण्ण छण्णोक्क० अवट्ठि० ओघं ।

§ ३०६. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प० गियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्ठिद्विहत्तियो च । सिया एदे च अवट्ठिद्विहत्तियो च । रम्म०-सम्मामि० अप्प० गियमा अत्थि । सत्तणाक्क० भुज०-अप्प० गियमा अत्थि । मणुस्सअपज्ज० सव्वपयडीसु सव्वपदाणि भयणिज्जाणि । अणुदिसादि जाव सवट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अण्णताणु०चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० गियमा अत्थि । वारसक्क०-पुरिस०-भय०-दुगुंछ० णेरइयभंगो । चट्ठोक्कसायाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समत्तो ।

§ ३०७. भागाभागाणुगमेण दुविट्ठो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं। अवस्थितविभक्ति भजनीय है। यहाँ पर भङ्ग तीन हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और छह नोकपायोका भङ्ग आंशके समान है। इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्ति नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें छह नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिका भङ्ग आंशके समान है।

§ ३०९. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं। कदाचित् इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और अवस्थितविभक्तियोंवाला एक जीव है। कदाचित् इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और अवस्थित-विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं। सात नोकपायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं। मनुष्यअपर्याप्तकोंमें सब पञ्चतियोंके सब पद भजनीय हैं। अनुदिशसे लेकर सपर्याप्तसिद्ध तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं। बारह कपाय, पुरुवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है। चार नोकपायोका भङ्ग आंशके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३०७. भागाभागाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंश और आदेश। आंशसे

एवं सत्तसु पुढवीसु पंचि०तिरिक्खतिय० मणुस्सोघो देवगइ भवणादि जाव सहस्सारे ति देवेसु णेढ्वं । णवरि मणुस्सेसु झण्णोक० अवट्ठि० असंखे०भागो ।

§ ३०६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढ० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अवट्ठि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० णत्थि भागाभागो । कुदो ? एयपदत्तादो । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रइ० भुज० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । णवुंस०-अरदि-सोग० भुज० संखेज्जा भागा । अप्प० संखे०भागो । एवं मणुसअपज्जताणं ।

§ ३१०. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंढ० भुज० संखेज्जा भागा । अप्प०-अवट्ठि० संखे०भागो । एवमणंताणु०चउक्कस्स । णवरि अवत्त० संखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० सव्वजी० के० ? संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । इत्थि-हस्स-रइ० भुज० संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० संखे०भागो । णवुंस०-अरदि०-सोग० भुज० संखेज्जा

जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मातों प्रथिवियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें छह नोकपायोंकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ३०६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं । संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भागाभाग नहीं है, क्योंकि उनका एक पद है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिकी भुजगार-विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर-विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमें जानना चाहिए ।

§ ३१०. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोगमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्ति-वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और

भाग । अप्प० संखे० भागो । छण्णोक्क० अवट्ठि० संखे० भागो ।

§ ३११. आणदादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति मिच्छ०-अणताणु० चउक्क० झुज० संखे० भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्ठि० अणताणु० चउक्क० अब्बत्त० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि०-बारसक्क०-भय-दुगुंळ० देवोपो । पुरिस० कसाय-भंगो । इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोपो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । णवुंस० इत्थिबेद-भंगो । अणुदिसादि जाव अबराइदो त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणताणुचउक्क०-इत्थि०-णवुंसयवेदानमेयपदत्तादो णत्थि भागाभागो । बारसक्क०-पुरिस०-भय-दुगुंळ० आणदभंगो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोपो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । सव्वट्ठे एवंचेव । णवरि बारसक्क०-पुरिस०-भय-दुगुंळ० झुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प०-अवट्ठि० संखे० भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोपो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवंचेव जाव अणाहारि त्ति ।

भागभागो समत्तो ।

§ ३१२. परिमाणानुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । छद्द नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ३११. आनतकल्पसे लेकर उपरिम प्रवैयकतकके देवोंमें मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकल्प-विभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । पुरुषवेदका भङ्ग कषायोंके समान है । स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानतकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक पद होनेसे भागाभाग नहीं है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग आनतकल्पके समान है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । सर्वार्थसिद्धिमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसीप्रकार अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ३१२. परिणामानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।

मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केत्तिया ? अणंता ।
अणंताणु०चउक्क० अवत्तव्व० पुरिस० अवट्टि० केत्तिया ? असंखेज्जा । सम्म०-
सम्मामि० पदचउक्कट्टिदजीवा केत्तिया ? असंखेज्जा । छण्णोक० भुज०-अप्प०
केत्तिया ? अणंता । अवट्टि० के० ? संखेज्जा । एवं तिरिक्खा० । णवरि छण्णोक०
अवट्टि० णत्थि ।

§ ३१३. आदेसेण णेरइय० अट्टावीसं पयटीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।
एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्ज०-देवगइदेवा भवणादि जाव
अवराइद ति ।

§ ३१४. मणुस्सेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० तिष्णि पदा सम्म०-
सम्मामि० अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि०
भुज०-अवट्टि०-अवत्त० अणंताणु०चउक्क० अवत्त० पुरिस०-छण्णोक० अवट्टि०
केत्तिया ? संखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वट्टिसिद्धीसु सव्वपयटीणं सव्वपदा
केत्तिया ? संखेज्जा । एवं जाव अणाहारि ति ।

परिमाणानुगमो समतो ।

ओघसे मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और
अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य
और पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व और
सम्यग्मिध्यात्वके चार पदोंमें स्थित जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छह नोकपायोंकी भुजगार
और अल्पतरविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
संख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह
नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३१३. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, राव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमें देव
और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३१४. मनुष्योंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीव,
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अल्पतर पदवाले जीव तथा सात नोकपायोंके भुजगार और
अल्पतर पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके भुजगार,
अवस्थित और अवक्तव्य पदवाले जीव, अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीव तथा
पुरुषवेद और छह नोकपायोंके अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त,
मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।
इसप्रकार अनाहारक मार्गस्था तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३१५. खेत्ताणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्गुंद्धा० तिण्णिपदा केवडि खेत्ते ? सव्वलोगे । अणंताणु०चउक० अवत्त० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अप्प०-अवत्त०-अवट्ठि० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । ङ्गणोक० भुज०-अप्प० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । अवट्ठि० लोग० असंखे०भागे । एवं पुरिस० । एवं तिरिक्खोपो । णवरि ङ्गणोक० अवट्ठियं णत्थि ।

§ ३१६. आदेसेण गिरय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुंद्धा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अणंताणु०चउक० अवत्त० केव० खे० ? लोगस्स असंखे०भागे । सम्म०-सम्मामि० सव्वपदा ङ्गणोक० भुज०-अप्प० के० खेत्ते ? लोगस्स असंखे०भागे । एवं सव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खवतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवजात्ति । णवरि मणुसतिए ङ्गणोक० अवट्ठि० ओघं । पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुग्गुंद्धा० तिण्णिपदाणि सम्म०-सम्मामि० अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प० केव० ? लोग० असंखे०भागे । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३१५. तत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दां प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है । लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और अवस्थित पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । छह नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशोपता है कि इनमें छह नोकषायोंका अवस्थित पद नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद एकेन्द्रिय जीवोंके होते हैं उनका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है और शेषका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण । इसीप्रकार आगे भी अपने अपने क्षेत्रको जानकर घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३१६. आदेशसे नारिकेलोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीवोंका तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोंका तथा छह नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार सब नारिकेली, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम-प्रवेयकतक देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशोपता है कि मनुष्यत्रिकमें छह नोकषायोंके अवस्थित पदका क्षेत्र आंधके समान है । पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपयात्रिकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीवोंका तथा सात नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ?

अणुदिसप्पहुटि जाव सव्वहा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्माभि०-अणंताणु०-चउक्क० इत्थि०-णवुंस० अप्प० बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० केव० ? लोग० असंखे०भागो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

खेत्तं गदं ।

§ ३१७. पोसणाणुगमेण हुविट्ठो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझ० भुज०-अप्प०-अवट्ठिद्विद्विहत्तिएहि केव० पोसिदं ? सव्वलोगो । अणंताणु०-चउक्क० अवत्त० लोगस्स असंखे०भागो अट्ठचोइस० । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवत्तव्विद्विहत्तिएहि लोगस्स असंखे०भागो अट्ठचोइस० । अप्प० के० ? लोग० असंखे०भागो अट्ठचोइस० सव्वलोगो वा । अवट्ठि० केव० पो० ? लोग० असंखे०भागो अट्ठ-वारहचोइस० । छण्णोक० भुज०-अप्प० केव० पोसिदं ? सव्वलोगो । तेसिं चेव अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो अट्ठचोइस० देसूणा ।

लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्कः, स्त्रीविद और नपुंसकवेदके अल्पतर पदवाले जीवोंका, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीवोंका तथा हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

§ ३१७. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उन्हींकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार पुरुष-वेदकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवस्थितविभक्तिवाले

§ ३१८. आदेशेण पेरइ० मिच्छ०—सोलसक०—भय-दुसुंइ० भुज०—अप्प०—अवट्टि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो छचोइस० । अणंताणु०चलक० अवत्त० लोग० असंखे०भागो । सम्म०—सम्मामि० भुज०—अवत्त० खेतभंगो । अप्पदर० सत्तणो० भुज०—अप्प० केव० फोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो छचोइस० । पुरिस० अवट्टि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०—सम्मामि० अवट्टि०

जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—मिध्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद एकेन्द्रियोंके भी होते हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद ऐसे जीवोंके होता है जो इनकी विसंयोजना करके पुनः इनसे संयुक्त होते हैं । ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन देवोंके विहार आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । इनकी अल्पतर विभक्तिवालोका उक्त स्पर्शन तो बन ही जाता है । तथा यह विभक्ति एकेन्द्रियादिके भी सम्भव है, इसलिए सर्व लोक प्रमाण स्पर्शन भी बन जाता है । इन दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्ति सासादनसम्यग्दृष्टियोंके हांती है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थित पदका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । छह नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपरामश्रेणिमें होती है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका स्पर्शन तो छह नोकपायोंके ही समान है, इसलिए इसका भङ्ग छह नोकपायोंके समान जानने की सूचना की है । मात्र इसके अवस्थित पदके स्पर्शनमें अन्तर है । वात यह है कि पुरुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है, इसलिए इसके उक्त पदवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

§ ३१८. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इनकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने और सात नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने

केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो पंचचोइस० । पदमपुहवीए खेतभंगो । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवरि अप्पणो रज्जुओ फोसणं कायव्वं । सत्तमाए सम्म०-सम्मामि० अवट्ठि० खेतभंगो ।

§ ३१६. तिरिक्खवर्गए तिरिक्खेहि मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । अणंताणु०चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो सत्तचोइस० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग हैं । दूसरीसे लेकर सातवीं तकके नारकियोमें उसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजुओमें स्पर्शन करना चाहिए । तथा सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य नारकियोमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका स्पर्शन उपपादपद या मारणान्तिक पदके समय सम्भव है उनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा शेष पदोंका स्पर्शन मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र सासादनसम्यग्दृष्टि नारकी जीव छठवें नरकतकके ही मरकर अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवाले जीवोका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा सातवीं पृथिवीका सासादनसम्यग्दृष्टि मरकर अन्य गतिमें नहीं जाता, इसलिए इसमें उक्त दोना प्रकृतियोंके अवस्थित पदवाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३१६. तिर्यञ्चगतिमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम सात ब चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सात नोकषायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सासादन तिर्यञ्चोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति सम्भव होनेसे इनके उक्त पदवाले जीवोका

§ ३२०. पंचिदियतिरिक्स्वति ए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुर्गुद्ध० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केव० ? लो० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु० चउडक० अवत्त० सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिर्द ? लोग० असंखे० भागो । दोण्हमपद० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । अवट्टि० लोग० असंखे० भागो सत्तचोइस० । इत्थि० भुज० केव० ? लो० असंखे० भागो । अप्प० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । कुदो ? एणुंसयवेदबंधेण एईदि एसुववज्जमाणं पंचिदियतिरिक्स्वतियस्स अप्पदरीकयइत्थिवेदस्स सव्वलोगवावित्तर्दसणादो । पुरिस० भुज० केव० फोसिर्द ? लोग० असंखे० भागो छचोइम० । अवट्टि० लोग० असंखे० भागो । कुदो छचोइसभागा ण फुसिज्जंति ? ण, असंखेज्जवासाउअपंचिदियतिरिक्स्वतियसम्माइट्ठि मोक्खण अण्णत्थ अवट्टिदपदस्सासंभवादो । तं पि कुदो ? पत्तिदो० असंखे० भागमेत्तकालेण त्रिणा अवट्टिदपाओग्गत्ताणुत्तलंभादो । अप्प० केव० फोसिर्द ? लोग० असंखे० भागो

स्पर्शनं त्रसनालीके कुल्ल कम सात बटे चौदह भागप्रमाणं क्हा है । शेष कथं सुगमं है ।

§ ३२०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिथ्यात्व, सोलह कवाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकण्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवकण्यविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुल्ल कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है, क्योंकि नपुंसकवेदके बन्धके साथ एकेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकका स्त्रीवेदके अल्पतर पदके साथ समस्त लोकमें स्पर्शन देखा जाता है । पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुल्ल कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

शंका—पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव त्रसनालीके कुल्ल कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, असंख्यात वर्षकी आयुवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक सम्यग्गृष्ट जीवको छोड़कर अन्यत्र अवस्थित पदकी प्राप्ति असम्भव है ।

शंका—वह भी कैसे है ?

समाधान—क्योंकि पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके बिना अवस्थितपदकी योग्यता नहीं उपलब्ध होती है ।

पुरुषवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके

सव्वलोगो वा । पंचणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ३२१. पंचितिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । इत्थि-पुरिस० भुज० लोग० असंखे०भागो । अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । णवुंस०-चट्ठणोक० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०-भागो सव्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्तएसु ।

§ ३२२. मणुसत्तिए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० लोग० असं०भागो, सव्वलोगो वा । अणंताणु०चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० लोग० असंखे०भागो । दोण्हमप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अवस्थित पदवालोंका लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे घटित करके बतला आया है उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । स्त्रीवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्यो किया है इसका स्पष्टीकरण मूलमे ही किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतर विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो पञ्चेन्द्रिय लक्ष्यपर्याप्त तिर्यञ्च एकेन्द्रियोंमे मारणान्तिक समुद्रघात करते हैं उनके स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध न होनेसे भुजगारपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२२. मनुष्यत्रिकमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अयक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और

अवट्टि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो सत्तचोइस० । इत्थि०-पुरिस० भुज० पुरिस० अवट्टि० लोग० असंखे० भागो । दोण्हमप्प० णवुंस०-चटुणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । ङ्णणोकं० अवट्टि० खेतभंगो ।

§ ३२३. देवगईए देवेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं० भुज०-अप्प०-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइस० । अणंताणु०चवक० अवत्त० सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवत्त० लोग० असंखे० भागो अट्टचोइस० । सम्म०-सम्माभि० अप्पद०-अवट्टि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइस० । इत्थि० भुज० पुरिस० भुज०-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्टचोइ० । दोण्हमप्प० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइस० । पंचणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइ० । एव सोहम्मीसाणेसु ।

सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऋग्वेद और पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेद की अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह नोकपायोधी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

§ ३२३. देवगतिमें देवोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य-विभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऋग्वेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्ति-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पके देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषाथ—देवोंमें ऋग्वेदकी भुजगारविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित-विभक्ति ऊपर बाहर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय सम्भव नहीं है, इसलिए

§ ३२४. भवण०-वाण०-जोइसिएसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवटि० लोगस असंखे०भागो अद्दु हा वा अट्ट-णवचोइस० । अणंताणु०-चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० इत्थिवेद० भुज० पुरिस० भुज०-अवटि० लोग० असंखे०भागो अद्दु हा वा अट्टचोइस० । सम्म०-सम्मामि० अप्प०-अवटि० इत्थि०-पुरिस० अप्प० णवुंस०-चदुणोक० भुज०-अप्प० लो० असंखे०-भागो अद्दु हा वा अट्ट-णवचोइ० ।

§ ३२५. सणकुमारादि जाव सहस्सारा ति मिच्छ०-सोलमक०-भय-दुगुंछा-पुरिस० भुज०-अप्प०-अवटि० अणंताणु०चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अप्प०-अवत्त०-अवटि० इत्थि०-णवुंस०-चदुणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०-भागो अट्टचोइस० । आणदादि जाव अच्चुदा ति सव्वपयदीणं सव्वपदेहि केव०

इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त पदवाले देवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और विहार आदिकी अपेक्षा स्पर्शन त्रस नालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२४. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमि मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अस्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले, स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अस्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी अस्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अस्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यपद, स्त्रीवेदका भुजगारपद और पुरुषवेदका भुजगार और अवस्थितपद एकेन्द्रियमे मारणान्तिक समुद्र्यात करते समय नहीं होते, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन कहते समय त्रसनालीका कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२५. सनकुमार से लेकर सहस्वार कल्पतकके देवोंमि मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा और पुरुषवेदकी भुजगार, अस्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अस्पतर, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिवाले तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी भुजगार और अस्पतर विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्त कल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमे सब

फोसिदं ? लोम० असंखे०भागो इचोइस० । उवरि खेतभंगो । एवं जाव
अणाहारि ति ।

फोसणं समत्तं ।

§ ३२६. पाणाजीवेहि कालानुगमेण दुविहो णिदे सो—ओघेण आदेसेण य ।
तन्ध ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केवचिरं ?
सव्वद्धा । अणंताणु०चउक०-सम्म०-सम्मामि० अवत्त० पुरिस० अवट्टि० केव० ?
जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । पुरिस० अवट्टि० अंतोमुहुत्तं वा ।
सम्म०-सम्मामि० भुज० जह० अंतोमु०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि०
जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प०
सव्वद्धा । इण्णोक० अवट्टि० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं तिरिक्खोघो ।
णवरि इण्णोक० अवट्टि० णत्थि । पुरिस० अवट्टि० अंतोमुहुत्तं पि णत्थि ।

प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और
त्रसनालीके कुछ कम छद्द बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर के देवोंमें स्पर्शन
का भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गीणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

§ ३२८. नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगमके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ
और आदेश । उनमेंसे जोघकी अपेक्षा मिध्यात्व, सालह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार,
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? सर्वदा काल है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क,
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । अथवा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और
सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकपायों की भुजगार और
अल्पतर विभक्तिका काल सर्वदा है । छद्द नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि इनमें छद्द नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है तथा पुरुषवेदकी अवस्थित-
विभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त भी नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-
पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके होते हैं, इसलिए नाना जीवोंकी अपेक्षा इनका सर्वदा काल बन
जानेसे यह सर्वदा कदा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद ऐसे जीवोंके होता है जो
विसंयोजनाके बाद पुनः उससे संयुक्त होते हैं, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अवक्तव्यपद जो
इनकी सत्ता से रहित जीव उपरामसम्यक्त्व प्राप्त करते हैं उसके प्रथम समयमें होता है और
पुरुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । यह सम्भव है कि एक या नाना जीव उक्त
प्रकृतियोंके ये पद एक समय तक ही करें और यह भी सम्भव है कि आवलिके असंख्यातवें

§ ३२७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० अणंताणु० चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्माणि० अवत्त० जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । सम्म०-सम्माणि० भुज०-अवट्ठि० जह० अंतोमु० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । अप्प० इण्णोको० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । एवं सत्तमु पुदवीमु पंचिदियतिरिक्वतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति ।

§ ३२८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंढा० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो । सम्म०-सम्माणि०

भागप्रमाण काल तक करते रहें। यही कारण है कि इनके उक्त पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा उपशमश्रेणिमें पुरुषवेदेके अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे विकल्परूपसे उक्तप्रमाण कहा है। उपशम-सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक होती है, इसलिए तां इस विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है और क्रमसे यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंकी इस विभक्तिको करते रहे तां पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल प्राप्त होता है, इसलिए इनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति सर्वदा होती है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उक्त प्रकृतियोंकी ये विभक्तियाँ एकेन्द्रियादि जीवोंके भी पाई जाती हैं। शेष कथन सुगम है।

§ ३२७. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका, अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इनकी अल्पतरविभक्तिका तथा ब्रह्म नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका काल घटित करके बतला आये हैं। यहाँ भी स्वामित्वको ध्यानमें रखकर वह घटित कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे उसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए।

§ ३२८. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल-आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और

अप्य० सत्तणोक० भुज०-अप्य० सव्वद्धा ।

§ ३२६. मणुसगईए मणुसाणं णेरइयभंगो । णवरिं तिण्हमवत्त० पुरिस० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवट्ठि० जह० अंतोमु० एग०, उक्क० अंतोमुं० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरिं सव्वेसिं अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । उवसमसेदीए मणुसतियम्मि वारसक०-णवणोक० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।

§ ३३०. मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुद्धा० भुज०-अप्य० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवल्लि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्माभि० अप्पद० सत्तणोक० भुज०-अप्य० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो ।

सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकपायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है ।

§ ३२६. मनुष्यगतिमें मनुष्योमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन तीनकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका क्रमसे जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और एक समय है तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियॉमें ज्ञानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सबकी अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । उपशमश्रेणिमें मनुष्यत्रिकमें बारह कपाय और नौ नोकपायोकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ — उपशमश्रेणिमें बारह कपाय और नौ नोकपायोंकी अवस्थितविभक्ति ऐसे जीवोंके भी होती हैं जो इनका एक समय तक अवस्थित पद करके और दूसरे समयमें मरकर देव हो जाते हैं । तथा जो उपशमश्रेणिमें इनका अवस्थितपद करके आराहण और अवराहण करते हैं उनके अन्तर्मुहूर्त काल तक उनकी अवस्थितविभक्ति होती है । कुछ जीव यहाँ अवस्थित-पद करनेके बाद उसके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें भी यदि नाना जीव अवस्थितपद करें और इसप्रकार निरन्तर क्रम चले तो भी अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए मनुष्यत्रिकमें उक्त प्रकृतियोंके इस पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ३३०. मनुष्य अपर्याप्तमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवल्लिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकपायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ३३१. अणुहिसादि जाव अवराइदा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क०-इत्थिवेद०-गणुंस० अप्प० सन्वद्धा । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा०-इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं देवोघो । एवं सन्वद्धे । णवरि जग्गि आबलि० असंखे०-भागो तम्हि संखेज्जा समय । एवं जाव अणाहारि ति ।

णाणाजीवेहि कालो समत्तो ।

§ ३३२. णाणाजीवेहि अंतरं दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० तिग्गिपदा णत्थि अंतरं णिरतरं । अणंताणु०-चउक्क०-अवत्त०-जह०-एगस०, उक्क०-चउवीसमहोरत्ताणि सादिरेयाणि । एवं सम्म०-सम्मामि०-अवत्त० । सम्म०-सम्मामि०-अप्प० णत्थि अंतरं णिरंतरं । भुज०-जह०-एगस०, उक्क०-सत्त रादिदियाणि । अवट्ठि०-जह०-एगस०, उक्क०-पलिदो०-असंखे०-भागो । छणोक्क०-भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्ठि०-जह०-एगस०, उक्क०-वासपुधत्तं । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि०-जह०-एगस०, उक्क०-असंखेज्जा लोगा । उवसमसेट्ठिविक्खाए पुण वासपुधत्तं ।

विशेषार्थ—यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उक्त काल बन जाता है ।

§ ३३१. अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति और शाकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान हैं । इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ आबलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

§ ३३२. नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर कालका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । आंघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदोका अन्तर काल नहीं है वे निरन्तर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका अन्तर काल जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका अन्तर काल नहीं है वह निरन्तर है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । परन्तु उपशमश्रेणिकी विवक्षासे वर्ष पृथक्त्वप्रमाण है ।

§ ३३३. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढ० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं णिर० । अवट्ठि'० न्ह० एगस०, उक्क० अमत्तेज्जा लोगा । सम्म०-सम्मापि०-इण्णोक० ओघो । णवरि इण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । अणंताणु०चउक्क० अबत्त० ओघो । एवं सत्तसु पुढवीसु । पंचि०तिरिक्खतिय-मणुस-तिय-देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति एवं चेव । णवरि मणुसतियम्मि सत्तणोक० अवट्ठि० ओघं । बारसक०-भय-दुगुंढाणं पि अवट्ठि० उवसमसेदिविवक्खाए

विशेषार्थ—ओघसे मिध्यात्व आदि उन्नत प्रकृतियोंके तीन पदोंका काल सर्वदा घटित करके बतला आये हैं, इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है । यह सम्भव है कि जिन्होंने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है वे जीव कमसे कम एक समयके अन्तरसे उनसे संयुक्त हो, इसलिए तो इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जिन्होंने इनकी विसंयोजना की है ऐसा एक भी जीव अधिकसे अधिक साधिक चौबीस दिन रात तक इनसे संयुक्त न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाले मिध्यादृष्टि जीव निरन्तर पाये जाते हैं और वे उनकी अल्पतरविभक्ति ही करते हैं, इसलिए इनके अल्पतर पदके अन्तरकालका निषेध किया है । इनकी भुजगार विभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात है, इसलिए इनके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात कहा है । तथा इनका अवस्थितपद सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए सासादनके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-कालके समान इनके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातत्रे भागप्रमाण कहा है । एकैन्द्रियादि जीवोंके भी छह नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति होती रहती है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणिके होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्वप्रमाण कहा है । पुरुषवेदका अन्य सब भङ्ग छह नोकपायोंके समान ही है । मात्र उसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो प्रकारसे बतलाया है सो विचार कर घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३३३. आदेशसे नारकियोमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है निरन्तर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और छह नोकपायोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ छह नोकपायोंका अवस्थित पद नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । पञ्चैन्द्रिय तिर्यक्षत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें सात नोकपायोंके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है । तथा बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल उपशमश्रेणिकी विवक्षासे

वासपुधत्तं ।

§ ३३४. तिरिक्त्वगईए तिरिक्त्वाणमोघो । णवरि ङ्णोक्क० अवडि० णत्थि । पुरिस० अवडि० वासपुधत्तं णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज० पंचिदियतिरिक्त्वभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० अप्प० पुरिस० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । सेसपदाणि अणंताणु० अवत्तच्चं च णत्थि । मणुसअपज्ज० छवीसं पयडीणं भुज०-अप्प० सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० पळिदो० असंखे०भागो । जेसिमवडिद-पदमत्थि तेसिं जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणुहिसादि जाव सच्चहा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० चउणोक्क० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । वारसक्क०-पुरिस०-भय-दुग्गुंद्धा० णेरइयभंगो । एवं जाव अणाहारि ति ।

णाणा० अंतरं समत्तं ।

§ ३३५. भावानुगमेण दु० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सच्च-पयडीणं सच्चपदा ति को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव अणाहारि ति ।

भावानुगमो समतो ।

वर्षपृथक्त्वप्रमाणं है ।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ सब प्रकृतियोंके अपने अपने पदोंका अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे हमने अलग अलग खुलासा नहीं किया है । तथा इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए ।

§ ३३४. तिर्यञ्चगतिमें सामान्य तिर्यञ्चोमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है । तथा पुरुषवेदके अवस्थित पदका वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर काल नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । इनके शेष पद तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे छवीस प्रकृतियोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । जिनका अवस्थितपद है उनके इस पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति तथा चार नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ३३५. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका कौन भाव है ? औदयिकभाव है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३३६. अप्पावहुआणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसैण य । ओघेण मिच्छ०-वारसक०-भय-दुग्घुङ्गाणं सव्वत्थोवा अवट्ठिदविहत्तिया । अप्प० असंखे०-गुणा । भुज० संखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अवत्त० असंखे०गुणा । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । अणंताणु०चउक्कस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणंतगुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि०-हस्स-रईणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०गुणा । णवुंसय०-अरदि-सोगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० अणंतगुणा । भुज० संखे०गुणा । पुरिसवेदस्स सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०गुणा । एवं तिरिक्खोघो । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३३७. आदेसेण णेरइय० अणंताणु०चउक्कस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसानमोघो । णवरि छण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि । एवं सव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुस्सेोधं देवगदीए देवा भवणादि जाव सहस्सारं च्चि । णवरि मणुस्सेसु सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।

§ ३३६. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आवेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्ताकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवकव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक है । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । शेष भङ्ग मिथ्यात्वके समान हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ३३७. आदेशसे नारकियोमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंका अवस्थितपद नहीं है । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोसे लेकर सहस्रार कल्प तकके

अवत्त० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । इत्थि०-हस्स-रईणं
सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । णवुंस०-अरइ-
सोगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असंखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा ।

§ ३३८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझाणमोघो । णवरि
अयुंताणु०चउक्क०अवत्त० णत्थि । सम्म०-सम्माभि० णत्थि अप्पाबहुअं, एयपदत्तादो ।
इत्थिबेद०-पुरिस-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा भुज० । अप्प० संखेज्जगुणा । णवुंस-अरदि-
सोगाणं सव्वत्थोवा अप्प० । भुज० संखे०गुणा । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३३९. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीमु मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंझा० सव्वत्थोवा
अवट्ठि० । अप्प० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अणंताणु०चउक्क० सव्वत्थोवा
अवत्त० । अवट्ठि० संखे०गुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । सम्म०-सम्माभि० सव्वत्थोवा
अवट्ठि० । अवत्त० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । पुरिस०
सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसमोघो । णवरि

देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। स्त्रीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगार-विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसक-वेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं।

§ ३३८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषके समान है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्पवहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका एक पद है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिके भुजगारविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरविभक्ति-वाले जीव संख्यातगुणें हैं। नपुंसकवेद, अरति और शोकके अल्पतरविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तिकोमें जानना चाहिए।

§ ३३९. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिध्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। शेष भङ्ग मिध्यात्वके समान है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। पुरुषवेदके अवस्थित-विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। शेष भङ्ग ओषके समान है। इतनी विशेषता है

छण्णोक० अत्रट्टि० सव्वत्थोव । उवरि संखेज्जगुणं कायव्वं ।

§ ३४०. आणदादि जाव उवरिमगेवज्जा ति वारसक०-इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-दुगुंढा-सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं देवोघो । अणंताणु० चउक्कस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० असंखे०गुणा । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० णत्थि । पुरिस० कसायभंगो । णवुंस० इत्थिवेदभंगो । अणुदिसादि जाव अवराइद ति दंसणतिय-अणंताणु० चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० वेदाणं णत्थि अप्पावहुअं । सेसाणमुवरिमगेवज्जभंगो । सव्वट्टे एवं चेव । णवरि वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० संखे०गुणं कायव्वं । एवं जाव अणाहारए ति ।

एवं भुजगारविहती समत्ता ।

❀ पदणिकखेव-वट्टीओ च कायव्वाओ ।

§ ३४१. एदस्स मुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—पदाणमुक्कस्स-जहण-वट्टि-हाणि-अवट्टाणावत्तव्वसण्णिदाणं णिकखेवो समुक्कित्ता-सामित्तादिविसेसेहि णिच्छयजणणं पदणिकखेवो णाम । भुजगारविसेसो पदणिकखेवो ति वुच्चं होइ । पदणिकखेवविसेसो वट्टी णाम । एदाओ दो वि विहतीओ भुजगाराणुसारणेत्थ कायव्वाओ ति अत्य-कि छह नोकपायोपी अयस्थितविभक्तियाले जीव सबसे स्तोक हैं । आगे संख्यातगुणा करना चाहिए ।

§ ३४०. आनत कल्पसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें बारह कपाय, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग सामान्य देवोंके समान हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । इसीप्रकार मिथ्यात्वके सम्भव पदोंका अल्पबहुत्व है । इतनी विज्ञेपता है कि इसकी अवक्तव्यविभक्ति नहीं है । पुरुषवेदका भङ्ग कपायोंके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें तीन दर्शनमाहर्षीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उपरिम प्रवेयकके समान है । सर्वार्थसिद्धिमें इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका अल्पबहुत्व कहते समय संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अन्नाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भुजगारविभक्ति समाप्त हुई ।

❀ पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

३४१. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—उत्कृष्ट और जघन्य वृद्धि, हानि, अवस्थान और अवक्तव्य संज्ञावाले पदोंका निक्षेप अर्थात् समुत्कीर्तना और स्वामित्व आदि विशेषोंके द्वारा निश्चय उत्पन्न करना पदनिक्षेप कहलाता है । भुजगारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं यह उक्त कथनका अन्वय है । तब पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं । ये दोनों ही विभक्तियाँ भुजगारके

सम्पपणा एदेण कदा होइ । संपहि एदेण सुत्तेण सम्पिदत्यविवरणमुच्चारणबलेण कस्सामो । तं जहा—उत्तरपयडिपदणिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि—समुक्किचणा सामित्तम्पाबहुए त्ति ।

§ ३४२. तत्थ समुक्किचणा दुविहा—जहण्णा उक्कस्सा । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस-भय-दु० अत्थि उक्कस्सिया वट्टी हाणी अवट्ठाणं च । सम्मत-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि उक्क० वट्टी हाणी च । णवरि एत्थावट्ठिदस्स वि संभवो अत्थि, सासणसम्माइट्ठिम्मि सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं तदुबलंभादो । सेसाणं पि उवसमसेट्ठीए सव्वोवसामणम्मि तदुबलंभसंभवादो । तमेत्थ ण विवक्खियमिदि ऐदव्वं । अदो चेव उवरिमो अप्पणागंधो सुसंबद्धो । एवं सव्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख ३-मणुस ३-देवा जाव उपरिमगेवज्जा त्ति ।

§ ३४३. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० अत्थि उक्क० वट्टी हाणी अवट्ठाणं च । सम्म०-सम्मामि० अत्थि उक्क० हाणी । सतणोक्कं० अत्थि उक्क० वट्टी हाणी च । एवं मणुसअपज्ज० । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति

अनुसार यहाँ करनी चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वारा अर्थका समर्पण किया गया है । अब इस सूत्र द्वारा समर्पित किए गये अर्थका विवरण उच्चारणाके बलसे करते हैं । यथा—उत्तरप्रकृतिपदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमे ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुक्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ३४२. समुक्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, कीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अवस्थितपद भी सम्भव है, क्योंकि सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अवस्थितपद उपलब्ध होता है । तथा शेष प्रकृतियोंका भी अवस्थितपद उपशामश्रेणिमे सर्वोपशामना होने पर उपलब्ध होता है । परन्तु वह यहाँ पर विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए और इसीलिए उपरिम अर्पणा ग्रन्थ सुसम्बद्ध है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३४३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि है । सात नोकवायोकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस० अत्थि उक्क० हाणी । णवरि सम्म०-सम्मामि० वड्डीए वि संभवो दीसइ, उवसमसेहीए कालं कादूए तत्थुप्पणए-उवसमसम्मादिट्ठिम्मि दोण्हमेदेसिं कम्माणं वड्ढिंदसणादो । एदमेत्थ ए विवक्खिस्वय-मिदि णेदव्वं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० ओघं । एवं जाव अणाहारि ति । एवं जहणणयं पि णेदव्वं, विसेसाभावादो ।

§ ३४४. सामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो हदसमुत्पत्तियकम्मंसिओ कम्मं क्ववेहदि ति विवरीदं गंतूण सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु उववण्णो सव्वलहुं सव्वाहिं पज्जतीहि पज्जत्तयदो उक्कस्ससंकिलेसमुक्कस्सगं च जोगं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवडाणं । एवरि तप्पाओग्ग-जहणणसंतकम्मिओ स्वविदकम्मंसिओ आणेदव्वो, बंधाणुसारेणेदमुक्कस्सवड्ढिसामित्तं पयदं, अण्णहा पुण गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण विवरीयभावेण सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणि पूरेदूण तदो मिच्छत्तं गयस्स पढमसमए पयदसामित्तेण होदव्वं, तत्था-संखेज्जाणं गुणिदसमयपव्वद्धानमधापवत्तेण मिच्छत्तस्सुवरि परिवड्ढिंदसणादो । उक्क०

अनुविशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सत्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता है कि सत्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि भी सम्भव दिखलाई देती है, क्योंकि उपशमश्रेणियों मरण करके वहाँ उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टि जीवमें इन दो कर्मोंकी वृद्धि देखी जाती है । किन्तु यह यहाँ पर विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषके समान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । तथा उत्कृष्टके समान जघन्य भी जानना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्टसे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ३४४. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर हतसमुत्पत्तिक कर्मांशिक जीव कर्मका क्षण करेगा किन्तु विपरीत जाकर सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो और अति शीघ्र सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट संक्लेश और उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य जघन्य सत्कर्मवाले क्षणिककर्मांशिक जीवको लाना चाहिए । बन्धके अनुसार यह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व प्रवृत्त हुआ है, अन्यथा गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर विपरीत भावसे सत्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर अनन्तर मिध्यात्वको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें प्रकृत स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर असंख्यात गुणित समयप्रबद्धोंकी अधःप्रवृत्तभागाहारके द्वारा मिध्यात्वके ऊपर वृद्धि देखी जाती है ।

हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमादो पुहवीदो णिस्सरिदसमाणो दो-तिण्ण भवे पंचिदिएसु बादरेईदिएसु च गमेदूण तदो मणुस्सेसु गम्भोवक्कतिएसु जादो सव्वलहुं जोणिणिकखमणजम्मणेण जादो अट्टवस्सिओ सम्मत्तं पडिवज्जिय दंसणमोहकखवणाए अब्भुद्धिदो तेण भिच्छत्तं खविज्जमाणं खविदं जाधे' अपच्छिम-ट्टिदिखंडगं चरिमसमयसंखुब्भमाणं संखुद्धं ताधे तस्स मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । सम्मत्त०-सम्मामि० उक्क० वट्टी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमीए पुहवीए णेरइओ अंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तमुक्कस्सं काडिदि ति विवरीयं गंतूण सम्मत्तं पडिवण्णो । तन्थ सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणि गुगसंक्रमेण पूरिदाणि अंतोमुहुत्तमसंखेज्ज-गुणाए सेटीए सो से काले विज्झादं पडिहिदि ति तस्स उक्क० वट्टी । अथवा दंसणमोहकखवणेण गुणिदकम्मंसिएण जाधे मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं ताधे सम्मामिच्छत्तस्स उक्क० वट्टी । तेणेव जाधे सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं ताधे [सम्मत्तस्स उक्क० वट्टी] । सम्म० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स अवत्थीणदंसणमोहणीयस्स चरिमसमए वट्टमाणस्स । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? गुणिदकम्मंसिएण सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते जाधे संपक्खित्तं ताधे तस्स उक्क० हाणी । अणताणु०४ उक्क० वट्टी अवट्टाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्ण०

मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके हांती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर तथा दो तीन भव पञ्चेन्द्रियों और बादर एकेन्द्रियोंमे बिता कर अनन्तर गर्भज मनुष्योमे उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मसे आठ वर्षका होकर तथा सम्यक्त्वको प्राप्त हो दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने क्षयको प्राप्त होनेवाले मिध्यात्वका क्षय करते हुए जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमे संक्रमण किया तब उसके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि हांती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमें नारकी हांकर अन्तर्मुहुत्तमे मिध्यात्वको उत्कृष्ट करेगा किन्तु विपरीत जाकर और सम्यक्त्वको प्राप्त होकर वहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा अन्तर्मुहुत्त काल तक असंख्यातगुणी गुणश्रेणिरूपसे पूरकर अनन्तर समयमे विध्यातको प्राप्त होगा ऐसे उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा दर्शनमोहनीयका क्षपक जो गुणितकर्मांशिक जीव जब मिध्यात्वको सम्यग्मिध्यात्वमे प्रक्षिप्त करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा वही जब सम्यग्मिध्यात्वको सम्यक्त्वमे प्रक्षिप्त करता है तब सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाला गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम समयमें विद्यमान है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव जब सम्यग्मिध्यात्वको सम्यक्त्वमे प्रक्षिप्त करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर

गुणितकर्मसिद्धो जो सत्तमाए पुढवीए खेरइयो कम्ममतोमुहुत्तेण गुणेहिदि त्ति सम्मत्तं पडिबण्णो अंतोमुहुत्तेण अणंताणुबंधी विसंजो जयंतेण तेण अपच्छिमे द्विदिवंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । अट्टएहं कसायाणमुक्कस्सवट्ठी अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? गुणितकर्मसियस्स अणियट्टिखवगस्स अट्टण्हं कसायाणमपच्छिमे द्विदिवंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । तिण्हं संजलणाणमट्ट-कसायभंगो । लोहसंजलणस्स एवं चेव । णवरि सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए उक्क० हाणी । इत्थिणवुंसं-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्क० वट्ठी मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अएणद० गुणितकर्मसियस्स खवगस्स चरिमे द्विदिवंडए चरिमसमय-संकामिदे इत्थिणवुंसं उक्क० हाणी । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्क० हाणी गुणित-कर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिवंडयदुचरिमसमयसंकायस्स । पुरिसवेद० उक्क० वट्ठी मिच्छत्तभंगो । अवट्टाणं कस्स ? अएणद० असंजदसम्माइद्विस्स अवट्टिदपाओग-संतकम्मिएण उक्कस्सवट्ठिं काट्टाणवट्टिदस्स तस्स उक्क० अवट्टाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणितकर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिवंडयं विणासेमाणगस्स उक्क० हाणी । भय-दुगुंझाणं वट्टि-अवट्टाणमुक्कस्सं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणितकर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिवंडयदुचरिमसमए वट्टमाणगस्स ।

गुणितकर्मांशिक सान्नी प्रथिवीका नारकी जीव कर्मको अन्तर्मुहूर्तके द्वारा गुणित करेगा, इसलिए सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तके द्वारा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करते हुए जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानि होती है। आठ कपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक अनिवृत्तक्षपक जीव आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। तीन संज्वलनका भङ्ग आठ कपायोंके समान है। लोभसंज्वलनका भङ्ग इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि सूक्ष्मसाप्तरायके अन्तिम समयमें इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके खीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा जो गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव हास्य, रति, अरति और शोकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अवस्थितप्रायोग्य सत्कर्मके साथ उत्कृष्ट वृद्धि करके अवस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव चरम स्थितिकाण्डकका विनाश कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है।

§ ३४५. आदेशेण शेरइय० मिच्छत्त० उक्त्सवट्टि-अवट्ठाणमोवभंगो । उक्त्सिसया हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणितकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि त्ति तदो सम्मत्तं पडिवण्णो सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरेदूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमुक्त्सिसया वट्टी कस्स ? अण्णदरस्स गुणितकम्मंसियस्स जो सत्तमाए पुढवीए गेरइओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि त्ति सम्मत्तं पडिवण्णो तदो सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरेयूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० वट्टी । सम्म० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणितकम्मंसिओ चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीओ तस्स उक्त्सिसया हाणी । सम्मा मि० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणसंक्रमेण सम्मा-मिच्छत्तादो सम्मत्तं पूरेयूण विज्झादं पदिदपढमसमए तस्स उक्क० हाणी । अणंताणु०४ उक्त्सवट्टी अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक्त्सिसया हाणी कस्स ? अण्णद० गुणितकम्म-सियस्स सम्मत्तं पडिवज्जियूण अणंताणु०४ विसंजोए तस्स तस्स अपच्छिमे द्विट्तिखंडए चरिमसमयसंज्ञोहयस्स तस्स उक्क० हाणी । वारसक०-भय-दुग्गुंहा० उक्त्सवट्टी अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरस्स गुणितकम्मंसियस्स कदकरणिज्जभावेण गेरइएमु उववण्णस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे तस्स उक्त्सिसया हाणी । एवं पुरिसवेदस्स । णवरि अवट्ठाणं सम्माइट्ठिस ।

§ ३४५. आदेशे नारकियोमें मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक सातवीं पृथिवीका नारकी जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम समयमें दर्शनमोहनीयकी क्षणणा कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वसे सम्यक्त्वको पूरकर विध्यातको प्राप्त होता है उसके प्रथम समयमें उसकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-कर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करते समय अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव कृतकृत्यभाक्से नारकियों में उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होता है तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान

इहिसस । इत्थि-णवुंस०-चदुणोकसाय० [उक्क०] वड्डी मिच्छत्तभंगो । अबहाणं णत्थि । हाणी भय-दुगुंछभंगो । जेसिमुदयो णत्थि तेसि पि थिउक्कसंकमेणं पयदसिद्धी वत्तच्चा । पढमाए एवं चेव । णवरि अण्णो पुढवीए उववज्जावेयव्वो । विदियादिं जाव सत्तमा ति एवं चेव । णवरि अण्णो पुढवीए णामं घेत्तूण उववज्जावेयव्वो । णवरि सम्मतस्स उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणितकम्मसियस्स सम्मतं पडिवज्जियूण अणंताणुवंधिं विसंजोइय द्विदस्स जाधे गुणसेटिसीसयाणि उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी । बारसक०-णवणोक० उक्क० हाणी एवं चेव ।

१ ३४६. तिरिक्खवर्गईए तिरिक्खेसु मिच्छत्तस्स उक्कसिसया वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मसिओ विवरीदं गंतूण तिरिक्खवर्गईए उववणो सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तवदो उक्कस्सजोगमुक्कस्ससंकिलेसं च गदो तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवहाणं । उक्कसिसया हाणी कस्स ? अण्णद० गुणितकम्मसियस्स संजमासंजम-संजम-सम्मतगुण-सेटीओ कादूण मिच्छत्तं गदो तदो अविणहासु गुणसेटीसु तिरिक्खेसु उववणस्स तस्स जाधे गुणसेटिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । अथवा णेरइयभंगो । सम्मत०-सम्मामि० उक्कसिसया वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणितकम्मसिब-

सम्यग्दृष्टिके होता है । खीविद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनका अवस्थान नहीं है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है । तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी भी स्तियुकसंकमणसे प्रकृत विषयकी सिद्धि करनी चाहिए । पहली पृथिवीमे इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीमे उत्पन्न कराना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीका नाम लेकर उत्पन्न कराना चाहिए । इतनी और विशेषता है कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके स्थित है उसके जब गुणश्रेणियों उदयको प्राप्त होते हैं तब उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । बारह कषाय और नौ नोकषायोंका भङ्ग इसीप्रकार है ।

१ ३४६. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर तिर्यञ्चगतिमे उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक जीव संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियाँ करके मिध्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना तिर्यञ्चोमे उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणियों उदयको प्राप्त हुए तब उसके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अथवा इसका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्माशिक

१. ता०प्रती 'सुिउक्कसंकमेण' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एवं चेव । णामं वेत्तूण । विदियादि' इति पाठः ।

तिरिक्त्वो सम्मत्तं पडिवण्णो जाधे गुणसंक्रमेण सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणि पूरेयुण से काले वि-भादं पडिहिदि चि ताधे तस्स उक्कस्सिया बड्डी । हाणी वि सम्पामिच्छत्तस्स विञ्जादे पदिदस्स पढमसमए कायव्वा । सम्मत्तस्स उक्कस्सिया हाणी ओघं । अणंताणु०४ वड्डी अवहाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिद-कम्मंसियस्स अणंताणुबंधी विसंजो जेतस्स अपच्छिमे द्विदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० वड्डी अवहाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि पुरिस० अवहाणं सम्माइदिसस्स कायव्वं । उक्कस्सिया हाणी णेरइयभंगो । इत्थि-णवुंस०-चटुणोक० उक्क० वड्डी मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी पुरिसवेदभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि जोणिणीसु सम्म०-बारसक०-णवणोक० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स संजम-संजमासंजम-सम्मत्तगुणसेहीओ कादूण तदो अविणहासु गुणसेहीसु मिच्छत्तं गंतूण जोणिणीसु उववण्णो जाधे गुणसेहिंसियाणि उदयमागहाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी ।

§ ३४७. पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंझा० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स जो विवरीदं गंतूण पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तएसु उववण्णो अंतोमुहुत्तेण उक्कस्सजोगं गदो उक्कस्सयं च संकिलेसं पडिवण्णो तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवहाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद०

तिर्यञ्च जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो जब गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा तब उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । हानि भी सम्यग्मिध्यात्वकी विध्यातको प्राप्त हुए तिर्यञ्चके प्रथम समयमें करनी चाहिए । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग ओषके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थान पद सम्यग्दृष्टिके करना चाहिए । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । तथा इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि योनिनीतिर्यञ्चोमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियाँ करके अनन्तर गुणिश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना मिध्यात्वमें जाकर योनिनी तिर्यञ्चोमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ३४७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयोत्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयोत्तकोमें उत्पन्न हो अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इनकी

गुणितकर्मसिओ जो सम्मत-संजयासंजम-संजमगुणसेटीओ काटूण मिच्छत्तं गदो अविणहामु गुणसेटीमु अपज्जत्तएमु उववण्णो तस्स गुणसेहिसीसएमु उदयमागदेषु उक्क० हाणी । सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी तस्सेव । सत्तणोक्क० उक्क० वट्ठि-हाणीणं मिच्छत्तंभंगो ।

§ ३४८. मणुसगदीए मणुसेमु मिच्छत्तस्स उक्क० वट्ठी कस्स ? अण्णदरो खविदकम्मसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं खवेहिदि ति विवरीयं गंतूण मिच्छत्तं गदो उक्कस्सजोगमुक्कस्ससंकिलेसं च पडिवएणो तस्स उक्क० वट्ठी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरो गुणितकर्मसिओ दंसण-मोहक्खवणाए अब्भुट्ठिदो जाधे तेण अपिच्छमं ट्ठिदिखंडयं गुणसेहिसीसगस्स संखेज्जदिभागेण सह हदं ताधे तस्स उक्क० हाणी । सम्मत-सम्माभि० उक्क० वट्ठी कस्स ? अएणद० गुणितकर्मसियस्स सव्वलहुं मणुसेमु आगदो जोण्णिक्खमया-जम्मएण्णा जादो अट्ठवस्सिगो सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणि गुणसंकमेण असंखे० गुणाए सेटीए अंतोमुहुत्तं पूरेयूण से काले विज्झादं पडिहिदि ति तस्स उक्कस्सिया वट्ठी । अथवा दंसणमोहक्खवगस्स कायव्वं । सम्मतस्स उक्क० हाणी कस्स ? अएणद० गुणितकर्मसियस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स । सम्माभिच्छत्तस्स एदेगेव दंसणमोहं खवेंतेण जाधे गुणसेहिसीसगेण सह सम्माभि० अपिच्छमट्ठिदिखंडयं

उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम गुणश्रेणियोंका प्राप्त होकर तथा मिथ्यात्वमें जाकर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि उसीके होती है। सात नोकधायीकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है।

§ ३४८. मनुष्यगतिसं मनुष्योमे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षणिककर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तमे कर्मों का क्षय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशका अधिकारी हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। तथा उसीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षणता करनेके लिए उद्यत हुआ। उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणियोंके संख्यातवे भागके साथ हनन किया तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्योमे आकर और योनिनिष्क्रमण जन्मसे आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंकमके द्वारा असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अन्तर्मुहूर्ततक पूरकर अनन्तर समयमे विध्यातको प्राप्त होगा उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। अथवा इनकी उत्कृष्ट वृद्धि दर्शनमोहनीयकी क्षणता करनेवाले जीवके करनी चाहिए। सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षणताके अन्तिम समयमे अवस्थित है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा यही दर्शनमोहनीयकी क्षणता करनेवाला जीव जब गुणश्रेणियोंके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम

चरिपसमयं पक्वित्तं ताधे उक्क० हाणी । अणंताणु० उक्क० वट्टी अवट्ठानं च मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? गुणित्कम्मसियस्स सव्वलहुं जोणित्कवमणजम्मणेण जादो अट्ठवस्सिओ सम्मतं पट्टिवण्णो भूयो अंतोमुहुत्तेण अणंताणुबंधी विसंजोएदि जाधे तेण गुणसेदिसीसगस्स संखेज्जदिभागेण सह अपच्छिमट्टिदिखंडयं णिग्गालिदं ताधे अणंताणु० उक्क० हाणी । अट्ठण्हं कसायाणमुक्कस्सवट्टि-अवट्ठानं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणित्कम्मसियस्स सव्वलहुं जोणित्कवमणजम्मणेण जादो अट्ठवस्सिओ खवणाए अब्भुट्टिदो जाधे अपच्छिमट्टिदिखंडयं गुणसेदिसीसगेहि सह संजलणाए संपक्वित्तं ताधे उक्क० हाणी । कोहसंजलणस्स उक्क० वट्टी कस्स ? अएणद० गुणित्कम्मसियस्स खवगस्स जाधे पुरिसवेदो छएणो-कसाएहि सह कोधे संपक्वित्तो ताधे क्रोधसंज० उक्क० वट्टी । ओघसामितं पि एदं चेव कायव्वं । अवट्ठानं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? जाधे क्रोधो माणे संपक्वित्तो ताधे क्रोधस्स उक्क० हाणी । माणस्स उक्क० वट्टी कस्स ? तेणेव जाधे क्रोधो माणे संपक्वित्तो ताधे माणस्स उक्क० वट्टी । अवट्ठानं मिच्छत्तभंगो । हाणी कस्स ? तस्स चेव जाधे माणो मायाए संपक्वित्तो ताधे उक्क० हाणी । मायाए उक्क० वट्टी कस्स ? तेणेव माणउक्कस्सविभत्तिगेण जाधे माणो मायाए संपक्वित्तो ताधे तस्स उक्क० वट्टी । [अवट्ठानं मिच्छत्तभंगो ।] हाणी कस्स ? जो मायाए उक्कस्ससंतकम्मसिओ

स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमे संक्रमण करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मके द्वारा आठ वर्षका होकर सम्यक्त्वका प्राप्त हो पुनः अन्तर्मुहूर्तमे अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके जब गुणश्रेणिशीर्षके संख्यातर्वे भागके साथ अन्तिम स्थितिकाण्डक गलित हुआ तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानि होती है । आठ कषायोकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलनेरूप जन्मसे आठ वर्षका होकर क्षणाले लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणिशीर्षके साथ संज्वलनमें प्रक्षिप्त किया तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक क्षणिक जीव जब ब्रह्म नोकषायोके साथ पुरुषवेदको क्रोधमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । आघस्यामित्व भी इसी प्रकार करना चाहिए । इसके अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जब क्रोधको मानमें प्रक्षिप्त करता है तब क्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है । मानकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? उसीने जब क्रोधका मानमें प्रक्षिप्त किया तब मानकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसके अवस्थानका भंग मिध्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? वही जब मानको मायामें प्रक्षिप्त करता है तब मानकी उत्कृष्ट हानि होती है । मायाकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? मानकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले उसी जीवने जब मानको मायामें प्रक्षिप्त किया तब उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अवस्थानका-भंग मिध्यात्वके समान है । मायाकी उत्कृष्ट हानि किसके

मायं लोभे संपक्खिवादि तस्स उक्क० हाणी । लोभसंज० उक्क० वट्टी कस्स ? तस्सेव कायव्वा, विसेसाभावादो । अबहाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी उक्क० कस्स ? तस्स चेव सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए वट्टमाणगस्स । इत्थिवेद० उक्क० वट्टी कस्स ? जो खविदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं खवेहिदि त्ति विवरीदं गंतुंय मिच्छत्तं गदो इत्थिवेद० पबद्धो तदो उक्कस्सजोगमुक्कस्सगं च संकिलेसं गदो तस्स उक्क० वट्टी । हाणी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मंसिओ खवणाए अब्भुट्ठिदो तेण जाधे अपच्छिदमट्ठिदि-खंडयं उदयवज्जं संछुभमाणगं संछुद्धं ताधे उक्क० हाणी । एवं णवुंसय० । पुरिस० उक्क० वट्टी कस्स ? अण्णद० गुणिद० णवुंसयवेदोदयक्खवगस्स जाधे इत्थि-णवुंसय-वेदो पुरिसवेदमिह संपक्खित्तो ताधे उक्क वट्टी । एवमोघसामितं पि णायव्वं । उक्क० अबहाणं कस्स ? अण्णद० असंजदसम्मादिट्ठिस्स अबट्ठिदपाओग्गसंतकम्मियस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सियाए वट्टीए वट्टियूणावट्ठिदस्स । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुजिदकम्मंसि० पुरिसवेदचिराणसंतकम्मं जाधे कोघम्मि संपक्खित्तं ताधे तस्स उक्क० हाणी । अण्णोकसायाणमुक्क० वट्टी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स खवणाए अब्भुट्ठिदस्स अपुव्वकरणचरिमसमए उक्कस्सगुणसंकमेण सह उक्कस्सजोगं

होती है ? जो मायाका उत्कृष्ट सत्कर्मवाला जीव जब मायाको लोभमे निक्षिप्त करेगा तब उसके मायाकी उत्कृष्ट हानि होती है । लोभसञ्चलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? उमी जीवके करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । इसके अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? वही सूक्ष्मसांपराय जीव जब अन्तिम समयमें विद्यमान होता है तब उसके लोभकी उत्कृष्ट हानि होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो क्षपितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो स्त्रीवेदका बन्धकर अनन्तर जिसने उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त किया उसके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-कर्मांशिक जीव क्षपणके लिए उद्यत हुआ । उसने जब उदयको छोड़कर अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करते हुए संक्रमण किया तब उसके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार नपुंसक-वेदका स्वामी जानना चाहिए । पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-कर्मांशिक जीव नपुंसकवेदके उदयके माथ क्षपक है वह जब स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमे निक्षिप्त करता है तब उसके पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसीप्रकार ओघ स्वामित्व भी जानना चाहिए । इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अबस्थितप्रायोग्य सत्कर्मवाला है, उत्कृष्ट योगसे युक्त है और उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो अबस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीवने पुरुषवेदके पुराने सत्कर्मको जब क्रोधमे प्रक्षिप्त किया तब उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है । छद्म नोकपायोकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव क्षपणके लिए उद्यत हो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट

मदस्स तस्स उक्क० वट्टी । णवरि अरदि-सोगाणमधापवत्तचरिबसमए भय-दुग्गुंकोदएण विणा सोदए वट्टमाणस्स । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स गुणिदकम्मंसियस्स अपच्छिमे द्विदिस्वंडए दुचरिमसमए वट्टमाणगस्स तस्स उक्क० हाणी । एवं मणुसपज्ज० । णवरि इत्थिवेद० हाणी छण्णोकसायाणं व भाणियन्वा । एवं चेव मणुसिणीसु वि । णवरि पुरिस०-णजुंस० छण्णोकसायाणं व भाणियन्वा । मणुस-अपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३४६. देवगदीए देवेसु मिच्छत्त०-वारसक०-भय-दुग्गुंछा० उक्क० वट्टी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स जो अंतोसुहुत्तेण कम्मं खवेहदि त्ति विवरीयभावेण मिच्छत्तं गंतूण देवेसुववण्णे सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो उक्कस्सजोगमागदो उक्कस्सयं च संकिलेसं गदो तस्स उक्कस्सिया वट्टी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्टाणं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सहाणी णारयभंगो । सेसाणं उक्क० हाणी कस्स ? जो गुणिद-कम्मंसियो सम्मत्त-संजमासंजम-संजमगुणसेहोओ कादूण तदो मदो देवेसुववण्णे तस्स गुणसेदिसीसगेसु उदयमागदेसु उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० वट्टी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तं पडिवण्णल्लयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण पूरेयुण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० वट्टी । सम्मत्त०

गुणसंक्रमके साथ उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इतनी विशेषता है कि अरति और शोककी अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयमें भय और जुगुप्साके उदयके विना स्वादयसे विद्यमान रहते हुए उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके हांती है ? जो अन्यतर क्षपक गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि छह नोकपायोके समान कहनी चाहिए । इसीप्रकार मनुष्यनियोगोंमें भी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह नोकपायोके समान कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोमे पञ्चन्द्रियतयैश्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

§ ३४६. देवगतिमे देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु विपरीत भावसे मिथ्यात्वमे जाकर देवोंमें उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योगको और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रेणियोंके उदयमें आनेपर शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो

उक्त० हाणी कस्स ? अण्णदरो शुण्णिकम्मंसिओ दंसणमोहक्खवगो कदकरणिज्जो हीदुण देवेसुववण्णो तस्स दुचरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स उक्त० हाणी । सम्माभि० उक्त० हाणी कस्स ? विज्झादपदिदस्स । अणंताणुबंधीणमुक्कस्सवट्ठि-अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी ओघभंगो । इत्थि०-णवुंस० उक्त० वट्ठी कस्स ? अण्णदरो खविदकम्मंसिओ मिच्छत्तं गदो तदो उक्कस्सजोगमागदो तप्पाजोग-संकिळ्हो इत्थि-णवुंसयवेदं पवट्ठो तस्स उक्त० वट्ठी । हाणी भय-दुगुंछभंगो । एवं चट्ठणोकसायाणं । पुरिसवेद० एवं चेव । णवरि अवट्ठाणं वेदगसम्माइडिस्स । एवं सोहम्मादिउवरिमगेवज्जा सि । भवण०-वाणवें०-जोदिसि० एवं चेव । णवरि सम्पत्त० वट्ठि-हाणी सम्मामिच्छत्तभंगो ।

§ ३५०. अणुहिसादि जाव सब्बहा त्ति बारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० उक्त० वट्ठी कस्स ? खविदकम्मंसिओ उक्कस्ससंकिळ्हो उक्कस्सजोगमागदो सम्पत्त-संजम-संजमासंजमगुणसेदीसु पुव्वभवसंबंधिणीसु उदयमागदासु णिग्गलिदासु तदो उक्कस्सजोगमागदस्स तस्स उक्त० वट्ठी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्त० हाणी कस्स ? तस्सेव संजमासंजम-संजमगुणसेदीसु उदयमागदासु उक्त० हाणी । मिच्छत्त-इत्थि-णवुंस० उक्त० हाणी कस्स ? अण्णद० सम्पत्त-संजम-संजमासंजम-

अन्यतर गुणितकर्माशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव कृतकृत्य होकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके द्विचरम समयमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? विध्यातको प्राप्त हुए जीवके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । तथा इनकी हानिका भङ्ग ओषके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीवने मिध्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर उत्कृष्ट योग और तत्यायोग्य संक्लेशके साथ स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध किया उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है । इसी प्रकार चार नोकषायोंका भङ्ग जानना चाहिए । पुरुषवेदका भंग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान वेदकसम्यग्दृष्टिके होता है । इस प्रकार सौधर्मसे लेकर उपरिमप्रवयक तक जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी वृद्धि और हानिका भंग सम्यग्मिध्यात्वके समान है ।

§ ३५०. अनुदिशसे लेकर मर्याथसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो क्षपितकर्माशिक उत्कृष्ट संक्लेशवाला जीव उत्कृष्ट योगको प्राप्त हो पूर्व भवसम्बन्धी सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके उदयमें आकर गलित हो जानेपर अनन्तर उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? उसीके संयमासंयम और संयम गुणश्रेणियोंके उदयमें आ लेनेपर उत्कृष्ट हानि होती है । मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवके

गुणसेदीसु त्थिउक्केण उदयमागदासु तस्स उक्क० हाणी । सम्मामिच्छ० एवं वेव । सम्मत्त-अयांताणु०४ हाणी ओषं । हस्स-रइ-अरइ-सोग० उक्क० वट्टी कस्स ? अण्णद० संजमगुणसेदिसीसयाणि जाधे उदएण णिग्गलिदाणि ताधे उक्कस्सजोग-मागदस्स संकित्तेसं च तप्पाओग्गं पडिवण्णस्स तस्स उक्क० वट्टी । हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मत्त-संजम-संजमासंजमगुणसेदीसु अविणहासु देवेसुववण्णस्यस्स जाधे गुणसेदिसीसगाणि उदयमागदाणि ताधे उक्क० हाणी । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३५१. जहएणए पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंळ० जह० वट्टी कस्स ? अण्णद० असंखेज्ज०-भागेण वट्टियूण वट्टी हाइदूण हाणी अण्णदरत्थ अवट्ठाणं । सम्मत्त-सम्मामि०-इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागेण वट्टियूण वट्टी हाइदूण हाणी । एवं सव्व-एोरइय०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्सदेव जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि अपज्जत्तएसु सम्म०-सम्मामि० वट्टी णत्थि । पुरिसवे० सम्माइडिम्मि अवट्ठिदं णायव्वं । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति बारसक०-पुरिसवेद०-भय-दुगुंळ० जहण्णवट्टि-हाणी कस्स ? अण्णद० असंखेज्ज०भागेण वट्टियूण वट्टी हाइदूण हाणी ।

सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके स्तितुकसंक्रमणके द्वारा उदयमे आ गई हैं उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यग्मिध्यात्वका भंग इसी प्रकार है। सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानिका भंग ओघके समान है। हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव संयमगुणश्रेणियोंको जब उदयके द्वारा गला देता है तब उत्कृष्ट योग और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संव्लेशको प्राप्त हुए उस जीवके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके नाश किये बिना देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए तब उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गीणा तक ले जाना चाहिए।

§ ३५१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर जीवके असंख्यातवें भाग वृद्धि करनेसे वृद्धि होती है, इतनी ही हानि करनेसे हानि होती है और इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि और हानि होकर हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तकर्मोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि नहीं है। पुरुषवेदका अवस्थितपद सम्यग्दृष्टि जीवमें जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है ? अन्यतरके असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि

अण्णदरत्थ अवहाणं । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-एणुस० ज० हाणी कस्स ? अण्णद० । हस्स-रइ-अरइ-सोग० जहण्णवट्ठि-हाणी कस्स ? अण्णद० । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३५२. अप्पाबहुअं दुविहं—जहण्णमुकस्सं च । उकस्से पचदं । दुविहो णिहेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी । अवहाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०गुणा । सम्मतस्स सव्वत्थोवा उक्क० हाणी । वट्ठी असंखेज्जगुणा । सम्मामि० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी । हाणी असंखेज्जगुणा । बारसक०-भय-हुगुंझा० सव्वत्थावा उक्क० वट्ठी । अवहाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०गुणा । तिण्णिसंजल० सव्वत्थोवा उक्कस्सयमवहाणं । वट्ठी असंखे०गुणा हाणी विसेसा० । एवं पुरिस० । लोभसंजल० सव्वत्थोव० उक्कस्सयमवहाणं । हाणी असंखे०गुणा । वट्ठी असंखे०गुणा । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्ठी । हाणी असंखे०गुणा ।

§ ३५३ आदेसेण मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-हुगुंझ० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी अवहाणं । हाणी असंखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोव० उक्क० वट्ठी । हाणी असंखे०गुणा । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्ठी । हाणी

और हानि होकर हानि होती है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्ममिमिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य हानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । हाम्य, रति, अरति और शोककी जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गिणा तक जानना चाहिए ।

§ ३५२. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—आंध और आदेश । आंधसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । अवस्थान उतना ही है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । सम्यगिमिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । बारह कणाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । अवस्थान उतना ही है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । तीन संवलनोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । लोभसंवलनका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है ।

§ ३५३. आदेशसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्व और सम्यगिमिथ्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि

१. आ० प्रती 'उक्क० हायो । वट्ठी असंखे०गुणा' इति पाठः ।

असंखे०गुणा । एवं सव्वणेरइय०-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिय-देवा जाव उवरिमगेवज्जा ति । पंचि०तिरिक्खअपज्ज० एवं चेव । णवरि पुरिस० इत्थिवेदभंगो । सम्मत-सम्मामि० णत्थि अप्पावहुअं ।

§ ३३४. मणुसगदी० मणुसाणमोघं । मणुसपज्ज० एवं चेव । एवं मणुसिणीसु । णवरि पुरिस० सव्वत्थोवं उक्क० अवट्टाणं । हाणी असंखे०गुणा । वट्टी असंखे०गुणा । मणुसअपज्ज० पंचिद्वियतिरि०अपज्जत्तभंगो । अणुहिंसादि जाव सव्वट्टा ति बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० सव्वत्थोवा उक्क० वट्टी अवट्टाणं । हाणी असंखे०गुणा । मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामि०-अणंताणु ४-इत्थि-णवुंस० णत्थि अप्पावहुअं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्टी । हाणी असंखे०गुणा । एवं जाव अणाहार ति ।

§ ३३५. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा० जहण्णवट्टी हाणी अवट्टाणं सरिसं । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थो० जह० हाणी । वट्टी असंखे०गुणा । इत्थिवेद-णवुंस०-चटुणोक० जहण्णवट्टी हाणी सरिसा । एवं सव्वणेर०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस-देवा जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि पंचिद्वियतिरिक्खअपज्ज० पुरिस० इत्थिवेदेण सह भाणिदव्वा । एवं मणुस०अपज्ज० । णवरि जहयत्थ वि सम्मत-सम्मामि० अप्पावहुअं

असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है ।

§ ३५४. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इसी प्रकार मनुष्यनिर्योमें है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भंग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३५५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान समान हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । उससे जघन्य वृद्धि असंख्यातगुणी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी जघन्य वृद्धि और हानि समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पुरुषवेदको स्त्रीवेदके साथ कहलाना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

णत्थि । अणुदिसादि जाव सव्वहा त्ति बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० जहणवट्टि-
हाणी अवट्ठाणं सरिसं । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० णत्थि
अप्पाबहुअं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जहणवट्टी हाणी सरिसा । एवं जाव० ।

एवं पदणिकखेवे त्ति समत्तं० ।

§ ३५६. बट्टिविहत्ति त्ति तत्थि इमाणि तेरस अणिओगद्वाराणि—समुक्तित्वा
जाव अप्पाबहुए त्ति । समुक्तित्वाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
मिच्छ०-अट्ठक०-पुरिस० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्ठिदाणि असंखे०गुण-
हाणी च । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी असंखे०गुणवट्टी हाणी
अवत्त०विहती । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी संखे०भागवट्टी संखे०-
गुणवट्टी असंखे०गुणवट्टी हाणी अवट्ठि० अवत्त०विह० । चदुसंज० अत्थि असंखे०-
भागवट्टी हाणी संखे०गुणवट्टी असंखे०गुणहाणी अवट्ठि०विह० । णवरि लोभसंजल०
असंखेज्जगुणहाणी णत्थि । इत्थि-णवुंस० अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी असंखे०-
गुणहाणिविह० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी । भय-दुगुंझ०
अत्थि असंखे०भागवट्टी हाणी अवट्ठि० । णवरि पुरिसवेद० संखे०गुणवट्टि-हाणी
संखे०भागवट्टि-हाणी सम्म०-सम्मामि०-तिणिसंजल० संखे०गुणहाणि-संखे०भाग-

इतनी विशेषता है कि उभयत्र अर्थात् दोनों अपर्याप्तकोमे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्प-
बहुत्व नहीं है । अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोमे बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साकी जघन्य हानि और अवस्थान समान हैं । मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व,
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है । हास्य, रति अरति और
शोककी जघन्य वृद्धि और हानि समान है । इम प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ३५६. वृद्धिविभक्तिका प्रकरण ३ । उसमे ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तनासे
लेकर अल्पबहुत्व तक । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश । ओघसे मिध्यात्व, आठ कपाय और पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-
भागहानि, अवस्थित और असंख्यातगुणहानि हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात-
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यवृद्धि है ।
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यात-
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थितविभक्ति और अवक्तव्यविभक्ति है ।
चार संज्वलनोकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि
और अवस्थितविभक्ति है । इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि-
विभक्ति है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि हैं ।
भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । इतनी
विशेषता है कि पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-

हाणीओ च संभवन्ति । एदाओ सव्वाणिओगहारेसु जहासंभवमणुप्रगियव्वाओ । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु । णवरि पज्जत्त० इत्थिवेद० हस्सभंगो । मणुसिणीसु पुरिस०-णवुंस० असंखेज्जगुणहाणी णत्थि ।

§ ३५७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि-असंखे०-गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि-संखे०-भागवट्टि-संखे०-गुणवट्टि-असंखे०-गुणवट्टि-हाणि-अवट्टि०-अवत्त० । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणी० । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख० । मणुसा० ओघं । देवा भवणादि जाव उवरिक्खेवज्जा त्ति णारयभंगो ।

§ ३५८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछ० अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि-असंखे०-गुण-हाणि० । इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि० । एवं मणुसअपज्ज० । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० अत्थि असंखे०-भागवट्टि-हाणि० । णवरि अणंताणु०४

भागहानि तथा सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और तीन संज्वलनोंकी संख्यातगुणहानि और संख्यात-भागहानि भी सम्भव हैं । इनका सब अनुयोगद्वारोंमें यथासम्भव अनुमार्गण करना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियामे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके समान है । तथा मनुष्यनियामे पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है ।

§ ३५७. आदेशसे नारकियामे मिध्यात्व, ब्राह्म कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार सब नारकी और सब तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें आंधके समान भङ्ग है । सामान्य देव और भवतवासियोंसे लेकर उपरिम प्रबैयक तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।

§ ३५८. पञ्च इंद्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमे मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमे जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि है । इतनी

अत्यि असंखे०गुणहाणिवि० । बारसक०-पुरिस०-भय-दुशुंका० अत्यि असंखे०भागवट्टि-
हाणि०-अवट्टि० । हस-रइ-अरइ-सोगाणं अत्यि असंखे०भागवट्टि-हाणि० । एवं
जाव अजाहारि ति ।

§ ३५६. सामित्तणु० दु० णि०—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छ०
असंखे०भागवट्टि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ?
सम्माइट्टिस्स वा मिच्छाइट्टिस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसण-
मोहक्खवगस्स चरिमट्टिद्विखंडए अवगदे । अवट्टिदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स ।
सम्मत्त०-सम्मामि० असंखे०भागवट्टी असंखे०गुणवट्टी अवत्त० कस्स ? अण्णद०
सम्माइट्टिस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स वा मिच्छाइट्टिस्स
वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसणमोहक्खवगस्स चरिमे ट्टिद्विखंडगे
सम्मत्ते पक्खित्ते सम्मामि० असंखे०गुणहाणी उव्वेत्तलणाए वा । सम्मतस्स असंखे०-
गुणहाणी कस्स ? अण्णद० उव्वेत्तलणचरिमट्टिद्विखंडगे मिच्छत्ते संपक्खित्ते ताथे ।
अणंताणु० असंखे०भागवट्टी अवट्टिदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्टिस्स । [असंखे०-
भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइट्टिस्स मिच्छाइट्टिस्स वा ।] संखे०भागवट्टी संखे०-

विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि भी हैं। वारद कपाय, पुरुषवेद, भय
और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है। हास्य, रति,
अरति और शांकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि हैं। इसीप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक जानना चाहिए।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

§ ३५६. स्वामित्त्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश। ओषसे
मिध्यात्वकी असंख्यातभागवट्टि किसके हांती है ? अन्यतर मिध्याट्टिके हांती है। असंख्यात-
भागहानि किसके हांती है ? सम्यगट्टि या मिध्याट्टिके हांती है। असंख्यातगुणहानि किसके
हांती है ? अन्यतर दर्शनमोहनीयके क्षपकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत होने पर हांती है।
अवस्थितविभक्ति किसके हांती है ? अन्यतर मिध्याट्टिके हांती है। सम्यक्त्व और सम्य-
ग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि और अवक्तव्यविभक्ति किसके हांती है ?
अन्यतर सम्यगट्टिके हांती है। असंख्यातभागहानि किसके हांती है ? अन्यतर सम्यगट्टि या मिध्या-
ट्टिके हांती है। असंख्यातगुणहानि किसके हांती है ? जिस दर्शनमोहनीयके क्षपक अन्यतर जीवने
परम स्थितिकाण्डकको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त किया है उसके सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानि
हांती है। अथवा उद्वेलनाके समय हांती है। सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणहानि किसके हांती है ?
जिस अन्यतर जीवने उद्वेलनाके समय अन्तिम स्थितिकाण्डकको मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त किया है।
उसके इस समय सम्यक्त्वकी, असंख्यातगुणहानि हांती है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-
भागवट्टि और अवस्थितविभक्ति किसके हांती है ? अन्यतर मिध्याट्टिके हांती है। असंख्यात-
भागहानि किसके हांती है ? अन्यतर सम्यगट्टि या मिध्याट्टिके हांती है। संख्यातभागवट्टि,

गुणवट्टी असंखे० गुणवट्टी च कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोयदूण विच्छलं गदस्स आवलियमिच्छाइद्विस्स । अवत्त० कस्स ? अण्णद० पढयसमयसंजुतस्स । असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोयस्स चरिमद्विद्विस्संइए अवणिदे । अट्टकसाय० असंखे० भागवट्टी अवट्टि० असंखे० भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स अपच्छिमे द्विद्विस्संइए गुणसेद्विसीसगेण सह आगायिदूण णिल्लेविदे । कोहसंजल० असंखे० भागवट्टि-हाणी अवट्टिदं अट्टकसायभंगो । संखेज्जगुणवट्टी कस्स ? अण्णद० पुरिसवेदो कोधे संपक्खित्तो ताधे कोधस्स संखे० गुणवट्टी । माणस्स असंखे० भागवट्टी हाणी अवट्टि० कोहभंगो । संखे० गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० कोधस्स पुव्वसंतकम्मे माणे संपक्खित्ते ताधे तस्स संखे० गुणवट्टी । मायाए असंखे० भागवट्टी हाणी अवट्टिदं माणभंगो । संखे० गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० माणसंजलणं जाधे मायाए संपक्खित्तं ताधे । लोभसंजलण० असंखे० भागवट्टी हाणी अवट्टि० मायासंजलणभंगो । संखे० गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० खवगस्स मायाए पोरारणसंतकम्मं जाधे लोभे संपक्खित्तं ताधे । तिण्हं संजलणाणं असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स चरिम-

संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि किन्के होती हैं ? जिस अन्यतर जीवको अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना करके मिथ्यात्वमें जाकर मिथ्यादृष्टि हुए एक अवलि हुआ है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती हैं ? प्रथम समयमें संयुक्त हुए अन्यतर जीवके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले अन्यतर जीवके अन्तित स्थितिकाण्डके अपगत होने पर होती है । आठ कपायोकी असंख्यातभागवृद्धि, अवस्थितविभक्ति और असंख्यातभागहानि किसके होती हैं ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती हैं । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जिस अन्यतर क्षपक जांवेने अन्तित स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणशीपीके साथ ग्रहणकर निलेपन किया है उसके होती है । क्रोधसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग आठ कपायोके समान है । संख्यातगुणवृद्धि किसके होती हैं ? जिस अन्यतर जीवने जब पुरुषवदका क्रोधमें प्रक्षिप्त किया है तब उसके क्रोधसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मानसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है । संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने क्रोधसंज्वलनके पूर्वके सत्कर्मको मानसंज्वलनमें प्रक्षिप्त किया है तब उसके उसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मायासंज्वलनकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मानसंज्वलनके समान है । इसकी संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने मानसंज्वलनकी जब मायासंज्वलनमें प्रक्षिप्त किया तब उसके मायासंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । लोभसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मायासंज्वलनके समान है । इसकी संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक जीव मायासंज्वलनके प्राचीन सत्कर्मको जब लोभसंज्वलनमें प्रक्षिप्त करता है तब इसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । तीनों संज्वलनोंकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका

द्विद्विखंडयं संकामैतस्स । लोभसंजलणाए असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थिवेद० असंखे०भागवट्टी कस्स ? अण्णद० मिच्छादिद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स चरिमद्विद्विखंडयं संकामैतस्स । एवं णवुंस० । पुरिसवे० असंखे०भागवट्टिहाणी अवद्विदं संजलणभंगो । णवरि अवद्वि० सम्माइद्विस्स । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स पुव्वसंतकम्मं कोधे संछुभमाणगस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टिहाणी कस्म ? अण्णद० सम्माइद्विस्स मिच्छादिद्विस्स वा । भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टिहाणी अवद्विदं कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स मिच्छाइद्विस्स वा ।

§ ३६०. आदेसेण मिच्छ० असंखे०भागवट्टी अवद्विदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्टी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे०गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० उवसमसम्माइद्विस्स गुणसंकमेण अंतोमुहुत्तं पूरेमाणस्स जाव से काले विज्झादं पडिहदि ति । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० उव्वेज्जमाणगस्स

संक्रमण कर रहा है उसके होती है। लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं होती। श्लेषेदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके हांती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है। असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका संक्रमण कर रहा है उसके होती है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे स्वाभित्त्व जानना चाहिए। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग संज्वलनके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है। असंख्यातगुणहानि किसके हांती है ? जो अन्यतर क्षपक पहलेके सत्कर्मको क्रोधमे प्रक्षिप्त कर रहा है उसके होती है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है।

§ ३६०. आदेशसे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है। असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है। असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर उपशमसम्यग्दृष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा अन्तर्मुहूर्त तक पूरकर जब अनन्तर समयमे विख्यात-संक्रमको प्राप्त करेगा तब उसके असंख्यातगुणवृद्धि हांती है। असंख्यातगुणहानि किसके

चरिमद्विद्विखंडगे अवगदे । अवतव्वं कस्स ? अण्णद० पढमसमयसम्माइद्विस्स । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टी अवाट्टि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे०-भागहाणी कस्स ? अण्ण० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । संखे०भागवट्टी संखे०गुणवट्टी असंखे०गुणवट्टी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोपदूण संजुत्तस्स आवल्लिमिच्छादिद्विस्स । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजो-जैतस्स अपच्छिमे द्विद्विखंडगे गिन्त्लेविदे । अवत्त० कस्स ? अण्णद० पढमसमय-संजुत्तस्स । बारसक०-भय-दुगुंझा० [असंखे०] भागवट्टी हाणी अवाट्टि० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । इत्थि-णवुंस० असंखे०भागवट्टी कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । पुरिस० असंखे०भागवट्टी हाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । अवाट्टिदं कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मा० मिच्छाइद्विस्स वा । एवं सत्तसु पुढवीसु तिरिक्खगदितिरिक्खवा पंचिदियतिरिक्खइ देवा भवणादि जाव उवरिम-गेवज्जा ति ।

§ ३६१. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०-

होती है ? जां अन्यतर उद्वेलना करनेवाला जीव चरम स्थितिकाण्डकको विता चुका है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर प्रथम समयवती सम्यग्दृष्टिके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या-दृष्टिके होती है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अनन्तर संयुक्त होकर एक आवलि कालतक मिथ्यादृष्टि रहा है उसके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जिस अन्यतर जीवने अन्तिम स्थितिकाण्डकका निर्लेपन किया है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर जीवके संयुक्त होनेके प्रथम समयमें होती है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-भागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें तथा तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३६१. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अर्पर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी

भागवद्गी हाणी अवद्धि० सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणी असंखे०गुणहाणी सत्तणोको० असंखे०भागवद्धि-हाणी कस्स ? अण्णद० । णवारं सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०गुणहाणी को ? अण्णद० अपच्छिद्दमद्धिदिखंडवं गाल्लेयाणस्स ।

§ ३६२. मणुसा० ओघं । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि मणुसपज्ज० इत्थिवेद० छण्णोकसायभंगो । मणुसिणीसु पुरिस-णवुंस० छण्णोकसायभंगो । अणुहिसादि जाव सव्वट्ठा ति दंसणतिय-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०-भागहाणी कस्स ? अण्णद० । अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विमंजोएंतस्स अपच्छिद्दमे द्विदिखंडए गुणसेदिसीसणेण सह आगाइदूण णिल्लेविदे । चारसक्क०-पुरिस०-भय-दुगुंआ० असंखे०भागवद्गी हाणी अवद्धिदं हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवद्गी हाणी कस्स ? अण्णदरस्स । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३६३. कालानुगमेण दुविहो णिदसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स असंखे०भागवद्गी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । हाणी० जह० एगस०, उक्क० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी०

असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि तथा सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है । अन्यतरके होती है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अन्तिम स्थितिकाण्डकको गलानेवाले अन्यतरके होती है ।

§ ३६२. मनुष्योमे ओघके समान भङ्ग है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि मनुष्यपर्याप्तकोमे कीवदका भङ्ग छह नोकपायोंके समान है । मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह नोकपायोंके समान है । अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धितकके देवोमे तीन दर्शनमांदनीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, कीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयाजना करनेवाला जा अन्यतर जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणिशोषके साथ ग्रहण कर निर्लेपन करता है उसके होती है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित-विभक्ति तथा हास्य, रति, अरति और शाककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्वाभित्व समाप्त हुआ ।

§ ३६३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

जह० उक० एगस० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तइ समय। सम्मत्त०-
 सम्मायि० असंखे० भागवट्टी० जह० उक० अंतोमु० । असंखे० भागहाणी० जह० अंतोमु०,
 उक० वेद्धावट्टिसाग० पल्लिदो० असंखे० भागेण सादिरेयाणि । असंखे० गुणवट्टी० जह०
 उक० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणी० अवत्त० जह० उक० एगस० । अणंताणु०
 असंखे० भागवट्टी० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे० भागो । हाणी० जह०
 एगस०, उक० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । संखे० भागवट्टी० संखे० गुणवट्टी० जह०
 एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागो । असंखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक०
 अंतोमु० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तइ समय । अवत्त० असंखे० गुणहाणी०
 जह० एगस० । अट्टकसाय० असंखे० भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक०
 पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तइ समय । असंखे०-
 गुणहाणी० जह० उक० एगस० । कोह-माण-मायासंजळ० असंखे० भागवट्टी० हाणी०
 अवट्टि० अपच्चक्खाणभंगो । संखे० गुणवट्टी० असंखे० गुणहाणी० जह० उक० एगस० ।
 एवं लोभसंजळ० । णवरि असंखे० गुणहाणी णत्थि । इत्थि० असंखे० भागवट्टी० जह०
 एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० वेद्धावट्टिसागरो०

साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । असंख्यातगुणहाणिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातर्वे भाग अधिक दो छयासठ सागर है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहाणि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानु-
 बन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । अवक्तव्यविभक्ति और असंख्यातगुणहाणिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । अवस्थित-
 विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । असंख्यातगुणहाणि का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । क्रोध, मान और मायासंज्वलनकी असंख्यात-
 भागवृद्धि, असंख्यातभागहाणि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग अपत्याख्यान कषायके समान है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहाणिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसीप्रकार लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यात-
 गुणहाणि नहीं है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो

सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी० जह० उक० एगस० । जपुंस० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० वेखावट्टि-सागरो० तीट्टि पल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी० जह० उक० एगस० । पुरिस० असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणी० जह० उक० एगस० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तह समया । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । भय-दुगुंदा० असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तह समया ।

§ ३६४. आदेसेण गेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तेतीस सागरो० देसूणाणि । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तह समया । धारसक०-भय-दुगुंदा० असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तह समया । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्टी० जह० उक० अंतोमु० । हाणी० ज० एगस०, उक० तेतीस सागरोवमाणि । असंखे०गुणवट्टी०

छथासठ सागर है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । नपुंसक-वेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य अधिक दो छथामठ सागर है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भाग-प्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है ।

§ ३६४. आदेशसे नारकियोगे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । धारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यगिमिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त

जह० उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० अवत्त० जह० उक० एगस० । अर्णताणु०४
 असंखे०भागवट्टी० अवट्टि० मिच्छत्तभंगो । हाणी० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सा०
 देख्ठु० । संखे०भागवट्टी० संखे०गुणवट्टी० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०-
 भागो । असंखे०गुणवट्टी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी०
 अवत्त० ज० उक० एगस० । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०,
 उक० अंतोमु० । हाणी० ज० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरो० दंमूणाणि । पुरिस०
 असंखे०भागवट्टी० हाणी० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि०
 जह० एगसमओ, उक० सत्तह समया । चटुणोक० ओघं । एवं सत्तमु पुढवीसु ।
 णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरो० देख्ठुणाणि तम्हि सगट्टिदी देख्ठुणा । सत्तमपुढविवज्जासु
 मिच्छ०-अर्णताणु० सगट्टिदी ।

§ ३६५. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० अवट्टि०
 ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि ।
 बारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गळा० असंखे०भागवट्टी० हाणी० अवट्टि० ओघं । सम्म०-
 सम्मामि० असंखे०भागवट्टी० जह० उक० अंतोमु० । असंखे०भागहा० ज० एगस०,

है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितिविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेत्तीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सौवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेत्तीस सागर है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । चार नोकवायोका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सातो पृथिवियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर कुछ कम तेत्तीस सागर कहा है वहाँ पर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा सातवी पृथिवीको छोड़कर शेषमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३६५. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्जोमे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यमिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक

उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणवट्टी० जह० उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहा० अबत्त० ज० उक० एगस० । अणंताणु० असंखे०भागवट्टी० अवट्ठि० ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णिपलिदो० सादिरेयाणि । संखेज्जभागवट्टी० संखे०गुणवट्टी० ज० एगसमओ, उक० आवलि० असंखे०भागो० असंखे०गुणवट्टी० ज० एगस०, उक० आवलिया समयूणा । असंखे०गुणहा० अबत्त० ज० उक० एगस० । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णि पलिदोवमाणि । एवं णवुंस० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । णवरि जोणिणीमु इत्थि-णवुंस० असंखेभागहा० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि ।

§ ३६६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० सत्तह समया । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोमु०-पुपत्तं । असंखे०गुणहा० जह० उक० एगस० । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।

तीन पत्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहाणि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्त, नुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय कम आवलिप्रमाण है । असंख्यातगुणहाणि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहाणिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है ।

§ ३६६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पृथक्त्वप्रमाण है । असंख्यातगुणहाणिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका जघन्य काल

§ ३६७. मणुसगदि० मणुस० मिच्छ० असंखे० भागवट्टि० अबट्टि० ओघं । असंखे० भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे० गुणहाणी० ज० उक्क० एगस० । सम्म०-सम्मापि० असंखे० भागवट्टी० जह० उक्क० अंतोमुहुत्तं । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडि-पुधत्तेण० भहियाणि । असंखे० गुणवट्टी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणी० अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अणंताणु०४ असंखे० भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० हाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे० भागो० असंखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक्क० आवलिया समयूणा । असंखे० गुणहाणि-अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अट्ठक०-पुरिसवेद० असंखे० भागवट्टि हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० असंखे० गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० सत्तट्ठ समया । तिण्णिसंज० असंखे० भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणहाणी० जह० उक्क० एगसपओ । अवट्टि० ओघं । एवं लोहसंज० । णवरि असंखे० गुणहाणी

एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६७. मनुष्यगतिमे मनुष्योमे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यात-गुणहानि और अवकव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि है । असंख्यातगुणहानि और अवकव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आठ कपाय और पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । तीन संखलनोंकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार लोभसंखलनकी अपेक्षासे काल

णत्थि । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०-
भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादियेयाणि । असंखे०गुणहाणी०
जह० उक्क० एगस० । एवं णवुंस० । हस्स-नइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी०
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुद्धं असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह०
एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० सत्तह
समया । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणी णत्थि ।
मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थि-
णवुंस० असंखे०भागहाणी० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । मणुसअपज्ज० पंचिदिय-
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३६८. देवगदीए देवेसु भिच्छत्त० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०,
उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं
सागरोवमाणि । अवट्ठि० ओघं । सम्मत०-सम्मापि० असंखे०भागवट्टी० जह०
उक्क० अंतोमु० । असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । असंखे०-
गुणवट्टी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० उक्क० एगस० ।
अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-अवट्ठि० ओघं । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०,

जानना चाहिए । इनकी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभाग-
वृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । हास्य,
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्ताकी असंख्यातभागवृद्धि और
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण
है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है ।
मनुष्यपर्याप्तिकोमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदकी असंख्यातगुण-
हानि नहीं है । मनुष्यनिधोमे इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी
असंख्यातगुणहानि नहीं है । तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल
कुछ कम तीन पल्य है । मनुष्य अपर्याप्तिकोमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोके समान भङ्ग है ।

§ ३६८. देवगतिमे देवांमे भिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्भिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । असंख्यात-
गुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति-
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और
अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है

उक० तेतीस सागरोवमाणि । संखे०भागवट्टि०-संखे०गुणवट्टी० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । असंखे०गुणवट्टी० ज० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० उक० एगस० । अवट्टि० ओघं । बारसक०-पुरिसवेद० भय-दुगुंछ० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०-भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक० सत्तह समया । इत्थि०-णवुंस० असंखे०-भागवट्टी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तेतीस सागरोवमाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं भवणवासियादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि जत्थ तेतीस सागरो० तत्थ सगट्टिदी भाणियन्वा ।

§ ३६६. अणुदिसादि जाव सव्वट्टा ति मिच्छत्त० असंखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० जहण्णुकस्सट्टिदीओ । अणंताणु०४ असंखे०भागहाणी० जह० आवलिया दुसमयुणा, उक० सगट्टिदीओ । असंखे०गुणहाणी० जह० उक० एगम० । सम्म० असंखे०भागट्टा० जह० एगस०, उक० सगट्टिदीओ । सम्मामि० असंखे०भागहाणी० जह० जहण्णट्टिदी, उक० उकस्सट्टिदीओ । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०-

और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अगंख्यात-भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । हास्य, रति, अरति और शाककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार भवनवासी देवोमे लेकर उपरिम प्रबैयक तपके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर तेतीस सागर कहा है वहाँ पर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३६६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल दो समय कम एक आवलि है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति-प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-

भागवद्भि० हाणी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवद्दि० ओषं । इत्थि-णवुंस० असंखे०भागहाणी० जह० जहणणद्दिदी, उक्क० उक्कस्सद्दिदी । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवद्दी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं जाव अणाहारिं ति ।

§ ३७०. अंतराणुगमेण दुविहो णिद्दे सो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छत्त० असंखे०भागवद्दी० ज० एगस०, उक्क० वेद्धावद्दिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । अवद्दि० जह० एगस०, उक्क० असंखे० लोगा । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागवद्दी० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उवडुपोग्गलपरियट्ठं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० उवडुपोग्गलपरियट्ठं । असंखे०गुणवद्दि-हाणि-अवत्त० जह० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० उवडुपोग्गलपरियट्ठं । दोण्ह-मसंखे०गुणवद्दी० सम्मामि० असंखे०गुणहाणी० जह० अंतोमुहुत्तं । अणंतताणु०४ असंखे०भागवद्दि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्धावद्दिसागरो० सादिरेयाणि । अवद्दि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे०भागवद्दि-संखे०गुणवद्दि-

भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । अविद् और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अनाहारक मार्ग्या तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

§ ३७०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो क्षयासठ सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अव्यक्तविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । दोनोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो क्षयासठ सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

असंखे०गुणवट्टि--हाणि--अवत्त० जह० अंतोमु० उक्क० उवट्टुपोग्गलपरियट्टं ।
 अट्टकसा० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-
 भागो । असंखे०गुणहाणी० गत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा
 लोगा । एवं चट्टुसंजलणणं । णवरि असंखे०गुणहाणि-संखे०गुणवट्टी० गत्थि अंतरं ।
 लोहमंज० असंखे०गुणहाणी गत्थि । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क०
 वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।
 असंखे०गुणहाणी० गत्थि अंतरं । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०,
 उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० उवट्टुपोग्गलपरियट्टं ।
 असंखे०गुणहाणी० गत्थि अंतरं । णवुंस० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क०
 वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि तीहि पल्लिदो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० ज०
 एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० गत्थि अंतरं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं
 असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुंद्धा० असंखे०-
 भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज०
 एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । आठ कपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार चार संज्वलनोंकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरपत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । नृपुंसवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ३७१. आदेसेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवमवट्ठि० । असंखे०भागहाणी० जह० एयस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०-भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०४ असंखे०-भागवट्टी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे०भाग-वट्टी० संखे०गुणवट्टी० असंखे०गुणवट्टी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । बारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गंहा० असंखे०भागवट्टी० हा० ज० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तमु पुढवीमु । णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरोवमाणि तम्हि सगट्ठिदी देसूणा ।

§ ३७२. तिरिक्खवई० तिरिक्खा० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०,

§ ३७ . आदेशसे नारकियोंमे सिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका अन्तर-काल है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-भागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां पर कुछ कम तेतीस सागर कहा गया है वहां पर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३७२. तिर्यङ्गात्मिं तिर्यङ्गोमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक

उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो० । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभि० असंखे० भागवट्ठी० जह० पलिदो० असंखे० भागो०, उक० उवट्ठुपोगलपरियट्ठं । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक० उवट्ठुपोगलपरियट्ठा । असंखे० गुणवट्ठी० हा० अवत्त० ज० पलिदो० असंखे० भागो०, उक० उवट्ठुपोगलपरियट्ठं । अणंताणु०४ असंखे० भागवट्ठी० हा० ज० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । हाणीए देसूणा । संखेज्जभागवट्ठी० संखे० गुणवट्ठी० असंखे० गुणवट्ठी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमुहुत्तं, उक० उवट्ठुपोगल० । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । बारसक०-भय-दुगुत्था० असंखे० भागवट्ठी० हाणी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो० । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० ओषं । इत्थि० असंखे० भागवट्ठी० ज० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । णवुंस० असंखे० भागवट्ठी० ज० एगस०, उक० पुव्वकोटी देसूणा । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवट्ठी० हाणी० ज० एगस०,

समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व की असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ; अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषवन्दकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल आंधके समान है । स्त्रीवन्दकी असंख्यात-भागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवन्दकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक

उक्क० अंतोमु० ।

§ ३७३. पंचिदियतिरिक्ख३ मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० ज० एगस०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगम०, उक्क० सगहिदी देसूणा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागवड्डी० असंखे०गुणवड्डी० हाणी० अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० पुव्वकोटिपुधत्तेण०भहियाणि । एवमसंखे०भागहाणी० । णवरि जह० एगस० । अणंताणु०४ असंखे०भागवड्डी० हा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । हाणी० देसूणा । अवट्ठि० मिच्छत्तभंगो । संखे०भागवड्डी० संखे०गुणवड्डी० असंखे०गुणवड्डी० हा० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० पुव्वकोटिपुधत्तेण०भहियाणि । बारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुं० असंखे०भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० सगहिदी देसूणा । इत्थि० असंखे०भागवड्डी० जह० एगम०, उक्क० तिण्णिपल्लिदो० देसूणाणि । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० । णवुंस० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० पुव्वकोटी देसूणा । असंखे०-

समय हं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं ।

§ ३७३. पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्त्वविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । इसी प्रकार असंख्यातभागहानिका अन्तर काल जानना चाहिए । इतनी विशंपता हैं कि इसका जघन्य अन्तर एक समय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान हैं । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्त्वविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण हैं । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय

भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।

§ ३७४. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुग्घा० असंखे०-भागवट्टी० हाणी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक० अंतोमुहुत्तं । सम्मत्त-सम्माभि० असंखे०भागहा० जह० उक० एगस० । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । सत्तणोक्क० असंखेज्जभागवट्टी० हा० ज० एगस०, उक० अंतोमु० ।

§ ३७५. मणुसगदि० मणुस० पंचि०तिरिक्खभंगो । णवरि मिच्छ०-एकारस०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी० चदुसंजल० असंखे०गुणवट्टी० णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्माभि० असंखे०गुणवट्टी० सम्माभि० असंखे०गुणहा० जह० अंतोमु० । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थि० असंखे०गुणहाणी णत्थि । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी णत्थि । मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिक्ख०अपज्जत्तभंगो ।

§ ३७६. देवगदि० देवा० मिच्छ० असंखे०भागवट्टी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक० एकतीसं सागरो० देस्सणाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० पत्तिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागवट्टी० असंखे०गुणवट्टी०

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिध्यात्व, ग्यारह कपाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि और चार संज्वलनोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यपर्याप्तकोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

§ ३७६. देवगतिमें देवोंमें मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व

हा० अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०, भागहा० ज० एगस०, उक्क० दो वि एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टी० हाणी० अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे०भागवट्टी० संखे०गुणवट्टी० असंखे०गुणवट्टी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्टी० हा० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि-णवुंस० असंखे०भागवट्टी० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं भवणादि जाव उवरिम-गेवज्जा ति । णवरि जम्हि एकत्तीसं जम्हि य तेत्तीसं तम्हि सगहिदीओ भाणिदवाओ ।

§ ३७७. अणुदिसादि जाव सब्बहा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-णवुंस० असंखे०भागहाणी० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ असंखे०भागहा० ज० उक्क० एगसमओ, बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्टि-हा० ज० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगसमओ, उक्क० सगहिदी देसूणा ।

और सम्यग्निध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तर दोनो ही कुछ कम इकतीस सागर हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर हैं । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर हैं । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं । इसी प्रकार भवन-वासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विरोधता है कि जहां पर इकतीस सागर और जहां पर तेतीस सागर कहा है वहां वर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३७७. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्निध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और

हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोसुहुं । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३७८. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छ० असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्टि० णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहा०विहत्तिया च । एवमहकसाय० । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भजियव्वाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्टि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भजियव्वाणि । चट्टुसंज० एवं चेव । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवट्टि-हा० णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहा०विहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०-गुणहाणिविहत्तिया च । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । भय-दुगुंहा० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णियमा अत्थि ।

§ ३७९. आदेसेण णेरइय० मिच्छत्त--वारसक०--पुरिस०--भय--दुगुंहा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टिओ च । सिया एदे च

उत्कृष्ट अन्तर कुञ्ज कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात भागवट्टि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ३७८. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । आषसे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । इसी प्रकार आठ कर्पायोंकी अपेक्षा भङ्ग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागदानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । चार संवत्सरोकी अपेक्षा इसी प्रकार भङ्ग है । खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाले अनेक जीव हैं । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं ।

§ ३७८. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और

अवद्विदा च । सम्म०-सम्पामि० असंखे०भागहाणि० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । इत्थि०-णवुंस०--हस्स-रइ--अरइ--सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । षवं सञ्चखोरइय० पंचिदियतिरिक्ख०३ देवगदीए देवा भवणादि जाव उवरिमगेवजा ति ।

§ ३८०. तिरिक्खवगई० तिरिक्खा० मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंढा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि-अवद्विदा गियमा अत्थि । सम्म०-सम्पामि असंखे०भागहा० गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवद्वि० गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । इत्थि-णवुंस०-चदुणोक० असंखे०भागवट्टि-हा० गियमा अत्थि । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सिया एदे च अवद्वि-विहत्तिओ च । सिया एदे च अवद्विदविहत्तिया च ।

§ ३८१. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंढा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सिया एदे च अवद्विदविहत्तिओ च । सिया एदे च अवद्विदविहत्तिया च । सम्पत्त-सम्पामि० असंखे०भागहा० गियमा अत्थि । सिया

अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । इन्दीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चविक्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिग प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३८०. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें मिध्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं ।

§ ३८१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये

एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि ।

§ ३८२. मणुसगदी० मणुसा० मिच्छ०--सोलसक०--पुरिस०--भय-दुगुंछ० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सम्पत्त०-सम्पामि० असंखे०भागहा० गियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । इत्थि०--णवुंस० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणिविहत्तिया । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । हस्स-रइ--अरइ--सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । एवं चेव मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसअपज्ज० अट्टावीसं पयटीणं सव्वपदा भयणिज्जा ।

§ ३८३. अणुहिसादि जाव सव्वट्टा त्ति बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टिद्विहत्तिओ च । सिया एदे च अवट्टिद्विहत्तिया च । मिच्छत्त--सम्म०--सम्पामि०--इत्थि०--णवुंस० असंखे०भागहा० गियमा अत्थि । अणताणु०५ असंखे०भागहा० गियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च ।

जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाले नाना जीव हैं । सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं ।

§ ३८२. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । मनुष्यपर्याप्तकोमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इसीप्रकार मनुष्यनियोगमें भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं ।

§ ३८३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-

च । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हा०विह० गियमा अत्थि । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

१ ३८४. भागाभागानु० दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० असंखे०गुणहाणिविह० सव्वजी० केवडिओ भागो ? अणंतभागो । अवट्टि०विह० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । एवमट्टकसाय० । सम्म०--सम्मापि० असंखे०भागवट्टि--असंखे०गुणवट्टि--हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अणंताणु०४ संखे०भागवट्टि--संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अवट्टि० असंखे०-भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो ; असंखे०भागवट्टि० सव्वजीवा केव० ? संखेज्जा भागा । चदुसंजल० संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणहा० सव्वजी० के० ? अणंतभागो । अवट्टि० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० केव० ? संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० के० ? संखेज्जा भागा । णवरि लोभसंज० असंखे०गुणहाणि० भागवट्टि और असंख्यातभागहानिविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । इसप्रकार अनाहारकमार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

१ ३८४. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे भिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग-प्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार आठ कथायोंकी अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्भिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । चार संज्वलनोंकी संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है

णत्थि । इत्थिण्वुंस० असंखे०गुणहा० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । असंखे०
भागवट्टि० संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेज्जा भागा । णवरि ण्वुंस०
असंखे०भागवट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । पुरिस० असंखे०गुणहा०-संखे०-
गुणवट्टि-अवट्टि० अणंतभागो । असंखे०भागवट्टि० संखे०भागो । असंखे०भागहा०
संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सो० असंखे०भागवट्टि० संखे०भागो । असंखे०-
भागहा० संखेज्जा भागा । अरदि-सोग० असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०-
भागवट्टि० संखेज्जा भागा । भय-दुगुंझा० अवट्टि० असंखे०भागो । असंखे०भागहा०
संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा ।

§ ३८५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० अवट्टि०
सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० के० ? संखे०भागो । असंखे०-
भागवट्टि० संखेज्जा भागा । णवरि पुरिस० वट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो ।
सम्मत्त-सम्मापि० असंखे०भागहा० सव्वजी० केव० ? अमंखेज्जा भागा । सेसपदा
असंखे०भागो । अणंताणु०४ अवट्टि० संखे०भागवट्टि०-संखे०गुणवट्टि०-असंखे०गुणवट्टि-
हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो ।

कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि-
वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवे भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले
जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी
विशेषता है कि नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका विपर्यास करना
चाहिए। पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि, संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविभक्तियाँ जीव
अनन्तवे भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यात-
भागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-
भागवृद्धिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण
हैं। अरति और शोककी असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यात-
भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव
असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यात-
भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं।

§ ३८५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं।
असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवे भागप्रमाण हैं ?
असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी
वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-
भागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष
पदवाले जीव असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यात-
भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवसंख्यातविभक्तिवाले
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं। असंख्यातभागहानिवाले

असंखे० भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०-
भागवट्टि० कंब० ? संखे० भागो । असंखे० भागहा० सव्वजी० संखेज्जा भागा ।
णवरि णवुंस अरइ-सोगाणं विवरियं कायव्वं । एवं सव्वणेरइयं पंचि० तिरिक्ख० ३
देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि आणदादिस्स पुरिस-णवुंस०-
मिच्छत्त०-अणंताणु० ४ असंखे० भागवट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो ।

§ ३८६. तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुंछ० अवट्टि०
सव्वजी० असंखे० भागो । असंखे० भागहाणि० संखे० भागो । असंखे० भागवट्टि०
संखेज्जा भागा । सम्म०-सम्पामि० असंखे० भागहा० असंखेज्जा भागा । सेसपदा
असंखे० भागो । अणंताणु० ४ संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणवट्टि-हाणि-
अवत्त० अणंतभागो । अवट्टि० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० संखे०-
भागो । असंखे० भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगा०
णेरइयभंगो । पुरिस० अवट्टि० सव्वजी० कंब० ? अणंतभागो । असंखे० भागवट्टि०
संखे० भागो । असंखे० भागहाणि० संखेज्जा भागा ।

§ ३८७. पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दुगुंछा० अवट्टि०

जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अपरिप्रातभागवृद्धिवाले जीव सब जीवोंके
कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव सब जीवोंके
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद, अरति और शोकका विपरीत
करना चाहिए । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चन्द्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियो
में लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें
पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-
भागहानिका विपर्यास करना चाहिए ।

§ ३८६. तिर्यञ्चगतिसे तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थित-
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव
संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि,
असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं ।
अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद,
हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग नारकियोंके समान है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।

§ ३८७. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी

सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । सम्म०-सम्मापि० असंखे०गुणहा० असंखे०भागो । असंखे०-भागहा० असंखेज्जा भागा । सत्तणोक० णेरइयभंगो । णवरि पुरिस० अबट्टि० णत्थि । एवं मणुसअपज्ज० ।

॥ ३८८. मणुसगई० मणुसा० मिच्छ०-अट्टक० असंखे०गुणहा०-अवट्टि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखे०भागा । सम्म०-सम्मापि० असंखे०गुणवट्टि-हाणि-असंखे०भागवट्टि-अवत्त० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा । अणताणु०४ अबट्टि०-संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि--असंखे०गुणवट्टि--हाणि--अवत्त० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । तिहिंसंज० अबट्टि० संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणहाणि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखे०भागा । लोहसंजळ० संखे०गुणवट्टि०-अवट्टि० सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थिणवुंस० असंखे०गुणहा० सव्वजी०

अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मान नोकपायोका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी धियेपता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । इन्प्रकार मनुष्य अपरात्रकोंमें जानना चाहिए ।

॥ ३८८. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिध्यात्व और आठ कपायोंकी असंख्यातगुणहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि असंख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धाचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तीन संज्वलनोंकी अवस्थितविभक्ति, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण है ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । लोभमंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवे भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । ऋग्वेद और नपुंसकवेद-

असंखे०भागो । असंखे०भागवट्टि-हाणीणं णेरइयभंगो । पुरिसवेद० संखे०गुणवट्टि-
अवट्टि-असंखे०गुणहाणि० असंखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखे०भागो ।
असंखे०भागहा० संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०भागवट्टि-हाणि०
ओघं । भय-दुगुंछा० अवट्टि० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो ।
असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि जम्हि असंखे०
भागो तम्हि संखे०भागो । इत्थिवेद० हस्सभंगो । एवं मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-
णवुंस० असंखे०गुणहा० णत्थि ।

§ ३८६. अणुदिसादि जाव सव्वहा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-
णवुंस० णत्थि भागाभागो । अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणि० असंखे०भागो ।
असंखे०भागहाणि० असंखे०भागा । सव्वहे णवरि संखे०भागो संखेज्जा भागा ।
वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अवट्टि० सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहा०
संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । सव्वहे संखेज्जं कायव्वं । हस्स-
रइ-अरइ-सोगाणं देवोघं । एवं जाव अणाहारि ति ।

की असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि
और असंख्यातभागहानिका भङ्ग नारकियोंके समान है । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धि, अवस्थित-
विभक्ति और असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण है । हास्य,
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका भङ्ग ओघके समान
है । भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात-
भागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभाग-
प्रमाण हैं । मनुष्य पर्याप्तकोमें इसीप्रकार भागाभाग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं वहाँ पर संख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिए । तथा स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके
समान है । इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और
नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ३८६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भागाभाग नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें क्रमसे संख्यातवें भाग और संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
बाह् कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धि-
वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मात्र सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना
चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसप्रकार अनाहारक
मार्गीणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ३६०. परिमाणानु० दुविहो गिहोसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छ०-वारसक०-भय-दुग्ध्वा० अवट्टि० असंखे०-भागवट्टि-हाणिविह० केत्ति० ? अणंता । असंखे०-गुणहाणि० चउसंज० संखे०-गुणवट्टि० संखेज्जा । णवरि लोभसंज०-भय-दुग्ध्वा० असंखे०-गुणहाणि० णत्थि । सम्म०-सम्माभि० सव्वपदवि० असंखेज्जा । अणंताणु०४ अवट्टि०-असंखे०-भागवट्टि-हाणि० के० ? अणंता । सेसपदा० असंखेज्जा । इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० असंखे०-भागवट्टि-हाणि० केत्ति० ? अणंता । पुरिस० अवट्टि० असंखेज्जा । सव्वेसिमसंखे०-गुणहाणि० पुरिस० संखे०-गुणवट्टि० संखेज्जा । इस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि० केत्ति० ? अणंता । एवं तिरिक्खा० । णवरि सेट्ठिपदाणि मोत्तण वत्तव्वं ।

§ ३६१. आदेसेण णेरइय० अट्ठावीसं पयडीणं सव्वपदा० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय० सव्वपंचिदियतिरिक्ख० देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिणगेवज्जा त्ति । मणुसगदीए एवं चेव । णवरि सेट्ठिपदा मिच्छ० असंखे०-गुणहाणि० अणंताणु० पंचपदा संखेज्जा । पंचि०तिरिक्ख०अप० २८ पयडीणं सव्वपदा असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु जाणि पदाणि अत्थि ताणि संखेज्जा । मणुसअपज्ज० २८ पय० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । अणुहिंसादि जाव

§ ३६०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आय और आदेश । आंधसे मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थित, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । असंख्यातगुणहानिवाले और चार संज्वलनोंकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलन, भय और जुगुप्साकी असंख्यातगुणहानि नहीं हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सब पदविभक्ति-वाले जीव असंख्यात हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शप पदवाले जीव असंख्यात हैं । खंवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । सबकी असंख्यातगुणहानि-वाले और पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । हास्य, रति, अरति और शाककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रेणिसम्बन्धी पदोंको छोड़कर कथन करना चाहिए ।

§ ३६१. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, देवगतिमें देव और भवनवासियों से लेकर उपरिम श्रैब्यक तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यगतिमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पदवाले, मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि-वाले और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके पाँच पदवाले जीव संख्यात हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्यातोंमें जो पदवाले हैं वे संख्यात हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने

अबराइदा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस० असंखे० भागहा० अणंताणु०४
असंखे० भागहा०-असंखे० गुणहा० वारसक-पुरिस०-भय-दुग्घा० असंखे० भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० चदुणोक० असंखे० भागवट्टि-हा० केत्तिया ? असंखेज्जा । सव्वट्ट०
सव्वपय० सव्वपदा संखेज्जा । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ३६२, खेत्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
अट्टक०-भय-दुग्घा० असंखे० भागवट्टि-हा०-अवट्टि० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । भय-
दुग्घवज्ज० असंखे० गुणहाणि० के० खेत्ते ? लोग० असंखे० भागे । सम्म०-सम्मामि०
सव्वपदा० लोग० असंखे० भागे । अणंताणु०४ मिच्छत्तभंगो । णवरि संखे० भागवट्टि-
संखे० गुणवट्टि--असंखे० गुणवट्टि--हाणि-अवत्त० लोग० असंखे० भागे । चदुसंज०
असंखे० भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । संखे० गुणवट्टि० लोभसंजलणं
वज्ज० असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागे । इत्थि०-णवुंस० असंखे० भागवट्टि-
हाणि० सव्वलोगे । असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागे । एवं पुरिस० । णवरि
अवट्टि०-असंखे० गुणवट्टि० लोग० असंखे० भागे । चदुणोक० असंखे० भागवट्टि-

हैं ? असंख्यात हैं । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व,
सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी
असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले तथा चार नोकषायोंकी
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । स्वार्थसिद्धि-
में सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गैया तक
जानना चाहिए ।

इसीप्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

§ ३९२. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिध्यात्व, आठ कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । भय और जुगुप्साको छोड़कर
असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके सब पदवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है ।
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धि,
संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवकष्यविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । संख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंका
और लोभसंज्वलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण क्षेत्र है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले
जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति
और असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार नोकषायोंकी

हाणि० सव्वलोगे । एवं तिरिक्खा० । एवरि सेदिपदा मिच्छ० असंखे०गुणहाणि० च एत्थि ।

§ ३६३. आदेसेण एरइय २८ पय० सव्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं सव्वणेरइय० । सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्स० सव्वपदा ति जासिं जाणि पदाणि संबंति तासिं लोग० असंखे०भागे । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३६४. पोसणाणुगमेण दुविहो णिहो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्टक० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० केव० खेतं पोसिदं? सव्वलोगो । असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइस० । असंखे०भागहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु०४ मिच्छत्तभंगो । एवरि संखेज्जभागवट्टि-संखे०-गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्टचो० देसूणा । चदुसंजल० संखे०गुणवट्टि० लोभं वज्ज असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थिणवुंस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो । असंखे०गुण-

असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसीप्रकार तिर्यञ्चों में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद और मिध्यात्वकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है ।

§ ३६३. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । सब पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें सब पदोंमेंसे जिन प्रकृतियोंके जो पद सम्भव हैं उनका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गाणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

§ ३६४. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व और आठ कषायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सत्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सयं लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार संज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले और लोभसंज्वलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग मिध्यात्वके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि

हाणि० लोग० असंखे०भागो । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हा० सव्वलोगो । अवट्टि०
लोग० असंखे०भागो अट्टचोइस० । असंखे०गुणहाणि-संखे०गुणवट्टि० लोग० असंखे०-
भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो । भय-दुगुंढा०
असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वलोगो ।

§ ३६५. आदेसेण णेरइय० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो इचोइस० । सम्म०-सम्मापि० असंखे०-
भागहाणि-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो इचोइस० । सेसपदा० खेत्तं ।
अणंताणु०४ संखे०भागवट्टि--संखे०गुणवट्टि--असंखे०गुणवट्टि--असंखे०गुणहाणि-
अवत्त० खेत्तभंगो । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे०भागो
इचोइस० । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे०भागो इचोइस० ।
अवट्टि० लोग० असंखे०भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि०
लोग० असंखे०भागो इचोइस० । पट्टमाप खेत्तभंगो । विदियादि जाव सत्तमा ति

और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यात-
गुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी
असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम
आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातगुणहानि और संख्यात-
गुणवृद्धिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य, रति,
अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और
अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ३६५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग
और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदोका
भङ्ग क्षेत्रके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाल जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है । स्त्रीवेद
और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग
और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थित-
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । हास्य, रति,
अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर सातवीं तककी पृथिवियोंमें सामान्य

गिरओयं । णवरि सगपोसणं ।

§ ३६६. तिरिक्खा० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझ० असंखे०भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० सव्वलोगो । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहाणि-असंखे०गुणहाणि०
लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सेसपदा० लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४
संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो ।
पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो ।
इत्थि०-णवुंस०हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो ।

§ ३६७. पंचिदियतिरिक्खा३ मिच्छत्त-बारसक०भय-दुगुंझा० असंखे०भागवट्टि-
हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०-
भागहा०-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सेसपदवि०
लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०
भागो सव्वलोगो वा । संखे०भागवट्टि०-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त०
लोग० असंखे०भागो । । इत्थि० असंखे०भागवट्टि० लोग० असंखे०भागो दिवट्ट-

नारकियोके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता हैं अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए ।

§ ३६६. तिर्यञ्चोमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी असंख्यातभाग-वृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद हास्य, रति, अरति और शाककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ३६७. पञ्चंन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिध्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात-भागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी असंख्यात-

चोपस० । असंखे० भागहा० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा । डुरिस० असंखे० भागवट्टि० लोग० असंखे० भागो छचोइस० । असंखे० भागहाणि० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा । अवट्टि० तिरिक्खोषं । णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा ।

§ ३६८. पंचिंदिय-तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय--दुगुंद्धा० असंखे० भागवट्टि-हा०--अवट्टि० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागहाणि-असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा । इत्थि०-पुरिस० असंखे० भागवट्टि० लोग० असंखे० भागो । दोण्हमसंखे० भाग-हाणि० णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-मोगाणं असंखे० भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे० भागो सब्वलोगो वा । मणुसगईए मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि जम्हि वज्जो तम्हि लोग० असंखे० भागो । सेट्ठिपदा० लोग० असंखे० भागो । मणुमअपज्ज० पंचि० तिरि० अपज्जत्तभंगो ।

§ ३६९. देवगईए देवंसु मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंद्धा० असंखे० भागवट्टि-

भागवट्टिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवट्टिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितविभक्तिवाले जीवोका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोके समान है। नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ३६८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-भागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवट्टिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दोनोंकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने तथा नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानि-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति में मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्याप्त पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है। इनती विशेषता है कि जहाँ पर वर्जनीय है वहाँ पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन है। तथा श्रेणिसम्बन्धी पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्य अपर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है।

§ ३६९. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-

हाणि-अवट्टि० लो० असंखे० भागो अद्-णवचोदसभागा वा देखूणा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागहाणि-असंखे० गुणहाणि० लो० असंखे० भागो अद्-णवचोद० । सेस-पदा० लो० असंखे० भागो अद्चोद० । अणताणु० ४ असंखे० भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लो० असंखे० भागो अद्-णवचोद० । संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लो० असंखे० भागो अद्चोद० । इत्थि० असंखे०-भागवट्टि० पुरिस० असंखेण भागवट्टि-अवट्टि० लो० असंखे० भागो अद्चोद० देखूणा । दोण्हमसंखे० भागहा० चटुणोक० असंखे० भागवट्टि-हाणि० लो० असंखे०-भागो अद्-णवचोद० । एवं सोहम्म० । भवण०-त्राण०-जोदिसि० एवं चेव । णवरिसगरज्जू । सणक्कुमारादि जाव सहससारे त्ति आणदादि जाव अच्चुदा त्ति सग-पोसणं । उवरि खेतभंगो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ४००. कालानुगमेण दूविहो णिहो सो—ओषेण आदेशेण य । ओषेण मिच्छ०-अद्दक० असंखे० भागवट्टि० हाणि-अवट्टि० सव्वद्द । असंखे० गुणहाणि० जह० भागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जावोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । जेप पदविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ वः चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुवर्धात्तुष्ककी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जावोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवदकी असंख्यातभागवट्टि तथा पुरुषवदकी असंख्यातभागवट्टि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दानोकी असंख्यातभागहानि तथा चार नोकषायोकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पमें स्पर्शन है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें स्पर्शन इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजु कहने चाहिए । सन्तुमार-से लेकर सहस्रार कल्पतक और आनतसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए । आगेके देवोंमें स्पर्शनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

§ ४००. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंच और आदेश । ओषसे मिध्यात्व और आठ कणयोकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका

एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समयया । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागवट्टि-असंखे०-
 गुणवट्टि० जह० अंतोद्यु०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असं०भागहाणि०
 सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
 अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वद्धा । संखेज्जभागवट्टि-संखे०-
 गुणवट्टि-असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
 असंखे०गुणवट्टि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । चटुसंजळ०
 असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वद्धा । संखे०गुणवट्टि० लोभसंज० वज्ज०
 असंखे०गुणहा० ज० एगस०, उक्क० संखेज्जा समयया । इत्थि-णवुंस० असंखे०भाग-
 वट्टि-हाणि० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० संखे० समयया ।
 पुरिस० असं०भागवट्टि-हा० सव्वद्धा । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० आवलि०
 असं० । अमं०गुणहा०-संखे०गुणवट्टि० ज० एगस०, उक्क० संखे० समयया । हस्स-रइ-
 अग्इ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । भय०-दु० असं०भागवट्टि-हा०-
 अवट्टि० सव्वद्धा ।

§ ४०१. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० असंखे०-

काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात-भागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिके जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। चार संज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है। संख्यात-गुणवृद्धिका तथा लोभसंज्वलनको छोड़कर असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-भागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है।

§ ४०१. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, धारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी

भागवद्दि-हाणि० सव्वद्धा । अवद्दि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० आव० असंखे०भागो । असंखे०भागवद्दि-असंखे०गुणवद्दि० जह० अंतोमु०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अणताणु०४ असंखे०भागवद्दि०-हाणि० सव्वद्धा । संखे०भागवद्दि०-संखे०गुणवद्दि०-असंखे०गुणहाणि-अवद्दि०-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । असंखे०गुणवद्दि० ज० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवद्दि-हाणि० सव्वद्धा । एवं सत्तमु पुढवीसु ।

§ ४०२. तिरिक्खग्दी० तिरिक्खा० ओघं । णवरि सेट्ठिपदाणि भोत्तूण । पंचिदियतिरिक्खत्तिप णारयभंगो । पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्चत्त०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवद्दि-हाणि० सव्वद्धा । अवद्दि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० आव० असं०भागो । सत्तणोक० असंखे०भागवद्दि-हाणि० सव्वद्धा ।

असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल अन्तमुद्धृत है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शाककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सातों श्रुतिधियोमं जानना चाहिए ।

§ ४०२. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि भ्रेणि-सम्बन्धी पदोंको छोड़कर कहना चाहिए । पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकमें नारकियोंके समान भङ्ग है । पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व की असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है ।

§ ४०३. मणुसाणं पंचिदियतिरिक्त्वभंगो । णवरि सम्म०-सम्माभि० असंखे०-
भागवट्टि-असंखे०गुणवट्टि० जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं । अणंताणु०४ असंखे०गुणवट्टि०
ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० । जण्हमवत्त० अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणि० पुरिस०
अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । ख्वगपदानमोघं । मणुसपज्जत्त-
मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि सम्म०-सम्माभि० असंखे०गुणहाणि० धुवबंधीणमवट्टि०
जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । मणुसपज्ज० इत्थि० असंखे०गुणहाणि०
णत्थि । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि ।

§ ४०४. मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सालमक०-भय-दुग्घा० असंखे०भागवट्टि-
हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क०
आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहाणि० जह० एगस०,
उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि०
असंखे०भागो । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो०
असंखे०भागो ।

§ ४०५. देवगई० देवा० भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति णारयभंगो ।
अणुदिसादि जाव सच्चट्टा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्माभि०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०-

§ ४०३. मनुष्यांमे पञ्चन्द्रियतिरिक्त्वाके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व
और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । छहकी अवस्तव्यविभक्तिका, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-
गुणहानिका और पुरुषवदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । तृपक पदोंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें
इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका
तथा ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें स्त्रीवदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियोंमें
पुरुषवद और नपुंसकवदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ४०४. मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात-
गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।
सप्त नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४०५. देवगतिमे देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रौषेयक तकके देवोंमें
नारकियोंके समान भङ्ग है । अनुदिरासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व,

भागहाणि० सव्वद्धा । एवमणंताणु०४ । णवरि असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंद्धा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । णवरि सव्वट्टे जम्हि आवलि० असंखेज्जो भागो तम्हि संखेज्जा समया । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ४०६. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्टक० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । असंखे०गुणहा० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णत्थि अंतरं । असंखे०भागवट्टि--असंखे०गुणवट्टि--हाणि--अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीस-महोरत्ते सादि० । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि--हाणि--अवट्टि० णत्थि अंतरं । संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । चहुंसजल० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । संखेज्जगुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । णवरि

सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और न्युंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात-गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शांककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ सर्वार्थसिद्धिमे संख्यात समय काल है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इसप्रकार काल समाप्त हुआ ।

§ ४०६. अंतराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व और आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। चार संखलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है

लोभसंज्ञ० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । पुरिस० अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोमा । संखे०गुणवट्ठि-असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि एणुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० एत्थि अंतरं । असंखे०-गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । एवं तिरिक्खा० । एवरि सेट्ठिपदा एत्थि दंसणमोहक्खवणा च ।

§ ४०७. आदेसेण गेरइय० मिच्छ०--बारसक०--पुरिस०--भय--दुगुंढा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोमा । सम्मत-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखे०भागवट्ठि०-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । अणताणु०४ असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोमा । संखे०भागवट्ठि-संखेज्जगुणवट्ठि--असंखे०गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । इत्थि--णुंस०--हस्स-रइ-अरइ--सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । एवं सब्वणेरइय० पंचिंदियतिरिक्खतिय०

और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। गेप भङ्ग मिध्यात्वके समान है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार तिर्यञ्चोभं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद तथा दर्शनमाहनीयकी क्षणता नहीं है।

§ ४०७. आदेशसे नारकियोमे मिध्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका अन्तर काल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय

देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति ।

§ ४०८. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंदा० असंखे०-भागवट्टि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवट्टि० ज० एगसमओ, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखेज्जगुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णत्थि अंतरं ।

§ ४०९. मणुसगई० मणुसा० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सेट्ठिपदाणमोघं । मणुसपज्जता० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । णवरि जम्हि इम्मसा तम्हि वासपुधत्तं । मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंदा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि०-असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो ।

तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवमें जानना चाहिए ।

§ ४०८ पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकामे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चावास दिन-रात है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४०९. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि श्रृंगिस्मन्वर्था पदोंका भङ्ग आंधके समान है । मनुष्यपर्याप्तकामे इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियामे इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इतनी और विशेषता है कि जहाँ पर छह महीना अन्तर काल कहा है वहाँ पर वर्षपृथक्त्व कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकामे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४१०. अनुदिशादि जाव सव्वहा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्माभि०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ असंखेज्जभागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखे०गुणहाणि० जइ० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । सव्वहे पल्लिहो० संखे०भागो । बारसक०--पुरिसवे०--भय--दुगुंळ० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । हस्स-रइ--अरइ--सोगायां असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ४११. भावानुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अट्ठावीसं पयडीणं सव्वपदा दि को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ४१२. अर्पावहुआणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त-अट्ठक० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । सम्मत--सम्माभि० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखेज्जगुणवट्ठि० असंखे०-गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।

§ ४१०. अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवामे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । अनन्तानुबन्धांचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षग्रहवत्प्रमाण है । मात्र सर्वार्थसिद्धिमे पत्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ४११. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदोका कौन भाव है ? औदयिक भाव है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भाव समाप्त हुआ ।

§ ४१२. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । आघसे मिध्यात्व और आठ कपायोकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव

अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०-
 भागवट्टि० असंखे०गुणा । संखे०गुणवट्टि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवट्टि० असंखे०-
 गुणा । अवट्टि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि०
 संखेज्जगुणा । तिण्हं संजलणाणं सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्टि० । असंखे०गुणहाणि०
 तत्तिया चेव । अवट्टि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्टि० संखे०गुणा । लोभसंजलणाए सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्टि० । अवट्टि०
 अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा ।
 इत्थि० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०भागवट्टि० अणंतगुणा । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्टि० । असंखे०गुणहाणि०
 तत्तिया चेव । अवट्टि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० अणंतगुणा । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । णवुंस० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०-
 भागहाणि० अणंतगुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । एवमरदि-सोगा० । णवरि
 असंखे०गुणहाणि० णत्थि । हस्स-रइ० सव्वत्थोवा असंखे०भागवट्टि० । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । भय-दुग्घा० सव्वत्थोवा अवट्टि० । असंखे०भागहा०

संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले
 जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव
 असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीन संज्वलनोंकी
 संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उनसे ही हैं । उनसे
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । लोभसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले
 जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यात-
 भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
 खंविंदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव
 अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धि-
 वाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उनसे ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्ति-
 वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे
 असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव
 सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभाग-
 वृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अरति और शोककी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी
 विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । हास्य और रतिकी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव
 सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । भय और जुगुप्साकी
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे

असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा ।

§ ४१३. आदेशेण णेरइय० मिच्छत्त-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० सव्व-
त्थोवा अवट्टि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०-
गुणा । णवरि पुरिस० वट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । सम्मत्त-सम्मापि०
सव्वत्थोवा असंखे०गुणाहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखे०गुणवट्टि० असंखे०-
गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।
अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०गुणाहाणि० असंखे०गुणा । संखे०-
भागवट्टि० असंखे०गुणा । संखे०गुणवट्टि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवट्टि० असंखे०-
गुणा । अवट्टि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
भागवट्टि० संखेज्जगुणा । इत्थि-णवुंस०-चदुणोक० ओघं । णवरि इत्थि०-णवुंस०
असंखे०गुणाहाणि० णरिथि । एवं सत्तमु पुट्टवीसु पंचिदियतिरिख्ख०३ देवा भवणादि
जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि आणदादिमु पुरिस० भयभंगो । णवुंसय० इत्थि०-
भंगो । मिच्छ०-अणंताणु०४ वट्टि-हाणीणं विवज्जासो च कायव्वो ।

हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४१३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-गुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित-विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इसी प्रकार सातों वृथिवियोंमें तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें पुरुषवेदका भङ्ग भयके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । तथा मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य नारकी आदिमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है सो जहाँ पर ओघमें अनन्तगुणा कहा है वहाँ पर इन मार्गणाओंमें असंख्यातगुणा करना चाहिए । ये सब मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली होनेसे मूलमें इस विशेषताका खुलासा नहीं किया है ।

§ ४१४. तिरिक्खवर्द्धे० तिरिक्खा० मिच्छत्त-वारसक० भय-दुग्धुद्धा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । एवं पुरिस० । णवरि असंखे० भागवट्ठि० अणंतगुणा । सम्मत-सम्मामि०-अणंताणु० ४ ओघं । इत्थि०-णत्तुंस०-चट्ठुणोको० णारयभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्धुद्धा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । सम्मत-सम्मामि० सव्वत्थोवा असंखे० गुणहाणि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । सत्तणोक्साय० णारयभंगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ४१५. मणुसगई० मणुस्ता० मिच्छ०-अट्ठकसा० सव्वत्थोवा अ० संखे-गुणहाणि० । अवट्ठि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे०-भागवट्ठि० संखे० गुणा । सम्मत-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० गुणहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । अणंताणुवंधिचउक्क० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणहाणि० संखे० गुणा । संखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । संखे० गुणवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० गुणवट्ठि० संखे० ज्जगुणा । अवट्ठि० असंखे० गुणा । असंखे०-

§ ४१४. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमें मिध्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अत्पवदुत्व है। इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव अनन्तगुणे हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग आंधके समान है। श्राविव, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। सात नोकपायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थितपद नहीं है।

§ ४१५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिध्यात्व और आठ कपायोंकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यात-भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं। उनसे असंख्यात गुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोत्र हैं। उनसे असंख्यात-गुणहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । तिण्हं संजळणं
 सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्टि० । असंखे०गुणहाणि० तत्तिया चेव । अवट्टि० असंखे०-
 गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । लोभ-
 संजल० सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्टि० । अवट्टि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि०
 असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्टि० संखे०गुणा । इत्थि० सव्वत्थोवा असंखे०-
 गुणहाणि० । असंखे०भागवट्टि० असंखे०ज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा ।
 एवं णवुंस० । णवरि वट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । पुरिसवेद० सव्वत्थोवा
 संखे०गुणवट्टि० । असंखे०गुणहाणि० तत्तिया चेव । अवट्टि० संखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्टि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । चहुणोकसाय० ओघं ।
 भय-दुगुंद्धा० सव्वत्थोवा अवट्टि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्टि० संखे०ज्जगुणा । एवं मणुसपज्जना० । णवरि जम्हि असंखे०गुणं तम्हि
 संखे०गुणं कायव्वं । इत्थि० हस्सभंगो । एवं चेव मणुसिणीसु । णवरि पुरिस-
 णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जचभंगो ।

५४१६. अणुदिसादि जाव अवराइद चि मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि-इत्थि०-

उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों संखलनोंकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात-भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । लोभसंखलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । भय और जुगुप्ताकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोंमें अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगुणा है वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए । मात्र स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

५४१६. अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व,

णवुंस० एत्थि अप्पाबहुअं । अणंताणु०४ सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०-
भागहाणि० असंखे०गुणा । बारसक०-पुरुस०-भय-दुगुंळ० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।
असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । इस्स-रइ-
अरइ-सोगाणं ओघं । एवं सव्वट्ठे । णवरि सव्वत्थ संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं जाव
अणाहारि ति णेदव्वं ।

तदो अप्पाबहुए समत्ते बट्ठिविहती समता ।

पदणिक्खेवविभागं बट्ठिविहतिं च किं चि सुत्तादो ।

वित्थरियं वित्थरदो सुत्तविसारदो समत्थे तु ॥१॥

सो जयइ जस्स परमो अप्पाबहुअं पि दव्व-पज्जायं ।

जाणइ णाणपुरंतो लोयालोएक्कदप्पणओ ॥२॥

❀ जहा उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं तथा संतकम्महाणाणि ।

§ ४१७. सामित्तादिअणियोगद्वारेहि जहा उक्कस्सपदेससंतकम्मं परूविदं तथा
पदेससंतकम्महाणाणि वि परूवेयव्वाणि, विसेसाभावादो । णवरि एत्थ तिण्णि
अणियोगद्वाराणि—परूवणा पमाणमप्पाबहुए ति । तत्थ परूवणा सव्वकम्माणं जहण्ण-
पदेससंतकम्महाणणहुट्ठि जाव उक्कस्सपदेससंतकम्महाणं ति ताव कमेण संतवियप्परूवणं ।

सम्यग्मिथ्यात्व. स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोके हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तियाँवाले जीव सबसे स्तोके हैं ।
उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । हास्य, रति, अरति और शाकका भङ्ग ओषधके समान हैं । इसीप्रकार सर्वावैसिद्धि
में अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त होनेपर वृद्धिविभक्ति समाप्त हुई ।

जो सूत्रका अर्थ करनेमें विशारद और समर्थ हैं उन्होंने पदनिक्षेपविभक्ति और वृद्धि-
विभक्तिका सूत्रके अनुसार विस्तारसे कुछ व्याख्यान किया है ॥ १ ॥

जिनके ज्ञानरूपी पुरके भीतर लोकालोकरूपी एक उत्कृष्ट दर्पण अल्पबहुत्वको लिए हुए
समस्त द्रव्य और पर्यायोंको जानता है वे भगवान् जयवन्त हों ॥ २ ॥

❀ जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म है उसप्रकार सत्कर्मस्थान हैं ।

§ ४१७. स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका
कथन किया है उसप्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता
नहीं है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर तीन अनुयोगद्वार हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ।
उनमेंसे सब कर्मोंके जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक क्रमसे

सा च जहण्णसामित्तविहाणेण परूविदा त्ति ण पुणो परूविज्जे । अइवा सव्व-
कम्माणमत्थि पदेससंतकम्मट्ठाणाणि त्ति संतपरूवणा परूवणा णाम । पमाणं सव्वेसिं
कम्माणमणंताणि पदेससंतकम्मट्ठाणाणि त्ति । अप्पाबहुअं जहा उक्कस्सपदेससंत-
कम्मस्स परूविदं तथा अणुणाहियमेत्थ परूवेयव्वं । खवरि जस्स कम्मस्स पदेसग्गं
विसेसाहियं तस्स पदेससंतकम्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि, संखेज्जगुणस्स संखेज्जगुणाणि,
असंखेज्जगुणस्स असंखेज्जगुणाणि, अणंतगुणस्स अणंतगुणाणि त्ति आढावकओ
विसेसो । सेसं सुगमं । एवमेदं पदणिक्खेव-वड्ढि-ट्ठाणेसु सवित्थरं परूविदेसु
उत्तरपयडिपदेसविहत्ती समत्ता होदि ।

एवं पदेसविहत्ती समत्ता ।

भौणाभौणचूलिया

भाइय जिणिदयंदं भाणाणलभौणघाइकम्मंसं ।

भौणाभौणहियारं जहोवएसं पयासेहं ॥ १ ॥

❁ एत्तो भौणमभौणं त्ति पदस्स विहासा कायव्वा ।

१ ४१८. एत्तो उवरि भौणमभौणं त्ति जं पदं तस्स विहासा कायव्वा त्ति

सत्कर्मके भेदोका कथन करना प्ररूपणा है । परन्तु वह जघन्य स्वामित्वविधिके साथ कही गई है, इसलिए पुनः इसका कथन नहीं करते । अथवा सब कर्मोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं, इसलिए सत्कर्मोंकी प्ररूपणा करना प्ररूपणा है । प्रमाण—सब कर्मोंके अनन्त प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं । अल्पबहुत्व—जिसप्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका कथन किया है उस प्रकार न्यूनाधिकतासे रहित यहाँ पर कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस कर्मका प्रदेशात् विशेष अधिक है उसके प्रदेशसत्कर्मस्थान विशेष अधिक हैं, संख्यातगुणके संख्यातगुणे हैं, असंख्यातगुणके असंख्यातगुणे हैं और अनन्तगुणके अनन्तगुणे हैं इसप्रकार कथनकृत विशेषता है । शेष कथन सुगम है । इसप्रकार इन पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थानोंका विस्तारके साथ कथन करनेपर उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्ति समाप्त होती है ।

इसप्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई ।

भौनाभौनचूलिका

जिन जिनेन्द्र चन्द्र या चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिकर्मोंको विध्वस्त कर दिया है उनका ध्यान करके मैं (टीकाकार) भौनाभौन नामक अधिकारको उपदेशानुसार प्रकाशित करता हूँ ॥ १ ॥

❁ इससे आगे 'भौमभौणं' इस पदका विवरण करना चाहिये ।

१ ४१८. अब तक गाथायें आये हुए 'उक्कस्समणुक्कसं' इस पद तकका विवरण किया । अब इससे आगे जो 'भौणमभौणं' पद आया है उसका विवरण करना चाहिए इस प्रकार

सुत्तसंबंधो । तस्य का विहासा णाम ? सुत्तेण सूचिदत्तसस विसेसियुण भासा विहासा विवरणं ति बुत्तं होदि । पदेसविहतीए सवित्थरं परुविय समत्ताए किमट्टमेसो अहियारो ओदिण्णो ति ण पक्खट्ठेयं, तिस्से चेव चूलियाभावेणेदस्सावयारब्भुवगमादो । कथमेसो पदेसविहतीए चूलिया ति बुत्ते बुद्धदे—तत्थ खलु उक्कट्टणाए उक्कस्सपदेससंचओ परुविदो भोकट्टणावसेण च खविदकम्मंसियभिज्ज जहण्णपदेससंचओ । तत्थ य कदमाए डिदीए डिदपदेसगमुक्कट्टणाए ओक्कट्टणाए च पाओग्गमप्पाओग्गं वा ति ण एरिसो विसेसो सम्मभवहारिओ । तदो तस्स तहाविहमत्तिविरहाविरहलक्खणत्तेण पत्तभीणाभीणववपसस्स डिदीओ अस्सिदूए परुवणट्टमेसो अहियारो ओदिण्णो ति चूलियाववएसो ण विरुज्जभदे ।

शंका—सूत्रमे आये हुए 'विभाषा' इस पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—सूत्रसे जो अर्थ सूचित होता है, उसका विशेष रूपसे विवरण करना विभाषा है यह इस पदका अर्थ है । विभाषाका अर्थ विवरण है यह इसका तात्पर्य है ।

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे कथन हो लिया है, अतः उस अधिकारके कथन करनेकी क्या आवश्यकता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसीके चूलिका रूपसे यह अधिकार स्वीकार किया गया है ।

शंका—यह अधिकार प्रदेशविभक्ति अधिकारका चूलिका है सां कैसे ?

समाधान—प्रदेशविभक्तिका कथन करते समय उत्कर्षणके द्वारा उत्कृष्ट प्रदेशसंचयका भी कथन किया है और अपकर्षणके वशसे क्षुण्णित कर्मांशके जवन्व्य प्रदेशसञ्चयका भी कथन किया है । किन्तु वहाँ इस विशेषताका सम्यक् रीतिसे विचार नहीं किया गया है कि किस स्थितिमे स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके योग्य हैं तथा किस स्थितिमे स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके अयोग्य हैं, तथापि इसका विचार किया जाना आवश्यक है अतः इसप्रकारकी शक्तिके सदभाव और असदभावके कारण भोनाभोन इस संज्ञाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका स्थितियोंकी अपेक्षा कथन करनेके लिए यह अधिकार आया है, इसलिए इसे चूलिका कहनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—पूर्वमें प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विवेचन किया है । तथापि उससे यह ज्ञात न हो सका कि सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य हैं और कौनसे कर्मपरमाणु इनके अयोग्य हैं । इसीप्रकार इससे यह भी ज्ञात न हो सका कि इन कर्मपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाणु निषेकस्थिति प्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाणु अधःनिषेकस्थितिप्राप्त हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उदयस्थितिप्राप्त हैं । परन्तु इन सब बातोंका ज्ञान करना आवश्यक है, इसीलिए प्रदेशविभक्तिके चूलिकारूपसे भोनाभोन और स्थितिग ये दो अधिकार आये हैं । चूलिकाका अर्थ है पूर्वमें कहे गये किसी विषयके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य । आशय यह है कि पूर्वमें जिस विषयका वर्णन कर चुकने हैं उसमें बहुतसी ऐसी बातें छूट जाती हैं जिनका कथन करना आवश्यक रहता है या जिनका कथन किये बिना उस विषयकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिये इन सब बातोंका खुलासा करनेके लिये एक या एकसे अधिक स्वतन्त्र अधिकार रचे जाते हैं जिनका पूर्व

§ ४१६. एत्थ चत्तारि अणियोगहारणि सुत्तसिद्धाणि । तं जहा—समुक्तिणा परूवणा सामितमप्पावहुअं चेदि । तत्थ समुक्तिणा णाम मोहणीयसव्वपयडीण-मुकड्डणादीहि चउहि मीणाभीणद्विदियस्स पदेसग्गस्स अत्थितमेत्तपरूवणा । तप्परूवणद्व-मुत्तरपुच्छासुत्तेण अवसरो कीरदे—

❀ तं जहा ।

§ ४२०. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ अत्थ ओकड्डणादो भीणद्विदियं उक्कड्डणादो भीणद्विदियं संक्रमणादो भीणद्विदियं उदयादो भीणद्विदियं ।

§ ४२१. एत्थ ताव सुत्तस्सेदस्स पढममवयवत्थविवरणं कस्सामो । 'अत्थि'सहो आदिदीवयभावेण चउण्हं पि सुत्तावयवाणं वावओ ति पादेवकं संबंधणिज्जो । ओकड्डणा णाम परिणामविसेसेण कम्मपदेसाणं द्विदीए दहरीकरणं । तदो भीणा अप्पात्रांगभावेण अवद्विदा द्विदी जस्स पदेसग्गस्स तमोकड्डणादो भीणद्विदियं

अधिकारसे सम्बन्ध रहता है वे सब अधिकार चूलिका कहलाते हैं । प्रकृतमे प्रदेशविभक्तिका कथन किया जा चुका है किन्तु उसमे ऐसी बहुतसी बातें रह गई हैं जिनका निर्देश करना आवश्यक था । इसीका पूर्तिके लिये मीनाभीन और स्थितिग ये दो चूलिका अधिकार आये हैं ।

§ ४२६. इस मीनाभीन नामक चूलिकामे चार अनुयोगद्वार हैं जो आगे कहे जानेवाले सूत्रोंसे ही सिद्ध हैं । वे ये हैं—समुत्कीर्तना, परूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व । यहां समुत्कीर्तनाका अर्थ है माहतीयकी सब प्रकृतियोंके उत्कर्षण आदि चारकी अपेक्षा मीनाभीन स्थितिवाले कर्म परमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना । अब इसका कथन करनेके लिये आगेका पृच्छासूत्र कहते हैं—

* जैसे—

§ ४२०. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, संक्रमणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं और उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । आशय यह है कि ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका अपकर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका संक्रमण नहीं हो सकता और ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो उदयमाप्त होनेसे जिनका पुनः उदय नहीं हो सकता ।

§ ४२१. यहां अब सबसे पहले इस सूत्रमें जो 'अस्ति' पद आया है उसका खुलासा करते हैं । 'अस्ति' पद आदिदीपक होनेसे वह सूत्रके चारों ही अवयवोंसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये उसे प्रत्येक अवयवके साथ जोड़ लेना चाहिये ।

ओकड्डणादो भीणद्विदियं—परिणामविशेषके कारण कर्मपरमाणुओंकी स्थितिका कर्म करना अपकर्षणा है । जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति अपकर्षणसे भीन अर्थात् अपकर्षणके अयोग्य रूपसे स्थित है वे अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । यह अवस्था यथायोग्य

सव्वकम्माणमत्थि । अहवा ओकङ्कणादो भ्नीणा परिहीणा जा द्विदी तं गच्छदि त्ति ओकङ्कणादो भ्नीणद्विदियमिदि समासो कायव्वो । एवमुवरि सव्वत्थि । दहरद्विदिद्विद-पदेसग्गाणं द्विदीए परिणामविसेसेण वट्टावणमुक्कङ्कणा णाम । तत्तो भ्नीणा द्विदी जस्स तं पदेसग्गं सव्वपयडीणमत्थि । संकमादो समयविरोहेण एयपयडिद्विदिपदेसाणं अण्ण-पयडिसरूत्रेण परिणमणलक्खणादो भ्नीणा द्विदी जस्स तं पि पदेसग्गमत्थि सव्वेसि कम्माणं । उदयादो कम्माणं फलत्पदाणलक्खणादो भ्नीणा द्विदी जस्स पदेसग्गस्स तं च सव्वकम्माणमत्थि त्ति । एत्थ सुत्तसमत्तीए 'चेदि'सहो किमट्ठं ण पवुत्तो ? ण, सुत्तमेत्तियमेत्तं चेव ण होदि, किंतु अण्णं पि अज्झाहरिज्जमाणमत्थि । तदो तस्स समत्तीए 'चेदि'सहो अज्झाहारेयव्वो त्ति जाणावणट्ठं वक्कपरिसमत्तीए अकरणादो । किं तमज्झाहारिज्जमाणं सुत्तसेसमिदि चे वुच्चदे—ओकङ्कणादो अभ्नीणद्विदियं उक्कङ्कणादो अभ्नीणद्विदियं संकमणादो अभ्नीणद्विदियं उदयादो अभ्नीणद्विदियं चेदि त्ति । कथमेदमण्णहा भ्नीणाभ्नीणाणं परूवयमुत्तं हवेज्ज । सुत्ते पुण एसो अज्झाहारो सामत्थियलद्धो त्ति ण णिहिट्ठो ।

सब कर्मों में सम्भव है । अथवा 'भ्नीणद्विदियं' का संस्कृतरूप 'भ्नीनस्थितिगं' भी होता है । इसलिये ऐसा समास करना चाहिए कि जो कर्म परमाणु अपकर्षणसे रहित स्थितिको प्राप्त हैं वे अपकर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । इसीप्रकार आगे सर्वत्र सब पदोका दो प्रकारसे कथन करना चाहिये ।

उक्कङ्कणादो भ्नीणद्विदियं—परिणाम विशेषके कारण अल्पस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी स्थितिका बढ़ाना उत्कर्षण है । सब प्रकृतियोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उत्कर्षणके अयोग्य है ।

संकमणादो भ्नीणद्विदियं—जैसा आगममें बतलाया है तदनुसार एक प्रकृतिके स्थितिगत कर्मपरमाणुओंका अन्य^१ सजातीय प्रकृतिरूप परिणमना संक्रमण है । सब कर्मों में ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति संक्रमणके अयोग्य है, इसलिये वे संक्रमणसे भ्नीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

उदयादो भ्नीणद्विदियं—कर्मों का फल देना उदय है । सब कर्मों में ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उदयके अयोग्य है, इसलिये वे उदयसे भ्नीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

शंका—यहाँ सूत्रके अन्तमें 'चेदि' शब्द क्यों नहीं रखा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्र केवल इतना ही नहीं है किन्तु और भी अध्याहार करने योग्य है और तब जाकर उस अध्याहृत वाक्यके अन्तमें 'चेदि' शब्दका अध्याहार करना चाहिये । इसप्रकार यह बात बतलानेके लिए सूत्रवाक्यको समाप्त न करके यों ही छोड़ दिया है ।

शंका—सूत्रका वह कौनसा अंश शेष है जो अध्याहार करने योग्य है ?

समाधान—'ओकङ्कणादो अभ्नीणद्विदियं उक्कङ्कणादो अभ्नीणद्विदियं संकमणादो अभ्नीणद्विदियं उदयादो अभ्नीणद्विदियं चेदि' यह वाक्य है जो अध्याहार करने योग्य है ।

यदि ऐसा न माना जाय तो यह सूत्र भ्नीनाभ्नीन दोनोंका प्ररूपक कैसे हो सकता है । तथापि इतना अध्याहार सामर्थ्यलभ्य है, इसलिये इसका सूत्रमें निर्देश नहीं किया ।

§ ४२२. संपदि समुक्चित्पणियोगद्वारेण समुक्चित्दानमेदेसिं सरूवविसय-
गिण्णयजणणद्धं परूवणाणिओगद्वारं परूवयमाणो जहा उद्देसो तथा णिद्देसो ति
णाएण पहिद्वमेव ताव ओकडुणादो भ्नीणद्विदियं सपडिवक्त्वमासं कामुतेण
पत्तावसरं करेदि—

✽ ओकडुणादो भ्नीणद्विदियं णाम किं ?

§ ४२३. अत्थि ओकडुणादो भ्नीणद्विदिगमिदि पुव्वं समुक्चित्तिदं । तत्थ
कदमपोकडुणादो भ्नीणद्विदियं ? किमविसेसेण सव्वद्विदिद्विदपदेसगमाहो अत्थि को वि
विसेमो ति एसो एदस्स भावत्थो । एवमासंकिय तत्त्विसेसपरूवणणद्धमुत्तरमुत्तं भणइ—

✽ जं कम्ममुदयावलिपण्भंतरे द्वियं तमोकडुणादो भ्नीणद्विदियं । जसु-
दयावलिपणाहिरे द्विदं तमोकडुणादो अजभ्नीणद्विदियं ।

विशेषार्थ—भ्नीनाभ्नीन अधिकारका समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व
इन चार उपअधिकारों द्वारा वर्णन किया गया है । इन चारोंका अर्थ स्पष्ट है । यहाँ सर्वप्रथम
समुत्कीर्तनाका निर्देश करते हुए चूर्णिसूत्रकारने यह बतलाया है कि मोहनीयकी सब प्रकृतियोंमें
ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयके अयोग्य हैं ।
तथा बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव इनके योग्य भी हैं । यहाँ सूत्रमे यद्यपि
सूत्रकारने अपर्षण आदिके अयोग्य परमाणुओंके होनेकी सूचना की है तथापि इस अधिकारका
नाम भ्नीनाभ्नीन होनेसे यह भी सूचित हो जाता है कि बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षण
आदिके योग्य भी हैं । यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४२२. अब समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारके द्वारा कहे गये इनके स्वरूप विषयक निर्णयका
ज्ञान करानेके लिए प्ररूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं । उसमें भी उद्देश्यके अनुसार
निर्देश किया जाता है इस न्यायके अनुसार सर्वप्रथम आंशकासूत्रद्वारा अपने प्रतिपक्षभूत कर्मके
साथ अपकर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले कर्मके कथन करनेकी सूचना करते हैं—

✽ वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२३. अपकर्षणसे भ्नीन (रहित) स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं यह पहले कह आये हैं ।
अब इस विषयमें यह प्रश्न है कि वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले
हैं । क्या सामान्यसे सब स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु ऐसे हैं या कुछ विशेषता है यह
इस सूत्रका भाव है । ऐसी आंशका कर अब उस विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र
कहते हैं—

✽ जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे भ्नीन स्थिति-
वाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अभ्नीन
स्थितिवाले हैं । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण नहीं
होता किन्तु उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है ।

§ ४२४. एत्थ जं कम्ममिदि वुत्ते जो कम्मपदेसो ति वेत्तव्वं । उदयावलिया ति उदयसमयप्पहुदि आवलियमेत्तद्धिदीणमुत्तावलियायारेण हिदाणं सण्णा । कुदो ? उदयसहस्स उवलक्खणभावेण ठविदत्तादो । तदम्भंतरे हिदं जं पदेसग्गं तमोकङ्कणादो भीणहिदिगं । ण पदस्स हिदीए ओकङ्कणमत्थि ति भावत्थो । कुदो ? सहावदो । परिसो पदस्स सहावो ति कत्तो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । जं पुण उदयावलियवाहिरे हिदं पदेसग्गं तमोकङ्कणादो अज्भीणहिदिगमिदि पदेण सुत्तावयवेण उदयावलियवाहिरासेसद्धिदिद्विदपदेसग्गं सव्वमोकङ्कणापाओग्गमिदि वुत्तं होदि । एत्थ चोदओ भगदि—उदयावलियवाहिरे वि ओकङ्कणादो ज्भीणहिदियमप्पसत्थउव-सामणा-णप्रतीकरण-णिकाचणाकरणेहि अत्थि चेव जाव दंमणचरित्तमोहक्खवगुव-सामयअपुव्वकरणचरिमसमओ ति तदो किं वुच्चदे उदयावलियवाहिरिद्विद्विदपदेसग्ग-मोकङ्कणादो अज्भीणहिदियमिदि ? एत्थ परिहारो वुच्चदे—जिस्से हिदीए पदेसग्गस्स ओकङ्कणा अच्चंतं ण संभवइ सा हिदी ओकङ्कणादो भीणा वुच्चइ, तिस्से अब्भंताभावेण पडिग्गहियत्तादो । ण च णिकाचिदपरमाणूणमेवंविहो णियमो अत्थि, अपुव्वकरण-

§ ४२४. यहाँ सूत्रमे जो 'जं कम्मं' ऐसा कहा है सो उससे 'जं कर्मरमाणु' ऐसा अर्थ लेना चाहिये । जो उदय समयसे लेकर आवलिप्रमाण स्थितियों मुक्तावलिके समान स्थित हैं उनकी उदयावलि यह मंज्ञा है, क्योंकि ये सब स्थितियाँ उपलक्षणरूपसे उदयप्राप्त स्थितिके साथ स्थापित हैं । इस उदयावलिके भीतर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं । इस उदयावलिप्रमाण स्थितियोंका अपकर्षण नहीं होता यह इस सूत्रका भाव है ।

शंका—उदयावलिप्रमाण स्थितियोंका अपकर्षण क्यों नहीं होता ?

समाधान—क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

शंका—इसका ऐसा स्वभाव है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

किन्तु जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अन्धीन स्थितिवाले हैं । इसप्रकार सूत्रके इस दूसरे वाक्यद्वारा यह कहा गया है कि उदयावलिके बाहर समस्त स्थितियोंमें स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणके योग्य हैं ।

शंका—यहां पर शंकाकार कहता है कि उदयावलिके बाहर भी अप्रशस्त उपशामना, निषत्तीकरण और निकाचनाकरणके सम्बन्धसे ऐसे कर्मपरमाणु बच रहते हैं जो अपकर्षणके अयोग्य हैं । और उनकी यह अयोग्यता दर्शनमोहनीय या चरित्रमोहनीयकी क्षणया या उपशामना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक बनी रहती है, तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि उदयावलिके बाहरकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य हैं ।

समाधान—जिस स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी अपकर्षणा बिलकुल ही सम्भव नहीं, केवल वही स्थिति यहाँ अपकर्षणके अयोग्य कही गई है, क्योंकि यहाँ ऐसे कर्मपरमाणुओंकी अपकर्षणाका निषेध किया है जो किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है । किन्तु निकाचित आदि अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका ऐसा नियम तो है नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु अपूर्वकरण

सचरिभसमयादो उवरि तेसिमोकड्डणादिपाओग्गभावेण पडिभिययकाळपडिबद्धाप ओकड्डणादीणमणागमणपइजाए अनुबलंभादो । एदेण सासणसम्मइड्ढिमि दंसण-
तियस्स उकड्डणादीहितो भीणट्टिदियत्तसंभवविप्पडिबत्ती निराकरिवा, तत्थ धि सव्व-
काळमणागमणपइजाए अभावादो । एत्थ मिच्छत्तादिपचदिचिसेसणिदे सं काऊण
परूवणा किमडं ण कीरदे ? ण, विसेसविबक्खमकाऊण भूलुवरपयदीणं साहारण-
सरूवेण अट्टपदस्स परूवणादो । ण च सामण्णे परूविदे विसेसा अपरूविदा णाम,
तेसि ततो पुअभूदाणमणुबलंभादो । तदो एत्थ पादेवकं सव्वपयदीणमेसा अट्टपद-
परूवणा वित्थरइसिस्साणुग्गहट्ठं कायव्वा ।

के अन्तिम समयके बाद अनिष्टतिकरणमे अपकर्षणा आदिके योग्य हो जाते हैं और तब फिर उनकी अपकर्षणा आदिको नहीं प्राप्त होनेकी जो प्रतिनियत काल तककी प्रतिज्ञा है वह भी नहीं रहती ।

इस कथनसे सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी स्थितिकी उत्कर्षणा आदि सम्भव नहीं होनेसे जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर दिया, क्योंकि उनमे भी उत्कर्षण आदिके नहीं होनेकी प्रतिज्ञा सदा नहीं पाई जाती ।

शंका—उस सूत्रमें मिथ्यात्व आदि प्रकृतिविशेषका निर्देश करके कथन क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष कथनकी विवक्षा न करके जो मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें साधारण है ऐसे अर्थपदका निर्देश किया है और सामान्यकी प्ररूपणामे विशेषकी प्ररूपणा अपरूपित नहीं रहती, क्योंकि विशेष सामान्यसे पृथक् नहीं पाये जाते । किन्तु जो शिष्य विस्तारसे समझनेकी रुचि रखते हैं उनके उपकारके लिए यही अर्थपद प्ररूपणा सब प्रकृतियोंकी पृथक् पृथक् करनी चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँपर यह बतलाया है कि कौन कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं और कौन कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य हैं । एक ऐसा नियम है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु सकल करणोंके अयोग्य होते हैं । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओका अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि कुछ भी सम्भव नहीं है, उनका स्वमुख से या परमुखसे केवल उदय ही होता है, इसलिए इस परसे यह निष्कर्ष निकला कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं, हाँ उदयावलिके बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनका अपकर्षण अवश्य हो सकता है । इसीलिए चूणिसूत्रकारने अपकर्षणके विषयमें यह नियम बनाया है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं और उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं । तब भी यह प्रश्न तो है ही कि उदयावलिके बाहर स्थित सब कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य ही होते हैं ऐसा एकान्त नियम तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उदयावलिके बाहर स्थित जिन कर्मपरमाणुओकी अप्रशस्त उपशम, निवृत्तीकरण और निःकाचना-करण ये अवस्थाएँ हैं उनका अपकर्षण नहीं होता । इसीप्रकार सासादन गुणस्थानमें भी दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका अपकर्षण नहीं होता, इसलिये चूणिसूत्रकारने जो यह कहा है कि उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओका अपकर्षण हो सकता है सो उनका ऐसा कथन

§ ४२५. संपदि उकड्डणादो भीणडिदियं सपदिवक्त्वं परुवयमासो सुत्तयारो पुच्छामुत्तेण पत्ताववारभेइ—

⊗ उकड्डणादो भीणडिदियं चाम किं ?

§ ४२६. एत्थ उकड्डणादो अजभीणडिदियं णाम किमिदि वक्सेसो कायण्वो । सेसं सुगमं । एवं पुच्छिदत्थविसए णिण्णयजणणट्टमुत्तरमुत्तकलावं भणइ—

⊗ जं ताव उदयावलियपविटं तं ताव उकड्डणादो भीणडिदियं ।

§ ४२७. कुदो एदस्स उदयावलियपविटस्स उकड्डणादो भीणडिदियत्तं ? सहावदो । को एत्थ सहावो णाम ? अच्चंताभावो । एदमेवमपवण्णणिज्जितादो

करना उचित नहीं है । इस प्रश्नका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि जो कर्मपरमाणु अप्रशस्त उपशामना, निवृत्तिकरण या निकाचनाकरण अवस्थाको प्राप्त हैं उनकी वह अवस्था सदा नहीं बनी रहती है । किन्तु अनिवृत्तिकरणमें जाकर वह समाप्त हो जाती है और पहले जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा अब उनका अपकर्षण होने लगता है । इसी प्रकार सासादनगुणस्थानका काल निकल जानेपर सासादनमें जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा उनका तदनन्तर अपकर्षण होने लगता है, इसलिये उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंको निरपवादरूपसे अपकर्षणके अयोग्य कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है । यहा पर एक शंका और उठाई गई है कि अपकर्षणके योग्य और अयोग्य कर्मपरमाणुओंका कथन करते समय कर्म विशेषका निर्देश क्यों नहीं किया । अर्थात् यह क्यों नहीं बतलाया कि इस प्रकारकी अवस्था मोहनीयके किन किन कर्मोंमें पैदा होती है । इस शंकाका वीरसेन स्वार्माने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यहां जो सामान्य नियम बांधा गया है वह निरपवादरूपसे सब कर्मोंमें सम्भव हैं, इसलिये उसका प्रत्येक कर्मकी अपेक्षासे कथन नहीं किया है । तथापि जो शिष्य विस्तारसे समझना चाहते हैं उनके लिये इसी नियमका प्रत्येक कर्मकी अपेक्षासे कथन करनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

§ ४२५. अब चूर्णिसूत्रकार अपने प्रतिपन्नभूत कर्मपरमाणुओंके साथ उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके कथन करनेको इच्छासे पृच्छासूत्रद्वारा उनके कथन करनेका प्रस्ताव करते हैं—

* वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२६. इस सूत्रमें 'वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं' इतना वाक्य और जोड़ देना चाहिये । जोप कथन सुगम है । इस प्रकार पूछे गये अर्थके विषयमें निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रकलापको कहते हैं—

* जो कर्म उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२७. शंका—जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले क्यों हैं ?

समाधान—स्वभावसे ।

शंका—यहाँ स्वभावसे क्या अभिप्रेत है ?

समाधान—अत्यन्ताभाव । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंमें उत्कर्षण

सुगमतादो च सिद्धसरूवेण परूविय संपहि उदयावलियबाहिरे वि उक्कड्डणाए अप्पाओगपदेसस्स णिदरिसणं परूवेमाणो तदत्थित्थे पइज्जं करेदि—

❁ उदयावलियबाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्कड्डणादो म्भीणद्धिदियं । तस्स णिदरिसणं । तं जहा ।

§ ४२८. एदं पुच्छामुत्तं णिदंसणविसंसं सुगमं । एवं पुच्छदे णिरुद्धद्धिदि-परूवणद्वमुत्तं भणइ—

❁ जा समयाहियाए उदयावलियाए दिदी एदिस्से दिदीए जं पदेसग्गं तमादिहं ।

§ ४२९. एत्थ समयाहियाए उदयावलियाए चरिमसमए दिदा जा दिदी णाणासमयपबद्धप्पिया एदिस्से दिदीए जं पदेसग्गं तमादिहं विवक्खियमिदि मुत्तत्थ-संबंधो कायव्वो ।

होनेकी योग्यताका अत्यन्त अभाव है ।

उत्पत्कार यह कथन अल्प होनेसे या सुगम होनेसे इसका सिद्ध रूप पहले बतलाकर अब उदयावलिके बाहर भी उत्कर्षणके अयोग्य कर्मपरमाणुओंको उदाहरण द्वारा दिखलाते हुए पहले उनके अस्तित्वकी प्रतिष्ठा करते हैं—

❁ उदयावलिके बाहर भी उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । उनका उदाहरण । जैसे—

§ ४२८. यह उदाहरणविषयक पृच्छामुत्र है, जो सुगम है । ऐसा पूछनेपर उससे निरुद्ध स्थितिका कथन करनेके लिये आगोका सूत्र कहते हैं—

❁ एक समय अधिक उदयावलिके अन्तमें जो स्थिति स्थित है उस स्थितिके जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ उदाहरणरूपसे विवक्षित हैं ।

§ ४२९. एक समय अधिक उदयावलिके अन्तम समयमें नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली जो स्थिति स्थित है और उस स्थितिमें स्थित जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ आदिष्ट अर्थात् विवक्षित हैं ऐसा इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति कम है उनकी तत्काल बँधनवाले कर्मके सम्बन्ध से स्थितिका बढ़ाना उत्कर्षण है । यह उत्कर्षण उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका तो होता ही नहीं, क्योंकि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंके स्वमुख या परमुखते होनेवाले उदयको छोड़कर अन्य कोई अवस्था नहीं होती ऐसा नियम है । इसके साथ उदयावलिके बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमें भी बहुतेका उत्कर्षण नहीं हो सकता । प्रकृतमें यही बतलाना है कि वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता । इसके लिए सर्वप्रथम उदयावलिके बाहर प्रथम स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु यहाँ उदाहरणरूपसे लिये गये हैं । उदयावलिके बाहर प्रथम स्थितिमें स्थित उन सब कर्मपरमाणुओंमें यह विवेक करना है कि उनमें ऐसे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वे कर्मपरमाणु नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी हैं । इसलिए उनमेंसे कुछ कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और कुछका नहीं ।

§ ४३०. एत्थतणपदेसग्गं कम्मद्विदियब्भंतरे संचिदाणेगसमयपवद्धपट्टिबद्ध-
मत्थि किं तं सव्वमेव उक्कड्डणाए अप्पाओग्गमाहो अत्थि को इ विसेसो ति आसंका-
णिरायरणद्वमुत्तरमुत्तमोयरइ—

⊗ तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवल्लियाए ऊणिया कम्म-
द्विदी विदिवक्कंता बद्धस्स तं कम्मं ण सक्का उक्कड्डिदुं ।

§ ४३१. तस्स णिरुद्धद्विदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवल्लियाए
ऊणिया कम्मद्विदी विदिवक्कंता बद्धस्स बंधसमयादो पडुडि तं कम्मं णो सक्का
उक्कड्डिदुं, सत्तिद्विदीए तत्तो उवरि एगसमयमेत्तस्स वि अभावादो । ण च उदयसमए
द्विदो जीवो उदयावल्लियवाहिराणंतरद्विदिपदेसग्गमुत्तरिदत्तेत्तियमेत्तकम्मद्विदिय-
मुक्कड्डिदुं समत्थो, उक्कड्डणापाओग्गभावस्स कम्मद्विदिपरिहाणीए विणट्ठादो । तदो
पदमुक्कड्डणादो भ्णीणद्विदियमिदि एसो मुत्तस्स भावत्थो ।

§ ४३०. इस पूर्वोक्त स्थितिके कर्मपरमाणु कर्मस्थितिके भीतर सञ्चित हुए अनेक समय-
प्रबद्धसम्बन्धी हैं सो क्या वे सबके सब उत्कर्षणके अयोग्य हैं या इनमे कोई विशेषता है? इस
प्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* किन्तु उन कर्म परमाणुओंकी बन्ध समयसे लेकर यदि एक समय अधिक
एक आवल्लिसे न्यून सब कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण
नहीं हो सकता ।

§ ४३१. पहले उदाहरणरूपसे जिस स्थितिका निर्देश किया है उसके उन कर्मपरमाणुओंकी
बद्धस्स अर्थात् बन्धके समयसे लेकर यदि एक समय अधिक एक आवल्लिसे न्यून शेष सब
कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी
उस स्थितिसे अधिक एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । और उदय समयमे
स्थित हुआ जीव उदयावल्लिके बाहर अनन्तर समयवर्ती स्थितिके ऐसे कर्म परमाणुओंका,
जिनकी कर्मस्थिति उतनी ही अर्थात् एक समय अधिक उदयावल्लि प्रमाण ही शेष रही है,
उत्कर्षण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि कर्मस्थितिका हानि हो जानेसे उन कर्म
परमाणुओंके उत्कर्षणकी योग्यता ही नष्ट हो गई है, इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि उत्कर्षण सब कर्म परमाणुओंका न
होकर कुछका होता है और कुछका नहीं होता । जिनका नहीं होता उनका संक्षेपमें व्योरा
इस प्रकार है—

१—उदयावल्लिके भीतर स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता ।

२—उदयावल्लिके बाहर भी सत्तामें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उत्कर्षणके
समय बँधनेवाले कर्मोंकी आबाधाके बराबर या इससे कम शेष रही है उनका भी उत्कर्षण
नहीं होता ।

३- मिथ्याघात दशामें उत्कर्षणको प्राप्त होनेवाले कर्म परमाणुओंकी अतिस्थापना कर्मसे

§ ४३२. तिस्से चेव णिरुद्धिदीए अण्ण पि पदेसग्गमोकङ्कणादो परिहीण-
ट्टिदियमत्थि ति परूवणदुमुवरिपमुत्तमोइण्णं—

✽ तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि दुसमयाहियाए आबलियाए ऊणिया
कम्मट्टिदी विदिक्कंता तं पि उक्कङ्कणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४३३. सुगमं । किपट्टमेक्किस्से उवरिमाणंतरट्टिदीए ए उक्कङ्कज्जइ तं पदेसग्गं ?
ण, जइण्णात्ताहादीहाए अइच्छावणाए अभावादो । ण च आवाहाए अब्भंतरे
उक्कङ्कणस्स संभवो, 'बंधे उक्कङ्कट्टि' ति वयणादो । ण हि अहिणववज्जभमाणपरमाणू
आवाहाए अब्भंतरे अत्थि, विरोहादो ।

कम एक आवलिप्रमाण वतलाई है, इसलिये अतिस्थापनारूप द्रव्यमें उत्कर्षित द्रव्यका निक्षेप
नहीं होता ।

४—व्याघात दशामं कमसे कम आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अतिस्थापना और
इतना ही निक्षेप प्राप्त होनेपर उत्कर्षण होता है, अन्यथा नहीं होता ।

जहाँ अतिस्थापना एक आवलि और निक्षेप आवलिका असंख्यातवों भाग आदि बन
जाता है वहाँ निर्व्याघात दशा होती है और जहाँ अतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होनेमें
बाधा आती है वहाँ व्याघात दशा होती है । जब प्राचीन सत्तामें स्थित कर्म परमाणुओंकी स्थितिसे
नूतन बन्ध अधिक हो पर इस अधिकका प्रमाण एक आवलि और एक आवलिके
असंख्यातवें भागके भीतर ही प्राप्त हो तब यह व्याघात दशा होता है । इसके सिवा उत्कर्षणमें
सर्वत्र निर्व्याघात दशा ही जाननी चाहिये ।

प्रकृतमें जिन कर्मपरमाणुओंके उत्कर्षणका निषेध किया है उनसे सम्बन्ध रखनेवाले
समयप्रबद्धकी कर्मस्थिति केवल एक समय अधिक एक आवलिमात्र ही शेष रही है, इसलिये इनका
नियम नम्बर दो के अनुसार उत्कर्षण नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ जिन कर्मपरमाणुओंका
उत्कर्षण विवक्षित है उनका कर्मपरमाणुओंसे सम्बन्ध रखनेवाले समयप्रबद्धकी कर्मस्थिति उतनी ही
शेष रही है, इसलिये उन कर्मपरमाणुओंमें शक्तिस्थितिका सर्वथा अभाव होनेसे उनका उत्कर्षण
नहीं हो सकता ।

§ ४३२. उसी विवक्षित स्थितिके अन्य कर्म परमाणु भी उत्कर्षणके अयोग्य हैं, अब इस
बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

✽ उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष
कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४३३. यह सूत्र सुगम है ।

शंका—अपनेसे ऊपरकी अनन्तरवर्ती एक स्थितिमें उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण
क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ जघन्य आबाधाप्रमाण अतिस्थापना नहीं पाई जाती
और आबाधाके भीतर उत्कर्षण हो नहीं सकता, क्योंकि 'बन्धके समय ही उत्कर्षण होता है' ऐसा
आगमवचन है । यदि कहा जाय कि नूतन बंधनेवाले कर्म परमाणु आबाधाके भीतर पाये जाते
हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

❁ एवं गंतूण जइ वि जहणियाए आवाहाए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता तं पि उक्कण्णादो भीणट्टिवियं ।

१४३४. एवं तिसमयाहियावळियादिपरिहीणकम्मडिदिं समाणिय ट्टिदि-पदेसगाणमुक्कण्णादो भीणट्टिदियत्तं वत्तव्वं, अइच्छावणाए पडिवुण्णत्ताभावेण णिकखेवसस च अच्चंताभावेण पुव्वियल्लादो विसेसाभावा । 'एवं गंतूण जइ वि जहणियाए० भीणट्टिदिगं' इदि एत्थ चग्गिवियप्पे जइ वि अइच्छावणा संपुण्णा तो वि णिकखेवाभावेण भीणट्टिदियत्तं पडिवज्जेयव्वं । सेसं सुगमं ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाया गया है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उदयावलि से केवल एक समय अधिक शेष है उनका उत्कर्षण नहीं होता । तब यह प्रश्न हुआ कि जिस समयप्रवृद्धकी कर्मस्थिति दो समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेष है उसी समयप्रवृद्धके एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें स्थित कर्मपरमाणुओंका अनन्तरवर्ती उपरिगत स्थितिमें उत्कर्षण होता है क्या ? इसी प्रश्नका उत्तर देते हुए यहां यह बतलाया गया है कि तब भी उत्कर्षण सम्भव नहीं है । इसका यहां पर जो कारण बतलाया है उसका आशय यह है कि उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है । फिर भी उन्मत्तित द्रव्यका निक्षेप अतिस्थापना प्रमाण स्थितिका छोड़कर उपरकी स्थितिमें ही होता है और प्रकृतमें अतिस्थापना जघन्य आवाधासे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवाधाकालके भीतर नवीन बंध हुए कर्मोंकी निषेक रचना न होनेसे आवाधाकालके भीतर उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यका निक्षेप ही सम्भव नहीं है । यह माना कि आवाधाकालके भीतर सत्तामें स्थित कर्मोंकी निषेक रचना पाई जाती है, किन्तु 'बन्धके समय ही उत्कर्षण होता है' ऐसा कथन करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यका निक्षेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके निषेकों में ही होता है । पर यह निषेक रचना आवाधाकालके भीतर नहीं पाई जाती, इसलिये आवाधा निक्षेपके अयोग्य है यह सिद्ध होता है । इस प्रकार उदयावलिके अनन्तर समयवर्ती कर्म परमाणुओंका उदयावलिके अनन्तर द्वितीय समयवर्ती स्थितिमें निक्षेप नहीं हो सकता यह सिद्ध होता है और यही प्रकृत सूत्रका आशय है ।

❁ इस प्रकार जाकर यद्यपि विवक्षित कर्म परमाणुओंकी जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्म परमाणु उत्कर्षणमें भीन स्थितिवाले होते हैं ।

१४३४. तीन समय अधिक एक आवलिके न्यून शेष सब कर्मस्थितिको समाप्त करके स्थित हुए कर्म परमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले होते हैं ऐसा यहां कथन करना चाहिये, क्योंकि अतिस्थापना पूरी न होनेसे और निक्षेपका अत्यन्त अभाव होनेसे पूर्व सूत्रके कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है । 'इस प्रकार जाकर यद्यपि जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले होते हैं' इस प्रकार इस अन्तिम विकल्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे (एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम समयवर्ती कर्म परमाणुओंका) उत्कर्षणसे भीन स्थितिपना जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—पहले उदाहरणरूपसे जो एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें

४३५. संपहि अज्भीणद्विदियस्स उक्कङ्कापाओगस्स तस्सेव गिरुद्धद्विदि-
पदेसग्गस्स परूवणहमुत्तरमुत्तमागयं—

❁ समयुत्तराए उवयाबलियाए तिस्से द्विदीए जं पदेसग्गं तस्स
पदेसग्गस्स जइ जहणियाए आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मद्विदी
विदिवकंता तं पदेसग्गं सक्का आवाधामेत्तमुक्कङ्किउमेक्किस्से द्विदीए
णिसिचिदुं ।

§ ४३६. गयत्यमेदं, सुगमासेसावयवत्तादो । णवरि आवाधामेत्तमुक्कङ्किउमिदि
एत्य उक्कङ्कियुए त्ति घेतत्वं । अहवा, आवाहामेत्तमुक्कङ्किउमेक्किस्से द्विदीए णिसिचिदुं
चेदि संबंधो कायव्वो । च सहेण विणा वि समुच्चयद्वावगमादो । एदस्स सुत्तस्स
भावत्यो—पुव्वमादिहद्विदीए पदेसग्गस्स बंधसमयादो पहुदि जइ जहण्णावाहाए
समयाहियाए ऊणिया कम्मद्विदी वदिवकंता होज्ज तो तं पदेसग्गं जहण्णावाहामेत्त-
मुक्कङ्किय उवरिमाणंतराए एक्किस्से द्विदीए णिसिचिदुं सक्कं, तप्पाओग्गजहण्णाण
स्थित कर्म परमाणु बतलाये हैं सा उनका उत्कर्षण कब तक नहीं हो सकता यह इस सूत्रमे बतलाया
है । यदि तीन समय अधिक उदयावलिप्रमाण स्थिति शेष हो और बाकीकी स्थिति गल गई
हो तो भी एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती उन कर्म परमाणुओंका शेष दो
स्थितिमे उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि प्रकृते अतिस्थापनाका प्रमाण जो जघन्य आवाधा
बतलाया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है और निक्षेपका अभाव तो बना हुआ ही है । इसी प्रकार
चार समय अधिक, पांच समय अधिक, उदयावलिप्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाकाल प्रमाण
स्थितिके शेष रहने पर भी उक्त कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँ अन्तिम
विकल्पके सिवा और सब विकल्पोमे अतिस्थापना तो पूरी हुई नहीं और निक्षेपका अभाव तो
सर्वत्र ही बना हुआ है ।

§ ४३५. अब उसी स्थितिके जो कर्म परमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले अर्थात्
उत्कर्षणके योग्य हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण उसी स्थितिके ऐसे कर्म परमाणु
तो जिनकी यदि एक समय अधिक जघन्य आवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति गली
है तो उन कर्म परमाणुओंका जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्षण और आवाधासे ऊपर
की एक स्थितिमें निक्षेप ये दोनों बातें शक्य हैं ।

§ ४३६ इस सूत्रका अर्थ अचगत्प्राय है, क्योंकि इसके सब अवयवोंका अर्थ सुगम है ।
किन्तु इतनी विशेषता है कि 'आवाधामेत्तमुक्कङ्किउं' इस वाक्यमे स्थित 'उक्कङ्किउं' का अर्थ
'उत्कर्षण करके' करना चाहिये । अथवा 'आवाधाप्रमाण उत्कर्षण करनेके लिये और एक स्थिति
मे निक्षेप करनेके लिये शक्य है' ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि यद्यपि वाक्य मे 'च'
पद नहीं दिया है तो भी समुच्चयरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है । इस सूत्र का यह भावार्थ है कि
पहले उदाहरणरूपसे निर्दिष्ट की गई स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी यदि बन्ध समयसे लेकर एक
समय अधिक जघन्य आवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो उन कर्मपरमाणुओं
का जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्षण होकर उसके ऊपर अनन्तर समयवर्ती एक स्थितिमें निक्षेप

मइच्छावणाणिकलेवाणमेत्थुवलंभादो । तदो एदमुक्कड्डणादो अज्झीणद्विदियमिदि उवरि
सव्वत्थ उक्कड्डणापडिसेहो गत्थि त्ति 'जाणावणह' तच्चिसयमाहप्पुत्तरसुत्तेण भणइ—

❁ जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता
तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता । एवं गंतूण
वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणिया
कम्मद्विदी विदिवकंता तं सव्वं पदेसग्गं उक्कड्डणादो अज्झीणद्विदियं ।

§ ४३७. एदस्स सुत्तस्स सुगमासेसावयवकलावस्स भावत्थो—पुव्वणिरुद्धाए
समयाहियउदयावलियचरिमद्विदीए पदेसग्गस्स बंधसमयप्पहुडि बोलाविय समयाहिय-
जहण्णावाहादिउवरिमासेसमुत्तवियप्परिहीणकम्मद्विदियस्स गत्थि उक्कड्डणादो
भीणद्विदियत्तं । सव्वमेव तमुक्कड्डणापाओग्गमिदि सव्वस्स वि, एदस्स समयाविरोहेण
उक्कड्डिज्जमाणयस्स आवाहमेती अइच्छावणा । णिकलेवो पुण समयुत्तरादिकमेण वट्टमाणो
गच्छदि जाव उक्कसावाहाए समयाहियावलियाए च ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ
त्ति । एत्थ सागरोवमपुधत्तेण वा त्ति एदेण वा सहेण अयुत्तसमुच्चयहेण सागरोवम-
दसपुधत्तेण वा सदपुधत्तेण वा सहस्सपुधत्तेण वा लक्खपुधत्तेण वा, कोटिपुधत्तेण वा
अंतोकोडाकोडीए वा कोडाकोटिपुधत्तेण वा त्ति एदे संभविणो वियप्पा घेतत्त्वा ।

होना शक्य है, क्योंकि यहां तद्योग्य जघन्य अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों पाये जाते हैं,
इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभिन्न स्थितिवाले हैं । अब आगे सर्वत्र उत्कर्षणका निषेध
नहीं है यह जतानेके लिये अगले सूत्रद्वारा उस विषयका माहात्म्य बतलाते हैं—

❁ तथा उसी पूर्वोक्त स्थितिकी यदि दो समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति
गली है या तीन समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति गली है । इसी प्रकार आगे
जाकर यदि एक वर्ष, वर्षपृथक्त्व, एक सागर या सागर पृथक्त्वसे न्यून शेष
कर्मस्थिति गली है तो वे सब कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभिन्न स्थितिवाले होते हैं ।

§ ४३७. इस सूत्रके सब पद यद्यपि सुगम हैं तथापि उसका भावार्थ यह है कि पूर्व
निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमे स्थित स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी जिसने
बन्ध समयसे लेकर एक समय अधिक जघन्य आवाधा आदि आगेकी सूत्रोक्त सब स्थिति-
विकल्पोसे न्यून कर्मस्थितिको गला दिया है उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले
नहीं होते अर्थात् उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके योग्य होते हैं, इसलिये इन सभी कर्मपरमाणुओं
का यथाशास्त्र उत्कर्षण होता है । और तब अतिस्थापना आवाधाप्रमाण होती है । किन्तु निक्षेप
एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ता हुआ, उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक
एक आवलिसे न्यून सत्तर कोडाकोडी सागरके प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है । इस सूत्रमें
'सागरोवमपुधत्तेण वा' यहां पर आया हुआ 'वा' शब्द अनुक्त विकल्पोंके समुच्चयके लिये है
जिससे दस सागरपृथक्त्व, सौ सागर पृथक्त्व, हजार सागरपृथक्त्व, लाख सागर पृथक्त्व,
कोडी सागर पृथक्त्व, अन्तःकोडाकोडी सागर और कोडाकोडी सागर पृथक्त्व ये सब सम्भव

मुत्तवियप्याणं देसाभासवभावेण वा एदेसिं संगहो कायव्वो ।

विकल्प प्रहण करने चाहिए या सूत्रोक्त विकल्प देशामर्षक होनेसे इन विकल्पोंका संग्रह करना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाया जा चुका है कि एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके अयोग्य हैं । अब पिछले दो सूत्रोंमें यह बतलाया गया है कि कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके योग्य हैं । इसका खुलासा करते हुए जो बतलाया गया है उसका भाव यह है कि उस एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंसम्बन्धी समयप्रबद्धोंकी स्थिति यदि आबाधासे एक समय आदि के क्रम से अधिक शेष रहती है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और ऐसा होते हुए जितनी आबाधा होती है बतना अतिस्थापनाका प्रमाण होता है तथा आबाधासे जितनी अधिक स्थिति होती है उतना निक्षेप का प्रमाण होता है । यदि आबाधासे एक समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण एक समय होता है । यदि दो समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण दो समय होता है । इसी प्रकार तीन समय, चार समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, एक दिन, एक मास, एक वर्ष, वर्षप्रयुक्त्व, एक सागर, सागर प्रयुक्त्व, दस सागर प्रयुक्त्व, सौ सागर प्रयुक्त्व, हजार सागर प्रयुक्त्व, लाख सागर प्रयुक्त्व, करोड़ सागर प्रयुक्त्व, अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर, कोड़ाकोड़ीसागर प्रयुक्त्वरूप जितनी स्थिति शेष रहती है उतना निक्षेपका प्रमाण होता है । इस प्रकार यदि उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण प्राप्त किया जाता है तो वह उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण प्राप्त होता है । यह उत्कृष्ट निक्षेप एक समय अधिक बन्धावलिको गलाकर उद्यावलिकी उपरितन स्थितिमें स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण करने पर प्राप्त होता है । परन्तु उस उद्यावलिकी उपरितन स्थितिमें अनेक समयप्रबद्धोंके परमाणु होते हैं, इसलिये किन परमाणुओंका उत्कर्षण करने पर यह उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है इसका खुलासा करते हैं—

किमी एक संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवने मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । फिर बन्धावलिको गलाकर उसने आबाधाके बाहर स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण करके उद्यावलिके बाहर निक्षेप किया । यहाँ उद्यावलिके बाहर द्वितीय समयवर्ती स्थितिमें अपकर्षण करके निक्षिप्त किया गया द्रव्य विवक्षित है, क्योंकि उद्यावलिके बाहर प्रथम समयमें निक्षिप्त द्रव्यका तदनन्तर समय में उद्यावलिके भीतर प्रवेश हो जाता है, इसलिये उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता । अनन्तर दूसरे समयमें उत्कृष्ट संक्लेशके वशसे उत्कृष्ट स्थितिको बांधता हुआ विवक्षित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करके उन्हें वह आबाधाके बाहर प्रथम निषेकस्थितिसे लेकर सब निषेक स्थितियोंमें निक्षेप करता है । केवल एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण अन्तिम स्थितियोंमें निक्षेप नहीं करता, क्योंकि उनमें निक्षेप करने योग्य उन कर्म परमाणुओंकी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । यहाँ उत्कृष्ट आबाधाके भीतर निक्षेप नहीं है और अन्तकी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितियोंमें निक्षेप नहीं है, इसलिये उत्कृष्ट स्थितिमेंसे इतना कम कर देने पर निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण प्राप्त होता है ।

अब यहाँ प्रकरणसे उत्कर्षणका काल, अतिस्थापना, निक्षेप और शक्तिस्थिति इन चार बातोंका भी खुलासा किया जाता है, क्योंकि इनको जाने बिना उत्कर्षणका ठीक तरहसे ज्ञान नहीं हो सकता ।

§ ४३८ संपहि उदयद्विदीदो हेद्विमासेसकम्मद्विदिसिचिदसमयपबद्धपदेसगगस्स अहियारद्विदीए अविसेसेण संभवविसयासंकाणिरायरणहुवारेण अवन्धुवियप्पाणं णवकबंधमस्सियूणं परूवणद्वसुत्तरसुत्ताणमवयारो । ण च एदेसिं परूवणा णिरत्थिया, तप्पदुप्पायणद्वहेण उक्कड्ढणाविसए सिस्साणं णिण्णयजणणेण एदिस्से फलोवलंभादो ।

१ उत्कर्षणका काल—उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है। अर्थात् जब जिस कर्मका बन्ध हो रहा हो तभी उस कर्मके सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ—यदि कोई जीव साता प्रकृतिका बन्ध कर रहा है तो उस समय सत्तामें स्थित साता प्रकृतिके कर्मपरमाणुओंका ही उत्कर्षण होगा असाताके कर्म परमाणुओं-
। नहीं।

२ अतिस्थापना—कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण होते समय उनका अपनेसे ऊपरकी जितनी स्थितिमें निक्षेप नहीं होता वह अतिस्थापनारूप स्थिति कहलाती है। अव्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण होती है। किन्तु व्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है।

३ निक्षेप—उत्कर्षण होकर कर्मपरमाणुओंका जिन स्थितिविकल्पमें पतन होता है उनकी निक्षेप संज्ञा है। अव्याघात दशामें जघन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून मात्रा कोड़ाकोड़ी सागर है। तथा व्याघात दशामें जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

४ शक्तिस्थिति—बन्धके समय उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होने पर अन्तिम निषेककी सबकी सब व्यक्तस्थिति होती है। आशय यह है कि अन्तिम निषेककी एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती। तथा इससे उपान्त्य निषेककी एक समयमात्र शक्तिस्थिति होती है और शेष स्थिति व्यक्त रहती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक निषेक नीचे जाने पर शक्तिस्थितिका एक एक समय बढ़ता जाता है और व्यक्तस्थितिका एक एक समय घटना जाना है। इस क्रममें प्रथम निषेककी शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका विचार करने पर व्यक्तस्थिति एक समय अधिक उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण प्राप्त होती है और इस व्यक्तस्थितिको पूरी स्थितिमेंसे घटा देने पर जितनी स्थिति शेष रहे उतनी शक्तिस्थिति प्राप्त होती है। यह तां बन्धके समय जैसी निषेक रचना होती है उसके अनुसार विचार हुआ। किन्तु अपकर्षणसे इसमें कुछ विशेषता आ जाती है। बात यह है कि अपकर्षण द्वारा जिस निषेककी जितनी व्यक्तस्थिति घट जाती है उसकी उतनी शक्तिस्थिति बढ़ जाती है। यह उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेक्षा शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका विचार है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध न होने पर जितना स्थितिवन्ध कम हो उतनी अन्तिम निषेककी शक्तिस्थिति होती है और शेष निषेकोंकी इसीके अनुसार शक्तिस्थिति बढ़ती जाती है।

§ ४३८. अब उदयस्थितिसे नीचेकी सब कर्मस्थितियोंमें संचित हुए समयप्रबद्धों सम्बन्धी कर्म परमाणुओंके अधिकृत स्थितिमें सामान्यसे सम्भव होनेरूप आशंकाके निराकरण-द्वारा नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तु विकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं। यदि कहा जाय कि इन विकल्पोंका कथन करना निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि इनके कथन करनेका यही फल है कि इससे शिष्योंको उत्कर्षणके विषयमें ठीक ठीक निर्याय करनेका अवसर मिलता है।

✽ समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स एगो समओ पबद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु, दो समया पबद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु, तिणिण समया पबद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु, एबं खिरंतरं गंतूण आवलिया पबद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु ।

॥ ४३६ जा पुव्वमाइहा समयाहियाए उदयावलियाए चरिमद्विदी तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स पबद्धस्स पारद्धबंधस्स बंधसमयप्पहुडि एओ समओ अइच्छिदा ति अइक्कंतो ति अवत्थु । त पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए णत्थि । कुदो आवाहामेत्तसुवरि गंतूण तस्सावहाणादो । एवं सवत्थ वत्तव्वं । अहवा जा समयाहियाए उदयावलियाए द्विदी एदिस्से द्विदीए जं पदेसग्गं तमादिद्विमिदि पुव्वं परूविदं । तिस्से च द्विदीए उदयद्विदीदो हेट्ठिमासेसमयपबद्धाणं पदेसग्गमत्थि आहो णत्थि संतं वा किमुकड्ढणदो भ्मीणट्ठिदिगमभ्मीणट्ठिदिगं वा उक्कड्ढिज्जमाणं वा कंथियमद्धाण-मुकड्ढिज्जइ का वा एदस्स अधिच्छावणा णिकवेवो वा ति ण एसो विसंसो सम्म-मवहारिओ तदो तप्परूवणट्ठमेदंसिं सुताणमवयारो ति वक्खाणेयव्वं ।

* एक समय अधिक उदयावलिनी जो अन्तिम स्थिति है उसमें वे कर्म-परमाणु नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद एक समय व्यतीत हुआ है, वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद दो समय व्यतीत हुए हैं, वे कर्म परमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद तीन समय व्यतीत हुए हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर ए से कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद एक आवलि व्यतीत हुई है ।

॥ ४३६. जिन कर्मपरमाणुओंका बन्धके बाद अर्थात् बन्धसमयसे लेकर एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्मपरमाणु पूर्वमे जो एक समय अधिक उदयावलिनी अन्तिम स्थिति कह आये हैं उसमे अवस्तु हैं । अर्थात् वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्यों कि आवाधाके बाद उनका सङ्ग्रह पाया जाना है । इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिये । अथवा यहाँ यह व्याख्यान करना चाहिये कि एक समय अधिक उदयावलिनी जो अन्तिम स्थिति है और इसके जो कर्म परमाणु हैं वे यहा विवक्षित हैं ऐसा जो पहले कहा है सो उस स्थितिमें उदय स्थितिसे नीचेके अर्थात् पूर्वके सब समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणु हैं या नहीं हैं । यदि हैं तो वे क्या उत्कर्षणसे भ्मीन स्थितिवाले हैं या अभ्मीन स्थितिवाले हैं । यदि उत्कर्षण होता है तो कितना उत्कर्षण हांता है । तथा इनका अतिस्थापना और निक्षेप कितना है । इस प्रकार यह सब विशेषता भले प्रकारसे ज्ञात नहीं हुई, इसलिये इस विशेषताका कथन करनेके लिये इन सूत्रोंका अवतार हुआ है ऐसा यहाँ व्याख्यान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमें यह बतलाया है कि एक समय अधिक उदयावलिनी अन्तिम स्थितिमें किन समयप्रबद्धोंके कर्म परमाणु नहीं पाये जाते । ऐसा नियम है कि बंधे हुए कर्म अपने बन्धकालसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालतक तदवस्थ रहते हैं । एक यह भी नियम है कि बंधने-वाले कर्मकी अपने आवाधाकालमे निषेक रचना नहीं पाई जाती । इन दो नियमोंका ध्यानमें रख कर यदि विचार किया जाता है तो इससे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान कालसे एक

§ ४४० एवमेदेण सुत्तण आवलियमेत्ते अन्तधुवियप्ये परूविय संपहि उक्कट्टणपाओग्गवत्थुवियप्पपरूवणहम्मत्तरसुत्तं भणइ—

✽ तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिआ बद्धस्स अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज्ज ।

§ ४४१ एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुद्धे—तिस्से चेव पुव्वणिहद्धसमयाहिया-वलियचरिमद्विदीए पदेसग्गस्स उक्कस्सदो दोआवलियपरिहीणकम्मद्विदिमेत्तसमय-पवद्धपडिबद्धस्स अन्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स बंधसमयादो पडुडि उदयद्विदीदो हेद्दा समयुत्तरावलिआ अधिच्छिदा सो एत्थ आदेसो होज्ज । आदिश्यत इत्यादेशो विवत्तितस्थितौ वस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत् । कथमेदस्स आवाहादो उवरि णिसित्तस्स आदिद्विदीए संभवो ? ण, बंधावलिआए वोलीणाए एगेए समएणोकट्टिय पयदद्विदीए णिक्खित्तस्स तत्थत्थित्तं पडि विरोहाभावादो । ण एस कपो

आवलि तक पूर्वके बंधे हुए समयप्रबद्धोके कर्मपरमाणुओका विवत्तित स्थितिमें अर्थात् एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें पाया जाना सम्भव नहीं है । यहां वर्तमान काल ही उदयकाल है और इससे लेकर एक आवलिकाल उदयावलि काल कहलाना है तथा इससे आगेकी स्थिति एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थिति कहलानी है । अब वर्तमान काल अर्थात् उदयकालमें विचार यह करना है कि उक्त स्थितिमें कितने समयप्रबद्धोके कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते । प्रकृत सूत्रमें इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है । उसका आशय यह है कि उदय-कालसे पूर्व एक आवलि काल तकके बंधे हुए समयप्रबद्ध उक्त स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्योंकि उक्त स्थिति आबाधाकालके भीतर आ जाती है और आबाधाकालमें निपेक रचना नहीं होती यह पहले ही लिख आये है ।

§ ४४०. इन प्रकार इस सूत्र द्वारा आवलिप्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोका कथन करके अब उत्कर्षण के योग्य वस्तुरूप विकल्पोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ किन्तु उसी स्थितिमें वे कर्म परमाणु हैं जिनकी बाँधनेके बाद एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है ।

§ ४४१. अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं—उसी पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जो कर्मपरमाणु हैं वे यद्यपि उत्कृष्ट रूपसे दो आवलिकर्म कर्म स्थितिप्रमाण समयप्रबद्धोंके हैं तथापि इनके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंकी बन्ध समयसे लेकर उदय स्थितिसे पहले-पहले एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हो गई है उनका यहाँ सङ्भाव है । आदेश का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—आदिश्यते अर्थात् विवत्तित स्थितिमें वास्तविक रूपसे अवस्थित प्रदेश ।

शंका—जब कि बन्धके समय सब कर्मपरमाणु आबाधामें ऊपरकी स्थितिमें निक्षिप्त किये जाते हैं तब वे विवत्तित स्थितिमें कैसे सम्भव हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धावलि के व्यतीत होनेके पश्चात् एक समय द्वारा अपकर्षण करके आबाधासे उपरितन स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें निक्षिप्त कर दिये जाते हैं, इसलिये इनका बहाँ अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

पुव्वुचावलियमेत्तसमयपवद्धपरमाणुमत्थि, तेसि बंधावलियाए असमत्तीदो उक्कङ्कापाओग्गत्ताभावादो । समाणिदबंधावलियस्स वि तत्थतणचरिमवियप्पपडिग्गहियसमयपवद्धस्स उदयसमयमहिद्धिदजीवेणोक्कङ्कावावदेण णिरुद्धिदिविसयमाणिदस्स संतस्स वि पयदुक्कङ्काणुवजोगित्तेणावत्थुत्तं पडिवज्जेयव्वं । तदां तेसिमेत्थावत्थुत्तमेदस्स च वत्थुत्तं सिद्धं ।

§ ४४२. एवमादिदस्स पदेसग्गस्स उक्कङ्काणाद्धानपरूवणमुत्तरसुत्तेण कुणइ—

❀ तं पुण पदेसग्गं कम्मट्ठिदिं णो सक्का उक्कङ्किदुं, समयाहियाए आवलियाए ऊणियं कम्मट्ठिदिं सक्का उक्कङ्किदुं ।

§ ४४३. कुदो ? एतियमेत्तीए चेव सत्तिद्विदीए अवह्दिदत्तादां । एदं जह्दिदि पडुच्च वुत्तं । णिसेयट्ठिदिं पुण पडुच्च दुसमयाहियदो आवलियाहि ऊणियं कम्म-

किन्तु यह क्रम पूर्वोक्त आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणुओंका नहीं बनता, क्योंकि उनकी बन्धावलि समाप्त नहीं हुई है, इसलिये तब अपकर्षणकी योग्यता नहीं पाई जाती है। बन्धावलिके समाप्त हो जाने पर भी जो समयप्रबद्ध वहाँ अन्तिम विकल्परूपसे स्वीकृत है उसका उदय समयमें स्थित जीवके द्वारा अपकर्षण होकर वह यद्यपि निर्दिष्ट स्थितिके विषय-भावको प्राप्त हो रहा है फिर भी प्रकृत उत्कर्षणके अयोग्य होनेसे वह अवस्तु है, इसलिये उसे छोड़ देना चाहिये। इसलिए उदय समयसे पूर्वकी एक आवलिके भीतर बंधनेवाले कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें नहीं हैं और जिन कर्मपरमाणुओंको बंधे हुए बन्ध समयसे लेकर उदय समय तक एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें हैं यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ—पहले यह बतला आये है कि प्रकृत स्थितिमें कितने समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते हैं। अब इस सूत्रद्वारा यह बतलाया गया है कि प्रकृत स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंको बंधे एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना सम्भव है। इसपर यह शंका हुई कि जब कि आबाधा कालके भीतर निष्क रचना नहीं होती और प्रकृत स्थिति आबाधा कालके भीतर पाई जाती है तब फिर इस स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंको बंधे हुए एक समय अधिक एक आवलिकाल व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना कैसे सम्भव है। इस शंकाका मूलमें जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि बन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर बंधे हुए द्रव्यका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदीरणा हो सकती है, इसलिये एक समय अधिक एक आवलि पूर्व बंधा हुआ द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं आती।

§ ४४२. अब इस प्रकार विवक्षित हुए कर्मपरमाणुओंके उत्कर्षण अध्यानका कथन आगेके सूत्रद्वारा करते हैं --

❀ किन्तु उन कर्म परमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता। हाँ एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है।

§ ४४३. क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें इतनीमात्र शक्तिस्थिति पाई जाती है। तथापि यह कथन यत्स्थितिकी अपेक्षासे किया है। निर्विकस्थितिकी अपेक्षासे विचार करने पर

द्विदि सकमुकट्टिदुमिदि वत्तव्वं, उदयद्विदीदो समयाहियउदयावलयमेत्तमद्दाण-
 सुवरिं गंतूण पयदणिसेयस्स अवहाणादो । एदस्स सुत्तस्स भावत्थो—उदयद्विदीदो
 हेहा समयाहियावलयमेत्तमद्दाणमोयरिय बद्धसमयपवद्धप्पहुडि सेसासेसकम्मद्विदि-
 अब्भंतरसंचिदसमयपवद्धपरमाणूणमहियारद्विदीए अत्थित्ते विरोहो णत्थि तदो ण ते
 उक्कहुणादो भीणद्विदिया । उक्कट्टिज्जमाणा च ते जेतियमद्दाणं हेहदो आयरिय
 बद्धा तेत्तियमेत्तेणूणयं कम्मद्विदिमावाहमेत्तमविच्छाविय णवकवंधस्सुवरि
 णिक्खिक्खिर्णति, तोत्तयमेत्तीए चेव मत्तिद्विदीए अवसिद्वत्तादो ति । णवारि कम्मद्विदीए
 आदीदो प्पहुडि जहण्णावाहमेत्ताणं समयपवद्धाणं जहामंभवमुत्तहण्णादो भीणद्विदियत्तं
 पुत्तिल्लपरूवणादो जाणिय वत्तव्वं । ण पुत्तिल्लपरूवणादो एदिस्से णवकवंध-
 मस्सियूण पयट्टाए अवत्थु-वत्थुपरूवणाए अविमिद्वत्तमासंक्कणज्जं, तिस्से कम्मद्विदीए
 आदीदो प्पहुडि पुत्ताणुपुत्तीए संतकम्ममस्सियूण वावदत्तादो, एदिस्से चेव
 णवकवंधमस्सियूण पच्छाणुपुत्तीए पयट्टत्तादो । पढमपरूवणाए संतकम्ममस्सियूण
 आवलियमेत्ता अवत्थुवियप्पा किण्ण परूविदा ? तं जहा—मत्तरिसागरांभव-
 कोडाकोडिमेलकम्मद्विदिं सव्वं गालिय पुणो से काले णिण्णलेविद्विदि ति उदयद्विदीए
 द्विदपदेसगमेदिस्से समयाहियावलयचरिमद्विदीए अवत्थु । तिस्से चेव द्विदीए

तो दो समय अधिक दो आवलित्से न्यून कर्मस्थितिप्रमाण ही उत्कर्षण हो सकता है
 ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये, क्योंकि उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक
 आवलिप्रमाण स्थान ऊपर जाकर ही प्रवृत्त निपेक स्थित है। उस सूत्रका यह भावार्थ है कि
 उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उतर कर जो समयप्रवृद्ध बंधा
 है उससे लेकर बाकीकी सब कर्मस्थितिके भीतर संचित हुए समयप्रवृद्धोके कर्मपरमाणुओका
 विचक्षित स्थितिमें अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है, इसलिये वे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले
 नहीं हैं। उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थान नीचे (पीछे) जाकर वे बंधे होते हैं उतने स्थानसे
 न्यून शेष रही कर्मस्थितिमें उनका उत्कर्षण होता है। उसमें भी आवाधाप्रमाण अतिस्थापनाका
 छोड़कर नवकबन्धमें इनका निक्षेप होता है। शेष रही कर्मस्थितिमें इनका उत्कर्षण इत्थिण होता
 है कि उनकी उत्तरी ही शक्तिस्थिति शेष है। किन्तु इतनी विशेषता है कि कर्मस्थितिके आदिसे
 लेकर जो जघन्य आवाधाप्रमाण समयप्रवृद्ध हैं वे यथासम्भव उत्कर्षणमें भीनस्थितिवाले हैं
 यह कथन पहले की गई प्ररूपणासे जानकर करना चाहिये। यदि कहा जाय कि पूर्व प्ररूपणासे
 नवकबन्धकी अपेक्षा अयस्तु और वस्तु विकल्पोंके कथनमें प्रवृत्त हुई इस प्ररूपणामें कोई विशेषता
 नहीं है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व प्ररूपणा कर्मस्थितिके प्रारम्भसे
 लेकर पूर्वानुपूर्वसे सत्कर्मकी अपेक्षा प्रवृत्त हुई है और यह प्ररूपणा नवकबन्धकी अपेक्षा
 पश्चादानुपूर्वसे प्रवृत्त हुई है, इसलिये इन दोनों प्ररूपणाओंमें अन्तर है।

शंका — प्रथम प्ररूपणमें सत्कर्मकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अयस्तरूप विकल्पोका
 कथन क्यों नहीं किया है ? जिनका खुलसा इस प्रकार है—सत्तर कोडाकोडी सागरप्रमाण सब
 कर्मस्थितिको गलाकर फिर तदनन्तर समयमें उस कर्मस्थितिका अभाव होगा। इस प्रकार केवल
 उदय स्थितिमें स्थित उस कर्मस्थितिके कर्मपरमाणु इस एक समय अधिक आवलिकी अन्तिम

जस्स पदेसगसस दुसमयूणा कम्मट्ठिदी विदिकंता त्ति एदं पि अवत्थु । एवं पिरंतरं गंतूण जइ वि आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिकंता होज्ज तं पि अवत्थ त्ति । एवमेदे अवत्थुवियप्पे आवलियमेत्ते अपरूविय समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी जस्स विदिकंता तदां एवहुदि वत्थुवियप्पाणं भौणाभौणट्ठिदियत्तगवेसणं कुणमाणस्स चुण्णिमुत्तयारस्स को अहिप्पाओं त्ति ? ण एस दोसो, समयाहिया-वलियमेत्तावसिद्धकम्मट्ठिदियस्स समयपवद्धपदेसगसस उक्कणादो भौणट्ठिदियस्स परूवणाए चैव तेसिमवत्थुवियप्पाणमणुत्तसिद्धीदो । ण च एदंहादो हेट्ठिमाणमेत्तिय-मेत्ती ट्ठिदी अत्थि जेणेदेसिमेत्थ वत्थुत्तसंभवो होज्ज, विरोहादो । ण च संतमत्थं मुत्तं ए विसईकरेइ, तस्म अवावयत्तावत्तीदो । तदां तप्परिहारदुवारेण सेसपरूवणादो चैव तेसिमवत्थुत्तं मुत्तयारेण सुत्तदमिदि ण किं चि विरुद्धं पेन्द्धामो । णवकबन्ध-मस्सियूण परूविदाणमावलियमेत्ताणमेदेसिमवत्थुवियप्पाणं देमामासयभावेण वा तेसिमेत्थ परूवणा कायच्चा ।

स्थितिमें नहीं पाये जाते । तथा जिन कर्मपरमाणुओंको दो समय कम पूरी कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । इसी प्रकार निरन्तर जाकर यदि एक आवलिकम कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो वे एक आवलिके कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । इस प्रकार एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्पोका कथन न करके चूर्णिसूत्रकार ने जो 'एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति त्रिसकी व्यतीत हो गई है' यहाँसे लेकर वस्तुविकल्पोंमें भौणाभौणस्थितिपनेका विचार किया है सो उनका इस प्रकारके कथन करनेमें क्या अभिप्राय है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब एक समय अधिक एक आवलि शेष रही कर्मस्थितिसम्बन्धी समयप्रवद्धोंके कर्मपरमाणुओंको उत्कर्षणके अयोग्य कह दिया तब इहाँसे उन आवलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोंकी बिना कहे सिद्धि हो जाती है । और एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिसे नीचेके निषेकोंकी इतनी अर्थान् एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थिति तो हो नहीं सकती जिससे इन नीचेके निषेकोंका यहाँ सद्भाव माना जावे, क्योंकि ऐसा होनेमें विरोध आता है । और सूत्र जो अर्थ विद्यमान है उसे विषय नहीं करता यह बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा होनेपर सूत्रको अव्यापक मानना पड़ेगा । इसलिये उन आवलिप्रमाण विकल्पोंका कथन न करके सूत्रकारने शेष प्ररूपणा द्वारा ही उनका असद्भाव सूचित कर दिया है, इसलिए इस कथनमें हम कोई विरोध नहीं देखते । अथवा इस दूसरी प्ररूपणामें जो नवकबन्धकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्प कहे गये हैं उनके देशामर्परूपसे प्रथम प्ररूपणाम्बन्धी उन एक आवलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोंकी यहाँ प्ररूपणा कर लेनी चाहिये ।

विशेषार्थ—इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने कई बातों पर प्रकाश डाला है । यथा—

(१) नवकबन्धके जो कर्मपरमाणु अपकर्षित होकर विवक्षित स्थिति अर्थान् एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए हैं उनका उत्कर्षणके समय बांधनेवाले

कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो सकता है ?

(२) पूर्व प्ररूपणासे इस प्ररूपणामें तात्त्विक अन्तर क्या है ?

(३) पूर्व प्ररूपणामें क्या अवस्तु विकल्प सम्भव हैं यदि हों तो उनका उस प्ररूपणाका विवेचन करते समय कथन क्यों नहीं किया ?

इनका क्रमशः सुलासा इस प्रकार है—

(१) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मों में दो प्रकारकी स्थिति होती है— एक व्यक्तस्थिति और दूसरी शक्तिस्थिति । जिस कर्मकी जितनी उत्कृष्ट कर्मस्थिति होती है उस कर्मके अन्तिम निषेककी वह व्यक्तस्थिति है । उस अन्तिम निषेकमें शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेष निषेकमें यथासम्भव शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ एक कर्मकी ४८ समय कर्मस्थिति है । इसमेंसे प्रारम्भके १२ समय आवाधाके निकाल देने पर शेष ३६ समयोंमें निषेक रचना हुई । इस प्रकार पहले निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी और दूसरे निषेककी १४ समय स्थिति पड़ी । इसप्रकार उत्तरोत्तर एक एक निषेक की एक एक समयप्रमाण स्थित बढ़ कर अन्तिम निषेककी ४८ समय स्थिति पड़ी । यह सबकी सब स्थिति व्यक्तस्थिति है । अब जो प्रथम निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी है सो उसके सिवा उमकी शेष ३५ समय स्थिति शक्तिस्थिति है । दूसरे निषेककी १४ समय के सिवा शेष ३४ समय शक्तिस्थिति है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । इस उदाहरणमें स्पष्ट है कि उत्कृष्ट कर्मस्थितिके अन्तिम निषेकमें शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेष निषेकोंमें शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों प्रकारकी स्थितियाँ पाई जाती हैं ।

अब किसी एक जीवने बन्धावलिके बाद नवकबन्धका अपकर्षण करके उसका उद्यावलिके ऊपर प्रथम स्थितिमें निक्षेप किया और तदनन्तर समयमें वह उसका उत्कर्षण करना चाहता है तो यहाँ यह विचार करना है कि इस अपकर्षित द्रव्यका तत्काल बंधनेवाले कर्म के ऊपर कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो कर निक्षेप होगा । यह अपकर्षण बन्धावलिके बाद हुआ है, इसलिये एक आवलि तो यह कम हो गई और एक समय अपकर्षणमें लगा, इसलिये एक समय यह कम हो गया । इस प्रकार प्रकृत कर्मस्थितिमेंसे एक समय अधिक एक आवलिके घटा देने पर जो शेष कर्मस्थिति बची है तत्काल बंधनेवाले कर्मकी उतनी स्थितिमें इस अपकर्षित द्रव्यका उत्कर्षण हो सकता है । उदाहरणार्थ पहले जो ४८ समय स्थितिवाले नवकबन्धका दृष्टान्त दे आये हैं सो उसके अनुसार बन्धावलिके ३ समय बाद चौथे समयमें आवाधाके ऊपरके द्रव्यका अपकर्षण करके उसे उद्यावलिके ऊपरकी स्थितिमें निक्षेप किया । यहाँ बन्धावलिके बाद उद्यावलिके ले लेना चाहिये और उद्यावलिके बाद एक समय छोड़कर अगली स्थितिमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप कराना चाहिये, क्योंकि एक समय अपकर्षणरूप क्रियामें लग कर दूसरे समयमें वह उद्यावलिके प्रविष्ट हो जाता है । इस हिसाबसे अपकर्षित होकर स्थित हुए द्रव्यका आठवें समयमें उत्कर्षण होगा । पर यह उत्कर्षण की क्रिया बन्धावलिके बाद दूसरे समयमें हो रही है इसलिये सर्व स्थिति ४८ समयमेंसे बन्धावलिके ३ और अपकर्षणका १ इस प्रकार ४ समय घटा देने पर तत्काल बंधनेवाले कर्ममें आवाधाके बाद १३ समयसे लेकर ४४ वें समयतक इस द्रव्यका निक्षेप होगा । इस प्रकार इसकी स्थिति एक समय अधिक बन्धावलिके न्यून ४४ समय प्राप्त हुई । यह यत्स्थिति है । उत्कर्षण और संक्रमणके समय जो स्थिति रहे वह यत्स्थिति है । किन्तु उत्कर्षण उद्यावलिके ऊपरके निषेक में स्थित द्रव्यका हुआ है, इसलिये निषेकस्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि और घट जाती है, इसलिये

५ ४४४ एवमेतिपण पबंधेण पुव्वभिरुद्धाए ढिदीए उक्कड्ढादो मीणाभीण-
 ढिदियपदेसग्गवेसणं काऊण तस्संबंधेण च पसंगागयमनत्थवियप्पपरूवणं समाब्धि
 संपहि पयदमत्थमुवसंहरेमाणो इदमाह—

✽ एदे वियप्पा जा समयाहियउवयावलिाया तिस्से ढिदीए
 पदेसग्गस्स ।

५ ४४५ गयत्थमेदमुवसंहारमुत्तं । एवं विस्सरणालुआणं सिस्साणं पुव्वुत्तमहं
 संभालिय संपहि एदेसिमेव वियप्पाणमप्पणमुवरि वि एदेण समाणपरूवणेसु
 ढिदिद्विसेसेसु कुणमाणो मुत्तमुत्तरं भणइ—

नियेकस्थिति ४४ समय न प्राप्त होकर ४७ समय प्राप्त होगी । इस प्रकार अपकर्षित द्रव्यका
 उत्कर्षणके समय बंधनेवाले कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो सकता है इसका विचार हुआ ।

(२) प्रथम प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा विचार किया है उसमें बतलाया है कि जिस
 कर्मकी केवल एक समय अधिक उद्यावलिप्रमाण कर्मस्थिति शेष रही है उसका उत्कर्षण नहीं हो
 सकता । जिसकी दो समय अधिक उद्यावलिप्रमाण कर्मस्थिति शेष है उसका भी उत्कर्षण नहीं
 हो सकता । तात्पर्य यह कि उत्कर्षणके समय बंधनेवाले कर्मकी जिनकी आवाधा पड़े उतनी
 स्थितिके शेष रहने तक सत्तामें स्थित कर्मों का उत्कर्षण नहीं हो सकता । हाँ सत्कर्मकी आवाधासे
 अधिक स्थितिके शेष रहने पर नूतन बन्धमें उसका उत्कर्षण हो सकता है । इस प्रकार प्रथम
 प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा पूर्वानुपूर्वीसे विचार किया है । किन्तु इस दूसरी प्ररूपणामें यह
 बतलाया है कि नूतन बन्ध होने पर बन्धावलि तक तो वह तदवस्थ रहता है । हाँ बन्धावलिके
 बाद अपकर्षण होकर उसका तत्काल बंधनेवाले कर्ममें उत्कर्षण हो सकता है । इस प्रकार दूसरी
 प्ररूपणामें पश्चानुपूर्वीसे नूतन बन्धके उत्कर्षणका विचार किया है, उसलिये इन दोनों
 प्ररूपणाओंमें तात्त्विक भेद है ।

(३) जब यह बतला दिया कि जिस कर्मकी स्थिति एक समय अधिक एक आवलि शेष
 है उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता तब यह अर्थ सुतरा फलित हो जाना है कि जिस कर्मकी एक
 समय, दो समय, तीन समय दुमी प्रकार उद्यावलिप्रमाण स्थिति शेष है उसका न तो उत्कर्षण
 ही हो सकता है और न उस स्थितिके कर्म परमाणुओंका एक समय अधिक उद्यावलिकी
 अन्तिम स्थितिमें ही पाया जाना सम्भव है । यही कारण है कि प्रथम प्ररूपणामें एक आवलि-
 प्रमाण अवस्तु विकल्पाके रहने हुए भी उनका निर्देश नहीं किया है ।

५ ४४५. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा दो बातोंका विचार किया । प्रथम तो यह विचार
 किया कि पूर्व निरुद्ध स्थितिमें कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे मीन स्थितिवाले हैं और कौनसे
 कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अमीन स्थितिवाले हैं । दूसरे इसके सम्बन्धसे प्रसंगानुसार अवस्तु
 विकल्पोंका कथन किया । अब प्रकृत अर्थके उपसंहार करनेकी इच्छासे अगला सूत्र कहते हैं—

✽ एक समय अधिक उद्यावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उसके कर्म
 परमाणुओंके इतने विकल्प होते हैं ।

५ ४४५. इस उपसंहार सूत्रका अर्थ गतार्थ है । इस प्रकार विस्मरणशील शिष्योंको पूर्वोक्त
 अर्थकी संज्ञा कर कर अब जिन स्थितियोंकी प्ररूपणा इस स्थितिके समान है उनमें इन सब
 विकल्पोंको बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ एदे श्वेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिाया तिस्से ढिदीए पदेसग्गस्स ।

§ ४४६ एदस्स मुत्तस्स अत्थो उब्बदे । तं जहा—जे ते पुव्वणिहद्धसमयाहिय-उदयावलिावचरिमहिदीए दोहि षि परूवणाहि परूविदा वियप्पा एदे श्वेव अण्णाहिया वतन्वा जा दुसमयाहिया उदयावलिाया तिस्से ढिदीए पदेसग्गस्स णिरुंभणं काऊण । जवरि पइमपरूवणाए कीरमाणाए एदिस्से ढिदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलिायाए ऊणिया कम्महिदी विदिकंता बद्धस्स तं कम्ममुकट्टणाए अवत्थु, हेट्ठिमाए चैव ढिदीए तस्स णिह्विदकम्महिदियत्तादो । तदो हेट्ठिमाणं पुण अवत्थुत्तं पुव्वं व अणुत्तसिद्धं । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ दुसमयाहियाए आवलिायाए ऊणिया कम्महिदी विदिकंता तं कम्ममेत्थ आदेसो होतं पि ण सकमुकट्टिदुं; ततो उवरि सचि-ढिदीए एगस्स वि समयस्स अभावादो । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि तिसमयाहियाए आवलिायाए ऊणिया कम्महिदी विदिकंता तं पि उक्कट्टणादो भीणहिदियं । एत्थ कारणमणंतरपरूविदं । एतो उवरि पुव्वं व सेसजहण्णावाहमेत्ता भीणहिदिय-वियप्पा उप्पाएयन्वा । ततो परमभीणहिदिया, जहण्णावाहमेत्तमविच्छाविय एक्किस्से ढिदीए णिक्खेवस्स तदणंतरउवरिमवियप्पे संभवादो । एदेण कारणेण अवत्थुवियप्पा

❀ दो समय अधिक उदयावलिाकी जो अन्तिम स्थिति है उस स्थितिके कर्म परमाणुओंके भी ये ही सबके सब विकल्प होते हैं ।

§ ४४६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावलिाकी अन्तिम स्थितिके दोनो ही प्ररूपणाओंके द्वारा जितने भी विकल्प कहे हैं न्यूनाधिक किये बिना वे सबके सब विकल्प यहां भी दो समय अधिक उदयावलिाकी अन्तिम स्थितिके कर्म परमाणुओंको विवक्षित करके कहने चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम प्ररूपणाके करने पर यदि बन्ध ढानेके बाद कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं होते, क्योंकि इस विवक्षित स्थितिसे नीचेकी स्थितिमें ही उन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति समाप्त हो गयी है । किन्तु इससे नीचेकी स्थितिओंके कर्मपरमाणुओंका इस विवक्षित स्थितिमें नहीं पाया जाना पहलेके समान अनुक्तसिद्ध है । उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु यद्यपि इस विवक्षित स्थितिमें पाये अद्यय जाते हैं परन्तु उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर शक्तिस्थितिका एक भी समय नहीं पाया जाता है । उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं । ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले क्यों हैं इसका कारण पहले कह आये हैं । इसी प्रकार इसके आगे भी पहलेके समान बाकाके जघन्य आबाधाप्रमाण भीन स्थितिविकल्प उत्पन्न कर लेने चाहिये । इससे आगे अमीन स्थितिविकल्प होते हैं, क्योंकि इसके आगेके विकल्पमें जघन्य आबाधाप्रमाण स्थितिको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके आबाधाके उपरकी एक स्थितिमें निक्षेप सम्भव है । इस कारणसे यहाँ अबस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं

रूवाहिया भीणद्विदियवियप्पा च रूवूणा होंति । अभीणद्विदिएसु णत्थि णाणत्तं । विदियपरूवणाए वि पदिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स एगो समओ पबद्धस्स अइच्छिदो ति अवत्थु । दो समया पबद्धस्स अभिच्छिदा ति अवत्थु । एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया समयपबद्धस्स पुब्बं व अइच्छिदा ति अवत्थु । तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया बद्धस्स अइच्छिदा ति एसो आदेसो होज्ज । तं पुण पदेसग्गं कम्मद्विदिं णो सक्कमुक्कड्ढिदुं, समयाहियाए आवलियाए णिसेगं पडुच्च तिसमयाहियदो आवलियाहि वा ऊणियं कम्मद्विदिं सक्कमुक्कड्ढिदुं, तैत्थियमेत्तीए चेव सत्तिद्विदीए अवसेसादो ति । एत्तिओ चेव विसेसो णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । एसो चेव विसेसो सुत्तणिल्लीणो चेय पज्जवट्टियणयावलंबणेण परूविदो ण मुत्तवहिग्गुदो ति ।

और मीन स्थितिविकल्प एक कम होते हैं । हाँ अभीन स्थितियोमे काँई भेद नहीं है । दूसरी प्ररूपणाके करने पर भी जिन कर्मपरमाणुओंका बन्ध करनेके बाद एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमे नहीं हैं । जिन्हें बांधनेके बाद दो समय व्यतीत हुए हैं वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर बांधनेके बाद जिन्हे एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । मात्र जिन कर्मपरमाणुओंका बांधनेके बाद एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें हैं । किन्तु उन कर्मपरमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता; किन्तु यत्स्थितिकी अपेक्षा एक समय अधिक एक आवलि कम कर्मस्थितिप्रमाण और निषेक स्थितिकी अपेक्षा तीन समय अधिक दो आवलिकम कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है; क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें उनकी ही शक्ति स्थिति शेष है । इस प्रकार इस स्थितिकी अपेक्षा इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र और काँई विशेषता नहीं । किन्तु यह विशेषता सूत्रमें गर्भित है जिसका पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे कथन किया गया है । अतः यह विशेषता सूत्रके बाहर नहीं है ।

विशेषार्थ—पहले एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे दो प्रकार की प्ररूपणाओ द्वारा उत्कर्षणविषयक प्ररूपणा की गई रही । अब यहाँ दो समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे उत्कर्षण विषयक प्ररूपणा की गई है । सां सामान्यसे इन दोनों स्थितियोमें स्थित कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा उत्कर्षण विषयक प्ररूपणामें काँई अन्तर नहीं है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा जो भी थोड़ा बहुत अन्तर है उसका उल्लेख टीकाके कर ही दिया है । पहली प्ररूपणाके अनुसार तो यह अन्तर बतलाया है कि एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमे जितने अवस्तुविकल्प और मीन स्थिति-विकल्प होते हैं उनसे इस विवक्षित स्थितिमे अवस्तु विकल्प एक अधिक और मीन स्थिति-विकल्प एक कम होते हैं । पूर्वमे उदयावलिके ऊपरकी प्रथम स्थितिको लेकर विचार किया गया था, इसलिये अवस्तु विकल्प एक आवलिप्रमाण थे किन्तु यहाँ उदयावलिके ऊपर द्वितीय स्थितिका लेकर विचार किया जा रहा है इसलिये यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक हो गया है । और यहाँ आबाधामें एक समय कम हो गया है इसलिये पहलेसे मीनस्थिति विकल्प एक कम हो गया है । तथा दूसरी प्ररूपणाके अनुसार निषेकस्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षण एक समय घट जाता है, क्योंकि जिस स्थितिका उत्कर्षण हो रहा है उसमें एक समय बढ़ गया है, इसलिये शक्तिस्थितिमें एक समय घट जाने से निषेकस्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षण एक समय कम प्राप्त होता है ।

⊗ एवं तिसमयाहियाए बहुसमयाहियाए जाव आबाधाए आबलियूणाए एबदिमादो ति ।

१४४७. एतथ उदयावलियाए इदि अणुवट्टेदे । तेणवं संबंधो कायव्वो, जहा समयाहियाए दुसमयाहियाए च उदयावलियाए णिरुंभणं काऊण एदे वियप्पा परुविदा, एवं तिसमयाहियाए चउसमयाहियाए उदयावलियाए इच्चादिद्विदीणं पुथ पुथ णिरुंभणं काऊण पुव्वुत्तामेसवियप्पा वत्तव्वा जाव आबाधाए आवलियूणाए जाव चरिमद्विदी एबदिमादो ति । णवरि संतकम्मपस्मियूण अवत्थुवियप्पा द्विदि पट्टि रूवाहियकमेण भ्मीणद्विदिवियप्पा च रूवृणकमेण णेटव्वा । णवकबंधमस्सियूण णत्थि णाणत्तं । एदासिं च द्विदीणमइच्छावणा रूवृणादिकमेणावट्टिदा दट्टव्वा । आबाहाचरिमसमयादो उवरिमाणंतरद्विदीण मच्वासिं पि एदासिमभ्मीणद्विदियस्स पदेमगस्स उक्कड्डणाए णिवत्तेवुवलंभादो । ण एम कमां उवरिमासु द्विदीसु, तत्थ आवलियमेत्तीए अइच्छावणा [ए] अवट्टिदसरूवेणुवलंभादो । एदस्स च विसेसस्स अत्थि तपरूवणट्टमेत्थ आवलियूणावाहाचरिमद्विदीए मुत्तयारेण णिसेयपरूवणा-विसओ कओ ।

⊗ इमी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय अधिक उदयावलिसे लेकर एक आवलि कम आबाधा काल तक की पृथक् पृथक् स्थितिमें पूर्वोक्त सब विकल्प होते हैं ।

१४४७. इस सूत्रमें 'उदयावलियाए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । उससे इस सूत्रका उस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि जिस प्रकार एक समय अधिक और दो समय अधिक उदयावलि को विवक्षित करके ये विकल्प कहे हैं उसी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय अधिक उदयावलि आदि स्थितियोंको पृथक्-पृथक् विवक्षित करके पूर्वोक्त सब विकल्प कहने चाहिये । इस प्रकार यह क्रम एक आवलि कम आबाधा काल तक जाता है । यहाँ अन्तिम स्थिति है जहाँ तक ये विकल्प प्राप्त होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्कर्मकी अपेक्षा उत्तरांतर एक एक स्थितिके प्रति अवस्तु विकल्प एक एक बढ़ता जाता है और भ्मीन स्थितिविकल्प एक एक कम होता जाता है । किन्तु नवकबंधकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । फिर भी इन स्थितियोंकी अतिस्थापना उत्तरांतर एक एक समय कम होती जानेके कारण वह अनवस्थित जाननी चाहिये; क्योंकि आबाधाके अन्तिम समयसे आगेकी अनन्तर स्थितिमें इन सभी स्थितियोंके भ्मीन-स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होकर निक्षेप देखा जाता है । परन्तु यह क्रम एक आवलिकम आबाधाकालसे आगेकी स्थितियोंमें नहीं बनता, क्योंकि वहाँ पर अवस्थितरूपसे एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पाई जाती है । इस विशेषके अस्तित्वका कथन करनेके लिए यहाँ पर एक आवलि कम आबाधाकी चरम स्थितिको सूत्रकारने निम्न प्ररूपणाका विषय किया है ।

विशेषार्थ—एक समय अधिक उदयावलि और दो समय अधिक उदयावलि को विवक्षित करके सामान्यसे जितने विकल्प प्राप्त हुए थे वे सबके सब विकल्प और कितनी स्थितियों-

⊗ आवलियाए समयूणाए ऊणियाए आवाहाए एवढिमाए द्विदीए जं पदेसगं तस्स के वियप्पा ।

॥ ४४८. पुव्वमावलियाए ऊणिया जा आवाहा तिस्से चरिमद्विदीए पदेसगमवहिं काऊण हेद्विमासेसद्विदीणं वियप्पा परूविदा । संपहि तदणंतरउवरिमाए द्विदीए आवलियाए समयूणाए ऊणिया जा आवाहा एवढिमाए जं पदेसगं तस्स के वियप्पा होंति ? ण ताव पुव्वुत्ता चेव णिरवमेसा, तेसिं हेद्विमाणंतरद्विदीए मज्जादाभावेण परूविदादो । ण च तेसिमेत्थ वि संभवे तद्वा परूवणं सफलं होदि, विप्पदिसेहादो । अह अण्णे, के ते ? ण तेसिं सरूवं जाणामो ति एसो एदस्स

का विवक्षित करनेसे प्राप्त हो सकते हैं यह बात यहाँ बतलाई गई है। बात यह है कि एक समय अधिक उद्यावलीकी अन्तिम स्थितिमें कितनी स्थितियोंके कर्मपरमाणु सम्भव हैं और कितनी स्थितियोंके नहीं। तथा इस स्थितिके कितने कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और कितना नहीं यह जैसे पहले बतलाया है वैसे ही एक आवलिकम आवाधाके भीतर सब स्थितियोंमें नामान्यसे बड़ा क्रम बन जाता है, इसलिये इस सब कथनको सामान्यसे एक समान कहा है। किन्तु विवक्षित स्थिति उत्तर उत्तर आगे आगेकी होती जानेके कारण अबस्तु विकल्प एक एक बढ़ता जाता है और भीनस्थितिविकल्प एक एक कम होता जाता है। तथा अतिस्थापना भी घटती जाती है। जब समयधिक उद्यावलीकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित था तब अतिस्थापना समयधिक आवलिमें न्यून आवाधाकाल प्रमाण थी। जब दो समय अधिक उद्यावलीकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित हुआ तब अतिस्थापना दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून आवाधाकाल प्रमाण रही। इसी प्रकार आगे आगे अतिस्थापनामें एक एक समय कम होता जाता है। यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि जिम हिसाबसे अतिस्थापना कम होती जाती है उसी हिसाबसे शक्तिस्थिति भी घटती जाती है। अब देखना यह है कि यही क्रम आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियों का क्यों नहीं बतलाया। टीकाकारने इस प्रश्नका यह उत्तर दिया है कि आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होने पर अतिस्थापना निश्चितरूपसे एक आवलि प्राप्त होती है। यहाँ कारण है कि आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियोंका क्रम भिन्न प्रकारसे बतलाया है।

* एक समय कम एक आवलिमें न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जो कर्मपरमाणु पाये जाते हैं उनके कितने विकल्प होते हैं।

॥ ४४८. पहले आवलिकम आवाधाकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी मर्यादा करके पूर्वकी सब स्थितियोंके विकल्प कई। अब यह बतलाना है कि उससे आगेकी जो एक समय कम एक आवलिसे न्यून आवाधा है और उसमें जो कर्मपरमाणु हैं उनके कितने विकल्प होते हैं ? यदि कहा जाय कि पूर्वोक्त सब विकल्प होते हैं सो तो बात है नहीं, क्योंकि वे सब विकल्प इससे अनन्तरवर्ती पूर्वकी स्थिति तक ही कहे हैं। अब यदि उनको यहाँ भी सम्भव मानकर इस प्रकारके कथनको सफल कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करना निषिद्ध है। अब यदि अन्य विकल्प होते हैं तो वे कौन हैं, क्योंकि हम उनके स्वरूपको नहीं

पुच्छासुत्तस्स भावत्थो । संपट्टि एदिस्से पुच्छाए उत्तरमाह—

❁ जस्स पदेसग्गस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्वकंता तं पि पदेसग्गमेदिस्से ट्ठिदीए णत्थि ।

§ ४४६. एदिस्से गिरुद्धाए ट्ठिदीए तं पदेसग्गं णत्थि जस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्वकंता । कुदो ? एत्तो दूरयरं हेट्ठदो ओसरिय तस्स अवट्ठाणादो । तत्तो पुण हेट्ठिमा आवलियमेत्ता अवत्थुवियप्पा अणुत्तसिद्धा त्ति ण परुविदा ।

❁ जस्स पदेसग्गस्स वुत्तसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्वकंता तं पि णत्थि ।

§ ४५०. एत्थ एदिस्से ट्ठिदीए इदि अणुवट्ठदे । सेसं सुगमं ।

जानते इस प्रकार यह उस पुच्छासूत्रका भावार्थ है । अब इस पुच्छाका उत्तर कहते हैं—

* जिन कर्म परमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें नहीं हैं ।

§ ४४६. इस विवक्षित स्थितिमें वे कर्म परमाणु नहीं हैं जिनका एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है; क्योंकि वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिसे बहुत दूर पीछे जाकर अवस्थित हैं । तथा इन कर्मपरमाणुओंसे पूर्वकी एक आवलिप्रमाण स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं है यह बात अनुत्कर्त्तसिद्ध है, इसलिये इसका यहाँ कथन नहीं किया ।

विशेषार्थ—आवाधाकालमें से एक समय कम एक आवलिके घटा देने पर जो अन्तर्का स्थिति प्राप्त हो वह यहाँ विवक्षित स्थिति है । अब यह विचार करना है कि इस स्थितिमें किन स्थितियोंके कर्मपरमाणु हैं और किनके नहीं । एक समय अधिक उदयावलीकी अन्तिम स्थितिमें यह विवक्षित स्थिति बहुत काल आगे जाकर प्राप्त होती है, इसलिये इस विवक्षित स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलीकी अन्तिम स्थितिमें कर्मपरमाणु नहीं पाये जा सकते यह इस सूत्रका तात्पर्य है । किन्तु इस विवक्षित स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलीकी अन्तिम स्थितिसे पूर्वकी एक आवलिप्रमाण स्थितियोंके कर्मपरमाणु भी तो नहीं पाये जाते फिर यहाँ उनका निषेध क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है । अतएव इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिये टीकामें यह बतलाया है कि जब अगली स्थितिमें कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषेध पर दिया तब इससे पिछली स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषेध बिना कहे ही हो जाता है, इसलिये उनके निषेधका यहाँ अलगसे उल्लेख नहीं किया ।

* जिन कर्मपरमाणुओंकी दो समय अधिक एक आवलिसं न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं ।

§ ४५०. इस सूत्रमें 'एदिस्से ट्ठिदीए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । शेष अर्थ सुगम है ।

⊗ एवं गंतुण जदेही एसा द्विदी एत्तिएण ऊणिया कम्मद्विदी विविक्कता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से द्विदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भीणद्विवियं ।

§ ४५१. केहेही एसा द्विदी ? जदेही समयुणावलयपरिहीणावाहा तदेही । सेसं सुगमं ।

⊗ एवं द्विदिमादिं कादृण जाव जहणियाण आवाहाए एत्तिएण ऊणिया कम्मद्विदी विविक्कता जस्स पदेसग्गस्स तं पि पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण सब्बमुक्कड्डणादो भीणद्विवियं ।

§ ४५२. कुदो ? अवद्विदाए अइच्छावणाए आवलयमेत्तीए समयुणत्तणेण अज्ज वि संपुण्णत्ताभावादो । एदमेत्थतणचरिमवियप्पस्स वुत्तं, सेसासेसमज्झम-वियप्पाणं पि एदं चेव कारणं वत्तव्वं, विसेसाभावादो ।

* इस प्रकार आगे जाकर जितनी यह विवक्षित स्थिति है इससे न्यून शेष कर्मस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हो सकते हैं । परन्तु वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५१. शंका—इस स्थितिका कितना प्रमाण है ?

समाधान—एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधा जितनी है उतना इस स्थितिका प्रमाण है ।

शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें यह बतलाया है कि इस विवक्षित स्थितिमें किस स्थितिसे पूर्वक कर्मपरमाणु नहीं हैं और वह प्रारम्भकी कौनसी स्थिति है जिसके परमाणु इममें हैं । जैसा कि पहले लिख आये है कि इस विवक्षित स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंको एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु नहीं हैं । जिनका दो समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ते हुए जिनकी एक आवलि न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष रही है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । मात्र जिनकी एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें अवश्य पाये जाते हैं । फिर भी इन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें एक समयमात्र भी शक्ति-स्थिति नहीं पाई जाती है यह इस सूत्रका भाव है ।

* इस स्थितिसे लेकर जघन्य आवाधा तक जितनी स्थिति है उससे न्यून कर्मस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें हैं परन्तु वे सबके सब उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५२. क्योंकि अवस्थित अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण बतलाई है वह एक समय कम होनेसे अभी पूरी नहीं हुई है । यह यहाँ अन्तिम विकल्पका कारण कहा है । चाकीके सब मध्यम विकल्पोंका भी यही कारण कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

§ ४५३. संप्रहियणिरुद्धिदीए पुण्वमादिद्वहेट्टिमहिदीणं च साहारणी एसा परूवणा; तत्थ वि आबाहामेत्तावसेसकम्महिदियस्स पदेसग्गस्स भीणहिदियत्तुव-
लंभादो । संप्रि एत्थतणअसामणवियप्पपरूवणद्वमुत्तरं पंचो—

⊗ आबाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्महिदी विदिवकंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि एदिस्से हिदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कण्णादो भीणहिदियं ।

§ ४५४. जइ वि एत्थ अइच्छावणा आवलियमेत्ती पुएणा तो वि णिक्खेवा-
भावेण उक्कण्णादो भीणहिदियत्तमिदि घेत्ठवं । कुदो णिक्खेवाभावो ? आवलियमेत्तं
मोत्तूण उवरि सत्तिहिदीए अभावादो । एसो एत्थ णिरुद्धिदीए संतकम्मपस्मियुण

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमे यह बतलाया है कि इम विवक्षित स्थितिमे स्थित किम स्थिति तकके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता। यह तो पहलेही बतला आये हैं कि एक समय कम एक आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण स्थितिमे लेकर आगे सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है। अब जब इस नियमको मानने रखकर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय कम एक आवलिसे न्यून आबाधा प्रमाण स्थितिसे लेकर आबाधाप्रमाण स्थिति जाप है उनका भी उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रारम्भके विकल्पमे एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति या अतिस्थापना नहीं पाई जाती। दूसरे विकल्पमे अतिस्थापना केवल एक समयमात्र पाई जाती है। तीसरे विकल्पमे दो समय अतिस्थापना पाई जाती है उस प्रकार आगे आगे जाने पर अन्तिम विकल्पमे वह अतिस्थापना एक समय कम एक आवलि पाई जाती है। परन्तु पूरी आवलिप्रमाण अतिस्थापना किसी भी विकल्पमे नहीं पाई जाती इसलिये इन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता यह इस सूत्रका भाव है।

§ ४५३. किन्तु इस समय जो स्थिति विवक्षित है और इससे पूर्वकी जो स्थितियाँ विवक्षित रही उन दोनोंके प्रति यह प्ररूपणा साधारण है; क्योंकि यहाँ भी जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति आबाधाप्रमाण श्रेय रही है उनमें भीनस्थितिपना स्वीकार किया गया है। अब इस स्थितिसम्बन्धी साधारण विकल्पका कथन करनेके लिये आगेकी रचना है—

* जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आबाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें हैं पर वे उत्कर्षणसे भीन स्थिति-
वाले हैं ।

§ ४५४. यद्यपि यहाँ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं यह यहाँ प्रदण करना चाहिये ।

शंका—निक्षेपका अभाव क्यों है ?

समाधान—क्योंकि इन कर्मपरमाणुओंकी एक आवलिके सिवा और अधिक शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती, इसलिये निक्षेपका अभाव है ।

इस विवक्षित स्थितिमे सत्कर्मकी अपेक्षासे जो यह विकल्प विशेष कहा है सो यह

हेट्टिमल्लिदीर्घितो अपुणरुत्तो विषयविसेसो हेट्टिमल्लिदिपदेसग्गात्तावाहासेसमेस-
मधिच्छाविय तदणत्तरोवरिमाए एकस्से ट्टिदीए णिकखेवुवलंभादो । णवकबंध-
मस्सियूण पुण आवलियमेत्ता चेय अत्तथुवियप्पा पुवं व सन्वत्थ अस्सयाहिया ह्वंति
ति गत्थि तत्थ णाणत्तं । णवरि पुवंपरुविदाणमावलियमेत्तणवकबंधाणं ढज्जे
पढमसमयपद्दस्सावलियाविच्छिदबंधस्स जहा णिसेयसरुवेण वत्थुत्तमेत्थ दीसइ,
हेट्टिमसमए चेव तदावाहापरिच्छिदत्तदंसणादो । तं पि कुदो ? जहण्णावाहाए चेव
सन्वत्थ विवविखयतादो । कथं पुण संपुण्णावलियमेत्तपमाणमेत्थ तत्तवियप्पाणमिदि
णासंकणिज्जं, तत्तालियणवकबंधेण सह तेमिं तद्विरोहादो । एत्तिओ चेव विसेसो,
गत्थि अण्णो को इ विसेसो ति जाणावणइमुत्तरसुत्तं—

ॐ तेष परमज्भीणट्टिदियं ।

४५५. ततो समयत्तरवाहापरिहीणनिदिक्कंतकम्मट्टिदियादो णिरुद्धट्टिदि-
पदेसग्गादो परमणं पदेसग्गमज्भीणट्टिदियमुक्कट्टिणादो ति अहियारवसेणाहिसंबंधो ।
कुदो पदमज्भीणट्टिदियं ? अधिच्छावणा-णिकखेवाणमेत्थ संबन्धादो । केत्तियमेत्ती

विकल्प पूर्वकी स्थितियोंमें आपुनरुक्त है; क्योंकि पूर्वकी स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंकी जो
आवाधा शेष रहता है उसे अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके उससे आगे ही एक स्थितिमें
निलेप पाया जाता है । नवकबन्धकी अपेक्षा तो सर्वत्र न्यूनाधिकतासे रहित पहलेके समान एक
आवलिप्रमाण ही अवस्तु विकल्प होता है, इसलिये उनके कथनमें सर्वत्र कोई भेद नहीं है ।
किन्तु इतनी विशेषता है कि पहले जो एक आवलिप्रमाण नवकबन्ध कहे है उनमेंसे जिसे
बंधे एक आवलि ही गथा है ऐमें प्रथम समयप्रबद्धके निषेकोकी जैसा रचना हुई उसके अनुसार
सद्भाव यहाँ विवक्षित स्थितिमें दिव्याई देता है; क्योंकि इससे पूर्वके समयमें ही उस समयप्रबद्धके
आवाधाका अन्त देखा जाता है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—क्योंकि सर्वत्र अधन्य आवाधा ही विवक्षित है ।

यदि ऐसा है तो फिर यहाँ पर नवकबन्धसम्बन्धी अवस्तुविकल्प पूरी आवलिप्रमाण
कैसे हो सकते हैं सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तत्कालिक नवकबन्धके साथ
उन्हीं पूरी आवलिप्रमाण माननेमें कोई विरोध नहीं आता । यहाँ इतनी ही विशेषता है अन्य
कोई विशेषता नहीं है इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* उससे आगे अभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

४५५. उससे आगे अर्थात् पहले जो एक समय अधिक आवाधासे हीन कर्मस्थिति
और इस स्थितिके जो कर्मपरमाणु कहे हैं उनसे आगे अन्य कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन
स्थितिवाले हैं ऐसा यहाँ अधिकारके अनुसार अर्थ करना चाहिये ।

शंका—ये कर्म परमाणु अभीन स्थितिवाले क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निलेप दोनों सम्भव हैं ।

एत्यतणी अधिच्छावणा ? आवलियमेती अवद्विदा चेयमुवरि सच्चस्थ । केत्तिओ पुण एत्थ णिकत्तेवो ? एओ समओ । सो च अणवद्विओ समउत्तरादिकमेण उवरिम-
वियप्पेसु बहमाणो गच्छइ ।

§ ४५६. संपहि पयद्विदीए वियप्पे समाणिय उवरिमासु द्विदीसु वियप्पगवेसणं कुणमाणो चुणिसुत्तयारो इदमाह—

✽ समयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा । एदिस्से द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

§ ४५७. सुगमं ।

✽ एदावो द्विदीवो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो ।

शंका—यहाँ अतिस्थापनाका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक आवली, जो कि आगे सर्वत्र अवस्थित ही जानना चाहिये ।

शंका—यहाँ निक्षेपका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक समय जो कि अनवस्थित है, क्योंकि वह आगेके विकल्पोंमें एक-एक समय अधिकके क्रमसे बढ़ता जाता है ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाकर कि एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति एक समय अधिक आवाधाप्रमाण शेष हो उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके रहने पर भी निक्षेपका सर्वथा अभाव है । अब यह बतलाया गया है कि उसी विवक्षित स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उक्त स्थितिसे अधिक शेष हो उनका उत्कर्षण हो सकता है । यहाँ सर्वत्र अतिस्थापना तो एक आवलिप्रमाण ही प्राप्त होती है न्यूनाधिक नहीं । पर निक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । यदि पूर्वस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति शेष हो तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है । यदि दो समय अधिक शेष हो तो निक्षेप दो समय प्राप्त होता है । इस प्रकार आगे आगे शेष रही स्थितिके अनुसार निक्षेप बढ़ता जाता है ।

§ ४५६. अब प्रकृत स्थितिमें विकल्पोंको समाप्त करके आगेकी स्थितियोंमें विकल्पोंका विचार करते हुए चुणिसूत्रकार आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण अवस्तु विकल्प होते हैं । इस प्रकार इम स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ।

४५७. यह सूत्र सरल है ।

विशेषार्थ—विवक्षित स्थिति दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाकी अन्तिम स्थिति है, अतः इसमें, जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उद्यय समयसे लेकर एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाकाल तक शेष रही है, वे कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते । इसीसे इस विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण अवस्तुविकल्प बतलाये हैं ।

✽ अब इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे ।

§ ४५८. इमादो पुब्बणिरूद्धिदीदो समयुत्तरा जा द्विदी तिस्से पदेसग्गस्स अबत्थुवियप्पे भौणाभौणद्विदियवियप्पे च भणिस्सामो त्ति सुत्तथो ।

✽ सा पुण का द्विदी ।

§ ४५९. सा पुण संपहि गिरुंभिज्जमाणा का द्विदी, कइत्थी सा, उदयद्विदीदो केत्तियमद्धानमुवरि चडिय ववट्टिदा, आवाहा चरिमसमयादो वा केत्तियमेत्तमोइण्णा त्ति एवमासंक्रिय सिस्सं गिरारेयं काउमुत्तरसुत्तं भणइ—

✽ दुसमयूणाए आवलियाए उणिया जा आवाहा एसा सा द्विदी ।

§ ४६०. जेतिया दुसमयूणाए आवलियाए उणिया आवाहा एसा सा द्विदी, एवहिमा सा द्विदी जा संपहि वियप्पपरूवणद्वमाइहा । उदयद्विदीदो दुसयूणावलियाए परिहीणावाहामेत्तमद्धानमुवरि चडिय आवाहाचरिमसमयादो दुसमयूणावलियमेत्तं हेद्वदो वोसरिय पुव्वाणंतरणिरूद्धिदीए उवरि द्विदा एसा द्विदि त्ति बुत्तं होइ ।

✽ इदाणिमेदिस्से द्विदीए अबत्थुवियप्पा केत्तिया ।

§ ४६१. सुगमं ।

✽ जावदिया हेद्विहियाए द्विदीए अबत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा ।

§ ४५८. इससे अर्थान् पूर्व विवक्षित स्थितिसे जां एक समय अधिक स्थिति है उस स्थितिके कर्मपरमाणुओके अवस्तुविकल्प और भौनाभौन स्थितिविकल्प कहेंगे यह इस सूत्रका भाव है ।

✽ वह कौनसी स्थिति है ?

§ ४५९. जो इस समय विवक्षित है वह कौनसी स्थिति है, उसका क्या प्रमाण है, उदयस्थितिसे कितना स्थान आगे जाकर वह स्थित है, या आबाधाके अन्तिम समयसे कितना काल पीछे जाकर वह पाई जाती है इस प्रकारकी शंका करनेवाले शिष्यको निःशंका करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ दो समय कम आवलिसे न्यून जो आबाधा है यह वह स्थिति है ।

§ ४६०. दो समय कम आवलिसे न्यून आबाधाका जितना प्रमाण हो इतनी वह स्थिति है जो इस समय विकल्पोका कथन करनेके लिये विवक्षित है । उदय स्थितिसे दो समय कम आवलिसे हीन आबाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आबाधाके अन्तिम समयसे दो समय कम आवलिप्रमाण स्थान पीछे जाकर पूर्वोक्त अनन्तरवर्ती विवक्षित स्थितिके आगे यह स्थिति है यह इस सूत्रका भाव है ।

✽ अब इस स्थितिके अवस्तुविकल्प कितने हैं ।

§ ४६१. यह सूत्र सरल है ।

✽ पिछली स्थितिके जितने अवस्तु विकल्प हैं उनसे एक अधिक हैं ।

§ ४६२. संतकम्ममस्सियुग जेतिया अणंतरहेट्ठिमाए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा एत्थ ते वत्थवा, तत्तो रूवुत्तरमद्दाणं चडिय एट्ठिस्से अवट्ठाणादो । एदं रूवुत्तरवयणमंतदीवयं । तेण हेट्ठिमासेसट्ठिदीणमवत्थुवियप्पा अणंतराणंतरादो रूवुत्तरा ति घेत्तव्वं । एदं च संतकम्ममस्सियुग परुविदं, ण णवकबंधमस्सिय, तत्थावलिय-मंत्ताणमवत्थुवियप्पाणमवट्ठिदसरूवेणावट्ठाणादो । एवमवत्थुवियप्पे परुविय वत्थु-वियप्पाणं भीणाभीणाट्ठिदियभेदभिण्णाणं परुवणट्ठमत्तरा पबंधो—

❀ जहे ही एसा ट्ठिदी तत्तियं ट्ठिदिसंतकम्मं कम्मट्ठिदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तं पयेसग्गमेट्ठिस्से ट्ठिदीए होज्ज तं पुण उक्कड्डणादो भीणट्ठिवियं ।

§ ४६३. कुदो ? उवरि सत्तिट्ठिदीए एयस्स वि समयस्स अभावादो ।

❀ एदादो ट्ठिदीदो समयुत्तरट्ठिदिसंतकम्मं कम्मट्ठिदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तमुक्कड्डणादो भीणट्ठिवियं ।

§ ४६४. सुगम ।

❀ एवं गंतूण आवाहमेत्तट्ठिदिसंतकम्मं कम्मट्ठिदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए ट्ठिदीए दीसइ तं पि उक्कड्डणादो भीणट्ठिवियं ।

§ ४६२. सत्कर्मकी अपेक्षा जितने अनन्तरवर्ती पिछली स्थितिके अवस्तुविकल्प हैं उनसे एक अधिक यहाँ वे विकल्प हैं, क्योंकि पूर्वस्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है। इस सूत्रमें जो 'रूवुत्तरा' वचन आया है सो यह अन्तर्दीपक है। इससे यह मालूम होता है कि पीछे सर्वत्र पूर्व पूर्व अनन्तरवर्ती स्थितिसे आगे आगेभी स्थितिके अवस्तु विकल्प एक एक अधिक होते हैं। यह सब सत्कर्मकी अपेक्षासे कहा है, नवकवन्धकी अपेक्षासे नहीं, क्योंकि नवकवन्धकी अपेक्षासे सर्वत्र एक आवाहप्रमाण ही अवस्तुविकल्प पाये जाते हैं। इस प्रकार अवस्तुविकल्पोका कथन करके भीनाभीनस्थितियोंका अपेक्षासे अनेक प्रकारके वस्तुविकल्पोका कथन करनेके लिये आगेकी रचना है -

❀ जितनी यह स्थिति है उतना स्थितिसत्कर्म जिन कर्मपरमाणुओंका शेष है वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हैं। किन्तु वे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं ।

§ ६३. क्योंकि ऊपर एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है ।

❀ इस स्थितिसे जिन कर्मपरमाणुओंका कर्मस्थितिमें एक समय अधिक स्थिति-सत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं ।

§ ४६४. यह सूत्र सरल है ।

❀ इसी प्रकार आगे जाकर-कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंका आवाधा-प्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु वे भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

१४६५. एत्थ तं पि मद्दो आविहतीए दोवारमहिंसंबंधेयव्वो । तं पि पदेसग्ग-
मेदिस्से हिदीए दीसइ । दिस्समाणं पि तमुक्कहुणादो भीणहिदियमिदि ।

⊗ आबाहासमयुत्तरमेत्तं हिदिसंतकम्मं कम्महिदीए सेसं जस्स
पदेसग्गस्स तं पि उक्कहुणादो भीणहिदियं ।

१४६६. कम्महिदीए अब्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स समयुत्तराबाहायेत्तहिदि-
संतकम्ममवसेसं तं पि एदिस्से हिदीए हिदमुक्कहुणादो भीणहिदियं । कुदो ?
अधिच्छावणाए अज्ज वि समयुत्तदंसणादो ।

⊙ आबाधादुसमयुत्तरमेत्तहिदिसंतकम्मं कम्महिदीए सेसं जस्स
पदेसग्गस्स एदिस्से हिदीए दिस्सइ तं पदेसग्गमुक्कहुणादो भीणहिदियं ।

१४६७. कुदो अधिच्छावणाए आवलियमेत्तीए संपुण्णाए संतीए भीणहिदियत्त-
मंदस्स ? ण, णिवग्वाभावेण तहाभावाविरोहादो ।

१४६५. इस सूत्रमे 'तं पि' शब्दकी आश्रुति करके दो वार सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।
यथा—वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमे पाये जाते हैं । पाये जाकर भी वे उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं ।

* तथा जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थितिमें एक समय अधिक आबाधा-
प्रमाण स्थिति शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

१४६६. कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंका एक समय अधिक आबाधाप्रमाण
स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी यद्यपि इस स्थितिमें हैं तो भी वे उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं, क्योंकि अभा भी अतिस्थापनामे एक समय कम देखा जाता है ।

* कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंका दो समय अधिक आबाधा-
प्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु
वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

१४६७. शंका—जब कि अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण पूरी है तब इन कर्म-
परमाणुओंमे भीनस्थितिपना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निक्षेपका अभाव होनेसे इन कर्मपरमाणुओंमें भीनस्थिति-
पनेके होनेमे कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—इन पूर्वोक्त सूत्रोंमे यह बतलाया है कि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून
आबाधाप्रमाण स्थितिमें भीनस्थिति विकल्प कहाँसे लेकर कहाँ तक होते हैं । यह तो पहले ही
बतलाया जा चुका है कि एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे
सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है । विवक्षित स्थिति भी उक्त स्थितिसे दो समय
आगे जाकर प्राप्त है, इसलिये इसमें भी अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि प्राप्त होता है ।
आशय यह है कि इस स्थितिमें जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमेंसे जिनकी स्थिति उसी विवक्षित

❖ तेण परमुक्कणुणादो अभीणाद्वियं ।

§ ४६८. आवलियमेत्तमइच्छावि एकिस्से अणंतरोवरिमद्विदीए णिक्खेवुव-
लंभादो उवरि णिक्खेवस्स समयुत्तरकमेण वड्ढिदंसणादो च ।

❖ दुसमयूणाए आबलियाए ऊणिया आबाहा एवड्ढिमाए द्विदीए
वियप्पा समत्ता

❖ एत्तो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो ।

§ ४६९. एत्तो समयंतरविदिवकंतणिरुद्धद्विदीदो जा समयुत्तरा द्विदी तिस्से
वियप्पे अवत्थु भणीणाभीणाद्विदियभेदभिण्णे भणिस्सामो ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❖ एत्तो पुण द्विदीदो समयुत्तरा द्विदी कदमा ।

§ ४७०. सुगमं ।

❖ जहणिया आबाहा तिसमयूणाए आबलियाए ऊणिया
एवड्ढिमा द्विदी ।

स्थितिप्रमाण या उनसे एक समयपे लेकर एक आवलि तक अधिक है उनका उत्कर्षण नहीं
हो सकता, क्योंकि यहाँ अन्तिम विकल्पमे यद्यपि अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका
सर्वत्र अभाव है ।

* उससे आगे उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४६८. क्योंकि यहाँ एक आवलिप्रमाण स्थितियोंका अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके
अनन्तरवर्ती आगेकी एक स्थितिमे निक्षेप देखा जाता है और आगे भी एक एक समय
अधिकके क्रमसे निक्षेपकी वृद्धि देखी जाती है ।

विशेषार्थ—दो समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण स्थितिमे जिन कर्म-
परमाणुओंकी स्थिति तीन समय अधिक आबाधा प्रमाण या इससे भी अधिक है उन कर्म-
परमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनों पाये जाते हैं
यह इस सूत्रका आशय है ।

* दो समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ।

* अब इस पूर्वोक्त स्थितिसं एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे ।

§ ४६९. अब इस समनन्तर व्यतीत हुई विवक्षित स्थितिसे जो एक समय अधिक स्थिति
है उसके अवस्तु और भीनाभीन स्थितियोंकी अपेक्षा नाना प्रकारके विकल्पोंको कहेंगे इस प्रकार
यह प्रतिज्ञा सूत्र है ।

* किन्तु इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थिति कौन सी है ।

§ ४७०. यह सूत्र सुगम है ।

* तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आबाधाका जितना प्रमाण है यह
वह स्थिति है ।

§ ४७१. उदयद्विदीदो तिसमयूणावलयपरिहीणजहण्णाबाहामेत्तहुवरि चडिय आबाहाचरिमसमयादो तिसमयूणावलयमेत्तमोदरिय एसा द्विदी द्विदा ति वुत्तं होदि । एदिस्से द्विदीए केत्तिया वियप्पा होंति ति सिस्साभिप्पायमासंकिय एत्तियमेत्ता होंति ति जाणावणह्मत्तरसुत्तमोइण्णं—

❀ एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । एवरि अबत्थुवियप्पा रूवुत्तरा ।

§ ४७२. एदिस्से संपहि णिरुद्धद्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा होंति जेतिया अणंतरहेट्टिमाए । णवरि संतकम्ममस्सियूण अबत्थुवियप्पा रूवुत्तरा होंति, तत्तो रूवुत्तरमेत्तमद्धान्णुवरि गंतूणावहाणादो ।

❀ एस कम्मो जाव जहणिया आबाहा समयुत्तरा ति ।

§ ४७३. एस अणंतरपरूविदो कम्मो जाव जहणिया आबाहा समयुत्तरा ति अवद्विदाणं दुसमयूणावलयमेत्तियाणमुवरिमद्विदीणं पि अण्णाहिच्चो जाणेयव्वो, विमेषाभावादो । णवरि आबाहाचरिमसमयादो अणंतरोवरिमाए द्विदीए णवकबंधमस्सियूण अबत्थुवियप्पा ण लब्धंति । आबाहाए वाहिं तक्कालियस्स वि णवकबंध-

§ ४७१. उदय स्थितिसे तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आबाधाके अन्तिम समयसे तीन समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान पीछे आकर यह स्थिति स्थित है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस स्थितिमें कितने विकल्प होते हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायानुसार आशंका करके इतने विकल्प होते हैं यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❀ इस स्थितिमें इतने ही विकल्प होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं ।

§ ४७२. इस समय जो स्थिति विवक्षित है उसमें इतने ही विकल्प होते हैं जितने अनन्तर पूर्ववर्ती स्थितिमें बतला आये हैं । किन्तु सत्कर्मकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं, क्योंकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है ।

विशेषार्थ—पूर्व स्थितिसे इस स्थितिमें और कोई विशेषता नहीं है, इसलिये इसके और सब विकल्प तो पूर्व स्थितिके ही समान हैं । किन्तु अवस्तुविकल्पोंमें एककी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति स्थित है यह इस सूत्रका भाव है ।

❀ एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिये ।

§ ४७३. यह जो इससे पहले क्रम कहा है वह एक समय अधिक जघन्य आबाधाके प्राप्त होने तक जो दो समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियों अवस्थित हैं उन आगेकी स्थितियोंका भी न्यूनाधिकताके बिना पूर्ववत् जानना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि आबाधाके अन्तिम समयसे अनन्तर स्थित आगेकी स्थितिमें नवकबंधकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, क्योंकि आबाधाके बाहर जिस

पदेसगिसेयस्स पडिसेहाभावादो ।

✽ जह्णियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा । एत्थ चोदओ भणदि—
दुसमयुत्तरजह्णणावाहाओ उवरिमट्टिदीसु वि उक्कड्डणादो भीणाट्टिदियं पदेसगमत्थि,
तत्थेव णिट्ठियकम्मट्टिदियसमयपवद्धपदेसगपहुडि अइच्छावणावलियमेत्ताणमेत्थ
भीणट्टिदियवियप्पाणमुवलंभादो । ण च णवकवन्धमस्सियुण अवत्थुवियप्पा णत्थि
त्ति तथा परूवणं णाड्यं, तेसिमेत्थ पहाणनाभावादो । तदो आवलियमेत्तेसु भीण-
ट्टिदियवियप्पेसु आवाहादो उवरि वि ट्टिदिं पडि लब्धमाणेसु किमेदं बुद्धे—
आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भीणाट्टिदियमिदि ? एत्थ परिहारो
बुद्धे—उक्कड्डणादो भीणा ट्टिदी जस्स पदेसगस्स तमुक्कड्डणादो भीणट्टिदियं
णाम । ण च एदं दुसमयुत्तरावाहपहुडि उवरिमासु ट्टिदीसु संभवइ, तत्थ समाणिद-

समय बन्ध होता है उस समय भी नवकबन्धके निषेकोका प्रतिषेध नहीं है ।

विशेषार्थ—तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिके सम्बन्धमें जो क्रम कहा है वही क्रम एक समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक भी प्रत्येक स्थितिका जानना चाहिये यह इस सूत्रका आशय है । किन्तु आवाधाप्रमाण स्थितिसे आगेकी स्थितिसे नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाने, यहाँ इनका विशेष जानना चाहिये । इसका कारण यह है कि आवाधाके भीतर निषेकरचना नहीं होनेके कारण सर्वत्र एक आवलि-प्रमाण अवस्तुविकल्प प्राप्त हो जाते हैं । पर आवाधाके बाहर तो प्रारम्भसे ही निषेकरचना पाई जाती है, इसलिये वहाँ नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प किसी भी हालतमें सम्भव नहीं हैं ।

✽ दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु नहीं हैं ।

§ ४७४. इस सूत्रके प्रत्येक पदका व्याख्यान सुगम है ।

शंका—यहाँ पर शंकावार कहता है कि दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगेकी स्थितियोंमें भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, क्योंकि समयप्रबद्धके जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति वहाँ समाप्त हो गई है उन कर्मपरमाणुओंसे लेकर अतिस्थापनावलिप्रमाण भीनस्थितिविकल्प यहाँ पाये जाते हैं । यदि कहा जाय कि नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं हैं, इसलिये ऐसा कथन करना न्याय्य है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसलिए जब कि आवाधासे ऊपर प्रत्येक स्थितिके प्रति एक आवलिप्रमाण भीनस्थितिविकल्प पाये जाते हैं तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि दो समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिसे आगे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु नहीं हैं ?

समाधान—अब यहाँ इस शंकाको परिहार करते हैं—जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उत्कर्षणसे भीन है वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कहलाते हैं । किन्तु यह अर्थ दो समय अधिक आवाधासे आगेकी स्थितियोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि समयप्रबद्धके जिन

कम्मट्टिदियसमयपणत्तपडिवत्तपदेसग्गस्स ओकङ्कणाए आबाहाग्गंभंतरे भिक्खित्तस्स पुणो वि उक्कङ्कियुण आबाहादो उवरि णिक्खेवसंभवेण तत्तो भीणट्टिदियत्ताणुव-
लंभादो । ण च णिरुद्धट्टिदीए चेव समयवट्टिदाणमुक्कङ्कणा ण संभवदि त्ति तत्तो
भीणट्टिदियत्तं वात्तुं जुत्तं, जत्थ वा तत्थ वा ट्टिदस्स णिरुद्धट्टिदिपदेसग्गस्स
उक्कङ्कणासत्तीए अच्चंताभावस्सेह त्रिविक्खयत्तादो । एसा सव्वा वि उक्कङ्कणादो
भीणाभीणट्टिदियाणमट्टपदपरूवणा ओघेण मूलुत्तरपयट्टिविसेसविवक्खमफाऊण
सामण्णेण परूविदा । एत्तो सव्वासु वि मग्गणासु सगसग्गजहण्णावाहाओ अस्सियुण
पुध पुध सव्वकम्माणमादेसपरूवणा कायव्वा ।

❀ एवमुक्कङ्कणादो भीणट्टिदियस्स अट्टपदं समत्तं ।

❀ एत्तो संकमणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४७५, एत्तो उवरि संकमणादो भीणट्टिदियं भणिस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❀ जं उदयावलियपच्चिट्ठं तं, एत्थि अरण्णो विघप्पो ।

§ ४७६, एत्थ संकमणादो भीणट्टिदियमिदि अणुवट्टेदं । तेण जमुदयावलियं
पइट्ठं तं संकमणादो भीणट्टिदियं हादि त्ति संबंधो कायव्वो । कुदो उदयावलियग्गंभंतरे

कर्मपरमाणुओंसे यहाँ अपनी स्थिति समाप्त कर ली है। उनको अर्पण द्वारा आबाधाके भीतर
निकल कर देने पर उत्कर्षण होकर फिर भी उनका आबाधाके ऊपर निकल सम्भव है, इसलिये
उनमें उत्कर्षणसे भीनस्थितिपना नहीं पाया जाता ।

यदि कहा जाय कि विवक्षित स्थितिमें ही अवस्थित रहते हुए इनका उत्कर्षण सम्भव नहीं
है, इसलिये इन्हे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाला कहना युक्त है। सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित
स्थितिके कर्मपरमाणु कहीं भी स्थित रहे किन्तु यहाँ तो उत्कर्षणशक्तिका अत्यन्त अभाव
विवक्षित है । उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी यह सबकी सब अर्थपदप्ररूपणा
ओघसे मूल और उत्तर प्रकृतिविशेषकी विघज्ञा न करके सामान्यसे यहाँ कही है । आगे
सभी मार्गणाओमें अपनी अपनी जघन्य आबाधाओंकी अपेक्षा प्रथक्-प्रथक् सब कर्मोंकी
आदेशप्ररूपणा करनी चाहिये ।

* इस प्रकार उत्कर्षणसे भीनस्थितिक प्रदेशाग्रका अर्थपद समाप्त हुआ ।

* अब इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं ।

§ ४७५, इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारको कहेंगे इस प्रकार यह
प्रतिज्ञासूत्र है ।

* जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे संक्रमणसे भीनस्थितिवाले
हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है ।

§ ४७६, इस सूत्रमें 'संकमणादो भीणट्टिदियं' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । इससे इस
सूत्रका यह अर्थ होता है कि जो कर्म उदयावलिके भीतर स्थित हैं वह कर्म संक्रमणसे भीन-

संकमो णत्थि ? सहावदो । एत्तिओ चेव संकमणादो भीणट्टिदिओ पदेसविसेसो त्ति जाणावणट्टमेदं सुत्तं । णत्थि अण्णो वियण्णो त्ति उदयावलियबाहिरट्टिदपदेसगं बंधावलयवदिक्तं तं सव्वमेव संकमपाओग्गत्तेण ततो अभीणट्टिदियमिदि वुत्तं होइ ।

❀ उदयादो भीणट्टिदियं ।

§ ४७७. एतो उदयादो भीणट्टिदियं वुब्बइ त्ति अहियारसंभालणमुत्तमेदं ।

❀ जमुद्दिण्णं तं, णत्थि अण्णं ।

§ ४७८. एत्थ जमुद्दिण्णं दिण्णफलं होऊण तक्कालगलमाणं तमुदयादो भीणट्टिदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो । णत्थि अण्णं । कुदो ? सेसासेसट्टिदिपदेसगस्स कमेण उदयपाओग्गत्तदंसणादो ।

स्थितिवाला है, क्योंकि उदयावलिके भीतर संक्रमण नहीं होता ऐसा स्वभाव है। इतने ही कर्मपरमाणु संक्रमणसे भीनस्थितिवाले हैं यह जनानेके लिये यह सूत्र आया है। यहाँ इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका यह अभिप्राय है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके बाहर जितने भी कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सब संक्रमणके योग्य हैं, इसलिये वे संक्रमणसे अभीनस्थितिवाले हैं।

विशेषार्थ—विवक्षित कर्मके परमाणुओंका सजातीय कर्मरूप हो जाना संक्रमण कहलाता है। यहाँ यह बतलाया है कि इस प्रकारका संक्रमण किन परमाणुओंका हो सकता है और किनका नहीं। जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके अयोग्य हैं और उदयावलिके बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके योग्य हैं यह उक्तका भाव है। किन्तु इससे तत्काल घंघे हुए कर्मोंका भी बन्धावलिके भीतर संक्रमण प्राप्त हुआ जो कि होता नहीं, इसलिये इसका निषेध करनेके लिये टीकामें इतना विशेष और कहा है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके बाहरके कर्मपरमाणुओंका संक्रमण होता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे भी कर्म हैं जिनका उदयावलिके बाहर भी संक्रमण सम्भव नहीं। जैसे आयुकर्म। अतः यहाँ इनके संक्रमणका निषेध क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान है कि जिन कर्मोंमें संक्रमण सम्भव है उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ विचार करके यह बतलाया है कि उनमेंसे किन कर्मपरमाणुओंका संक्रमण हो सकता है और किनका नहीं। आयु कर्म ऐसा है जिसका संक्रमण ही नहीं होता, अतः उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है।

❀ अब उदयसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं ।

§ ४७७. संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करनेके बाद अब उदयसे भीनस्थितिक अधिकारका कथन करते हैं इस प्रकार यह सूत्र स्वतन्त्र अधिकारकी संभाल करनेके लिये आया है ।

❀ जो कर्म उदीर्ण हो रहा है वह उदयसे भीनस्थितिवाला है । इसके अतिरिक्त यहाँ और कोई दूसरा विकल्प नहीं है ।

§ ४७८. जो कर्म उदीर्ण हो रहा है अर्थात् फल देकर तत्काल गल रहा है वह उदयसे भीनस्थितिवाला है यह यहाँ इस सूत्रका अभिप्राय है । इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि बाकीकी सब स्थितियोंके कर्मपरमाणु क्रमसे उदयके योग्य देखे जाते हैं ।

§ ४७६. एवं सामण्णेण चउण्हं पि भीणट्टिदियाणं सपडिवक्खाणमहपदपरूवणं काऊण संपहि एदेसिं चैव विसेसिय परूवणहमुत्तरसुत्तं भणइ—

⊗ एत्तो एगेगभीणट्टिदियमुक्कस्सयमणुक्कस्सयं जहुरणयमजहुरणयं च ।

§ ४८०. जहासंखणाएण विणा पादेकमेदेसिं भीणट्टिदियाणमुक्कस्सादिपदेदि संबंधपरूवणफलो एगेगे त्ति णिहेमो, अण्णहा समसंखानमेदेमि तहाहिसंबंधपसंगादो । तदो तमेक्के कं चउच्चियप्पसंजुत्तं णिदिमइ—उक्कस्सयमणुक्कस्सयं जहण्णयमजहण्णयं चेदि । जन्थ बहुवरं पदेसग्गमोकहुणादिचउण्हं पि भीणट्टिदियमुवलंभइ तमुक्कस्सं णाम । एवं सेसपदाणं वत्तव्वं । एवं परूवणा गदा ।

⊗ सामितं ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बतलाया है कि कौनसे कर्मपरमाणु उदयसे भीनस्थितिवाले हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उदयसे अभीनस्थितिवाले हैं । जिन कर्मपरमाणुओंका उदय हो रहा है उनका पुनः उदयमें आना सम्भव नहीं, इसलिये फल देकर तत्काल गलनेवाले कर्मपरमाणु उदयसे भीनस्थितिवाले हैं और इनके अतिरिक्त शेष सब कर्मपरमाणु उदयसे अभीनस्थितिवाले हैं यह इस सूत्रका भाव है ।

§ ४७६. इस प्रकार सामान्यसे अपने प्रतिपन्नभूत कर्मपरमाणुओंके साथ चारों ही भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अर्थपदका कथन करके अब इन्हींकी विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* इनमेंसे प्रत्येक भीनस्थितिवाले कर्म उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य हैं ।

§ ४८०. चार प्रकारके भीनस्थितिवाले कर्मोंका क्रमसे उत्कृष्ट आदि चार पदोंके साथ सम्बन्ध नहीं है, इसलिये यथासंख्य न्यायके बिना अलग अलग इन भीनस्थितिवाले कर्मोंका उत्कृष्ट आदि पदोंके साथ सम्बन्धका प्ररूपण करनेके लिये सूत्रमें 'एगेग' पदका निर्देश किया है । नहीं तो दोनो ही समसंख्यावाले होनेसे दोनोका यथाक्रमसे सम्बन्ध हो जाता । इसलिये यह सूत्र वे एक एक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इस प्रकार चार चार प्रकारके हैं इस बातका निर्देश करता है । जहाँ पर सर्वाधिक कर्मपरमाणु अपकर्षण आदि चारोसे भीनस्थितिपनेको प्राप्त होते हैं वहाँ उत्कृष्ट विकल्प होता है । इसी प्रकार शेष पदोंका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु, उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु, संक्रमणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु और उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु ये चार हैं । ये चारो ही प्रत्येक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इस प्रकार चार चार प्रकारके हैं यह इस सूत्रका भाव है ।

इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई ।

* अब स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ४८१. एत्तो सामित्तं वत्तइस्सामो त्ति अट्टियारसंभालणसुत्तमेदं ।

⊗ मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डणादो भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ४८२. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

⊗ गुणितकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स अपच्छिम-
ट्टिदिखंडयं संबुभमाणयं संबुद्धभावलिया समयूणा सेसा तस्स उक्कस्सय-
मोक्कड्डणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४८३. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा—मिच्छत्तस्स उक्कस्सय-
मोक्कड्डणादो भीणट्टिदियं कस्से त्ति जादसंदेहस्स सिस्सस्स तव्विसयणिच्छयजणणहं
गुणितकम्मंसियस्से त्ति वुत्तं, अण्णत्थ पदेसग्गस्स उक्कम्मसभावाणुववत्तीदो । किं सव्वस्सेव
गुणितकम्मंसियस्स ? नेत्याह—सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स । गुणितकम्मंसिय-
लक्खणेणागंतूण सत्तमपुढविणेरइयचरिमसमए ओपुक्कम्ममिच्छत्तदव्वं काऊण तत्तो
णिप्पिट्टिय पंचिदियतिरिक्खेसु एइदिण्णसु च दोण्णि निण्णि भवग्गहणाणि भमिय
पुणो मणुस्सेसुप्पज्जिय अट्ट वस्साणि बोलाविय सव्वलहुण कालेण दंसणमोहणीय-
कम्मं खवेदुमाढतस्से त्ति वुत्तं होइ ।

§ ४८१. अब इसके आगे स्वामित्वको बतलाते है इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी
संभाल करता है ।

* मिथ्यात्वके अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी
कौन है ।

§ ४८२. यह पृच्छा सूत्र सुगम है ।

* गुणितकर्मांशवाले जिस जीवके सबसे थोड़े कालमें दर्शनमोहनीयकी
क्षपणाका प्रारम्भ करनेके बाद अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके एक समय कम
एक आवलि काल शेष रहा वह अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका
स्वामी है ।

§ ४८३. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—मिथ्यात्वके अपकर्षणसे
भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु कित्ते होते हैं इस प्रकार शिष्यको सन्देह हो जानेपर
तद्विषयक निश्चयके पैदा करनेके लिये सूत्रमें 'गुणितकम्मंसियस्स' यह पद कहा है, क्योंकि गुणित
कर्मांशवाले जीवके सिवा अन्यत्र अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट नहीं हो सकते ।
क्या सभी गुणितकर्मांशवाले जीवोंके अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं ?
नहीं, यही बतलानेके लिये सूत्रमें 'सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स' यह पद कहा है । गुणित-
कर्मांशकी जो विधि बतलाई है उस विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीका नारकी होकर उनके
अन्तिम समयमें मिथ्यात्वके द्रव्यको ओंघसे उत्कृष्ट करके फिर वहाँसे निकलकर तथा पंचेन्द्रिय
तियंच और एकेन्द्रियोंमें दो तीन भवतक भ्रमण करके मनुष्योमें उत्पन्न हुआ और वहाँ
आठ वर्ष बिताकर अति थोड़े कालके द्वारा जिनमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया
उस गुणितकर्मांशवाले जीवके अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह

§ ४८४. संपदि दंसणमोहणीयं खर्वंतस्स कम्हि उदसे सामितं होदि ति आसंकि य तदुद्दे सपदुप्पायणदमाह—अपच्छिमद्विदिखंडयं संछुभमाणयं संछुद्धमावलि या समयूणा सेसा इच्चादि । अपुव्वकरणपदमसमयप्पहुडि बहुपसु द्विदिखंडयसहस्सेसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीसु अंतोमुहुत्तमेत्तकीरणद्वापडिबद्धेसु पदिदेसु पुणो अणियट्टिअद्दाए संखेज्जेसु भागेसु वोलीणेसु गिप्पच्छिमं द्विदिखंडयं पलिदो- वमासंखेज्जभागपमाणायाममावलियवज्जं संछुभमाणयं सम्मामिच्छत्तस्सुवरि गिरवसेसं संछुद्धं । जाधे उदयावलि या समयूणा सेसा ताधे तस्स गुणिदकम्मंसियस्स उक्कस्सय- मोकड्डणादो भीणद्विदियं मिच्छत्तपदेसगं होदि । कुदो आवलियाए समयूणत्तं ? उदयाभावेण सम्पत्तस्सुवरि तदुदयणिसेयसमाणमिच्छत्तेयट्टिदीए धिवुक्कसंकमेण संकंतीदो । कुदो पुण एदस्स आवलियपइट्टपदेसगस्स ओकड्डणादो भीणद्विदियस्स उक्कस्सत्तं ? ण, पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेडीए आवूरिदगुणसेडिगोवुच्छाणं हेट्टिमासेसतन्वियप्पेहिंतो असंखेज्जगुणाणमुक्कस्सभावस्स णाइयत्तादो ।

उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८५. अब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हुए भी किस स्थान पर उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसी आशंकाके होने पर उस स्थानका निर्देश करनेके लिये 'अपच्छिमद्विदिखंडयं संछुभमाणयं संछुद्धमावलि या समयूणा सेसा' इत्यादि सूत्र कहा है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूर्तप्रमाण उत्कीरण कालसे सम्बन्ध रखनेवाले हजारों स्थितिकाण्डकोका और एक एक स्थितिकाण्डके प्रति हजारो अनुभागकाण्डकोका पतन करनेके पश्चात् जब यह जीव अनिवृत्तिकरणमे प्रवेश करके और उसके संख्यात बहुभागोके व्यतीत होने पर एक आवलिके सिवा पत्यके असंख्यातवें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकाण्डकोका पतन करनेका प्रारम्भ करता है और उसे सबका सब सम्यग्मिध्यात्वमें निक्षेप करनेके बाद जब एक समयकम एक आवलिवाल शेष रहता है तब इस गुणितकर्माशवाले जीवके मिध्यात्वके अपकर्षणसे ज्ञान-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं ।

शंका—यहाँ आवलिवाले एक समय कम क्यों बतलाया ?

समाधान—क्योंकि वहाँ मिध्यात्वका उदय न होनेमे सम्यक्त्वके उदयरूप निषेकके बराबरकी मिध्यात्वकी एक स्थिति स्तिवुक संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वके द्रव्यमे संक्रान्त हो गई है, इसलिये आयलिलमें एक समय कम बतलाया है ।

शंका—अपकर्षणसे ज्ञानस्थितिवाले ये कर्मपरमाणु आवलिके भीतर प्रविष्ट होनेपर ही उत्कृष्ट क्यों होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु प्रति समय असंख्यातगुणी श्रेणिके द्वारा गुणश्रेणियोंपुच्छाको प्राप्त है और नीचेके तत्सम्बन्धी और सब विकल्पोसे असंख्यातगुण हैं, इसलिये इन्हें उत्कृष्ट मानना न्याय्य है ।

विशेषार्थ—यह तां पहले ही बतला आये हैं कि जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे ज्ञानस्थितिवाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अज्ञान स्थितिवाले हैं । अब इन ज्ञानस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंमें मिध्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट विकल्प कहाँ प्राप्त होता है यह बतलाया है । मिध्यात्वका अन्यत्र उदयावलिमें

§ ४८५. संपहि एदस्स सामित्तविसईकयदव्वस्स पमाणाणुगमं कस्सामो । तं जहा—दिवडुगुणहाणिमेत्तकस्ससमयपवव्जे द्विय पुणो समयूणावलियाए ओवट्टिदचरिमफालीए तप्पाओगपल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तख्वभजिदाए भागे हिदे एदं दव्वमागच्छदि, अब्भंतरीकयचरिमफालिणसेयस्स गुणसेट्ठिगोवुच्छदव्वस्स पाहणियादो। अथवा दिवडुगुणहाणिगुणिदमुक्कस्ससमयपवव्दं उविय ओकड्डुकड्डुणभागहारेण तप्पाओगपल्लिदोवमासंखेज्जभागेण गुणिय किंचूणीकएण तस्मि भागे हिदे पयदसामित्तविसईकयदव्वमागच्छदि ति वत्तव्वं । एवमुवरि वि सव्वत्थ वत्तव्वं । संपहि एदेण समाणसामियाणं उक्कड्डुणादो संक्रमणादो च भीणट्टिदियाणमेदेण चेय गयत्थाणं सामित्तपरूणणट्टयत्तरमुत्तमोइण्णं—

⊗ तस्सेव उक्कस्सयमुक्कड्डुणादो संक्रमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ४८६. गयत्थमेदं सुत्तं । संपहि उदयादो भीणट्टिदियस्स उक्कस्ससामित्तपरूणणट्टं पुच्छामुत्तेजावसरं करेइ—

⊗ उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्स ?

जितना द्रव्य रहता है उस सबसे अधिक क्षणिके समय अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके बाद उदयावलिमे रहता है, क्योंकि यहाँ उदयावलिमे गुणश्रेण्णरीर्षका द्रव्य पाया जाता है जो कि उत्तान्तर असंख्यात गुणितक्रमसे स्थापित है, इसलिये जो जीव मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिका खण्डन करके उदयावलिमे भीतर प्रविष्ट है वह मिथ्यात्वके अपकर्षणसे हीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८५. अब उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयभूत द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार है—डेद गुणहानिप्रमाण उत्कृष्ट समयप्रबद्धोंको स्थापित करके उनमे, तथांग्य पत्यके असंख्यातवें भागसे भाजित अन्तिम फालिणं एक समय कम आवलिका भाग देनेसे जो लब्ध आवे उसका भाग देनेपर यह उत्कृष्ट द्रव्य आता है, क्योंकि यहाँ अन्तिम फालिणके निषेकोके भीतर गुणश्रेण्ण गांपुच्छाका द्रव्य प्रधान है । अथवा डेदगुणहानिसे गुणित उत्कृष्ट समयप्रबद्धोंका स्थापित करके उसमे, तत्प्रांग्य पत्यके असंख्यातवें भागसे गुणित अपकर्षण भागहारका कुछ कम करके उसका भाग देनेपर प्रकृत स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला द्रव्य आता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये । तथा इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र कथन करना चाहिये । अब जिनका स्वामी इमीके समान है और जिनके स्वामीका ज्ञान इसीसे हो जाता है ऐसे उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवाले स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

⊗ तथा वही उत्कर्षण और संक्रमणसे उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ४८६. इस सूत्रका अर्थ अथगतप्राय है । अब उदयसे हीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये पुच्छासूत्र कहते हैं—

⊗ उदयसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४८७. सुगमं ।

✽ गुणितकर्मसिद्धो संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी च एदाओ गुणसेडीओ काऊण मिच्छत्तं गदो । जाधे गुणसेडिसीसयाणि पढमसमय-मिच्छादिद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ४८८. एदस्स सुत्तस्स अन्थो वुच्चदे । तं जहा—जो गुणितकर्मसिद्धो संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी चेदि एदाओ गुणसेडीओ सब्बुक्कस्सपरिणामेहि काऊण परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गओ तस्स पढमसमयमिच्छाद्विस्स जाधे गुणसेडिसीसयाणि दो वि एगीभूदाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं होदि त्ति पदसंबंधो । कधमेदाओ दो वि गुणसेडीओ भिणकालसंबंधिणीओ एयट्टं काउं सक्किज्जंति ? ण, संजमगुणसेडिणिकखेवायामादो संजमासंजमगुणसेडिणिकखेवदीहत्तस्स संखेज्जगुणत्तेण कमेण कीरमाणीणं तासिं तहाभावाविरोहादो । तदो गुणितकर्मसियलक्खणेणान्तूण सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिय सब्बलहुं समयाविरोहेण

§ ४८७. यह सूत्र सुगम है ।

✽ कोई एक गुणितकर्माशवाला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयम-गुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस जीवके जब मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४८८. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं जो इस प्रकार है—जो गुणितकर्माशवाला जीव सर्वोत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर परिणाम विशेषके कारण मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें जब दोनों ही गुणश्रेणिशीर्ष मिलकर उदयको प्राप्त होते हैं तब मिथ्यात्वके उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं यह इस सूत्रका वाक्यार्थ है ।

शंका—ये दोनों ही गुणश्रेणियाँ भिन्न कालसे सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये इन्हें एकत्र कैसे किया जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमगुणश्रेणिके निक्षेपकी दीर्घतासे संयमासंयमगुणश्रेणिके निक्षेपकी दीर्घता संख्यातगुणी है, इसलिये इन्हें क्रमसे करनेपर इनके एकत्र होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

किसी एक जीवने गुणित कर्माशकी विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीसे निकलकर अतिशीघ्र आगमोक्त विधिसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके उपराम सम्यक्त्वके कालको व्यतीत

१. 'गुणितकर्मसियस्स दोगुणसेडीसीसयस्स ।'— धव० आ० प० १०६५ ।

'मिच्छत्तमीसयांताणुबधिअसमत्तयीणगिद्धीयां ।

तिरिउदएगंताण य विइया तइया य गुणसेडी ॥'—कर्मप्र० उदय गा० १३ ।

पदमसम्मतमुष्पाइय उवसमसम्मतद्धं बोलाविय अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि करिय अपुव्वकरणचरिमसमयादो से काले गहिदसंजमासंजमो एयंताणुवट्टा'बट्टिपदम-समयप्पहुडि जाव तिससे चरिमसमओ ति; ताव पढिसमयमणंतगुणाए संजमासंजम-विसोहीए विसुज्झंतो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्वकम्माणं समयं पडि असखेज्जगुणं दव्वमोक्कट्टिय उदयावलियवाहिरे अंतोमुहुत्तायामवट्टिदगुणसेट्ठिणिकखेवं काऊण पुणो अधापवत्तसंजदासंजदविसोहीए वि पदिदो संतो अंतोमुहुत्तकालं चहुट्टि वट्टि-हाणीहि गुणसेट्ठि काऊण पुणो वि ताणि चेव दो करणाणि करिय गहिदसंजमपदमसमयप्पहुडि मिच्छत्तपदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेठीए ओक्कट्टिय उदयावलियवाहिरट्टिदिमादिं कादूण अंतोमुहुत्तमेत्तट्टिदीसु संजदासंजदगुणसेट्ठिणिकखेवादो संखेज्जगुणहीणासु अंतोमुहुत्तमेत्त कालमवट्टिदगुणसेट्ठिणिकखेवमणंतगुणाए संजमविसोहीए करेमाणो संजदासंजद-एयंताणुवट्टिचरिमसमयकदगुणसेट्ठिणिकखेवस्स संखेज्जे भागे गंतूण संखेज्जदिभागमेत्ते सेसे तदेयंताणुवट्टिचरिमसमयकदगुणसेट्ठिसीसएण सरिमं सगएयंताणुवट्टिचरिमसमय-गुणसेट्ठिसीसयं णिक्खविय एवं दो वि गुणसेट्ठिसीसयाणि एक्कदो काऊण पुणो अधापवत्तसंजदभावेण परिणमिय दोण्हमेदेसिमहिकयगुणसेट्ठिसीसयाणमुवरि

किया । अनन्तर वह अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको करके अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे अनन्तर समयमें संयमासंयमको प्राप्त हुआ । यहाँ इसके सर्वप्रथम एकान्तानुवृद्धिका प्रारम्भ होता है, इसलिये उसने एकान्तानुवृद्धिके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी संयमासंयमविशुद्धिसे विशुद्ध होकर अनन्तमुहूर्त कालतक सब कर्मों के प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुण द्रव्यका अपकर्षण करके उसे उदयावलिके बाहर अन्तमुहूर्त आयामवाले अवस्थित गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त किया । फिर अधःप्रवृत्त संयतासंयत विशुद्धिसे भी गिरता हुआ अन्तमुहूर्त कालतक चार वृद्धि और चार हानियोंके द्वारा गुणश्रेणि की । इसके बाद फिर भी उन दो करणोंको करके संयमको प्राप्त हुआ । और इस प्रकार संयमको प्राप्त करके उसके प्रथम समयसे लेकर मिध्यात्वके कर्मपरमाणुओंको असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अपकर्षित करके उदयावलिके बाहरकी स्थितिसे लेकर संयतासंयतके गुणश्रेणिनित्यसे संख्यातगुणी हीन अन्तमुहूर्तप्रमाण स्थितियोंमें अनन्तगुणी संयमसम्बन्धी विशुद्धिके द्वारा अन्तमुहूर्तकाल तक अवस्थित गुणश्रेणिका निक्षेप करता है । यहाँ पर संयतासंयतके एकान्तानु-वृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें किये गये गुणश्रेणिनित्यके संख्यात बहुभागको वितार और संख्यातवै भागकालके शेष रहने पर जो संयतासंयतके एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें गुणश्रेणिशिर्षका निक्षेप किया गया है सो उसीके समान संयत भी अपने एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें गुण श्रेणिशिर्षका निक्षेप करे । और इस प्रकार दोनों ही गुणश्रेणिशिर्षकों एक करके फिर अधःप्रवृत्तसंयतभावको प्राप्त हो जाय । और इस

१. बह्वावट्ठी एवं भण्डिदे तामु चेव सजमासजमसजमलद्धीसु अलद्धपुब्बासु पडिलद्धासु तल्लाभ-पदमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालमन्तरे पडिसमयमणंतगुणाए सेटीए परिणामवट्टी गहेयव्वा; उवव्वरि परिणामवट्टीए बह्वावट्ठीववएसालंबव्वादो ।'—जयध० पु० का० ६३१६ ।

अंतोमुहुत्तमेतकालं छवद्वि-हाणिपरिणामेहि ओफडिज्जमाणपदेसग्गस्स चउच्चिहवद्वि-
हाणिकारणभूदेहि गुणसेट्ठिं करेमाणो ताव गच्छदि जाव एवं पूरिदाणि गुणसेट्ठिसियाणि
दो वि दुचरिमसमयअपत्तउदयद्विदियाणि ति । तदो से काले मिच्छत्तं गदस्स तस्स जाधे
गुणसेट्ठिसीमयाणि एत्तिएण पयत्तेण पूरिदाणि दो वि जुगवमुदिण्णाणि ताधे
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं होदि ति एसो मुत्तस्स समुदायत्थो । कुदो
एदस्स उदिण्णस्स उदयादो भीणद्विदियत्तं ? ण, पुणो तप्पाओग्गत्ताभावं पेक्खियूण
तहोवएसोदो । एत्थ जाधे दो वि गुणसेट्ठिसीमयाणि उदयावल्लियं ण पविसंति ताधे
चेय संजदो किमद्वं मिच्छत्तं ण णीदो ? ण, अथापवत्तसंजदगुणसेट्ठिलाहस्स अभाव-
प्पसंगादो । जइ एवं, गुणसेट्ठिसीमएसु उदयावल्लियवन्तरं पइद्वे सु मिच्छत्तं ऐहापो
उवरि अविणह्णे णुवसंजमेणावहाणफलाणुवलंभादो ति ? ण, मिच्छाइद्विउदीरणादो
विसोहिवसेणासंखेज्जगुणमंजदउदीरणाए जणिदलाहस्स एत्थ वि अभावावचीदो ।
ण च तत्थ मिच्छत्तस्स उदयाभावपुव्वउदीरणाभावेण पयदफलाभावो आसंकिज्जो,

प्रकार इस भावको प्राप्त करके अधिकृत दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षों के आगे अपकर्षणको प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंके चार प्रकारकी हानि और वृद्धियोंके कारणभूत छह प्रकारकी वृद्धि और हानिरूप परिणामोंके द्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक गुणश्रेणिको करता हुआ तब तक जाता है जब जाकर पूर्वोक्त विधिसे पूरे गये दोनों ही गुणश्रेणिशीर्ष उदयस्थितिके उपान्त्य समयको प्राप्त होते हैं । इसके बाद तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर इसके इतने प्रयत्नसे पूरे गये दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षों मिलकर उदयमें आते हैं तब मिथ्यात्वके उदयसे शून्यस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । इस प्रकार यह इस सूत्रका समुदायार्थ है ।

शंका—जब कि ये उदयप्राप्त हैं तब ये उदयसे शून्यस्थितिवाले कैसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ये फिरसे उदययोग्य नहीं हो सकते, इसलिये इन्हें उदयसे शून्यस्थितिवाला कहा है ।

शंका—यहाँ दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षोंके उदयावलिमें प्रवेश करनेके पहले संयतको मिथ्यात्व गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त कराया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऐसा करनेसे इसके अधःप्रवृत्तसंयतके होनेवाली गुणश्रेणिके लाभका अभाव प्राप्त होता ।

शंका—यदि ऐसा है तो गुणश्रेणिशीर्षोंके उदयावलिमें प्रवेश करनेपर मिथ्यात्व गुणस्थानमें ले जाना उचित था, क्योंकि इसके आगे संयमका नाश किये बिना उसके साथ रहनेका कोई फल नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके होनेवाली उदीरणाकी अपेक्षा विशुद्धिके कारण संयतके होनेवाली असंख्यातगुणी उदीरणासे होनेवाला लाभ ऐसी हालतमें भी नहीं बन सकेगा, इसलिये गुणश्रेणिशीर्षोंके उदयावलिमें प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें नहीं ले गये हैं ।

यदि कहा जाय कि संयतके मिथ्यात्वका उदय न हो सकेसे उदीरणा भी नहीं हो सकती, इसलिये यहाँ उदीरणासे होनेवाले फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती सो ऐसी आशंका करना भी ठीक

सम्भक्तविवुक्तसंकमस्सियुण लाहदंसणादो । अण्णं च जावलियमेत्तकालावसेसे मिच्छत्तं गच्छमाणो पुच्चमेव संकिलिस्सदि त्ति विसोहिणिबंधणो गुणसेटिलाहो बहुओ ण लब्भदि । ण च संकिलेसावुरणेण विणा मिच्छत्ताहिमुहभावसंभवो, तस्स तदविणाभावितादो । तेण कारणेण जाव गुणसेटिसीसयाणि दुच्चरिमसमयअणुदिण्णाणि ताव संजदभावेणच्छाविय पुणो से काले एगंताणुवट्टिच्चरिमगुणसेटिसीसयाणि दो वि एकलगाणि उदयमागच्छिहिंति त्ति मिच्छत्तं गदपढमसमए उक्कस्सयउदयादो भीणट्टिदियस्स सामित्तं दिण्णं । एत्थ पमाणाणुगमो जाणिय कायव्वो । अहवा गुणसेटिसीसयाणि त्ति बुत्ते दोण्हमोचच्चरिमगुणसेटिसीसयाणि सच्चुक्कस्सविसोहिणिबंधणाणि घेप्पति ण एयंतवट्टावट्टिच्चरिमगुणसेटिसीसयाणि, तत्थतणचरिमविसोहीदो अधापवत्तसंजदसत्याणविसोहीए अणंतगुणत्तादो । ण चेदं णिणिबंधणं, लद्धिट्टाणपरूवणाए परूविस्समाणप्पावहुअणिबंधणत्तादो । तदो ओघच्चरिमसंजदासंजदगुणसेटिसीसयस्सुवरि सव्वविमुद्धसंजदणिक्खित्तगुणसेटिसीसयमेत्थ घेत्तव्वं । एवं घेतूण एदमणंतगुणविसोहीए कदगुणसेटिसीसयदव्वं संजदासंजदगुणसेटिसीसएण सह जाधे पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स उदयमागयं ताधे उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियमिदि सामित्तं वत्तव्वं ।

नहीं हैं, क्योंकि सम्यक्त्वसम्बन्धी स्तिबुक् संक्रमणीकी अपेक्षा लाभ देखा जाता है । दूसरे एक श्रावणिकालके शेष रहने पर यदि इस जाबको मिथ्यात्वमे ले जाते हैं तो वह पहलेसे संकिल्ट हो जायगा और ऐसी हालतमे विशुद्धनिमित्तक अधिक गुणश्रेणिका लाभ नहीं हो सकेगा । यदि कहा जाय कि संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना ही मिथ्यात्वके अनुकूल भाव हो सकते हैं सो भी बात नहीं है; क्योंकि इन दोनोंका परस्परमे अविनाभाव सम्बन्ध है, इसलिये जब तक गुणश्रेणिशर्ष उदयके उपान्त्य समयको नहीं प्राप्त होते तब तक इस जीवका संयत ही रहने दे । किन्तु तदनन्तर समयमें एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमे की गईं दोनो ही गुणश्रेणियाँ उदयको प्राप्त होंगी, इसलिये मिथ्यात्वका प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही उदयसे शीनस्थितिवाले कर्मपरमणुओंका स्वामी बतलाया है । यहाँ इनके प्रमाणका विचार जानकर कर लेना चाहिये । अथवा गुणश्रेणिशर्ष ऐसा कहने पर संयमासंयम और संयम इन दोनो अवस्थाओंके सबसे उत्कृष्ट विशुद्धिके निमित्तसे अन्तमे होनेवाले ओघ गुणश्रेणिशर्ष लेने चाहिये, एकान्तवृद्धिके अन्तमें होनेवाले गुणश्रेणिशर्ष नहीं, क्योंकि एकान्तवृद्धिके अन्तमे होनेवाली विशुद्धिसे अधःप्रवृत्तसंयतकी स्वस्थानविशुद्धि अनन्तगुणी होती है । यदि कहा जाय कि यह कथन अश्वेतुक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि लब्धिवस्थानोंका कथन करते समय जो अल्पबहुत्व कहा है उससे इसकी पुष्टि होती है, इसलिये आंघसे अन्तमें प्राप्त हुए संयतासंयतके गुणश्रेणिशर्षके ऊपर सर्वविशुद्ध संयतके प्राप्त हुआ गुणश्रेणिशर्षका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार अनन्तगुणी विशुद्धिसे निष्पन्न हुआ यह गुणश्रेणिशर्षका द्रव्य संयतासंयतसम्बन्धी गुणश्रेणिशर्षके साथ जब मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होता है तब उदयसे शीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उदयसे शीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-

परमाओंका स्वामी बतलाते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ऐसा जीव एक तो गुणितकर्माशवाला होना चाहिये, क्योंकि अन्य जीवके कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता। दूसरे गुणितकर्माश होनेके बाद यथासम्भव अतिशीघ्र संयमासंयम और तदनन्तर संयमकी प्राप्ति कराकर इसे एकान्तवृद्धि परिणामों के द्वारा संयमासंयम गुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिकी प्राप्ति करा देनी चाहिये। किन्तु इनकी प्राप्ति इस ढंगसे करानी चाहिये जिससे इन दोनों गुण-श्रेणियोंका शीघ्र एक समयवर्ती हो जाय। फिर गुणश्रेणिश्रीषों के उपान्त्य समयके प्राप्त होने तक जीवको वहीं संयमभावके साथ रहने देना चाहिये। किन्तु जब तक यह जीव संयमभावके साथ रहे तब तक भी इसके गुणश्रेणिका क्रम चालू ही रखना चाहिये, क्योंकि जब तक संयमासंयम-रूप या संयमरूप परिणाम बने रहते हैं तब तक गुणश्रेणिरचनाके चालू रहनेमें कोई बाधा नहीं आती। बात इतनी है कि इन दोनों भावोंकी प्राप्ति होनेके प्रथम समयसे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम होते हैं, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रेणिरचना होती है और बादमें अधःप्रवृत्तसंयमा-संयम या अधःप्रवृत्तसंयमरूप अवस्था आ जाती है, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रेणि रचना होने लगती है। जिन परिणामोंकी अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होती जाती है और जिनके होनेपर स्थितिकाण्डकथान, अनुभागकाण्डकथा तथा स्थितिबन्धापसरण ये क्रियाएँ पूर्ववत् चालू रहती हैं वे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम हैं। तथा जिनके होने पर स्वस्थानके योग्य संक्लेश और विशुद्धि हाँती रहती हैं वे अधःप्रवृत्त परिणाम हैं। एकान्तवृद्धिरूप परिणामोंके होने पर मिथ्यात्वकर्मकी अपेक्षा गुणश्रेणिरचनाका क्रम इस प्रकार है—

संयमासंयमगुणका प्राप्त होनेके प्रथम समयमें उपरिम स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षण करके उद्यावलिके बाहर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थितियोगे गुणश्रेणिश्रीषतक उत्तरोत्तर असंख्यात-गुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। अर्थात् उद्यावलिके बाहर अनन्तर स्थित स्थितिमें जितने द्रव्यका निक्षेप करता है उससे अगली स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणिश्रीष तक जानना चाहिये। किन्तु गुणश्रेणिश्रीषसे अगली स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है और इसके आगे विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। दूसरे समयमें प्रथम समयकी अपेक्षा भी असंख्यातगुणे द्रव्यका पूर्वोक्त क्रमसे निक्षेप करता है। इस प्रकार एकान्तानुवृद्धिका काल समाप्त होने तक यही क्रम चालू रहता है।

किन्तु अधःप्रवृत्तरूप परिणामोंकी अपेक्षा गुणश्रेणिरचनाके क्रममें कुछ अन्तर है। बात यह है कि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम सदा एकसे नहीं रहते किन्तु संक्लेश और विशुद्धिके अनुसार उनमें घटावदी हुआ करती है, इसलिये जब जैसे परिणाम होते हैं तब उन परिणामोंके अनुसार गुणश्रेणि रचनामें भी कर्म परमाणु न्यूनाधिक प्राप्त होते हैं। विशुद्धिकी न्यूनाधिकताके अनुसार कभी प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि रचना करता है। कभी प्रति समय संख्यातगुणे संख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि रचना करता है। इसी प्रकार कभी प्रति समय संख्यातवर्षे भाग अधिक या कभी असंख्यातवर्षे भाग अधिक द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणि रचना करता है। और यदि संक्लेशरूप परिणाम हुए तो उनमें भी जब जैसी न्यूनाधिकता होती है उसके अनुसार कभी असंख्यातगुणे हीन कभी संख्यातगुणे हीन और कभी संख्यातवर्षे भाग हीन और कभी असंख्यातवर्षे भाग हीन द्रव्यका अप-कर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। इस प्रकार संयमासंयम और संयमके अन्त तक यह क्रम चालू रहता है।

यदि संयमासंयम या संयमसे श्रुत होकर अतिशीघ्र इन भावोंको जीव पुनः

❊ सम्मत्तस उक्कस्सयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो उदयावो च भ्नीणद्विदियं कस्स ।

§ ४८६. सुगमपेदं पुच्छामुत्तं । णवरि उदयावलियबाहिरद्विदिसमवद्विदस्स सम्मत्तपदेसाणं बज्झमाणमिच्छत्तस्सुवरि समद्विदीए संकंताणमुक्कड्डुणासंभवं पेक्खियूण सम्मत्तस ततो भ्नीणाभ्नीणद्विदियत्तमेत्थ घेतव्वं, अण्णहा तदणुववत्तीदो ।

❊ गुणियदकम्मंसिओ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेकुमाढत्तो

प्राप्त करता है तो एकान्तवृद्धिरूप परिणाम और उनके कार्य नहीं होते । यहाँ एकान्तवृद्धिमें उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी परिणामोकी विशुद्धि होती जाती है, इसलिये संयमासंयमी और संयमीके इन परिणामोके अन्तमें जां गुणश्रेणिशरीर्षं हांते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है अथवा यद्यपि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं तथापि सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिके कारणभूत ये परिणाम अन्तिम समयमें हांनेवाले एकान्तवृद्धिरूप परिणामोसे भी अनन्तगुणे हांते हैं, अतः इन परिणामोके निमित्तसे जां गुणश्रेणिशरीर्षं प्राप्त हों उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । इस प्रकार मिथ्यात्वकी अपेक्षा उदयसे भ्नीनस्थितियांले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका उत्कृष्ट स्वामी कौन है इसका विचार किया । यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार करते हुए टीकामे अनेक शंका प्रतिशंकाएँ की गई हैं पर उनका विचार वहाँ किया ही है, अतः उनका यहाँ निर्देश नहीं किया ।

* सम्यक्त्वके अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे संक्रमणसे और उदयसे भ्नीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओका स्वामी कौन है ।

§ ४८६. यह पृच्छामुत्त सरल है । किन्तु इनकी विशेषता है कि उदयावलिसे बाहरकी स्थितिमें स्थित जां सम्यक्त्वके प्रदेश बंधनेवाले मिथ्यात्वके ऊपर गमान स्थितिमें संक्रान्त हांते हैं उनका उत्कर्षण सम्भव है इमी अपेक्षासे ही यहाँ सम्यक्त्वके उत्कर्षणसे भ्नीनाभ्नीनस्थितिपनेका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा सम्यक्त्वके उत्कर्षणसे भ्नीनाभ्नीनस्थितिपना नहीं बन सकता ।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व यह बंधनेवाली प्रकृति नहीं है, इसलिये इसका अपने बन्धकी अपेक्षा उत्कर्षण ही सम्भव नहीं है । हां मिथ्यात्वके बन्धकालमें सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओका मिथ्यात्वमें संक्रमण हांकर उनका उत्कर्षण हां सकता है । यद्यपि यह संक्रमित द्रव्य मिथ्यात्वका एक हिस्सा हां गया है तथापि पूर्वमें ये सम्यक्त्वके परमाणु रहे उस अपेक्षासे इस उत्कर्षणका सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओका उत्कर्षण कहनेमें भी आपत्ति नहीं । इस प्रकार इस अपेक्षासे सम्यक्त्वके परमाणुओका उत्कर्षण मानकर फिर यह विचार किया गया है कि सम्यक्त्वके कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भ्नीनस्थितिवाले हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अर्हकन स्थितिवाले हैं । यदि ऐसा न माना जाय तो सम्यक्त्व प्रकृतिके कर्मपरमाणुओका उत्कर्षण ही घटित नहीं हांता है । और तब फिर सम्यक्त्वका उत्कर्षणसे भ्नीनाभ्नीन स्थितिपना भी कैसे बन सकता है । अर्थात् नहीं बन सकता है । इसलिये सम्यक्त्वके उत्कर्षणकी व्यवस्था उक्त प्रकारसे करके ही भ्नीनाभ्नीनस्थितिपनेका विचार करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* जिस गुणित कर्मांशवाले जीवने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीय कर्मके क्षय करनेका

अधद्विदियं गलंतं जावे उदयावलियं पविससमाणं पविट्टं तावे उक्कस्सय-
भोक्कड्डणादो वि उक्कड्डणादो वि संकमणादो वि भीणद्विदियं ।

§ ४६०. पदस्स तिण्हं भीणाद्विदियाणं सामित्तपरूवणासुत्तस्स अत्थो—जो गुणिदकम्मंसिओ पुच्चविहाणेणागदो सच्चलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुपाढत्तो अपुच्चअणियद्विकरणपरिणामेहि बहुएहि द्विदिअणुभागखंडएहि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते संलुहिय पुणो तं पि पल्लिदोवमस्स असंखे० भागमेत्तचरिपट्टिदिस्वंडयचरिमफालि-
सरूवेण सम्मत्ते संलुहंतो सम्मत्तस्स वि तक्कालिएण द्विदिस्वंडएण पल्लिदोवमासंखेज्जदि भागिएण अट्टवस्समेत्तद्विदिसंतकम्मावसेसं काऊण तत्थ संलुहिय पुणो वि संखेज्जद्विदिस्वंडयसहस्सेहि सम्मत्तद्विदिमद्दहरीकरिय कदकरणिज्जो होदूणावद्विदो तस्स अधद्विदियं गलंतं सम्मतं जाथे कमेण उदयावलियं पविसमाणं संतं णिरवसेसं पड्डं ताथे आवलियमेत्तगुणसेदिगोवुच्छा ओदरिय अबद्विदस्स ओक्कड्डणादो वि उक्कड्डणादो वि संकमणादो वि भीणाद्विदियं पदेसगं होइ । एत्थ उदयावलियं पविसमाणं पविट्टमिदि वयणमकमपवेसासंकाणिरायरणदुवारेण कम्मपदेस-
प्पदुप्पायणट्टं दट्ठवं । सेसं सुगमं ।

आरम्भ किया है उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब उदयावलिमें प्रवेश करता है तब वह अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६०. अब तीन भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन करनेवाले इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—पूर्वविधिसे आये हुए गुणितकर्मशब्दवाले जिस जीवने अतिशीघ्र दर्शन-
माहनीय कर्मके क्षयका आरम्भ करके अपूर्यकारण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके निमित्तसे बहुतसे स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोंके द्वारा मिथ्यात्वका सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रमित किया । फिर सम्यग्मिथ्यात्वका भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अनन्तम स्थितिकाण्डककी अनन्तम फालिरूपसे सम्यक्त्वमे संक्रमित किया । फिर सम्यक्त्वका भी उसी समय होनेवाले पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकके द्वारा आठ वर्षप्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष रच्यकर शेषका उसी शेष स्थितिमें निक्षिप्त किया । इसके बाद फिर भी संख्यात हजार स्थिति-
काण्डकोंके द्वारा सम्यक्त्व की स्थितिको अत्यन्त ह्रस्व करके जो कृतकृत्य होकर स्थित हुआ उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब क्रमसे उदयावलिमें पूराका पूरा प्रवेश कर जाता है तब एक आवलिप्रमाण गोपुच्छा उतर कर स्थित हुए इस जावके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण इन तीनोंसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । यहाँ सूत्रमें जो 'उदयावलियं पविसमाणं पविट्टं' यह वचन कहा है सो यह युगपत् प्रवेशकी आशंकाके निराकरण द्वारा क्रमसे होनेवाले प्रवेशका सूचन करनेके लिये जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा सम्यक्त्वके भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका निर्देश किया है । यद्यपि यहाँ जो दृष्टान्त दिया है

१४६१. संपहि उदयादो उक्कस्सज्झीणट्ठिदियस्स सामित्तविसेसपरूवणइत्तुत्तर-
मुत्तस्सावयारी—

❁ तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं
तमुक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं ।

१४६२. तस्सेव पुव्वपरूविदजीवस्स पुणां वि गालिदसमयूणावलियमेत्त-
गोवुच्चस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयभावे वट्टमाणस्स जं सव्वमुदयं तं
पदेसग्गं तमुक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियमिदि सुत्तत्थसंबधो । एत्थ सव्वमुदयं तमिदि
वुत्ते सर्वेपामुदयानामन्त्यं निःपश्चिममुदयप्रदेशाअं सर्वोदयान्त्यमिति व्याख्येयं । कुदो
पुण एदस्स सव्वोदयंतस्स सव्वुक्कस्सत्तं ? ण, दंसणमोहणीयदव्वस्स सव्वस्सेव त्थोवूणस्स
पुंजीभूदस्सेत्थुवलंभादो । तदां चेयं पाठंतरमवलंबिय वक्खाणंतरमेत्थ चरिम-
समयअक्खीणं जं दंसणमोहणीयं तस्स जो सव्वोदयो अत्रिविक्खयकिंचूणभावो तं
पेतूण उक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं हांदि ति ।

वह दर्शनमोहनीयकी ज्ञापणके समयका है और तब न तो सम्यक्त्वका संकमण ही होता है
और न उत्कृष्ट ही । तथापि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं इस
सामान्य कथनके अनुसार उनका उत्कृष्ट प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है इस विवेचनासे यह स्वामित्व
जानना चाहिये ।

१४६१. अब उदयसे उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वविशेषका कथन
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी ज्ञापणा नहीं की है ऐसे उसी जीवके
दर्शनमोहनीयकी ज्ञापणाके अन्तिम समयमें जो सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे
उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं ।

१४६२. जिसने और भी एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको गला दिया है
और दर्शनमोहनीयकी पूरी ज्ञापणा न होनेसे उसके अन्तिम समयमें विद्यमान हैं ऐसे उसी पूर्वमें
कहे गये जीवके जो सम्यक्त्वके सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणु हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है । यहाँ सूत्रमें जो सव्वमुदयं तं, ऐसा कहा है सो इस
पदका ऐसा व्याख्यान करना चाहिये कि सब उदयोंके अन्तमें जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ
लिये गये हैं ।

शंका—सब उदयोंके अन्तमें स्थित ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दर्शनमोहनीयका कुछ कम सब द्रव्य एकत्रित होकर यहाँ
पाया जाता है, इसलिये ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट हैं । उक्त सूत्रका यह एक व्याख्यान हुआ ।
अब पाठान्तरका अधलम्ब लेकर इसका दूसरा व्याख्यान करते हैं । यथा—अन्तिम समयमें
जो अक्षीण दर्शनमोहनीय है उसका जो सर्वोदय है उसकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्म परमाणु होते हैं । यहाँ किंचित् ऊनपनेकी विवेचना न करके सर्वोदय पदका प्रयोग किया है
इतना विशेष जानना चाहिए ।

❁ सम्मामिच्छुत्तस्स उक्कत्तसयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणावो च भीणट्टिदियं कस्स ।

§ ४६३. सुगमपेदं पुच्छामुत्तं । णवरि सम्मत्तस्सेव एत्थ उक्कड्डणादो भीणट्टिदियस्स संबवो वत्तव्वो ।

❁ गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छुत्तस्स अपच्छिम्मट्टिदिल्लंघयं संबुभमाणयं संबुद्धमुदयावलिया उदयवज्जा

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमें सम्यक्त्वकी अपेक्षा उदयसे मीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है यह बतलाया है। गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर जिसने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ किया है वह पहले मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें और सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रज्ञप्त करनेके बाद कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होता है। फिर सम्यक्त्वको अद्यःस्थितिके द्वारा गलता हुआ क्रमसे उदयके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। इस प्रकार इस उदय समयमें सम्यक्त्वका जितना द्रव्य पाया जाता है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं, इसलिये इसे उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। यहाँ सूत्रमें आये हुए 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं' इसके दो पाठ मानकर दो अर्थ सूचित किये गये हैं। प्रथम पाठ तो यही है और इसके अनुसार 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स' यह सूत्रमें आये हुए 'तस्सेव' पदका विशेषण हा जाता है और 'सव्वमुदयं' पाठ स्वतन्त्र हो जाता है। किन्तु दूसरा पाठ 'चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयसव्वोदयं' ध्वनित होता है और इसके अनुसार 'अन्तिम समयमें अक्षीण जां दर्शनमोहनीय उसका जो सर्वोदय उसकी अपेक्षा' यह अर्थ प्राप्त होता है। मालूम होता है कि ये दो पाठ टीकाकारने दो भिन्न प्रतियोंके आधारसे सूचित किये हैं। फिर भी वे प्रथम पाठ को मुख्य मानते रहे, इसलिये उसे प्रथम स्थान दिया और पाठान्तररूपसे दूसरेकी सूचना की। यहाँ पाठ काँई भी विवक्षित रहे तब भी निष्कर्षमें कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यह दोनों ही पाठोंका निष्कर्ष है कि इस प्रकार सम्यक्त्वकी क्षपणाके अन्तिम समयमें जो उदयगत कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं वे उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं।

❁ सम्यग्मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे मीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४६३. यह पुच्छामुत्तं सुगम है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर सम्यक्त्वके समान ही उत्कर्षणसे मीनस्थितिपनेके सद्भावका कथन करना चाहिये। आशय यह है सम्यक्त्वके समान सम्यग्मिथ्यात्वका भी बन्ध नहीं होता, इसलिये अपने बन्धकी अपेक्षा इसका उत्कर्षण नहीं बन सकता। अतएव जिस क्रमसे सम्यक्त्वमें उत्कर्षण घटित करके बतला आये हैं वैसे ही सम्यग्मिथ्यात्वमें घटित कर लेना चाहिये।

❁ अति शीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले शुभितकर्मांशवाले जिस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे क्षेपण हो गया है और

भरिदल्लिया तस्स उक्कस्सयमोकडुणादो उक्कडुणादो संकमणादो च भीण्हिदियं ।

§ ४६४. एदस्स सामित्तविहाययमुत्तस्सासेसावयवत्थपरूवणा सुगमा, मिच्छत्त-सामित्तमुत्तम्मि परूविदत्तादो । णवरि उदयावलिया ति बुत्ते उदयसमयं भोत्तूण समयूणावलियमेत्तदंसणमोहणीयक्खवणगुणसेट्ठिगोबुच्छाहि जावदि सक्कं ताव आबुरिदपदेसग्गाहि उदयावलिया संपुण्णीकया ति घेतत्त्वं । उदयसमओ किमिदि बज्जिदो ? ण, उदयाभावेण तस्स त्थिवुक्कसंकमेण सम्मत्तुदयगोबुच्छाए उवरि संकमिय विपच्चंतस्स एत्याणुवजोगित्तादो ।

❁ उक्कस्सयमुदयादो भीण्हिदियं कस्स ।

§ ४६५. सुगमं ।

❁ गुणित्कर्माश्रयो संजमासंजम-संजमगुणसेट्ठीश्रो काऊण ताथे गदो सम्मामिच्छत्तं जाथे गुणसेट्ठीसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाह्हिट्ठस्स

उदयसमयके सिवा शेष उदयावलि पूरित हो गई है वह सम्यग्मिध्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६४. स्वामित्वका विधान करनेवाले इस सूत्रके सब अवयवोका अर्थ सुगम है, क्योंकि मिध्यात्वके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें उनका प्ररूपण कर आये हैं । किन्तु सूत्रमें जो 'उदयावलिया उदयवज्जा भरिदल्लिया' ऐसा कहा है सो इसका आशय यह है कि उदयसमय के सिवा एक समय कम उदयावलिप्रमाण जो दर्शनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी गोपुच्छाए हैं, जो कि यथासम्भव अधिकसे अधिक कर्मपरमाणुओंसे पूरित की गई हैं, उनसे उदयावलिको परिपूर्ण करे ।

श्रंका—यहाँ उदय समयका वर्जन क्यों किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यग्मिध्यात्वका उदय न होनेसे वह उदयसम्बन्धी गोपुच्छा स्तिवुक संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वकी उदयसम्बन्धी गोपुच्छामें संक्रमित होकर फल देने लगती है, इसलिये वह यहाँ उपयोगी नहीं है ।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्माश्रयाला जीव अतिशीघ्र आकर दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करता है उसके सम्यग्मिध्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन हो जानेके बाद जो एक समय कम उदयावलि प्रमाण कर्म परमाणु शेष रहते हैं वे अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं यह इस सूत्रका भाव है । शेष विशेषता जैसे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट स्वामित्वका विशेष खुलासा करते समय लिख आये है उसी प्रकार यहाँ भी जान लेनी चाहिये ।

❁ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४६५. यह सूत्र सुगम है ।

❁ गुणितकर्माश्रयाला जो जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यात्वका प्राप्त होनेके प्रथम

उदयभागदाणि ताधे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स उक्कस्सयमुदयावो मीणदिविचं ।

§ ४६६. एत्थ जो गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण ताधे सम्मामिच्छत्तं गदो जाधे पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स गुणसेदिसीसयाणि उदयभागयाणि त्ति पदसंबंधो कायव्वो । सेसपरूवणाए पिच्छत्तभंगो ।

§ ४६७. एत्थ के वि आइरिया एवं भणंति—जहा सम्मामिच्छत्तस्स उदयादो मीणदिविचं पाम अत्यसंबंधेण संजदासंजद-संजदगुणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु-बंधिविसंजोयणगुणसेढीए सह जाधे एदाणि तिण्णि वि गुणसेदिसीसयाणि पढमसमय-सम्मामिच्छाइडिस्स उदयभागच्छंति ताधे तस्स उक्कस्सयं होइ, अणंताणुबंधि-विसंजोयणगुणसेढीए सुत्तपरूविददोगुणसेढीहितो पदेसरगं पडुच्च असंखेज्जगुणत्तादो । जइ वि संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ अणंताणुबंधिविसंजोयणाए ण लब्धंति तो वि एदीए चेव पज्जत्तं, तत्तो असंखेज्जगुणत्तादो । णवरि अणंताणुबंधिविसंजोयणगुण-सेढिमीसयं गंधयारेण ण जोइदमिदि ण पदं घडदे । कुदो ? अणंताणुबंधिविसंजोयण-गुणसेढीए अविणट्ठसरूवाए अच्छंतीए सम्मामिच्छत्तगुणपरिणमणाभावादो । पदं कुदो णव्वदे ? एदमहादो चेव सुत्तादो । ण च संतमत्थ ण परूवेदि सुच्चं, तम्म अच्चावयत्त-समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तो प्रथम समयवर्ती वह सम्यग्मिध्या-दृष्टि जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६६. यहाँपर जो गुणितकर्माशवाला जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष परूपणा मिध्यात्वके समान हैं ।

§ ४६७. यहाँपर कितने ही आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं कि उदयसे सम्यग्मिध्यात्वका झीनस्थितिपना जैसे किसी एक गुणितकर्माशवाले जीवने संयनासंयत और संयतकी गुणश्रेणियोंका किया । फिर उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण-श्रेणिशीर्षके साथ जब ये तीनों ही गुणश्रेणिशीर्ष सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होते हैं तब उसके उत्कृष्ट झीनस्थिति द्रव्य होता है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिसूत्रमें कही गई दो गुणश्रेणियों कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा असंख्यातगुणी होती हैं । यद्यपि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके समय संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियों नहीं प्राप्त होती हैं तो भी यही केवल पर्याप्त है, क्योंकि यह उन दोनोंसे असंख्यातगुणी होती है । किन्तु ग्रन्थकारने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण-श्रेणिशीर्षको नहीं जांझा है इसलिये यह बात नहीं बनती, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-सम्बन्धी गुणश्रेणिके निर्जीण हुए बिना रहते हुए सम्यग्मिध्यात्वगुणकी प्राप्ति नहीं होती ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

दोसप्पसंगादो ।

§ ४६८. अण्णं च एदस्स णिबंधणमत्थि । तं जहा—संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादिचउवीसमणियोगहारेसु पढिबद्धे उदओ णाम अत्थाहियारो द्विदि-अणु-भाग-पदेसार्णं पयदिसमणियाणमुक्कस्साणुक्कस्सजहण्णाजहण्णुदयपरुवणेयवावारो, तत्तुक्कस्सपदेसुदयसामितसाहणद्वं' सम्मत्तुप्पत्तियादिपकारसगुणसेदीओ परुविय पुणो जाओ' गुणसेदीओ संकिलेसेण सह भवंतरं संकामेति ताओ वत्तइस्सामो । तं जहा—उवसमसम्मत्तगुणसेदी संजदासंजदगुणसेदी अथापवत्तसंजदगुणसेदी त्ति एदाओ त्तिण्ण गुणसेदीओ अप्पसत्थमरणेण वि मदस्स परभवे दीसंति । सेसामु गुणसेदीसु भूणीणामु अप्पसत्थमरणं भवे इदि वुत्तं तं पि केणाहिप्पाएण वुत्तं, उक्कस्स-संकिलेसेण सह तासि विरोहादो त्ति । तं पि कुदो ? संकिलेसावूरणकालादो पयदगुण-सेदीणमायामस्स संखेज्जगुणहीणत्तब्भुवगमादो । तदो एदेण साहणेण एत्थ वि तासि-

यदि कहा जाय कि सूत्र विद्यमान अर्थका कथन नहीं करता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर सूत्रको अव्यापकत्व दोषका प्रसंग प्राप्त होता है ।

§ ४६८. तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके मद्भावमे जीव सम्यग्मिध्यात्व गुणको नहीं प्राप्त होता इसका एक अन्य कारण है जो इस प्रकार है—कृति, वेदना आदि चीबीस अनुयोगद्वारोसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्कर्म महाधिकारमे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यरूप उदयके कथन करनेमें व्यापृत एक उदय नामका अर्थाधिकार है । वहाँ उत्कृष्ट प्रदेशोदयके स्वामित्वका साधन करनेके लिये सम्यक्त्वकी उत्पत्ति आदि ग्यारह गुणश्रेणियोंका कथन करनेके बाद फिर “जो गुणश्रेणियाँ संक्लेशरूप परिणामोंके साथ भवान्तरमें जाती हैं उन्हें बतलाते हैं । जैसे—उपशम सम्यक्त्व-गुणश्रेणि, सयतासंयतगुणश्रेणि और अधःप्रवृत्तसंयतगुणश्रेणि इस प्रकार ये तीन गुणश्रेणियाँ अप्रशस्त मरणके साथ भी मरे हुए जीवके परभवमें दिखाई देती हैं । किन्तु शेष गुणश्रेणियोंके क्षयको प्राप्त होने पर ही अप्रशस्त मरण होता है ।” यह कहा है सो यह किस अभिप्रायसे कहा है ? मालूम होता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है, इसलिये ऐसा कहा है ।

शंका—यह भी कैसे जाना ?

समाधान—संक्लेशको पूरा करनेका जो काल है उससे प्रकृत गुणश्रेणियोंका आयाम संख्यातगुणा हीन स्वीकार किया है, इससे जाना जाता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है ।

इसलिये इस साधनसे यहाँ भी अर्थात् सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें भी उनका अभाव

१. ध० आ०, पत्र १०६५ । “त्तिवि वि पटमिज्जाओ मिञ्जुत्ताए वि होज अरुभवे ।” —कर्म प्र० उदय गा० १० । ‘सम्मत्तुप्पादगुणसेदी देसविरदगुणसेदी अहापमत्तसंजयगुणसेदी य एथा त्तिवि वि पट-मिज्जाओ गुणसेदीतो मिञ्जुत्त वि होज अप्रमंभं’ त्ति मिञ्जुत्तं गंतुए अप्पमत्थं, मरणेण मओ गुणसेदितियदलियं परभवगतो वि कि त्रिकालं वेदिजा ।’—चूर्णि ।

मभाबो सिद्धो । ण च एत्थ संकिलेसो णत्थि चि वोर्त्तुं जुत्तं, संकिलेसावूरणेण विणा सम्माइद्धिस्स सम्मामिच्छत्तगुणपरिणामासंभवादो । ण च तत्थ अप्पसत्थमरणं तं तंते ण वुत्तं, संकिलेसमेत्तेण सह तासिं विरोहपदुप्पायणट्ठ' तहोवएसादो । तम्हा सुत्तपरुविदाणि चेष दोगुणसेट्ठिसीसयाणि संकिलेसकालो वि अविणस्संतसरूपाणि जाधे पढमसमयसम्मामिच्छाइद्धिस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्रीणट्ठिदियस्स मिच्छत्तस्सेव सामिचं वत्तव्वमिदि सिद्धं ।

सिद्ध हुआ । यदि कहा जाय कि यहाँ संक्लेश नहीं होता सो भी बात नहीं है, क्योंकि संक्लेश पूरा हुए बिना सम्यग्दृष्टिके सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं । यदि कहा जाय कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमे अग्रशस्त मरण होता है यह बात आगममे नहीं कही है सो ऐसा कहकर भी मुख्य बात को नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि संक्लेशमात्रके साथ उक्त गुणश्रेणियों के विरोधका कथन करनेके लिये वैसा उपदेश दिया है । इसलिये सूत्रमे कहे गये दो गुणश्रेणियों ही नाशको प्राप्त हुए बिना जब सम्यग्मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमे उदयको प्राप्त होते हैं तभी उनके उदयसे कानिस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका मिध्यात्वके समान उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—जो जीव गुणितकर्मशांकी विधिसे आया और अतिशीघ्र संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंका करके इस प्रकार सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यात्वके प्रथम समयमे इन दोनों गुणश्रेणियोंके शीर्ष उदयको प्राप्त हुए तब इसके उदयसे कानिस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं । किन्तु कुछ आचार्य इन दो गुणश्रेणियोंके उदयके साथ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उदयको मिलाकर तीन गुणश्रेणियोंका उदय होनेपर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते हैं । इतना ही नहीं किन्तु वे यह भी कहते हैं कि यदि इन तीनों गुणश्रेणियोंका उदय सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमे सम्भव न हो तो केवल एक अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंका उदय ही पर्याप्त है, क्योंकि संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंमें जितने कर्मपरमाणु पाये जाते हैं उनसे इस गुणश्रेणियोंके असंख्यातगुण कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । किन्तु टीकाकारने उक्त आचार्योंके इस कथनको दो कारणोंसे नहीं माना है । प्रथम कारण तो यह है कि यदि सम्यग्मिध्यात्वगुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ पाई जाती होती तो चूर्णित्वकार ने उक्त दो गुणश्रेणियोंके साथ इसका अवश्य ही समावेश किया होता, या स्वतन्त्रभावसे इसका आश्रय लेकर ही उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन किया होता । किन्तु जिस कारणसे सूत्रकारने ऐसा नहीं किया इससे ज्ञात होता है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमे अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं पाई जाती । दूसरे सूत्रके नामक महाधिकारमे प्रदेशादयके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये ग्यारह गुणश्रेणियोंका निर्देश करते हुए बतलाया है कि 'उपशमसम्यक्त्वगुणश्रेणि, संयतासंयतगुणश्रेणि और अप्रवृत्तसंयतगुणश्रेणि ये तीन गुणश्रेणियाँ ही मरणके बाद परभवमें दिखाई देती हैं ।' इससे ज्ञात होता है कि संक्लेश परिणामोंके प्राप्त होने पर केवल ये तीन गुणश्रेणियाँ ही पाई जाती हैं शेष गुणश्रेणियाँ नहीं, क्योंकि उनका काल संक्लेशको पूरा करनेके कालसे थोड़ा है । यतः सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना बन नहीं सकती अतः सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं पाई जाती ।

❊ अणंताणुबंधीणमुक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ४६६. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❊ गुणितकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेदीहि अविणट्टाहि अणंताणुबंधी विसंजोएदुमादत्तो, तेसिमपच्छिमट्टिदिव्हं संखुभमाणयं संखुद्धं तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५००. जो गुणितकम्मंसिओ सबलहुमणंताणुबंधिकसाए विसंजोएदुमादत्तो । किंभूदो सो संजमासंजम-संजमगुणसेदीए अविणट्टसरूवाहि उवलक्खिओ तेण जापे तेसिमपच्छिमट्टिदिव्हं सेसकसायाणमुवरि संखुभमाणायं संखुद्धं तापे तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादीणं तिण्हं पि संबंधि भीणट्टिदियं होदि ति सुत्तयसंबंधो । कुदो एदस्स उक्कस्सत्तं ? ण; तिण्हं पि सग-सगुक्कस्सपरिणांमेहि कयगुणसेदिगोवुच्छाणं

यहाँ एक यह तर्क किया जा सकता है कि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें मरण नहीं होता और उपशमसम्यक्त्व गुणश्रेणि आदि तीनके सिवा शेषका निषेध मरणका आलम्बन लेकर किया है संक्लेशका आलम्बन लेकर नहीं, अतः सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । पर यह तर्क भी ठीक नहीं ज्ञात होता, क्योंकि संक्लेशका और मरणका परस्पर सम्बन्ध है । संक्लेशके होने पर मरण आवश्यक है यह बात नहीं पर मरणके लिये संक्लेश आवश्यक है । इसलिये यहाँ तीनके सिवा शेष गुणश्रेणियों संक्लेशमात्रमें सम्भव नहीं यह तात्पर्य निकलता है । यद्यपि सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनावाला जीव जाता है पर वह तभी जाता है जब गुणश्रेणिका काल समाप्त हो लेता है । अतः संयमासंयम और संयम इन दो गुणश्रेणियोंके उदयकी अपेक्षा ही सम्यग्मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उदयमें भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु करने चाहिये यह तात्पर्य निकलता है ।

❊ अनन्तानुबन्धीके अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ४६६. यह पुच्छामुत्तं सुगम है ।

❊ जिस गुणितकर्मशिवाले जीवने संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोंका नाश किये बिना अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका आरम्भ किया और जिसके अनन्तानुबन्धियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे नाश हो गया वह अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५००. गुणितकर्मशिवाले जिस जीवने अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धी कषायकी विसंयोजना का प्रारम्भ किया । विसंयोजनाका प्रारम्भ करनेवाला जो नाशका नहीं प्राप्त हुई संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे युक्त है । उसने जब उन अनन्तानुबन्धी कषायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डको शेष कषायोंमें क्रमसे निक्षिप्त कर दिया तब उसके अपकर्षण आदि तीनों सम्बन्धी उत्कृष्ट भीनस्थिति होती है यह इस सूत्रका अभिप्राय है ।

शंका—इसीके उत्कृष्टपना कैसे होता है ?

समयूणावलिपमेत्ताणमेत्थुबल्लंभादो । एत्थानंताणुबंधिविसंजोयणगुणसेठी चेव पहाणा, सेसाणमेत्तो असंखेज्जगुणहीणतदंसणादो ।

❁ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५०१. सुगमं ।

❁ संजमासंजम-संजमगुणसेठीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेठिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाइद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ५०२. एत्थ गुणिकम्मंसियणिदेसां किमद्वं ण कदो ? ण, तस्स पुच्चिबल्ल-सामित्तसुत्तादो अणुवुत्तिदंसणादो । गुणसेठीणं परिणामपरतंतभावेण ण तं णिफ्लं, पयडिगोवुच्छाए लाहदंसणादो । एत्थ पदसंबंधो संजमासंजम-संजमगुणसेठीओ काऊण तत्थुदेसे मिच्छत्तं गओ जाधे गयस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स दो वि गुणसेठि-

समाधान—नहीं, क्योंकि अपने-अपने उत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा की गये तीनो ही गुणश्रेणियोंपुच्छाए एक समय कम एक आवलिप्रमाण यहाँ पाई जाती हैं, इसलिये अपकर्षणादि की भीनस्थितियोंकी अपेक्षा इसीके उत्कृष्टपना है। तो भी यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-सम्बन्धो गुणश्रेणि ही प्रधान है, क्योंकि शेष दो गुणश्रेणियाँ इससे असंख्यातगुणी हीन देखी जाती हैं।

विशेषार्थ—जो गुणितकमांशवाला जीव अतिशीघ्र संयमासंयम, संयम और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इन तीनों सम्बन्धी गुणश्रेणियोंको क्रमसे करके तदनन्तर अनन्तानुबन्धीके अन्तिम स्थितिकाण्डका पतन करके स्थित होता है उसके अनन्तानुबन्धीके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त सूत्रका आशय है।

❁ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०१. यह सूत्र सुगम है।

❁ जो संयमासयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वमें गया और वहाँ पहुँचने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है।

§ ५०२. शंका—इस सूत्रमें 'गुणिकम्मंसिय' पदका निर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस पदकी पूर्वेके स्वामित्वसूत्रसे अनुवृत्ति देखी जाती है। और गुणश्रेणियों परिणामोंके अधीन रहती हैं, इसलिये यह निष्फल भी नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृतिगोपुच्छाका लाभ दिखाई देता है।

अब इस सूत्रके पदोंका इस प्रकार सम्बन्ध करे कि संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके फिर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जब मिथ्यात्वमें जाकर प्रथम

सीसयाणि उदयमागदाणि होज्ज ताथे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियमिदि । सम्माइट्ठिमि अणंताणुबंधीणमुदयाभावेण उदीरणा णत्थि त्ति गुणसेट्ठिसीसएसु आवलियपइहेसु उदीरणादव्वसंगहट्ठमेसो भिच्छत्तं पेदध्वां त्ति णासंकणिज्जं, तत्थ पुच्चमेव संकिलेसवसेण लाहादो असंखेज्जगुणसेट्ठिदव्वसग हाणिदंसणादो । ण च विसोहिपरतंता गुणसेट्ठिणज्जरा उदीरणा वा संकिलेसकाले बहुगी होइ, विरोहादो ।

❁ अट्टएहं कसायाणमुक्कस्सयमोकड्डुणादितिएहं पि भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ५०३. सुगमं ।

❁ गुणितकर्मसिद्धो कसायक्खवणाए अब्भुट्ठिदो जाथे अट्टएहं

समयमें दोनो ही गुणश्रेणियोंके उदयका प्राप्त हुए उसी समय उसके उदयमें कौनस्थितियाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । यदि यह कहा जाय कि सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेसे उदीरणा नहीं होती अतएव उदीरणाद्रव्यके संग्रह करनेके लिए जब गुणश्रेणियोंके आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जायें तभी इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये सो ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहाँ पहले ही संक्लेशके वशमें लाभकी अपेक्षा असंख्यातगुण श्रेणित्त्वकी हानि देखी जाती है । और जो गुणश्रेणित्त्वका विशुद्धिके निमित्तसे होती है वह संक्लेशकालमें उदीरणाके समान बहुत हांगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा उदयसे कौनस्थितियाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका निर्देश किया है । जो गुणितकर्माशकी विधिसे आकर अतिशय संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियों करके मिथ्यात्वका प्राप्त हुआ है उसके वहाँ प्रथम समयमें ही यदि उक्त गुणश्रेणियोंके शीघ्र उदयमें आ जाते हैं तो उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है यह इस सूत्रका भाव है । यहाँ एक शंका यह की गई है कि उदय समयमें ही इस जीवका मिथ्यात्वमें न लाकर एक आवलि पहलेसे ले आना चाहिये । इसमें लाभ यह होगा कि उदीरणाका द्रव्य प्राप्त हो जानेसे गुणश्रेणियोंके परमाणु और अधिक हो जायेंगे । इस शंकाका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि संक्लेश परिणामोंके बिना तो मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति होती नहीं । अब जब कि गुणश्रेणियोंके आवलिके भीतर प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें ले जाना है तो पूर्वमें ही संक्लेश परिणाम हो जानेसे उदीरणाके द्वारा होनेवाले लाभसे असंख्यातगुण द्रव्यकी हानि हो जाती है, क्योंकि इतने समय पहलेसे ही इसकी गुणश्रेणिरचनाका क्रम बन्द हो जायगा । इसलिये ऐसे समय ही इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये जब मिथ्यात्वमें पहुँचते ही गुणश्रेणियोंका उदय हो जाय ।

❁ आठ कषायोंके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा कौनस्थितियाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ५०३. यह सूत्र सुगम है ।

❁ जिस गुणितकर्माशवाले जीवने कषायोंकी क्षणका आरम्भ किया है वह

कसायाणमपच्छिमद्विद्विखंडयं संछुभमाणं संछुद्धं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणद्विदियं ।

१५०४. एत्थ पदसंबंधो एवं कायव्वो—जो गुणितकर्मसिओ सव्वलहु-
मद्ववस्साणमंतोमुहुत्तव्वहियाणमुवरि कदासेसकरिणिज्जो होऊण कसायक्खवणाए
अव्वुद्धिदो तेण जाधे अपुव्वाणियट्टिकरणपरिणामेहि द्विद्विखंडयसहस्साणि पादेंतेण
अद्वण्हं कसायाणमपच्छिमद्विद्विखंडयमावलियवज्जं संजलणाणमुवरि संछुभमाणं
संछुद्धं ताधे तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादीणं तिण्हं पि भीणद्विदियं होइ ति । कुदो
एदमावलियपइद्वद्ववमुक्कस्सं ? ण, समयुणावलियमेत्तखवयगुणसेदीणमेत्थुवलंभादो ।
हेटा चेय संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवणगुणसेदीओ घेतूण सामित्तं किमिदि
ण परुविदं ? ण, तासिं सव्वासिं पि मिलिदाणं खवगगुणसेदीए असंखेज्जदि-
भागत्तादो ।

❁ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

जब आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे पतन कर देता है तब वह
अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी
होता है ।

१५०४. यहाँ पर पदोका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि जो गुणितकर्मांशवाला
जीव अतिशीघ्र आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद करने योग्य सब कार्योंको करके कपायोंकी
क्षपणाके लिये उद्यत हुआ, वह जब अपूर्वकरण और अनिष्टित्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा हजारों
स्थितिकाण्डकोका पतन करके आठ कपायोंके एक आवलिके सिवा अन्तिम स्थितिकाण्डको
संखलनोमे क्रमसे निश्चित करता है तब वह अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—आवलिके भीतर प्रविष्ट हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक समय कम आवलिप्रमाण क्षपकगुणश्रेणियाँ यहाँ पाई
जाती हैं, इसलिये यह द्रव्य उत्कृष्ट है ।

शंका—उसके पूर्वमें ही संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा इन तीनों
गुणश्रेणियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वाभित्तिका कथन क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे सब मिलकर भी क्षपकगुणश्रेणिके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण होती हैं ।

विशेषार्थ—गुणितकर्मांशवाला जो जीव आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका
पतन करके जब स्थित होता है तब उसके आठ कपायोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी
अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष शंका-
समाधान सरल है ।

❁ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०५. एत्थ अट्ठहं कसायाणमिदि अट्ठियारसंबंधो । सुगममन्यत् ।

✽ गुणितकर्मसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयकखवण-गुणसेहीओ एदाओ तिण्णि गुणसेहीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढम-समयअसंजदस्स गुणसेट्ठिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अट्ठकसायाण-मुक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं ।

५०६. एत्थ पदसंबंधो एवं कायव्वो । तं जहा—गुणितकर्मसियस्स अट्ठ-कसायाणमुक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं होइ । किं सर्वस्यैव ? नेत्याह—संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयकखवणगुणसेहीओ त्ति एदाओ तिण्णि गुणसेहीओ कमेण काऊण असंजमं गदो तस्स पढमसमयअसंजदस्स जाधे गुणसेट्ठिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे पयदुक्कस्ससामित्तं होइ त्ति । किमट्ठमेसो पयदसामिओ असंजमं णीदो ? ण, अण्णहा अट्ठकसायाणमुदयासंभवादो । एत्थाणंताणुवंधिविसंजोयणगुणसेहीए सह चत्तारि गुणसेहीओ क्किण्ण परूविदाओ त्ति णामंक्कणिज्जं, तिस्से सगअपुव्वाणियट्ठि-करणद्धाहितो विसेसाहियगाल्लिदसेसस्सुवाए एत्तियमेतकालमवट्ठणासंभवादो । तम्हा

§ ५०५. इस मंत्रमे अधिकारके अनुसार 'आठ कपायोंके' इन पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

✽ जो गुणितकर्माशाला जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षणसासम्बन्धी इन तीन गुणश्रेणियोंको करके असंयमको प्राप्त हुआ है उस असंयतके जब प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह आठ कपायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५०६. यहाँ पदोंके सम्बन्ध करनेका क्रम इस प्रकार है—गुणितकर्माशाला जीव आठ कपायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—क्या सभी गुणितकर्माशाले जीव स्वामी होते हैं ?

समाधान—नहीं, किन्तु जो संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षण सम्बन्धी इन तीन गुणश्रेणियोंको क्रमसे करके असंयमका प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस असंयतके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयका प्राप्त होते हैं तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है ।

शंका—यह प्रकृत स्वामी असंयमको क्यों प्राप्त कराया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा आठ कपायोंका उदय नहीं बन सकता था । और यहाँ उनका उदय अपेक्षित था, इसलिये यह असंयमको प्राप्त कराया गया है ।

शंका—यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके साथ चार गुण-श्रेणियोंका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—यहाँ ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने अपूर्वकरण और अनिष्टिकरणके कालसे कुछ ही अधिक होती है, इसलिये शेष भागके गल जानेसे इतने कालतक उसका सद्भाव मानना असंभव है ।

गुणिककर्मसियलकखणेणागतूण संजदासंजद-संजदगुणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु-
बंधी विसंजोइय दंसणमोहणीयं खवेमाणो वि अट्टकसायाणं पुच्चिन्लदोगुणसेढि-
सीसएहि सरिसमप्पणो गुणसेढिसीसयं काऊण अथापवत्तसंजदो जादो । गुणसेढि-
सीसएसु उदयमागच्छमाणेसु कालं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए वट्टमाणओ जो
जीवो तस्स पढमसमयअसंजदस्स उदिण्णगुणसेढिसीसयस्स अट्टकसायाणमुक्कस्स-
मुदयादो भीणट्टिदियं होदि ति सिद्धं । एत्थ सत्थाणम्मि चैव असंजमं गेऊण
सामितं किण्ण दिण्णं ? ण, सत्थाणम्मि असंजमं गच्छमाणो पुच्चमेव अंतोमुहुत्तकालं
संकिलेसमावूरेइ ति एत्तियमेत्तकालपडिवद्धगुणसेढिलाहस्स विणासप्पसंगादो ।
सिस्सो भणइ—एदम्हादो उवसमसेढिमस्सियुण उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं
बहुअं लडिस्सामो । तं जहा—जो गुणिककर्ममिअओ सव्वलहुं कसायउवसामणाए
अन्नुट्टिदो अपुच्चकरणपढमसमयप्पहुडि गुणसेढिं करेमाणो अपुच्चकरणद्धादो
अणियट्टिअद्धाओ च विसेमाहिंयं काऊण अणियट्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु
से काले अंतरं पारभदि ति मदो देवो जादो तस्स अंतोमुहुत्तोववण्णल्लयस्स जाधे

इसलिये गुणिककर्मांशकी विधिसे आकर और संयतासंयत तथा संयतसम्बन्धी गुण-
श्रेणियोंका करके (कर अनन्तानुबन्धीकी विसंयताजना करके दर्शनमाहनीयकी स्तपणा करता हुआ
भी आठ कपायोंके पहले दो गुणश्रेणियोंके समान अपने गुणश्रेणियोंकी करके अधःप्रवृत्त-
संयत हो गया । फिर गुणश्रेणियोंके उदयमे आनेपर मरकर देवोंमे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार
देवोंमे उत्पन्न होकर जो प्रथम समयमे विद्यमान हैं उन प्रथम समयवर्ती असंयतके गुणश्रेणि-
शीर्षोंके उदय होनेपर आठ कपायोंके उदयका अपेक्षा भीनस्थितिकाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं
यह सिद्ध हुआ ।

शंका—यहाँ स्वस्थानमे ही असंयम प्राप्त कराकर स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि इस जीवको स्वस्थानमे ही असंयम प्राप्त करते हैं तो
अन्तर्मुहूर्त काल पहलेसे ही इसे संकलेशकी प्राप्ति करानी होगी जिससे इतने कालसे सम्बन्ध
रखनेवाली गुणश्रेणिका लाभ न मिल सकेगा, अतः स्वस्थानमे ही असंयम प्राप्त कराकर
स्वामित्वका कथन न करके इसे देवोंमे उत्पन्न कराया गया है ।

शंका—यहाँ शिष्यका कहना है कि पीछे जो क्रम कहा है इसके स्थानमें यदि उपशम-
श्रेणिकी अपेक्षा यह कथन किया जाय तो उदयसे भीनस्थितिकाले अधिक परमाणु प्राप्त हो सकते
हैं और तब इन्हें उत्कृष्ट कहना ठीक होगा । खुलासा इस प्रकार है—गुणिककर्मांशवाला जो जीव
अनिशीघ्र कपायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । फिर अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर
गुणश्रेणिकी करता हुआ अपूर्वकरणके कालसे अनिश्चितिकरणके कालको विशेषाधिक करके
अनिश्चितिकरणके कालका संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाने पर तदनन्तर समयमें अन्तरकरणका
प्रारम्भ करता किन्तु ऐसा न करके मरा और देव हो गया उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त

१. 'अंतरकरणं होदि ति जायदेवस्स तं मुहुत्ततो । अट्टयहकसायाणं !'—कर्मप्र० उदय गा० १४ ।

गुणसेदिसीसयमुदिण्णं ताधे उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं । एदं च पुब्बिन्लसन्व-
गुणसेदिसीसयदन्वादो विसोहिपाहम्मेण असंखेज्जगुणं, तम्हा एत्योवसामित्तेण
होदन्वं । जइ वि एसो अंतोमुहुत्तकालमुक्कट्टियं गुणसेदिद्ववमुवरि संखुहदि परपयदीसु
च अधापवत्तसंक्रमेण संकामेदि तो वि एदं विणासिज्जमाणसन्वदन्वमप्पहाणं
गुणसेदिसीसयस्स असंखेज्जभागत्तादो सि एदं घट्ठे, देवेसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकाल-
मच्छमाणस्स ओक्कट्टुकट्टणादीहि गुणसेदिसीसयस्स असंखेज्जाणं भागाणं परिकखय-
दंसणादो । ण चेदमसिद्धं, एदम्हादो चेव सुत्तादो तहाभावसाहणादो । ण च
देवेसुप्पण्णपट्ठमसमए चेव उवसामणगुणसेदिगोबुच्छावलंबणेण पयदसामित्तसमत्थणं पि
समंजसं, तत्थतणगुणसेदिगोबुच्छदन्वस्स दंसणमोहक्खयगुणसेदिसीसयादो असंखेज्ज-
गुणत्तणिण्णयादो । सुत्तयाराहिप्पाएण पुण दंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसयस्सेव ततो
असंखेज्जगुणत्तणिण्णयादो । अण्णहा तप्परिहारणेत्थेव सामित्तविहाणाणुववत्तीदो ।
ण च दंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसएण सह तं घेत्तूण सामित्तावलंबणं पि घट्ठमाणं
गलिदसेससरूवदंसणमोहक्खवयगुणसेदिसीसयस्स तत्तियमेत्तकालावट्ठानस्स अच्चंत-
मसंभवादो । तम्हा सुत्तुत्तमेव सामित्तमविरुद्धं सिद्धं । अहवा णिच्चाघादेण सत्थाणे

बाद जब गुणश्रेणिशीर्षे उदयको प्राप्त होता है तब उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु
होते हैं । और यह द्रव्य विशुद्धिकी अधिकतासे संचित होता है, इसलिये पिछले सब गुणश्रेणि-
शीर्षोंके द्रव्यसे असंख्यातगुणा है । इसलिये यहाँ अन्य कोई स्वामी न होकर उपशामक होना
चाहिये । यद्यपि यह अन्तर्मुहूर्तकाल तक उत्कर्षण करके गुणश्रेणिके द्रव्यको ऊपर निक्षिप्त करता
है और अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोंमें भी संक्रमित करता है तो भी इस प्रकारसे
विनाशको प्राप्त होनेवाला यह सब द्रव्य अप्रधान है, क्योंकि यह गुणश्रेणिशीर्षके असंख्यातवै-
भागप्रमाण है ?

समाधान—सो यह कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि देवोमें उत्पन्न होकर अन्त-
र्मुहूर्तकालतक रहते हुए इसके अपकर्षण, उत्कर्षण आदिके द्वारा गुणश्रेणिशीर्षके असंख्यात
बहुभागोंका क्षय देखा जाता है और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे इसकी
सिद्धि होती है । यदि कहा जाय कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उपशामश्रेणिसम्बन्धी
गोपुच्छोके अवलम्बनसे प्रकृत स्वामित्वका समर्थन भी उचित है, क्योंकि यह बात निर्णीत-स्वी
है कि वहाँ प्रथम समयमें जो गुणश्रेणिगोपुच्छका द्रव्य प्राप्त होता है वह दर्शनमोहनीयके क्षण-
सम्बन्धी शीर्षसे असंख्यातगुणा होता है । सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि सूत्रकारके
अभिप्रायसे तो दर्शनमोहनीयका क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्ष ही उससे असंख्यातगुणा होता है
यह बात निर्णीत है । यदि ऐसा न होता तो उपशामश्रेणिकी अपेक्षा स्वामित्वके कथनका त्याग
करके सूत्रमें दर्शनमोहनीयकी क्षणकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता था ।
यदि कहा जाय कि दर्शनमोहके क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षके साथ उपशामश्रेणिसम्बन्धी
गुणश्रेणिको लेकर स्वामित्वका कथन बन जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहक्षण-
सम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षका जो अंश गलकर शेष बचता है उसका चारित्रमोहनीयकी उपशामना
होते हुए अन्तरकरणके कालके प्राप्त होनेके एक समय बादतक अवस्थित रहना अत्यन्त असम्भव
है । इसलिये सूत्रमें जो स्वामित्व कहा है वही ठीक है यह बात सिद्ध हुई । अथवा निर्व्याघातसे

चेव सामित्तमेत्थ सुत्तयाराहिप्पेदं । ण च उवसमसेठीए तहा संभवो, विरोहादो । तदो सत्थाणे चेव असंजमं गेदूण सामित्तमेदं वत्तव्वमिदि ।

यहाँ स्वस्थानमे ही स्वामित्व सूत्रकारका अभिप्रेत है । किन्तु उपशमश्रेणिमें इस प्रकारसे स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है, इसलिये स्वस्थानमें ही असंयमकी प्राप्ति कराके इस स्वामित्वका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-परमाणुओंके स्वाभीका निर्देश करते हुए सूत्रमें तो केवल इतना ही कहा है कि जो गुणितकर्मांश-वाला जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहक्षपकसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके जब असंयम-भावको प्राप्त होता है तब उसके प्रथम समयमें इन तीनों गुणश्रेणियोंके शीर्षके उदय होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । किन्तु इसका व्याख्यान करते हुए वीरसेन स्वामीने इतना विशेष बतलाया है कि ऐसे जीवको देवपर्यायमें ले जाकर वहाँ प्रथम समयमें गुणश्रेणेशीर्षके उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । उन्होंने इस व्यवस्थासे यह लाभ बतलाया है कि ऐसा करनेसे असंयमकी प्राप्तिके लिये अन्तर्मुहूर्तप्रमाण संकलेशपूरण काल बच जाता है । जिससे अधिक गुणश्रेणिका लाभ मिल जाता है । अब यदि इसे देवपर्यायमें न ले जाकर स्वस्थानमे ही असंयमभावकी प्राप्ति कराई जाती है तो एक अन्तर्मुहूर्त पहलेसे गुणश्रेणिका कार्य बन्द हो जायगा जिससे लाभके स्थानमें हानि होगी, इसलिये असंयमभावकी प्राप्तिके समय इसे देवपर्यायमें ले जाना ही उचित है । यह वह व्याख्यान है जिसपर टीकामे अधिक जोर दिया गया है । इसके बाद एक दूसरे प्रकारसे उत्कृष्ट स्वामित्वकी उपस्थापना करके उसका खण्डन किया गया है । यह मत धवला सत्कर्ममहाधि हारके उदयप्रकरणमें और श्वेताम्बर कर्मप्रकृति पंचसंग्रहमें पाया जाता है । इसका आशय यह है कि कोई एक गुणितकर्मांशवाला जीव उपशमश्रेणिए चढ़ा और वहा अपूर्णकरण तथा अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरण क्रियाके पहले तक उसने गुणश्रेणिए रचना की । इसके बाद मरकर वह देव हो गया । इसप्रकार इस देवके अन्तर्मुहूर्तमे जब गुणश्रेणिशिर्षका उदय होता है तब उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । बात यह है कि दर्शनमोहक्षपकगुणश्रेणिएसे उपशमकगुणश्रेणिए असंख्यातगुणों बतलाते हैं, इसलिये इस कथनको पूर्वोक्त कथनसे अधिक बल प्राप्त हो जाता है । तथापि टीकामे यह कहकर इस मतको अस्वीकार किया गया है कि देव होने के बाद बीचका जो अन्तर्मुहूर्त काल है उस कालमें अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदिके द्वारा गुणश्रेणिके बहुभाग द्रव्यका अभाव हो जाता है, इसलिये इस स्थलपर उत्कृष्ट स्वामित्व न बतलाकर चूर्णिसूत्रकारके अभिप्रायानुसार ही उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाना ठीक है । वैसे तो इन दोनों मतोंपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि ये दोनों ही मत भिन्न-भिन्न दो परम्पराओंके द्योतक हैं, अतएव अपने-अपने स्थानमें इन दोनोंको ही प्रमाण मानना उचित है । यद्यपि इनमेंसे कोई एक मत सही होगा पर इस समय इसका निर्णय करना कठिन है । इसीप्रकार टीकामे यह मत भी दिया है कि उपशमश्रेणिएमें पूर्वोक्त प्रकारसे मरकर जो देव होता है उसके प्रथम समयमें जो आठ कषायोंका द्रव्य उदयमें आता है वह पूर्वोक्त तीन गुण-श्रेणिशिर्षके द्रव्यसे अधिक होता है, इसलिये उत्कृष्ट स्वामित्व तीन गुणश्रेणिशिर्षके उदयमें न प्राप्त होकर उपशमश्रेणिएमें देवपर्याय प्राप्त होनेके प्रथम समयमें प्राप्त होता पर टीकामे इस मतका भी यह कहकर निराकरण किया गया है कि सूत्रकारका यह अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सूत्रकार तीन गुणश्रेणिशिर्षके द्रव्यको इससे अधिक मानते हैं । तभी तो उन्होंने तीन गुणश्रेणिशिर्षोंसे उदयमें उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया है । इसके साथ ही साथ प्रसंगसे इन दो

❁ कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकडुणादितिएहं पि भीणट्टिवियं कस्स ?

§ ५०७. सुगमं ।

❁ गुणिट्ठकम्मंसियस्स कोधं खवंतस्स चरिमट्टिदिखंडयचरिमसमए असंच्छुहमाणयस्स उक्कस्सयं तिएहं पि भीणट्टिवियं ।

§ ५०८. एत्थ चरिमट्टिदिखंडयचरिमसमयअसंच्छुहमाणयस्से ति वुत्ते गुणिट्ठकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सव्वलहुं करायक्खवणाए अब्भुट्टिदस्स कोहपट्ठमट्टिदि गुणसेट्ठिआयारेणावट्टिदं समयाहियोदभावलियवज्जं सव्वमधट्टिदीए गालिय कोहवेदग-चरिमसमए से काले माणवेदओ होहदि ति कोहचरिमट्टिदिकंडयचरिमसमय-असंबोहयभावणेणावट्टिदस्स आवलियपइहगुणसेट्ठिगोवुच्छाओ गुणसेट्ठिसिएण सह

आपत्तियोका और निराकरण करके टीकायें प्रकारान्तरसे सूत्रकारके अभिप्रायकी पुष्टि की गई है। प्रथम आपत्ति तो यह है कि पूर्वोक्त तीन गुणश्रेणियों में अनन्तानुबन्धीविभक्त्योजना-सम्बन्धी गुणश्रेणियोंको मिलाकर इन चारोंके उद्देश्यमें उत्कृष्ट स्वाभित्त्व कहना अधिक उपयुक्त होता। पर यह कथन इसलिये नहीं बनता कि अनन्तानुबन्धीविभक्त्योजनागुणश्रेणिका काल इतना बड़ा नहीं है कि उसका सद्भाव दर्शनमोहक्षणाके बाद तक रहा आवे, इमनिये तो पहली आपत्तिका निराकरण हो जाता है। तथा दूसरी आपत्ति यह है कि दर्शनमोहक्षणा-सम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उपशमश्रेणिसम्बन्धीगुणश्रेणियोंके साथ मिलाकर उत्कृष्ट स्वाभित्त्व क्यों नहीं कहा? इसका भी यही कष्टकर निराकरण किया गया है कि दर्शनमोहक्षणासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उपशमश्रेणिसम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उक्त काल तक रह नहीं सकती, अतः यह कथन भी नहीं बनता। अन्तमें प्रकारान्तरसे जो सूत्रकारके अभिप्रायका समर्थन किया है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि सूत्रकारको स्वस्थानमें ही उत्कृष्ट स्वाभित्त्व इष्ट रहा है। यदि उन्हे देवपर्यायमें ले जाकर स्वाभित्त्वका कथन करना इष्ट होता तो वे सूत्रमें इसका स्पष्ट उल्लेख करते।

❁ क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०७. यह सूत्र सुगम है।

❁ जो गुणित कर्माशवाला जीव क्रोधका क्षय कर रहा है। पर ऐसा करते हुए जिसने अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें पहुँचकर भी अभी उसका पतन नहीं किया है वह उक्त तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है।

§ ५०८. यहा 'अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें जिसने उसका पतन किया है उसके ऐसा कथन करनेसे यह अभिप्राय लेना चाहिये कि गुणितकर्माशकी विधिसे आकर जो अतिशीघ्र कषायकी क्षणाके लिये उद्युत हुआ है और ऐसा करते हुए एक समय अधिक एक आबलिके सिवा क्रोधकी गुणश्रेणिरूपसे स्थित शेष सब प्रथम स्थितिका अधःस्थिति द्वारा गलाकर जो क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें स्थित है उसके गुणश्रेणियोंके साथ आबलिके भीतर प्रविष्ट हुई गुणश्रेणियोंपुच्छाओंके दत्ते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वाभित्त्व होता है। यह जीव अगले

वृत्तमाणाओ घेतूण पयदुक्कस्ससामितं होदि त्ति घेतव्वं ।

§ ५०६. ण एत्थ गुणसेट्ठिसीसयस्स बहिब्भावो ति पढमसमयमाणवेदयम्मि समयूणुच्छिद्दावलियमेतट्ठिदीओ घेतूण सामितं दायव्वमिदि संकणिज्जं, उप्पायाणुच्छेयमस्सिदूण गुणसेट्ठिसीसयस्स वि एत्थंतब्भावुवलंभादो । एवमेवं चेष घेतव्वं, अण्णहा तस्सेव उक्कस्सयमुदयादो मीणट्ठिदियं परूविसमाणेणुत्तरमुत्तेण सह विरोहादो । अहवा दव्वट्ठियणयावलवीभूदपुव्वगइणयावलंबणेण पढमसमयमाणवेदयस्सेव कोहचरिमट्ठिदिव्वंडयचरिमसमयअसंखोहयतं परूवेदव्वं । ण च एवं संते उवरिममुत्तथो दुग्घटो, भयणवाईणमट्ठ्ठाणं तन्थ अणुप्पायाणुच्छेदं पज्जवट्ठियणयणियमेण समवत्तंअव यडावणादो । एदमन्थपदमुवरिमाणंतरमुत्तेमु वि जोजेयव्वं ।

समयमे मानवेदक हांगा, इसलिये यह समय क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समय होनेसे अभी इसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन नहीं हुआ है ।

§ ५०९. यकि कोई यहां ऐसी आशंका करे कि यहां गुणश्रेणिशीर्षे बहिर्भूत है, इसलिये मानवेदके प्रथम समयमें एक समय कम उच्छिष्टावलिप्रमाण स्थितियोंकी अपेक्षा स्वामित्वका विधान करना चाहिये सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा गुणश्रेणिशीर्षिका भी यहां अन्तर्भाव पाया जाता है । और यह अर्थ प्रकृतमें इसी रूपसे लेना चाहिये, अन्यथा भागे जो यह सूत्र आया है कि 'इसी जीवके उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होने हैं' सो इसके साथ विरोध प्राप्त होता है । अथवा द्रव्याधिक नयका आलम्बनभूत भूतपूर्वगत न्यायका सद्भारा लेकर प्रथम समयवर्ती मानवेदके ही अपने अन्तिम समयवर्ती क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका सद्भाव कहना चाहिये । यदि कहा जाय कि ऐसा मानने पर आगेके सूत्रका अर्थ घटित करना कठिन हो जायगा सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भजनायादी हैं, इसलिए पर्यायाधिक नयके नियमानुसार अनुत्पादानुच्छेदका आलम्बन लेकर उक्त अर्थ घटित कर दिया जायगा । इस अर्थ पदको आगेके अन्तरवर्ती सूत्रोंमें भी घटित कर लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—वस्तुस्थिति यह है कि जो गुणितकर्मांशवाला जीव क्षणिके समय क्रोधवेदकके कालको बिनाकर मानवेदके कालमें स्थित है वह क्रोधसंज्वलनके अकार्षण आदि तीनकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । किन्तु यहां सूत्रमें यह स्वामित्व क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें ही बतलाया गया है जिसे घटित करनेमें बड़ी कठिनाई जाती है । बल्कि एक शंकाकारने तो इस सूत्र प्रतिपादित विषयका प्रकारान्तरसे खण्डन ही कर दिया है । वह कहता है कि यहां गुणश्रेणिशीर्षेकी तो चर्चा ही छोड़ देनी चाहिये । उत्कृष्ट स्वामित्वका जितना भी द्रव्य है उसमें इसका सद्भाव तो कथमपि नहीं किया जा सकता । हां मानवेदके प्रथम समयमें जो एक समय कम उच्छिष्टावलिप्रमाण द्रव्य शेष रहता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना ठीक है । पर टीकाकारने इस विरोधको दो प्रकारसे शमन किया है । (१) प्रथम तो उन्होंने उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे इस विरोधको शान्त किया है । उत्पादानुच्छेद द्रव्याधिक नयका कहते हैं । यह सत्त्वावस्थामें ही विनाशकी स्वीकार करता है । उदाहरणार्थ सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें सूक्ष्म लोभका उदय है पर वहां उसकी उदयव्युच्छित्ति बतलाई जाती है सो यह कथन उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे जानना

❁ उक्त्स्सयमुदयादो भ्नीणद्धिदियं वि तरस्सेव ।

§ ५१०. एत्थ कोहसंजलणस्से त्ति अणुवट्टदे, तेणेवमहिसंबंधो कायव्वो— तरस्सेव णयइयविससयीकयस्स पुठिवल्लसामियस्स कोहसंजलणसंबंधि उक्त्स्सय- मुदयादो भ्नीणद्धिदियमिदि । सेस पुव्वं व । णवरि उदिण्णमेदपदेसग्गमेयद्धिदि- पडिवद्धमेत्थ सामित्तविसईकयं होइ ।

❁ एवं चेव माणसंजलणस्स । एवरि ढिदिकंडयं चरिमसमयअसंलुह- माणयस्स तरस्स चत्तारि वि उक्त्स्सयाणि भ्नीणद्धिदियाणि ।

§ ५११. माणसंजलणस्स वि एवं चेव सामित्तं दायव्वं । णवरि माणद्धिदि- कंडयं चरिमसमयअसंलुहमाणयस्से त्ति सणामपडिवद्धो आलावभेदो चेव णत्थि अण्णो त्ति समप्पणामुत्तमेयं ।

चाहिये । इसीप्रकार प्रकृतमें भी जब कि क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व स्वीकार कर लिया तब गुणश्रेणिशीर्षका उत्कृष्ट स्वामित्वविषयक द्रव्यमें अन्तर्भाव माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । इस कथनका इसी रूपमें माननेके लिये इसलिये भी जोर दिया है कि अगले सूत्रमें जो उदयकी अपेक्षा भ्नीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है वह ऐसा माने बिना बन नहीं सकता । (२) दूसरे भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा मानवेदकके यह सब स्वीकार करके उक्त विरोधका शमन किया गया है । यद्यपि ऐसा करनेमें अगले सूत्रके साथ संगति बिठलानेमें कठिनाई जाती है पर अगले सूत्रका अर्थ अनुत्पादानुच्छेद अर्थान् पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे कर लेनेपर वह कठिनाई दूर हो जाती है । इसप्रकार विविध दृष्टियोंसे विचार करके जहां जो अर्थ संगत बैठे उसे घटित कर लेना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❁ उदयसे भ्नीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी भी वही है ।

§ ५१०. इस सूत्रमें 'कोहसंजलणस्स' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये इस सूत्रका ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जिसे पहले दो नयोंका विषय बतला आये हैं उसी पूर्वोक्त स्वामीके क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा उदयसे भ्नीन स्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणु होते हैं । शेष कथन पहलेके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक स्थितिगत जो कर्मपरमाणु उदयमें आ रहे हैं उनका ही यहां स्वामित्वसे सम्बन्ध है ।

विशेषार्थ—क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें क्रोधके जिन कर्मपरमाणुओंका उदय हो रहा है उसमें गुणश्रेणिशीर्षका द्रव्य सम्मिलित है, अतः यहां उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है, क्योंकि उदयगत कर्मपरमाणुओंकी यह संख्या अन्यत्र नहीं प्राप्त होती ।

❁ इसी प्रकार मानसंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसने अपने अन्तिम समयमें मानस्थितिकाण्डकका पतन नहीं किया है वह चारोंकी अपेक्षा भ्नीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५११. मानसंज्वलनके स्वामित्वका भी इसीप्रकार अर्थात् क्रोधसंज्वलनके समान विधान करना चाहिये । किन्तु जिसने मानस्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है इसप्रकार यहां क्रोधके स्थानमें मानका सम्बन्ध होनेसे कथनमें इतना भेद हो जाता है, इसके सिवा अन्य कोई भेद नहीं है । इसप्रकार यह समर्पणासूत्र है ।

❁ एवं चेब मायासंजलणस्स । एवरि मायाट्टिदिक्कंडयं चरिमसमय-
असंखुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणट्टिदियाणि ।

§ ५१२. सुगमं ।

❁ लोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिएहं पि भीणट्टिदियं
कस्स ?

§ ५१३. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❁ गुणिट्ठकम्मंसियस्स सव्वसंतकम्ममावलिथं पविस्समाणयं पविट्ठं
ताथे तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५१४. एत्थ गुणिट्ठकम्मंसियणिट्ठे सो तच्चिवरीयकम्मंसियणिवारणफलो ।
तं पि कुदो ? गुणिट्ठकम्मंसियादो अण्णत्थ पदेससंचयस्स उक्कस्सभावाणुववत्तीदो ।

* इसीप्रकार मायासंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता
है कि जिसने मायास्थितिकाएहकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है वह
चारोंकी ही अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—पहले जैसे क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयकी
अपेक्षा भ्रान्तिस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका कथन कर आये हैं वैसे ही मान-
संज्वलन और माया संज्वलनकी अपेक्षा भी जानना चाहिये । यदि उक्त कथनसे इसमें कोई
विशेषता है तो वह इतनी ही कि क्रोधसंज्वलनके वेदककालमें उस प्रकृतिकी अपेक्षासे कथन
किया था किन्तु यहाँ मानसंज्वलन और मायासंज्वलनके वेदककालमें इनकी अपेक्षा कथन
करना चाहिये ।

* लोभसंज्वलनके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५३. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जिस गुणितकर्मांश जीवके सब सत्कर्म जब क्रमसे एक आवलिके भीतर
प्रविष्ट हो जाते हैं तब वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५१४. यहाँ सूत्रमें 'गुणितकर्मांश' पदका निर्देश इससे विपरीत कर्मांशके निवारण
करनेके लिये किया है ।

शंका—ऐसा करनेका क्या प्रयोजन है ?

समाधान—क्योंकि गुणितकर्मांशके सिवा अन्यत्र कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय
नहीं हो सकता । बस यही एक प्रयोजन है जिस कारणसे इस सूत्रमें 'गुणितकर्मांश' पदका
निर्देश किया है ।

तस्स सव्वलहुं खवणाए अब्भुट्ठिदस्स जाधे सव्वसंतकम्ममविवक्खिय योवूणभाव-
मावलियं पविस्समाणयं पविस्समाणयं कमेण पविट्ठं ताधे पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ।
सव्वसंतकम्मवयणेणेदेण विणट्ठासेसदव्वमेदस्स असंखेज्जदिभागत्तेण अप्पहाणमिदि
सूचिदं पविस्समाणयं पविट्ठिमिदि एदेण अक्कमपवेसो पडिसिद्धो ।

❀ उक्कस्सयमुदयादो भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ५१५. सुगमं ।

❀ चरिमसमयसकसायखवगस्स ।

§ ५१६. एत्थ चरिमसमयसकसाओ जो खवगो सुहुमसांपरायसण्णिदो तस्स
पयदुक्कस्ससामित्तं होइ त्ति संबंधो कायव्वो । कुदो एदमुक्कस्सयं ? मोहणीय-
सव्वदव्वस्स एत्थेव पुं जीभूदस्सुवल्लभादो । एत्थ दव्वपमाणायणयणं जाणिय वत्तव्वं ।

इस जीवके अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत हानेर जब सब सत्कर्म क्रमसे आवलिके
भीतर प्रविष्ट हो जाता है तब उक्त उक्त स्वामित्व होता है। यहाँ यद्यपि कुछ ऐसे कर्म बच
जाते हैं जो आवलिके भीतर प्रविष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ उनकी विवक्षा नहीं की गई है। इस
सूत्रमें जो 'सब सत्कर्म' यह बचन दिया है सो इससे यह सूचिन किया है कि जो द्रव्य नष्ट हो
गया है वह इसका असंख्यातवो भागप्रमाण होनेसे अप्रधान है। तथा सूत्रमें जो 'पविस्समाणयं
पविट्ठं' यह बचन दिया है सो इससे अक्रमप्रवेशका निषेध कर दिया है। आशय यह है कि सब
सत्कर्म क्रमसे ही आवलिके भीतर प्रविष्ट होता है।

विशेषार्थ—गुणितकर्माशाला जीव अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत होकर जब क्रमसे
सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानमें पहुँचकर लोभके सब कर्मपरमाणुओंको आवलिके भीतर प्रवेश करा
देता है तब इसके उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुआ द्रव्य सबसे उक्त होता है। किन्तु यह अपकपण,
उत्कर्षण और संक्रमणके अयोग्य होता है। इसीसे इन तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उक्त
कर्मपरमाणुओंका स्वामी होने बतलाया है।

❀ उदयसे भीनस्थितिवाले उक्त कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ५१५. यह सूत्र सरल है ।

❀ जो क्षपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है वह उदयसे भीन-
स्थितिवाले उक्त कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५१६. यहाँ पर जो क्षपक सकषाय अवस्थाके अन्तिम समयमें स्थित है और जिसे
सूक्ष्मसांपरायसंयत कहते हैं उसके प्रकृत उक्त स्वामित्व होता है ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—इसे ही उक्त स्वामी क्यों कहा ?

समाधान—क्योंकि यहाँ पर मोहनीय कर्मका सब द्रव्य एकत्रित होकर पाया जाता है ।

यहाँ पर इस उक्त द्रव्यके लानेके क्रमको जानकर उसका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—सूक्ष्मसांपराय संयतके अन्तिम गुणश्रेणिशीर्षका सब द्रव्य इस
गुणस्थानके अन्तिम समयमें उदयमें देखा जाता है। इसमें अब तक निर्जीय हुए द्रव्यको
छोड़कर शेष सब चारित्रमोहनीयका द्रव्य आ जाता है, इसलिये इसे उक्त कहा है। आशय

❁ इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमोकडुणादिचउयहं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५१७. सुगममेदं सामितविसयं पुच्छामुत्तं । एवं पुच्छदे तत्थ तव तिण्हं भीणद्विदियाणमेयसामियाणं परूवणहमुत्तरमुत्तं भणइ—

❁ इत्थिवेदपूरिदकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स तिण्णि वि भीणद्विदियाणि उक्कस्सयाणि ।

§ ५१८. गुणितकम्मंसियलक्खणेणागंतूण पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तमगपूरण-
कालवर्भतरे इत्थिवेदं पूरेमाणमपविद्विहाणे कस्स सामितं होइ किमविसेसेण
पूरिदकम्मंसियस्स तं होइ ति आसंकाणिरायरणहं विसेसणमाह—‘आवलियचरिम-
समयअसंछोहयस्स’ । चरिमसमय-दुचरिमसमयअसंछोहयादिकमेण हेद्वदो ओरारिय
आवलियचरिमसमयअसंछोहयभावेणावद्विदनीवस्से ति वुत्तं होइ । एत्थ समयूणा-
वलियचरिमसमयअसंछोहयस्से ति वत्तव्वं, सवेददुचरिमसमए इत्थिवेदचरिमफालीए
णिल्लेवाणुवलंभादो ति ? ण एम दोसो, अणुप्पायाणुच्छेदमस्सियूण चरिमसमय-

यह है कि संज्वलन लोभके उदयसे भीनस्थितिवाले इतने कर्मपरमाणु अन्यत्र नहीं पाये जाते, अतः सूक्ष्म लोभके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव ही संज्वलन लोभके उदयसे भीनस्थितिवाले उच्छ्रित कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

❁ स्त्रीवेदके अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-
परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५१७. यह स्वामित्वविषयक पुच्छामुत्तर सरल है । इस प्रकार पृष्ठने पर उनमेंसे पहले एकस्वामिक तीन भीनस्थितिवालोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ जिरसने गुणितकर्माशुकी विधिसे स्त्रीवेदको उसके कर्मपरमाणुओंसे भर दिया है और जो एक आवलिके अन्तिम समयमें उसका अपकर्षण आदि नहीं कर रहा है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५१८. गुणितकर्माशुकी विधिसे आकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अपने पूरण कालके भीतर स्त्रीवेदको पूरा करनेवाले जीवोंमें भेद किये बिना यह समझना कठिन है कि स्वामित्व किससे प्राप्त है ? क्या सामान्यसे गुणितकर्माशुवाले सभी जीवोंको यह स्वामित्व प्राप्त है ? इसप्रकार उस आशुकाके निराकरण करनेके लिये ‘आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स’ यह विशेषण कहा है । जो अन्तिम समयमें या उपान्त्य समयमें स्त्रीवेदके अपकर्षण आदिसे रहित है । तथा इसी क्रमसे पीछे जाकर जो एक आवलिके अन्तिम समयमें अपकर्षण आदि भावसे रहित है वह जीव स्वामी होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शुंका—यहां ‘समयूणावलियचरिमसमयअसंछोहयस्स’ ऐसा कहना चाहिये, क्योंकि सवेदभागके द्विचरम समयमें स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभाव नहीं पाया जाता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनुत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा अन्तिम

सवेदस्सेव तहाभावोवयारादो । एसो अत्थो पुरिस-णवुंसयवेदसामित्तमुत्तेसु वि जोजेयव्वो, विसेसाभावादो । पुव्वविहाणेण गंतूण सव्वलहुं खवणाए अब्भुद्धिय सोदएण इत्थिवेदं संल्लुहमाणयस्स विदियद्विदीए चरिमद्विद्विखंडयपमाणेणावद्विदाए पदमद्विदीए च आवल्लियमेत्तीए गुणसेदिसरूवेणावसिद्दाए तिण्णि वि भीणद्विदियाणि उक्कस्सयाणि होंति त्ति सुत्तत्थसंगहो ।

§ ५१६. संपहि पुव्विल्लपुच्छामुत्तविसईकयमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदिय-सामित्तमुत्तरमुत्तेण भणइ—

⊗ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स ।

§ ५२०. तस्सेव समयूणावल्लियमेत्तद्विदीओ गाल्लिय द्विदस्स जाधे पदमद्विदीए चरिमणिसेओ उदण्णो ताधे तस्स चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो ।

⊗ पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचडुण्हं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५२१. सुगमं ।

समयवर्ती सवेदीके ही स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिका अभाव उपचारसे मान लिया है। पुरुषवेद और नपुंसकवेदके स्वामित्वविषयक सूत्रोंका कथन करते समय भी इसी अर्थकी योजना कर लेनी चाहिये, क्योंकि इससे उनमें कोई विशेषता नहीं है।

जो कोई एक जीव पूर्वविधिसे आकर और अतिशीघ्र क्षपणाके लिये उद्यत होकर म्वाद्यसे स्त्रीवेदका पतन कर रहा है उसके द्वितीय स्थितिमें अन्तिम स्थितिकाण्डकके शेष रहनेपर तथा प्रथम स्थितिमें एक आवलिप्रमाण गुणश्रेणिके अवस्थित रहनेपर तीना ही भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है।

§ ५१६. अब जिसका पिछले पृच्छासूत्रमें उल्लेख कर आये हैं ऐसे उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन अगले सूत्रद्वारा करते हैं—

⊗ तथा स्त्रीवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२०. एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियोंको गलाकर स्थित हुए उसी जीवके जब प्रथम स्थितिका अन्तिम तिपक उद्यको प्राप्त होता है तब अन्तिम समयवर्ती वह स्त्रीवेदी क्षपक जीव उद्यसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इत सूत्रका अभिप्राय है।

⊗ पुरुषवेदके अपकर्षण आदि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२१. यह सूत्र सुगम है ।

❁ गुणितकर्मसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवलियचरिमसमय-
असंज्ञोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तिएहं पि भीणद्विदियं ।

§ ५२२. एत्थ गुणितकर्मसियवयणेण तिण्हं वेदाणं पूरिदकर्मसियस्स गहणं
कायव्वं, अण्णहा पुरिसवेदुक्कम्मसंचयाणुववत्तीदां । सेमं सुगमं ।

❁ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं चरिमसमयपुरिसवेदयस्स ।

§ ५२३. तस्सेव पुरिसवेदोदएण खवगसेदिमारूढस्स अधद्विदीए गालिदपढम-
द्विदियस्स चरिमसमयपुरिसवेदयस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ति सुत्तत्थो ।

❁ एवुंसयवेदयस्स उक्कस्सयं तिएहं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५२४. सुगममेदमासंकासुत्तं ।

❁ गुणितकर्मसियस्स एवुंसयवेदेण उबद्विदस्स खवयस्स
एवुंसयवेदआवलियचरिमसमयअसंज्ञोहयस्स तिएणि वि भीणद्विदियाणि
उक्कस्सयाणि ।

§ ५२५. एत्थ गुणितकर्मसियस्स पयदुक्कस्सभीणद्विदियाणि होंति त्ति

* जो गुणितकर्मांशवाला जीव पुरुषवेदकी क्षपणा करता हुआ आवलिके
चरम समयमें असंज्ञोभक्त है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२२. इस सूत्रमें जो गुणितकर्मांश यह बचन आया है सो इससे तीनों वेदोंके गुणित-
कर्मांशवाले जीवका ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है ।
शेष कथन सुगम है ।

❁ तथा पुरुषवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२३ जो पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा है और जिसने अधःस्थितिके द्वारा
प्रथम स्थितिका गला दिया है उसके पुरुषवेदके उदयके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व
होता है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* नपुंसकवेदके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२४. यह आशंका सूत्र सरल है ।

* जो गुणितकर्मांशवाला जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर आरोहण
करके नपुंसकवेदका आवलिके चरम समयमें असंज्ञोभक्त है वह अपकर्षण आदि
तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२५. यहाँ गुणितकर्मांशवाले जीवके प्रकृत उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं

संबंधो कायचो । किमविसेसेण ? नेत्याह—णवुंसयवेदेण उवट्टिदखबयस्स पुणो वि तिसरेव विसेसणमावलिणचरिमसमयअसंछोहयस्से ति । जो आवलियमेतकालेण चरिम-समयअसंछोहआं हांहिदि तस्स आवलियमेतगुणसेदिगोवुच्छाओ येत्तूण सामितमेदं दट्ठव्वमिदि वुत्तं हांइ ।

* उक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिवियं तस्सेव चरिमसमयणवुंसय-वेदकखबयस्स ।

§ ५२६. तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदकखबयभावेणावट्टियस्स णवुंसयवेदसंबंधि-पयदुक्कस्ससामित्तं हांइ । सेमं सुगमं ।

* छुण्णोकसायाणमुक्कस्सियाणि निणिण वि भीणट्टिदियाणि कस्स ?

§ ५२७. सुचोहमेदं पुच्छामुत्तं ।

* गुणितकम्मंसिएण खवएण जाधे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव कम्मंसाणमुदयावलिघाओ उदयवज्जाओ पुण्णाओ ताधे उक्कस्सयाणि निणिण वि भीणट्टिदियाणि ।

पेसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये । तो क्या यह स्वामित्व सामान्यसे सभी गुणितकर्मांशवाले जीवोंके होता है ? नहीं होता, वस यही बतलानेके लिये 'जा नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा है' यह कहा है । और फिर इसका भी विशेषण 'आवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स' दिया है । जो एक आवलिप्रमाण कालके द्वारा अन्तिम समयमें अपकर्षणादि नहीं करेगा उसके एक आवलिप्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाओंकी अपेक्षा यह स्वामित्व जानना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तथा वही अन्तिम समयवर्ती नपुंसकवेदी क्षपक जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२६. जा अन्तिम समयमें नपुंसकवेदकी क्षपणा करता हुआ स्थित है उसीके नपुंसकवेदसम्बन्धी प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । शेष कथन सुगम है ।

* छह नोकपार्योंके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२७. इस पृच्छासूत्रका अर्थ समझनेके लिये सरल है ।

* जो गुणितकर्मांशवाला क्षपक जीव अन्तरकरण करनेके बाद जब उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी गुणश्रेणि द्वारा उदय समयके सिवा उदयावलिफो भर देता है तब वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२८. एत्थेवं सुत्तत्यसंबंधो कायवो—गुणितकर्मसियलवखणेणागदखवगेण जाधे छण्णोकसायाणमंतरं कमेण कीरमाणमतोमुहुत्तेण कदं । तेसिं चेव कम्मसाण-मुदयावलियाओ उदयवज्जाओ गुणसेट्ठिगोबुच्छाहि पुण्णाओ अवसिह्वाओ ताधे तदिय-मेत्तगुणसेट्ठिगोबुच्छाओ घेत्तूण तस्स जीवस्स उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीणट्ठिदियाणि होंति ति । किमट्ठमेत्थ उदयममयवज्जिदो, ण; उदयाभावेण परपयहीमु थिबुक्केण तस्स सकंतिदंसणादो ।

❀ तेसिं चेव उक्कस्सयमुदयावो भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ५२९. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसियस्त खवयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणे वट्ट-माणयस्स ।

§ ५३०. एत्थ गुणितकर्मसियणिदेसो तविवरीयकम्मसियपडिसेहफलो । खवयणिदेसो उव्वसामयणिरायरण्हो । तं पि कुदो ? तविसोहीदो अणंतगुणकखवय-

§ ५२८. यहा इस सूत्रका इस प्रकार अर्थ घटित करना चाहिये कि कोई एक जीव गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर भ्रूणक हुआ फिर जब वह क्रमसे अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर छह नोकपायाका अन्नर कर देता है और जब उतके उन्हीं कर्मोंकी गुणश्रेणियोंगोबुच्छाओंके द्वारा परिपूर्ण हुई उदय समयके सिवा उदयावलिप्रमाण गोबुच्छाओं शेष रह जाती हैं तब वह उतनी गुणश्रेणियोंगोबुच्छाओंका आश्रय लेकर अपकर्षण आदि तानोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—यहाँ उदय समयको क्यों छोड़ दिया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ छह नोकपायोंका उदय नहीं होनेसे उसका स्तिबुक सक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोंमें संक्रमण देखा जाता है ।

विशेषार्थ—छह नोकपायोंका उदय यथासम्भव आठवें गुणस्थान तक ही होता है, अतः क्षपकके नौवें गुणस्थानमें उदय समयके सिवा उदयावलिप्रमाण गुणश्रेणियोंगोबुच्छाओंका आश्रय लेकर यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है ।

❀ उन्हीं छह नोकपायोंके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२९. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जो गुणितकर्मांश क्षपक जीव अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह छह नोकपायोंके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५३०. इस सूत्रमें गुणितकर्मांश पदका निर्देश इससे विपरीत क्षपितकर्मांश जीवका निषेध करनेके लिये किया है । तथा क्षपक पदका निर्देश उपशान्त जीवका निवारण करनेके लिये किया है ।

शंका—ऐसा क्यों किया ?

विसोहीए बहुअस्स गुणसेदिदव्वस्स संगहइ' । दुचरिमसमयादिहेदिमापुव्वकरण-
णिवारणफलो चरिमसमयअपुव्वकरणणिहेसो । तस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ । ततो उवरि
बहुदव्वावूरिदगुणसेदिणिसेए उदिण्णे सामित्तं किण्ण दिण्णं ? ण, तत्थेवेदेसिमुदय-
वोच्छेदेण उवरि दादुमसत्तीदो । उवसमसेहीए अणियट्ठिउवसामओ से काले अंतरं
काहिदि ति मदी देवो जादो तस्स अंतोमुहुत्तुववण्णल्लयस्स जाधे अपच्छिअं गुणसेदि-
सीसयमुदयमागयं ताधे छण्हमेदेसिं कम्मंसाणं पयदुक्कस्ससामित्तं दायव्वमिदि
णासंक्खिज्जं, तत्थतणविसोहीदो अणंतगुणउवसंतकसायुक्कस्सविसोहिं पेक्खिअणुण सव्व-
जहणियाए वि अपुव्वकरणक्खवयविसोहीए अणंतगुणत्तुवलंभादो । एत्थेव विसेसंतर-
पदुप्पायणइमुत्तरसुत्तं—

❀ एवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुगुंछाणमभेदगो

समाधान—क्योंकि उपशामककी विशुद्धिसे क्षपककी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है जिससे गुणश्रेणि द्रव्यका अधिक संचय होता है। यही कारण है कि यहाँ उपशामक पदका निर्देश न करके क्षपक पदका निर्देश किया है।

यहाँ अपूर्वकरणके उपान्त्य समय आदि पिछले समयोंका निषेध करनेके लिये 'चरिम-समयअपुव्वकरण' पदका निर्देश किया है, क्योंकि प्रकृत विषयका उत्कृष्ट स्वामित्व इसीके होता है।

शंका—अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे आगे अनिष्टत्तिकरण गुणस्थानमें जिसमें बहुत द्रव्यका संचय है ऐसे गुणश्रेणिनिषेधका उदय होता है, अतः इस उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान वहाँ जाकर करना चाहिये था ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें ही इन प्रकृतियोंकी उदय-व्युच्छित्ति हो जाती है, अतः उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान आगे नहीं किया जा सकता।

शंका—उपशामश्रेणिमें अनिष्टत्तिकरण उपशामक तदनन्तर समयमें अन्तर करेगा किन्तु अन्तर न करके मरा और देव हो गया। उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद जब अन्तिम गुणश्रेणिशीर्ष उदयमें आता है तब इन छह कर्मोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करना चाहिये ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उपशामक अनिष्टत्तिकरणमें अन्तरकरण करनेके पूर्व जितनी विशुद्धि होती है उससे उपशान्तकषायकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है और इससे भी क्षपक अपूर्वकरणकी सबसे जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी बतलाई है। इसीसे इन छह कर्मोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान अन्यत्र न करके क्षपक अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें किया है।

अब इस विषयमें जो विशेष अन्तर है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विषेयता है कि हास्य, रति, अरति या शोकका यदि कर रहा

कायव्वो । जह भयस्स तदो जुगुल्लाए अबेदगो कायव्वो । अह जुगुल्लाए तदो भयस्स अबेदगो कायव्वो ।

§ ५३१. कुदो एवं कीरदे ? ण, अविक्खियाणं णोकसायाणमवेदगत्ते त्थिवुककंसममस्सियाणं विक्खियाणपयदीणमसंखेज्जसमयपबद्धमेत्तगुणसेदिगोबुच्छदव्वस्स छाहदंसणादो ।

§ ५३२. संपहि पयदस्स उवसंहरणद्वुत्तरमुत्तमोइण्णं—

❁ उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण ।

है तो उसे भय और जुगुप्साका अवेदक रखना चाहिये । यदि भयका कर रहा है तो उसे जुगुप्साका अवेदक रखना चाहिये और जुगुप्साका कर रहा है तो भयका अवेदक रखना चाहिये ।

§ ५३१. शंका—इस व्यवस्थाके करनेका क्या कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि यह जीव अविबक्षित नोकषायोंका अवेदक रहता है तो इसके विवक्षित प्रकृतियोंमें स्तिवुक संक्रमणके द्वारा असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाके द्रव्यका लाभ देखा जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर गुणितकर्मांश क्षपक जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है सो इसका कारण यह है कि छह नोकषायोंका उदयगत उत्कृष्ट द्रव्य वहीं पर प्राप्त होता है अन्यत्र नहीं । यद्यपि शंकाकार यह समझकर कि अपूर्वकरणसे अनिवृत्तिकरणमें अधिक द्रव्यका संचय होता है ऐसे जीवको अनिवृत्तिकरणमें ले गया है और वहाँ नोकषायोंका उदय न होनेसे उदयगत उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त करनेके लिये उसे देवपर्यायमें उत्पन्न कराया है । किन्तु उपशमश्रेणिसे उपशान्तकषाय गुणस्थानमें और इससे क्षपक जीवके परिणामोंकी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है, इसलिये गुणश्रेणिका उत्कृष्ट संचय क्षपक अपूर्वकरणमें ही होगा । यही कारण है कि उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें किया है । तथापि ऐसा नियम है कि किसीके भय और जुगुप्सा दोनोंका उदय होता है । किसीके इनमेंसे किसी एकका उदय होता है और किसीके दोनोंका ही उदय नहीं होता । इसलिये यदि हास्य, रति, अरति या शोककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो दोनोंके उदयके अभावमें कहना चाहिये । यदि भयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो जुगुप्साके अभावमें कहना चाहिये और जुगुप्साकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो भयके अभावमें कहना चाहिये । ऐसा करनेसे लाभ यह है कि जब जिस प्रकृतिका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जायगा तब उसे जिन प्रकृतियोंका उदय न होगा, स्तिवुक संक्रमणके द्वारा उनका द्रव्य भी मिल जायगा ।

§ ५३२. अब प्रकृत विषयका उपसंहार करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

५३३. सुगमं । एदेण सुत्तेण सूचिदो आदेसो गदि-इंदियादिचोइसममणाम्भु अणुमग्गियच्चो । एत्थ अणुक्कस्ससामित्तं ऋण्ण परुविदं इदि णासंका कायच्चा, उक्कस्सपरुवणादो चेव तस्स त्रि अणुत्तसिद्धीदो । उक्कस्सादो वदिरित्तमणुक्कस्समिदि ।

❊ एत्तो जहण्णयं सामित्तं वत्तइस्सामो ।

§ ५३४. एत्तो अणंतरं जहण्णयमोकड्डु कड्डुणादिचदुणहं भीणट्टिदियाणं सामित्तमणुवत्तइस्सामो ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❊ मिच्छत्तस्स जहण्णयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५३५. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❊ उवसामभो छसु आवलियासु सेसासु आसाणं गभो तस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स जहण्णयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ५३३. यह सूत्र सुगम है । इस सूत्रमें आये हुए ओघ पदसे आदेशका भी सूचन हो जाता है, इसलिये उसका गति और इन्द्रिय आदि चौदह मार्गणाश्रमे विचार कर कथन करना चाहिये ।

शंका—यहाँ अनुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन कर देनेसे ही अनुत्कृष्ट स्वामित्वका कथन हो जाता है, क्योंकि उत्कृष्टके सिवा अनुत्कृष्ट होता है ।

विशेषार्थ—चूर्णिसूत्रकारने केवल ओघसे अपकर्षणादि चारोकी अपेक्षा भीनस्थितिक उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है और उसीलिये प्रकरणके अन्तमें 'ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ' यह सूत्र रचा है । निश्चयतः इस सूत्रमें ओघ पद देखकर ही टीकामें यह सूचना की गई है कि इसी प्रकार विचार कर आदेशकी अपेक्षा भी गति आदि मार्गणाश्रमे इस उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिये ।

* अब इससे आगे जघन्य स्वामित्वको बतलाते हैं ।

§ ५३४. अब इस उत्कृष्ट स्वामित्वके बाद अपकर्षणादि चारों भीनस्थितिवालोके जघन्य स्वामित्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है ।

* मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ५३५. यह पृच्छासूत्र सरल है ।

* जो उपशमसम्यग्दृष्टि ब्रह्म आवलियोंके शेष रहने पर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर प्रथम समयमें वह अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५३६. पृथ उवसामगो सि बुत्वे दंसणमोहणीयउवसामओ घेतव्वो, मिच्छत्तेणाहियारादो । जइ एवमुवसमसम्माइडि ति वत्तव्वं, अण्णहा उवसामणा-
वानदावत्त्याए चेव गहणप्पसंगदो ? ण एस दोसो, पाचओ भुंजइ' ति णिव्वाबारा-
वत्त्याए वि किरियाणिमित्तववपसुबलंभादो । छसु आवलियासु सेसासु आसाणं
गओ ति एदेण वा उवसंतदंसणमोहणीयावत्थस्स गहणं कायव्वं । ण च तदवत्थस्स
आसाणगमणे संभवो, विरोहादो । किमासाणं णाम ? सम्मतविराहणं । तं पि
किंपच्चइयं ? परिणामपच्चइयमिदि भणामो । ण च सो परिणामो णिरहेउओ, अणंताणु-
बंधितिव्वोदयहेउत्तादो ।

§ ५३७. सम्महंसणपरम्मूहीभावेण मिच्छत्ताहिमुहीभावो अणंताणुबंधितिव्वो-
दयजणियतिव्वयरसंकिलेसदूसिओ आसाणमिदि बुत्तं होइ । किमइमसो छसु
आवलियासु सेसासु आसाणं णीदो, ण बुणो उवसमसम्माइडी चेय मिच्छत्तं णिज्जइ

§ ५३६. यहाँ सूत्रमें जो 'उपशामक' पद कहा है सो उससे दर्शनमोहनीयका
उपशामक लेना चाहिये, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका अधिकार है ।

शंका—यदि ऐसा है तो सूत्रमें 'उपशमसम्यग्दृष्टि' इस पदका निर्देश करना चाहिये,
अन्यथा उपशामनारूप अवस्थाके ही प्रदणका प्रसंग प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे 'पाचक भोजन करता है' यहाँ पाचन
क्रियाके अभावमें भी पाचक शब्दका प्रयोग किया गया है वैसे ही व्यापार रहित अवस्थामें भी
क्रियानिमित्तक संज्ञाका व्यवहार देखा जाता है, अतः उपशमसम्यग्दृष्टिको भी उपशामक कहनेमें
कोई आपत्ति नहीं है ।

अथवा सूत्रमें आये हुए 'छसु आवलियासु सेसासु आसाणं गओ' इस वचनसे दर्शन-
मोहनीय अवस्थाका उपशम करके उपशमसम्यग्दृष्टि हुए जीवका प्रदण करना चाहिये । कारण
कि उपशामकका सासादनमें जाना नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

शंका—सासादनका क्या अर्थ है ?

समाधान—सम्यक्त्वकी विरोधना करना यही सासादनका अर्थ है ।

शंका—वह सासादन किस निमित्तसे होता है ?

समाधान—परिणामोंके निमित्तसे होता है ऐसा हम कहते हैं । परन्तु वह परिणाम
बिना कारणके नहीं होता, क्योंकि यह अनन्तानुबन्धीके तीव्र उदयसे होता है ।

§ ५३७. सम्यग्दर्शनसे विमुख होकर जो अनन्तानुबन्धीके तीव्र उदयसे उत्पन्न हुआ
तीव्रतर संक्लेशरूप दूषित मिथ्यात्वके अनुकूल परिणाम होता है वह सासादन है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यह जीव छह आवलिकाल शेष रहने पर सासादन गुणस्थानमें क्यों ले जाया
गया है, सीधा उपशमसम्यग्दृष्टि ही मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले जाया गया ?

त्ति णासंकणिज्जं; तत्थतणसंकिलेसादो एत्थ संकिलेसबहुत्तुवर्लभेण तहा करणादो । कुदो संकिलेसबहुत्तमिच्छिज्जदि त्ति चे ण, मिच्छत्तं गदपढमसमए ओकड्डिय उदयावल्लियन्भंतरे णिसिचमाणदव्वस्स थोवयरीकरणहं तहाच्चुवगमादो । ण च संकिलेसकाल्हे बहुदव्वोकड्डणासंभवो, विरोहादो ।

§ ५३८. तदो एवं सुवत्थसंबंधो कायव्वो—जो उवसमसम्माइड्डी उवसम-सम्मत्तद्दाए व्वसु आवल्लियासु सेसासु परिणामपक्खएण आसाणं गदो, तदो तस्स अणंताणुबंधितिव्वोदयवसेण पडिसमयमणंतगुणाए संकिलेसबुद्धीए बोलाविय सगद्धस्स पढमसमयमिच्छाइड्डिस्स जहण्णयमोकड्डणादो भीणह्दिदियमिदि । एसो पयदसाभिओ खविद-गुणिटकम्मंसियाणं क्कदरो ? अण्णदरो । कुदो ? सुत्ते खविदेयरविसेसणा-दंसणादो । खविदकम्मंसियत्तं किण्ण इच्छिज्जदे ? ण, एत्थ परिणामवसेण संकिले-सावूरणलक्खणेण उदयावल्लियन्भंतरे ओकड्डिय णिसिचमाणदव्वस्स खविद-गुणिट-कम्मंसिएसु समाणपरिणामेसु सरिसत्तदंसणेण खविदकम्मंसियगहणे फलविसेसाणुव-

समाधान—ऐसी आशंका करनी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्राप्त होनेवाले संक्लेशसे सासादनमें बहुत अधिक संक्लेश पाया जाता है, इसलिये ऐसा किया है ।

शंका—यहाँ अधिक संक्लेश किसलिये चाहा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें अपकर्षण होकर उदयावलि के भीतर दिये जानेवाले द्रव्यके थोड़ा प्राप्त करनेके लिये ऐसा स्वीकार किया है । यदि कहा जाय कि संक्लेशके समय बहुत द्रव्यका अपकर्षण हो जायगा सो बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

§ ५३८. इसलिये इस सूत्रका यह अर्थ समझना चाहिये कि जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वके कालमें वह आवलि कालके शेष रहने पर परिणामोके निमित्तसे सासादनको प्राप्त हुआ । फिर वहाँ अनन्तानुबन्धीके तीव्रोदयसे प्रति समय अनन्तगुणी हुई संक्लेशकी वृद्धिको चिंताकर जब वह मिध्यादृष्टि होता है तब मिध्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें वह अपकर्षण आदि तीनसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—यह प्रकृत स्वामी क्षपितकर्मांश और गुणितकर्मांश इनमेंसे कौन-सा है ?

समाधान—दोनोंमेंसे कोई भी हो सकता है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—क्योंकि सूत्रमें क्षपितकर्मांश या गुणितकर्मांश ऐसा कोई विशेषण नहीं दिखाई देता ।

शंका—यहाँ क्षपितकर्मांश क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संक्लेशको पूरा करनेवाले परिणामके निमित्तसे अपकर्षण करके उदयावलि के भीतर जो द्रव्य दिया जाता है वह एक समान परिणामवाले क्षपितकर्मांश और गुणितकर्मांश जीवोंके समान देखा जाता है, इसलिये यहाँ सूत्रमें क्षपितकर्मांश पदके प्रहण

लंभादो । तदो जेण वा तेण वा लक्षणेणागंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय सगद्धाए
 छावळियावसेसियाए आसाणमासादिय संकिलेसं पूरेयूण मिच्छत्तं नदपढमसमए
 उदीरिदयोवयरकम्मपदेसे घेतूण तस्स पयदजहण्णसामितं होइ ति णिस्संसयं
 पडिवज्जेयव्वं ।

§ ५३६. एत्थ पयदद्वविसए सिस्साणं णिणयजणणद्वमंतरपूरणविहाणं
 वत्तइस्सामो । तत्थ ताव अंतरं सेसदीहत्तमुवसमसम्मत्तद्धादो संखेज्जगुणं होदि । कुदो
 एदं परिच्छिज्जदे ? दंसणमोहणीयउवसामणाए परूविस्समाणपणुवीसपडिअप्पाबहुअ-
 दंडयादो । तदो पुव्वविहाणेणागदपढमसमयमिच्छाइही अंतरविदियद्विदिपढमणिसेय-
 मादि कादूण जाव मिच्छत्तस्स अंतोकोडाकोडिमेत्तदिदीए चरिमणिसो ति ताव
 एदेसिं पदेसगं पडिदोवमासंखे० भागमेत्तोक्कडु कडुणभागहारेण खंडेयूण तत्थेयखंड-
 मंतरावूरणद्वमोक्कडुदि । पुणो एवमोक्कडुदद्वमसंखेज्जालोगमेत्तभागहारेण संबिय
 तत्थेयखंडं घेतूण उदए बहुअं णिसिंचदि । विदियसमए विसेसहीणं णिसेयभागहारेण ।
 एवं विसेसहीणं विसेसहीणं जाबुदयावळियचरिमसमयमेत्तद्धाणं गंतूण असंखेज्जालोग-
 करनेमे विशेष लाभ नहीं है ।

इसलिये क्षपितकर्मांश और गुणितकर्मांश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर और
 उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करके जब उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि शेष रह जाय तब
 सासादन गुणस्थानका प्राप्त कर और संक्लेशको पूरा कर मिध्यात्वमें जाय । इस प्रकार मिध्यात्व
 का प्राप्त हुए इस जीवके उसके प्रथम समयमें उदीरणाको प्राप्त हुए थोड़ेसे कर्मपरमाणुओंकी
 अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है इस प्रकार यह बात निःशंसयरूपसे जाननी चाहिये ।

§ ५३६. अब यहाँ प्रकृत द्रव्यके विषयमें शिष्योंको निर्णय हो जाय इसलिये अन्तरके
 पूरा करनेकी विधि बतलाते हैं—यहाँ उपशमसम्यक्त्वके रहते हुए जितना अन्तरकाल समाप्त
 हुआ है उससे जो अन्तरकाल शेष बचा रहता है वह उपशमसम्यक्त्वके कालसे संख्यातगुणा
 होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—दर्शनमोहनीयकी उपशामनाके सिलसिलेमें जो पच्चीस स्थानीय अल्पबहुत्व-
 षडक कहा जायगा उससे यह जाना जाता है ।

अतएव पूर्व विधिसे आकर जो मिध्यादृष्टि हो गया है वह मिध्यात्वको प्राप्त होनेके
 प्रथम समयमें अन्तरकालके ऊपर दूसरी स्थितिमें स्थित प्रथम निषेकसे लेकर मिध्यात्वकी
 अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिके अन्तिम निषेक तक जितनी स्थितियाँ हैं उन सबके कर्म-
 परमाणुओंमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका भाग देकर वहाँ जो
 एक भाग प्राप्त होता है उसे अन्तरको पूरा करनेके लिये अपकर्षित करता है । फिर इस प्रकार
 अपकर्षित हुए द्रव्यमें असंख्यात लोकप्रमाण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त हो उसमेंसे
 बहुभाग उद्यमें देता है । दूसरे समयमें विशेष हीन देता है । यह विशेषका प्रमाण निषेक-
 भागहारसे ले आना चाहिये । इस प्रकार उद्याबलिके अन्तिम समय तक विशेष हीन विशेष हीन
 द्रव्य देना चाहिये । यहाँ उद्य समयसे लेकर उद्याबलिके अन्तिम समय तक असंख्यात-

पदिभागेण महिदद्वं णिद्विदं ति । एदं च पयदसामित्तविसयीकयं जहण्णद्वं । पुणो सेसअसंखेज्जभागे पेत्तुषुवरिमाणंतरद्विदीए असंखेज्जगुणं णिसिचिदि । को एत्थ गुणमारो ? असंखेज्जा लोगा । तत्तो णिसेयभागहारेण दोगुणहाणिपमाणेण विसेसहीणं णिक्खवदि जावंतरचरिमद्विदि ति । पुणो अणंतरउवरिमद्विदीए दिस्समाणपदेसग्ग-स्सुवरि असंखेज्जगुणहीणं संखुहदि । तत्तो प्पहुडि पुव्वविहाणेण विसेसहीणं विसेसहीणं देदि जावप्पप्पणो महिदपदेसमहिच्छावणावलियामेत्तेण अपत्तं ति ।

§ ५४०. एत्थ विदियद्विदिपढमणिसेयम्मि दिज्जमाणदव्वस्स अंतरचरिमद्विदि-णिमित्तपदेसग्गादो असंखेज्जगुणहीणतसाहणद्वमिमा ताव परूवणा कीरदे । तं जहा—अंतोकोडाकोडिमेत्तविदियद्विसव्वदव्वमप्पणो पढमणिसेयपमाणेण कीरमाणं दिवडु-गुणहाणिमेत्तं होइ ति कट्टु दिवडुगुणहाणी आयामं विदियद्विदिपढमणिसेयविकखंभं खेत्तमुट्टायारेण ठविय पुणो ओक्कडुक्कडुणभागहारमेत्तफालीओ उट्टुं फालिय तत्थेय-फालिं पेत्तूण दक्खिणफासे ठविदे पढमसमयमिच्छादिद्वीणं अंतरावूरणद्वमोक्कडिददव्वं खेत्तायारेण पुव्वुत्तायामं पुव्विञ्जलविकखंभादो असंखेज्जगुणहीणं विकखंभं होऊण

लोकप्रतिभागसे प्राप्त हुआ एक भागप्रमाण द्रव्य समाप्त हो जाता है । यह प्रकृत स्वामित्वका विषयभूत जघन्य द्रव्य है । फिर शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यमेसे उपरिम अनन्तरवर्ती स्थितिमें असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है ।

शंका—यहाँ गुणकारका प्रमाण क्या है ?

समाधान— असंख्यात लोक ।

फिर इससे आगेकी स्थितिमें दो गुणहानिप्रमाण निषेकभागहारकी अपेक्षा विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । इस प्रकार यह क्रम अन्तरकालके अन्तिम समय तक चालू रहता है । फिर इससे आगेकी उपरिम स्थितिमें दृश्यमान कर्मपरमाणुओंके ऊपर असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है । फिर इससे आगे अतिस्थापनावलिके प्राप्त होनेके पूर्व तक पूर्वविधिसे विशेष हीन विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है ।

§ ५४०. अब यहाँ द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें दिया गया द्रव्य अन्तरकालकी अन्तिम स्थितिमें दिये गये द्रव्यसे जो असंख्यातगुणा हीन है सो इसकी सिद्धि करनेके लिये यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं । जो इस प्रकार है—अन्तःकोडाकोडीप्रमाण दूसरी स्थितिमें स्थित सब द्रव्यके अपने प्रथम निषेकके बराबर हिस्से करने पर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं ऐसा समझकर डेढ़ गुणहानिप्रमाण लम्बे और दूसरी स्थितिके प्रथम निषेकप्रमाण चौड़े क्षेत्रकी ऊर्ध्वाकाररूपसे स्थापना करो । फिर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण फालियोंको ऊपरसे नीचे तक एक रेखामें फाड़ कर उनमेंसे एक फालिको ग्रहण करके उसे दक्षिण पार्श्वमें रखो । इस प्रकार रखी गई इस फालिका प्रमाण मिध्यादृष्टियोंके प्रथम समयमें अन्तरको पूरा करनेके लिये जो द्रव्य अपकर्षित किया जाता है—उतना होगा और क्षेत्रके आकार रूपसे देखने पर यह पहले जो क्षेत्रकी लम्बाई बतला आये है उतनी लम्बी तथा पहले बतलाये गये क्षेत्रकी चौड़ाईसे

चिद्दृष्टि । एतय असंखेज्जलोगपदिभागेण उदयावलिपम्भंतरे णिसित्तद्ववमप्यहाणं काऊण सयलसमत्याए एदिस्से फालीए आयामे अंतोमुहुत्तोवट्टिदिवट्टुगुणहाणीए खंडिदे अंतरदीहया अणंतरपरुविदविकखंभा संपहियभागहारमेत्ता खंडा लब्धंति । पुणो एदेसिमंतरे रूवूणोकङ्कु कङ्कुणभागहारमेत्तखंडे घेतूण पुव्विन्लखेतस्स हेट्टदो संधिय ट्टविदे ट्टिदिं पदि विदियट्टिदिपढमणिसेयदिस्समाणपदेसग्गपमाणेण अंतरं णिरंतरमावूरिदं होइ । णवरि गोवुच्छविसेसादिउत्तरअंतोमुहुत्तगच्छसंकलणाखेतमवसिट्ठरूवूणोकङ्कु कङ्कुणभागहारपरिहीणपुव्वभागहारमेत्तखंडदव्वपुंजादो घेतूण विवज्जासं काऊण अंतरम्भंतरे ठवेयव्वं । अण्णहा गोवुच्छायााराणुपपीदो । एवमंतरट्टिदीसु पदिददव्वपमाणपरुवदा कदा ।

§ ५४१. संपदि विदियट्टिदिपढमणिसेए पढमाणदव्वपमाणानुगमं कस्सामो । तं जहा—पुव्विन्लपुपट्टविदखंडेहिंतो परुविदायामविकखंभपमाणेहिंतो एयं खंडं उच्चाइय एदमुदयावलिपवाहिरट्टिदीसु सव्वासु वि विहज्जिय पदइ त्ति अंतरोवट्टिदिवट्टुगुणहाणीए रूवाहियाए विकखंभमोवट्टिय वित्थारिदे एयखंडमस्सियूण णिरुद्धट्टिदीए पदिदपदेसग्गमप्यणो मूलदव्वमोकङ्कु कङ्कुणभागहारेण संपहियभागहारपदुप्यण्णेण खंडिय तत्थेयखंडपमाणं होइ । सेसखंडाणि वि अस्सियूण एत्थियमेत्तं चेय

असंख्यातगुणी हीन चीड़ी होकर स्थित होती है । यहाँ असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके द्वारा उदयावलिके भीतर निक्षिप्त किये गये द्रव्यकी प्रधानता न करके पूरी समर्थ इस फालिके आयाममें अन्तर्मुहूर्तसे भाजित डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अन्तरकाल प्रमाण लम्बे और पूर्वोक्त विकम्भवाले साम्प्रतिक भागहारप्रमाण खण्ड प्राप्त होते हैं । फिर इन खण्डोंमेंसे एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहारप्रमाण खण्डोंको ग्रहण कर पूर्वोक्त क्षेत्रके नीचे मिलाकर स्थापित करने पर प्रत्येक स्थितिके प्रति द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें दृश्यमान कर्मपरमाणुओंके प्रमाणके हिसाबसे अन्तर निरन्तर क्रमसे आपरित हो जाता है । किन्तु गोपुच्छविशेषके प्रारम्भसे लेकर अन्त तक जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण गच्छ है उसके संकलनरूप क्षेत्रको एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे हीन पूर्वभागहारप्रमाण खण्डभूत द्रव्यपुंजोंमेंसे ग्रहण करके और विपरीत करके अन्तरके भीतर स्थापित कर देना चाहिये । अन्यथा गोपुच्छके आकारकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । इस प्रकार अन्तरस्थितियोंमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसके प्रमाणका कथन किया ।

§ ५४१. अब द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें जो द्रव्य प्राप्त होता है उसके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार है—जिसके आयाम और विकम्भके प्रमाणका पहले कथन कर आये हैं ऐसे पृथक् स्थापित पूर्वोक्त खण्डमेंसे एक खण्डको निकाल ले । फिर यह खण्ड उदयावलिके बाहरकी सभी स्थितियोंमें विभक्त होकर प्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिमें अन्तरकालका भाग देने पर जो लव्व आवे एक अधिक उसका विकम्भमें भाग देकर प्राप्त हुई राशिको फैलाने पर एक खण्डकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमें जो कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं उनकी संख्या आती है जो अपने मूल द्रव्यमें साम्प्रतिक भागहारसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर प्राप्त हुए एक खण्डप्रमाण होता है । शेष खण्डोंकी अपेक्षा भी इतना ही द्रव्य प्राप्त होता

द्वं लहामो ति खंडगुणयारो पुंस्वरूपविदपमाणो एदस्स गुणयारसरूपेण ठवेयव्वो । एवं कदे सव्वखंडाणि अस्सियुण अहियारद्विदीए पदिददव्वमागच्छदि । एत्थ जइ गुणमारभागहारा सरिसा होंति तो सयलेयखंडपडिभागिणं पयदणिसेयदव्वपमाणं होज्ज ? ण च एवं, भागहारं पेक्खियुण गुणगारस्स ओकङ्कङ्कणभागहारमेत्तरूपेहि हीणत्तदंसणादो । तदो किंचूणमेयखंडपडिबद्धद्वं पयदणिसेए दिज्जमाणं होइ । अंतरचरिमद्विदिणिसित्तदव्वे पुण एदेण पमाणेण कीरमाणे सादिरेयओकङ्कङ्कण-भागहारमेत्ताओ सलागाओ लब्धंति, पुंस्वरूपदव्वस्सुवरि एत्थियमेत्तदव्वस्स सव्विसेसस्स पवेसुवलंभादो । खंडं पडि उव्वरिददव्वस्स अणंतरभागहारोवद्विदसंपुण्णोक्कङ्कङ्कण-भागहारपदुप्पणसयलेयखंडपमाणत्तवलंभादो च । एत्थ तेरासियं काऊण सिस्साणं सादिरेयओकङ्कङ्कणभागहारमेत्तगुणयारविसओ पबोहो कायव्वो । तम्हा अणंतर-चरिमद्विदिणिसित्तदव्ववादो विदियद्विदिपढमणिसेयम्मि णिवदंतदव्वमसंखेज्जगुणहीण-मिदि सिद्धं । दिस्समाणपदेसगं पुण विसेसहीणं णिसेयभागहारपडिभागेण । तदो उदयावलियवाहिरे अतरपढमद्विदिमादिं कादूण एया गोवुच्छा । जेणेवमंतरम्मि उदया-वलियवज्जम्मि बहुअं दव्वं णिक्खिवदि तेणंतरस्स हेइदो उदयावलियव्भंतरे असंखेज्जगुणहीणा एयमोउच्छा जादा । तदो एवंविहउदयावलियव्भंतरणिसित्त-दव्वं घेत्तूण पयदजहण्णसामित्तमिदि सुसंबद्धं ।

है, इसलिये पूर्वोक्त प्रमाण खण्डगुणकारको इसके गुणकाररूपसे स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार करने पर सब खण्डोंकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसका प्रमाण आता है। यहाँ यदि गुणकार और भागहार समान होते तो पूरे एक खण्डका प्रतिभाग प्रकृत निषेकके द्रव्यप्रमाण प्राप्त होता। परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि भागहारकी अपेक्षा गुणकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके जितने अंक हैं उतना कम देखा जाता है। इसलिये कुछ कम एक खण्डसम्बन्धी द्रव्य प्रकृत निषेकमे दीयमान द्रव्य होता है। किन्तु अन्तरकालकी अन्तिम स्थितिमें जो द्रव्य निक्षिप्त किया गया है उसे इस प्रमाणसे करने पर साधिक अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहार शलाकाएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि पूर्वकालीन द्रव्यके ऊपर साधिक इतने द्रव्यका प्रवेश पाया जाया है और एक खण्डके प्रति जो द्रव्य शेष बचता है वह, अन्तरभागहारसे पूरे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारमें भाग देकर जो प्राप्त हो उससे पूरे एक खण्डको गुणा करने पर जो प्राप्त हो, उतना होता है। यहाँ पर त्रैशिक करके शिष्योंको साधिक अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार-प्रमाण गुणकारका ज्ञान कराना चाहिये। इसलिये अनन्तर अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए द्रव्यसे द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें निक्षिप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है यह सिद्ध हुआ। किन्तु दृश्यमान कर्मपरमाणु निषेकभागहाररूप प्रतिभागकी अपेक्षा विशेष हीन होते हैं। इसलिये उदयावलिके बाहर अन्तरकालकी प्रथम स्थितिसे लेकर एक गोपुच्छा है। यतः इस प्रकार उदयावलिके सिवा अन्तरकालके भीतर बहुत द्रव्य निक्षिप्त होता है अतः अन्तरकालके नीचे उदयावलिके भीतर असंख्यातगुणी हीन एक गोपुच्छा प्राप्त होती है। इसलिये इस प्रकार उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सुसम्बद्ध है।

विशेषार्थ—यहाँ अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मिध्यात्वके मीनस्थिति-

§ ५४२. संपहि जहणायमुदयादो भीणद्विदियं कस्से ति आसंकाए
जिरायरणद्विदमाह—

✽ उदयादो जहणायं भीणद्विदियं तस्सेव आवलियाभिच्छाविद्विस्स ।

§ ५४३. तस्सेव उवसामयस्स उवसमसम्मलद्धाए छ आवलियाओ अत्थि
ति आसाणं गंतूण संकिलेसेण बोळाविदसगद्धस्स मिच्छत्तमुवणमिय पढमसमयमिच्छा-
दिद्विआदिकमेण आवलियमिच्छादिद्विभावेणावद्विदस्स जहणायमुदयादो भीणद्विदियं

वाले कर्मपरमाणुओंके जघन्य स्वामित्वाका विचार किया जा रहा है। उदयावलि के भीतर स्थित कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं यह तो पहले ही बतला आये हैं। अब यहाँ यह देखना है कि उदयावलि के भीतर मिध्यात्वके कमसे कम कर्मपरमाणु कहाँ प्राप्त होते हैं। उपशमसम्यक्त्वके कालसे अन्तरकाल संख्यातगुणा बड़ा होता है ऐसा नियम है, अतः ऐसा जीव जब उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्व गुणस्थानमें आता है तो उसे वहाँ मिध्यात्वका अपकर्षण करके अन्तरकालके भीतर फिरसे निषेक रचना करनी पड़ती है, इसलिये यहाँ उदयावलिमें पूर्व संचित द्रव्य न होनेसे वह कमती प्राप्त होता है। यद्यपि ऐसे जीवके संक्लेशरूप परिणाम तो होते हैं पर यह जीव उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके मिध्यात्वमें गया है इसलिये इसके संक्लेशरूप परिणामोंकी उत्कृष्टता नहीं प्राप्त हो सकती है और संक्लेशरूप परिणामोंकी जितनी न्यूनता रहेगी कर्मपरमाणुओंका उतना ही अधिक अपकर्षण होगा ऐसा नियम है, अतः इस प्रकार जो जीव सीधा उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्वको प्राप्त होता है उसके भी अपकर्षण आदि तीनोंके अयोग्य मिध्यात्वका जघन्य द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसीसे चूर्णिसूत्रकारने इसे छद्म आवलि काल शेष रहने पर पहले सासादन गुणस्थानमें उत्पन्न कराया है और फिर मिध्यात्वमें ले गये हैं। ऐसे जीवके संक्लेशकी अधिकता रहनेसे मिध्यात्वके प्रथम समयमें बहुत कम मिध्यात्वके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण होता है। ऐसा जीव गुणितकर्मांश भी हो सकता है और क्षिप्तकर्मांश भी, क्योंकि एक तो अन्तरकालके भीतर द्रव्य नहीं रहता, दूसरे इन दोनोंके उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्वमें पहुँचने तक समान परिणाम रहते हैं, अतः इन दोनोंके ही द्वितीय स्थितिमें स्थित द्रव्यमें महान् अन्तर रहते हुए भी मिध्यात्वके प्रथम समयमें समान द्रव्यका अपकर्षण होता है। इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व ऐसे ही प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि जीवके कहना चाहिये जो उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर छद्म आवलि कालतक सासादन गुणस्थानमें रहा है और फिर वहाँसे मिध्यात्वमें गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ५४२. अब उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ वही मिध्यादृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५४३. वही उपशमक उपशमसम्यक्त्वके कालमें छद्म आवलि कालके रहने पर सासादनमें जाकर और संक्लेशके साथ सासादनके कालको बिताकर जब मिध्यात्वको प्राप्त होकर वहाँ प्रथम समयसे लेकर एक आवलि कालतक मिध्यात्वरूप परिणामोंके साथ अबस्थित रहता है तब वह उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। मिध्यादृष्टिके

होदि । मिच्छाइडिपढमसमयप्पहुडि पडिसमयमणंतगुणं संकिलेसमावुरिय समयुणा-
वळियमेत्तकालमहियारडिदीए णिसिंचमाणदव्वस्स समयुणावळियमेत्तगोवुच्छवित्सेसेहिंतो
असंसेज्जगुणहीणत्तादो पढमसमयमिच्छाइडिपरिहारेणावलिबमिच्छाइडिमि सामित्तं
दिण्णं, अण्णहा पढमसमयम्मि चेव सामित्तप्पसंगादो । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ?
पदम्हादो चेव सुत्तादो ।

✽ सम्मत्तस्स जह्वणयमोकडुणावित्तियहं पि भीणडिवियं कस्स ?

§ ५४४. सुगमं ।

✽ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइडिस्स
ओकडुणावो उकडुणावो संकमणावो च भीणडिवियं ।

§ ५४५. पढमसमयवेदयसम्माइडिस्स पयदसामित्तं होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो ।

किमविसिद्धस्स ? नेत्थाह उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स उवशमसम्यक्त्वं पश्चात्कृतं येन

प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें अनन्तगुणे संकलेशको प्राप्त करके एक समय कम आवलि-
प्रमाण कालतक अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह एक समय कम आवलिप्रमाण-
गोपुच्छाविशेषोंसे असंत्यातगुणा हीन होता है, इसलिये प्रथमसमयवर्ती मिध्यादृष्टिको छोड़कर
एक आवलि कालतक रहे मिध्यादृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहा है । अन्यथा प्रथम समयमें ही
जघन्य स्वामित्वका प्रसंग प्राप्त हो जाता ।

शंका—जिसे मिध्यात्व प्राप्त हुए एक आवलि काल हुआ है उसे जघन्य स्वामित्व प्राप्त
होता है यह किस प्रमाणसे जाना ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना ।

विशेषार्थ—यद्यपि जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर और छह आवलि कालतक
सासादन गुणस्थानमें रहकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके पहले समयमें ही मिध्यात्वका
उदय हो जाता है परन्तु इस समय जो उदयगत द्रव्य है उससे एक आवलिकालके अन्तमें
उदयमें आनेवाला द्रव्य न्यून होता है । इसीसे उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य
स्वामित्व मिध्यात्वको प्राप्त होनेके समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर
उसके अन्तिम समयमें कहा है ।

✽ सम्यक्त्वके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५४४. यह सूत्र सुगम है ।

✽ जो उपशमसम्यक्त्वसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उसके प्रथम
समयमें वह अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-
परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५४५. प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके प्रकृत स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका
अभिप्राय है । क्या सामान्यसे सभी प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टियोंके जघन्य स्वामित्व
होता है ? नहीं, बस इसी बातके बतलानेके लिये 'उपशमसम्मत्तपच्छायदस्स' यह पद कहा है ।

स तथोच्यते । उवसमसम्मत्तं पच्छायरिय गहिदवेदयसम्मत्तस्स पढमसमम् अस्त्वेज्ज-
लोपपट्टिभाएण उदयावलिप्यन्भंतरे णिसित्तदन्वं घेक्खण सम्मत्तस्स अप्पियस्सामित्तमिदि
बुद्धं होइ । सेसपरूवणाए म्पिच्छत्तधंगो ।

§ ५४६. संपदि जहण्णयमुदयादो ऋणद्विदियं कस्से त्ति आसंकाणिवास्सम्भ-
मुत्तरमुत्तमोइण्णं—

❁ तस्सेव आवलियवेदयसम्माइडिस्स जहण्णयमुदयादो ऋणद्विदियं ।

§ ५४७. तस्सेव पुण्विज्जल्लामियस्स आवलियमेत्तकालं वेदयसम्मतत्ताणुपाल्लेणेण
आवलियवेदयसम्माइडिववएसमुच्चवंतस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ । एत्थ पढमसमय-
वेदयसम्माइडिपरिहारेण उदयावलिचरिमसमम् सामित्तविहाणे पुण्वं व कारणं
परूवेयन्वं ।

इसका अर्थ है जिसने उपशमसम्यक्त्वको पीछे कर दिया है वह जो उपशमसम्यक्त्वको त्याग कर
वेदकसम्यग्दृष्टि हुआ है उसके प्रथम समयमें अस्त्वयात् लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार
उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा सम्यक्त्वका विवक्षित स्वामित्व होता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । शेष सब कथन मिथ्यात्वके समान है ।

विशेषार्थ—तब उपशमसम्यग्दृष्टि उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके वेदक
सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तब वह अपने प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका अपकर्षण करके
उससे अन्तरकालको भर देता है । यद्यपि इस प्रकार अन्तरकालके भीतर अपकर्षित द्रव्य प्राप्त
होता है तथापि यहाँ पूर्व संबन्धित द्रव्य नहीं रहनेसे यह द्रव्य अति थोड़ा है, इसलिये ऐसे जीवको
ही सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहा है । यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपशमसम्यग्दृष्टि-
को मिथ्यात्वमें ले जाकर जघन्य स्वामी क्यों नहीं कहा; क्योंकि वहाँ वेदक सम्यग्दृष्टिसे कम
द्रव्यका अपकर्षण होता है । पर बात यह है कि जिस प्रकृतिका उदय होता है उदय समयसे
लेकर अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उसी प्रकृतिका होता है । किन्तु मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व
प्रकृतिका उदय होता नहीं, इसलिये ऐसे जीवके मिथ्यात्वमें एक आवलि कालतक उदयावलिप्रमाण
निषेक ही सम्भव नहीं, अतः जघन्य स्वामित्व मिथ्यात्वमें न बतला कर वेदक सम्यक्त्वके
प्रथम समयमें बतलाया है ।

§ ५४६. अब उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इम आरांकाके
निवारण करनेके लिये आगोका सूत्र कहते हैं—

❁ वही वेदक सम्यग्दृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे भीन-
स्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५४७. एक आवलिप्रमाण कालतक वेदकसम्यक्त्वका पालन करनेसे 'आवलिक वेदक-
सम्यग्दृष्टि' इस संज्ञाको प्राप्त हुए उसी पूर्वोक्त जीवके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है । यहाँ
प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिका परिहार करके जो उदयावलिके अन्तिम समयमें स्वामित्वका
विधान किया है सो इसका पहलेके समान कारण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जैसे मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका
स्वामित्व उदयावलिके अन्तिम समयमें कहा है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये ।

❊ एषं सम्मामिच्छत्तस्स ।

§ ५४८. सुगममेदम्पणामुत्तं ।

❊ एषरि पढमसमयसम्मामिच्छाहिटिस्स आबलियसम्मामिच्छाहिटिस्स वेदि ।

§ ५४९. दोसु वि सामित्तमुत्तेसु आलावकओ विसेसो जाणियन्वो ।

❊ अहकसाय चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-सुगुंदाणं जहणणय-मोकडुणावो उक्कणावो संकमणावो च भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५५०. सुगममेदं ।

❊ उवसंतकसाओ मवो देवो जावो तस्स पढमसमयदेवस्स जहणणय-मोकडुणावो उक्कणावो संकमणावो च भीणट्टिदियं ।

§ ५५१. जो उवसंतकसाओ वीदरागल्लदुपत्थो अणणदरकम्मंसियलक्खणेणा-गंतूण सेट्ठिमारूढो कालगदसमाणो मवो देवो जावो तस्स पढमसमयदेवभावेणावट्ठियस्स

* इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वके विषयमें जानना चाहिये ।

§ ५४८. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्याहृष्टिके और उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती सम्यग्मिध्याहृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये ।

§ ५४९. दोनों ही स्वामित्व सूत्रोंमें व्याख्यानकृत विशेषता प्रकरणसे जान लेनी चाहिये ।

विशेषार्थ—जैसे सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वका कथन करते समय जीवकः उपशामसम्यक्त्वसे वेदकसम्यक्त्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-परमाणुओंका स्वामी कहा है वैसे ही उपशामसम्यक्त्वसे सम्यग्मिध्यात्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहना चाहिये यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है ।

* आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हस्य, रति, भय और जुगुप्साके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५०. यह सूत्र सुगम है ।

* जो उपशान्तकषाय जीव मरकर देव हो गया, प्रथम समयवर्ती वह देव उक्त प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५१. क्षपितकमांश या गुणितकमांश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर जो जीव उपशामश्रेणिपर चढ़कर उपशान्तकषाय वीतरागल्लक्ष्ण हो गया और फिर मरकर देव हो गया

जहण्णयमोकङ्कादिदिण्हं पि भीणडिदियं होइ ति मुत्तस्संबंधो । कथं देवेसुप्पण्णपढमसमए विदियडिदीए डिदपदेसग्गाणमंतरडिदीसु असंताणमेकसराहेण उदयावलयिप्पवेसो ? ण, सन्वेसिं कारणणं परिणामवसेण अक्कमेणुग्घादाणुक्कंभादो । तदो उवसंतकसाएण देवेसुप्पण्णपढमसमए पुब्बुत्तविहाणेणंतरं पूरेमाणेण उदयावलयि-
 ष्ठंतरे असंखेज्जलौयपडिभाएण णिसित्तदव्वं घेतूण मुत्तुत्तासेसकम्माणं विवक्खिय-
 जहएणसामितं होइ ति घेतव्वं । एत्थ केइ आइरिया एवं भणंति—जहा होउ णाम लोभसंजलणस्स उवसंतकसायपच्छायददेवम्मि देवपज्जायपढमसमए बट्टमाणयम्मि
 जहण्णसामितं, अण्णहाका उमसत्तीदो । कुदो एवं चेव ? हेट्ठा अण्णदरसंजलणपढमडिदीए णिन्लेवणासंभवादो । तहा संससंजलाणं पि तत्थेव सामितं होउ णाम, अण्णहा देवेसु-
 प्पण्णपढमसमए विवक्खियसंजलणाणमुवरि अविवक्खियसंजलणाणुणसेडिदव्वस्स
 स्थिबुक्कसंक्रमप्पसणेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो । ण बुणो सेसकसायाणमेत्थ सामित्तेण
 होयव्वं, चट्टमाण अणियट्टिचरदेवम्मि तेसिमंतरं काऊण देवेसुप्पण्णपढमसमए बट्टमाणयम्मि
 जहण्णसामित्ते लाहदंसणादो । तं जहा—सो देवेसुप्पण्णपढमसमए जेसिमुदओ

वह प्रथम समयवर्ती देव अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

शंका—जो कर्मपरमाणु अन्तरकालकी स्थितियोंमें न पाये जाकर द्वितीय स्थितिमें पाये जाते हैं उनका देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही एकदम उदयावलिमें कैसे प्रवेश हो जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहां परिणामोकी परिवशतासे सभी कारणोंका युगपत् उद्घाटन पाया जाता है, इसलिये जो उपशान्तकथाय जीव देवोंमें उत्पन्न होता है वह वहां प्रथम समयमें ही पूर्वोक्त विधिसे अन्तरकालकी कर्मनिषेकोसे पूरा कर देता है । और इसप्रकार उदयावलिमें भीतर असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार जो द्रव्य निश्चित होता है उसकी अपेक्षा सूत्रमें कहे गये सब कर्मोंका विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है, यह अर्थ यहां लेना चाहिये ।

शंका—यहांपर कितने ही आचार्य इसप्रकार कथन करते हैं कि जो उपशान्तकथाय जीव मरकर देव हुआ और देव पर्यायके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके लोभसंज्वलनका जघन्य स्वामित्व भले ही रहा आओ, क्योंकि इसको अन्य प्रकारसे घटित करना शक्य नहीं है । ऐसा ही क्यों है ऐसा पूछनेपर शंकाकार कहता है कि इससे नीचे संज्वलनकी सब प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिका अभाव असंभव है अतः वहां जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है । उसीप्रकार शेष संज्वलनोंका भी स्वामित्व वहींपर रहा आवे, अन्यथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विवक्षित संज्वलनोंके ऊपर अविवक्षित संज्वलनोंके गुणश्रेणिद्रव्यका स्तिबुक्क संक्रमण प्राप्त होनेसे जघन्यपना नहीं बन सकता है । परन्तु शेष कथायोंका स्वामित्व यहांपर नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो उपशमश्रेणिपर चढ़ते हुए अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है वह पहले अनिवृत्तिकरणमें उक्त प्रकृतियोंका अन्तर करके जब मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ तब वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयवर्ती उसके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेमें लाभ देखा जाता

अत्थि तेसिमुदीरिज्जमाणदव्वमुवसंतकसायचरमदेविसोहीदो अणंतमुणहीणविसोहिए पुब्बिल्लसामिदब्बादो थोवयरमुदयादी संछुहदि, विसोहिएरतंताए उदीरणाए तत्तारत-
माणुविहाणस्स णाइयत्तादो । ण एत्थ तिथुक्कसंकमस्स संभवो आसंकणिज्जो,
जेसिमुदयो णत्थि तेसिमुदयावळियबाहिरे एयगोवुच्छायारेण णिसेयदंसणादो
विक्खित्तयकसायस्स सजादियसंजलणपदमट्ठिदीए सह तत्थुप्पायणादो च । तम्हा
अट्ठकसायाणं मज्जे जस्स जस्स जहण्णसामित्तमिच्छिज्जदि तस्स तस्स एवं देवेसु-
प्पण्णपट्टमसमए उदयं काऊण सामितं दायव्वं, अण्णहा जहण्णभावाणुववत्तीदो ।
तहा पुरिसवेद--हस्स--रदि--भय--दुगुंजाणमत्तप्पणो ट्ठाणे ओयरमाणअणियट्ठि-
उवसामओ ओकट्ठियूण उदए दाहिदि ति अदाऊण कालं करिय देवेसुप्पण्ण-
पट्टमसमए ओकट्ठणादितिहं पि भीणट्ठिदियजहण्णसामित्तमत्थसंबंधेण दायव्वं ?
ण एत्थ वि कसायाणं तिथुक्कसंकमसंभावो आसंकियव्वो, कसायत्थिथुक्कसंकमस्स
णोकसाएसु अणब्भुवगमादो । कुदो एवं चे ? तिथुक्कसंकमस्स पाएण समाणजाइयपयडीसु
चेव पट्ठिबंधब्भुवगमादो । तम्हा णिरवज्जमेदमेत्थ सामित्तमिदि । एत्थ परिहारो
उच्चदे—उवसमसेदीए कालं काऊण देवेसुप्पण्णपट्टमसमए जस्स वा तस्स वा विसोही

हे । यथा—यह तां प्रसिद्ध बात है कि उपशान्तकपायचर देवसे इसकी विशुद्धि अनन्तगुणी हीन
होती है, इसलिये उपशान्तकपायचर देव अपने प्रथम समयमें जिन प्रकृतियोंका उदय है उनकी
उदीरणा करते हुए जितने द्रव्यको उदयादिमें निश्चित करता है उससे यह जीव थोड़े द्रव्यको
उदयादिमें निश्चित करता है, क्योंकि उदीरणा विशुद्धिके अनुसार होती है, इसलिये यहां जो
उदीरणाके होनेका इसप्रकारका विधान किया है सो वह न्याय्य है । यहां स्तिवुकसंकमणकी
सम्भावनाविषयक आशंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक तो यहां जिनका उदय नहीं
होता उनके केवल उदयावलि के बाहर ही एक गोपुच्छके आकाररूपसे निपेक देखे जाते हैं और
दूसरे विवक्षित कपायका सजातीय संज्वलनकी प्रथम स्थितिके साथ वहीं उत्पाद होता है,
इसलिये आठ कथायोंमेंसे जिस जिसका जघन्य स्वामित्व चाहा जाय उस उसका पूर्वोक्त प्रकारसे
देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उदय कराके स्वामित्वका विधान करना चाहिये, अन्यथा
जघन्यपना नहीं प्राप्त हो सकता । तथा जो उपशामक उत्तरकर अनिष्टवृत्तिकरणमें आया है वह
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका अपने अपने स्थानमें अपकर्षण करके उदयमें देगा
किन्तु न देकर मरा और देवोंमें उत्पन्न हो गया उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अपकर्षणादि
तीनोंके ही क्षीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व प्रकरणवश देना चाहिये ।
किन्तु यहांपर भी कथायोंके स्तिवुक संक्रमणकी सम्भावनाकी आशंका करना उचित नहीं है,
क्योंकि कथायोंका स्तिवुक संक्रमण नोकथायोंमें नहीं स्वीकार किया है । यदि कहा जाय कि ऐसा
क्यों है सो इसका उत्तर यह है कि स्तिवुकसंक्रमणका सम्बन्ध प्रायः समान जातीय प्रकृतियोंमें
ही स्वीकार किया है, इसलिये यहांपर जो उक्त प्रकारसे स्वामित्व बतलाया है वह निर्दोष है ?

समाधान—अब यहां इसका परिहार करते हैं—जो भी कोई उपशामश्रेणिये मरकर
देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विशुद्धि समान ही होती है इस

सरिसी चेष सेठीए अणंतगुणहीणाहियभावणिरवेक्खा होइ ति एदेणाहिप्पाएण पयट्टमेदं मुत्तं । जइ एवं, जत्थ वा तत्थ वा सामित्तमदाऊण केणाहिप्पाएण उवसंतकसायचरो चेष देवो अवलंबिओ ? ण, अण्णत्थ मुत्तुत्तासेसपयडीणं सामित्तस्स दाउमसक्कियत्तेणेत्थेव सामित्तविहाणादो । एत्थ जस्स जस्स जहण्णसामित्तमिच्छिज्जइ तस्स तस्स उवसंतकसायपच्छायददेवपढमसमए उदयं काऊण गहेयव्वं, अण्णहा अणुदइल्लत्तेण उदयावलियवभंतरे णिक्खेवासंभवादो । एत्थ चोदओ भणइ—ण एदं घट्ठे, देवेमुप्पण्णपढमसमए लोभं मोत्तुण सेसकसायाणमुदयासंभवादो । कुदो एस विसेसो लब्भए चे ? परमगुरूवएसादो । तदो लोभकसायवदिरित्तकसायाणमेत्थ सामित्तेण ण होदव्वं, तत्थ तेसिमुदयाभावादो ति । एत्थ परिहारो बुच्चदे—सच्चमेवेदमेत्थ वि जइ तहाविहो अहिप्पाओ अवलंबिओ होज्ज, किंतु ण देवेमुप्पण्णपढमसमए एवंविहो णियमो अत्थि, अविसेसेण सव्वकसायाणमुदओ तत्थ ण विरुज्जइ ति एसो चुण्णि-मुत्तयाराहिप्पाओ, अण्णहा एत्थ सामित्तविहाणाणुववतीए । तदो देवेमुप्पण्णपढमसमए सव्वकसायाणमुदओ संभवइ ति तत्थ जहण्णसामित्तविहाणमविरुद्धं सिद्धं ।

अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उपशमश्रेणिमें जो विशुद्धिका अनन्तगुणा हीनाधिकभाव देखा जाता है उसकी यहां अपेक्षा नहीं की गई है ।

शंका—यदि ऐसा है तो जहां कहीं भी स्वामित्वका विधान न करके उपशान्तकपायचर देवकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान किस अभिप्रायसे किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यत्र सूत्रमें कही गई सब प्रकृतियोंके स्वामित्वका विधान करना सम्भव नहीं था, इसलिये यहां ही स्वामित्वका विधान किया है । यहांपर जिस जिस प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व लाना इष्ट हो उस उसका उपशान्तकपायसे मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उदय कराकर स्वामित्वका प्रदण करना चाहिये, अन्यथा उदय न होनेके कारण उदयावलिके भीतर अनुदयवाली प्रकृतियोंके निषेकोंका निक्षेप होना सम्भव नहीं है ।

शंका—यहांपर शंकाकारका कहना है कि उक्त कथन नहीं बन सकता है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोभको छोड़कर शेष कषायोंका उदय नहीं पाया जाता है । यदि कहा जाय कि यह विशेषता कहाँसे प्राप्त हुई तो इसका उत्तर यह है कि परम गुरूके उपदेशसे यह विशेषता प्राप्त हुई है, इसलिये लोभकपायके सिवा शेष कषायोंका स्वामित्व यहां देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि वहां उनका उदय नहीं पाया जाता ?

समाधान—अब यहां इस शंकाका परिहार करते हैं—यह कहना तब सही होता जब यहां भी वेसा ही अभिप्राय विवक्षित होता । किन्तु प्रकृतमें चुणिसूत्रकारका यह अभिप्राय है कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इसप्रकारका नियम नहीं पाया जाता और सामान्यसे सब कषायोंका उदय वहाँ विरोधको नहीं प्राप्त होता । यदि ऐसा न होता तो यहां स्वामित्वका विधान ही नहीं किया जा सकता था, यतः देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सब कषायोंका उदय सम्भव है इसलिये वहां जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो वह बिना विरोधके सिद्ध है ।

र्षु—यहां पर आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले कर्म-परमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विधान करते हुए यह बतलाया है कि जो उपशान्तकषाय लक्ष्मस्थ जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमें यह जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है। यहांपर शंकाकारने मुख्यतया तीन शंकाएं उठाई हैं जिनमेंसे पहली शंकाका भाव यह है कि उपशान्तकषायमें बारह कषायों और नोकषायोंकी प्रथम स्थिति तो पाई नहीं जाती, क्योंकि वहां अन्तरकालकी स्थितियोंमें निषेकोका अभाव रहता है। अब जब यह जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है तब वहां इनकी प्रथम स्थिति एकसाथ कैसे उत्पन्न हो सकती है। इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि उपशान्तकषाय गुणस्थानमें जो करण उपशान्त रहते हैं वे देवके प्रथम समयमें अपना काम करने लगते हैं, इसलिये वहां द्वितीय स्थितिमें स्थित इन कर्मोंके कर्म-परमाणु अपकर्षित होकर प्रथम स्थितिमें आ जाते हैं। उसमें भी जिन प्रकृतियोंका प्रथम समयसे ही उदय होता है उनके कर्मपरमाणु उदय समयसे निश्चित होते हैं और जिनका उदय प्रथम समयसे नहीं होता उनके कर्मपरमाणु उदयावलिसे बाहरकी स्थितिमें निश्चित होते हैं, इसलिये वहां प्रथम स्थितिमें विवक्षित प्रकृतियोंके कर्मपरमाणु सम्भव हो जानेसे जघन्य स्वामित्व भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी शंका यह है कि यतः संज्वलन लोभका उपशम दसवें गुणस्थानके अन्तमें होता है अतः इसकी अपेक्षा जो उपशान्तकषाय लक्ष्मस्थ जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व भले ही प्राप्त होआं, क्योंकि इसके पूर्व मरकर जा जीव देवोंमें उत्पन्न होता है उसके संज्वलन लोभकी उदय समयमें लेकर अन्तरकालके पूर्व तककी या अन्तरकालके बिना ही प्रथम स्थिति पूर्ववत् बनी रहती है अतः ऐसे जीवका देवोंमें उत्पन्न करानेपर संज्वलन लोभकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता। तथा शेष तीन संज्वलनोंकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व पूर्वोक्त प्रकारसे भले ही प्राप्त हो जाआं, क्योंकि इनकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है। उदाहरणार्थ एक सूक्ष्मसाम्पराय संयत जीव मरकर देव हुआ और उसके देव होनेके प्रथम समयमें मायासंज्वलनका उदय है तो इसमें लोभसंज्वलनके निषेक स्तिबुकसंक्रमण द्वारा संक्रमित होंगे जिससे मायासंज्वलनकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं बन सकेगा। इसीप्रकार मान और क्रोधसंज्वलनके सम्बन्धमें जानना चाहिये। इसलिये यद्यपि संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व बन जाता है पर शेष कषायोंकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व नहीं बनता, क्योंकि यदि अनिष्टिकरण गुणस्थानका जीव उनका अन्तर करके मरता और देवोंमें उत्पन्न होता है तो उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु पाये जाते हैं, इसलिये सूत्रमें उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा आठ कषायोंका जघन्य स्वामित्व कहना ठीक नहीं। इसप्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन नोकषायोंका जघन्य स्वामित्व भी उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जो जीव उपशम-श्रेणिसे उतरकर और अनिष्टिकरणमें पहुँचकर इनका अपकर्षण करनेके एक समय पहले मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इनका अपकर्षण करता है उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु प्राप्त होते हैं, इसलिये इनका जघन्य स्वामित्व भी अनिष्टिकरण-चर देवके ही होता है उपशान्तकषायचर देवके नहीं। उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा अनिष्टिकरण-चर देवके प्रथम समयमें अपकर्षणसे उदयावलिमें कम परमाणु संक्लेशकी अधिकतासे प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिसके संक्लेशकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण कम परमाणुओं का होता है और जिसके विद्युद्धिकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण अधिक परमाणुओंका

❁ तस्सेव आबलियउववयणस्स जहणयसुदयादो भीणदिवियं ।

§ ५५२. तस्सेव उवसंतकसायचरदेवस्स उत्पत्तिपढमसमयप्पहुडि आबलिय-
मेत्तकालं वोलाविय समवद्वियस्स जहणयसुदयादो होइ । कुदो पढमसमयउववयणं
परिहरिय एत्थ पयदजहणसामित्तं दिज्जइ ति णासंक्खिज्जं, तत्थतणपढमणिसेयादो
पदस्स विवक्खिबणिसेयस्स समउण्णवलियमेत्तगोबुद्धविसेसेहि णीणत्तदंसणादो । ण
च एत्थ वि समउणावलियमेत्तकालमसंखेज्जलोयपडिभाएणोदीरिदद्वं तत्थासंतमत्थि

होता है । यतः उपशान्तकपायचर देवके विद्युत्तिका अधिकता होती है अतः इसके अधिक परमाणुओंका अपकर्षण होगा । तथा अनियुत्तिचर देवके संकलेशकी अधिकता होती है अतः इसके कम परमाणुओंका अपकर्षण होगा, इसलिये आठ कषाय आदि उक्त प्रकृतियोंका स्वामित्व उपशान्तकपायचर देवको न देकर अनियुत्तिचर देवको देना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है । टीकामे इस शंकाका समाधान करते हुए जो यह बतलाया गया है कि उपशमश्रेणिमे कहींसे भी मर कर जो देव होता है उसके एकसे परिणाम होते हैं इस विवक्षासे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है और यहाँ पर उपशमश्रेणि न स्थान भेदसे जो हीनाधिक परिणाम पाये जाते हैं उनकी विवक्षा नहीं की गई है सो इस समाधानका आशय यह है कि चूणिसूत्रकारने यद्यपि उपशान्तचर देवके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व बतलाया है पर वह अनियुत्तिचर देवके भी सम्भक् प्रकारसे बन जाता है फिर भी चूणिसूत्रकारने एक साथ सब प्रकृतियोंके स्वामित्वके प्रतिपादनके लिहाजमे वैसा किया है ।

एक मत यह पाया जाता है कि नरकगतिये उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रोधका, तिर्यच-
गतिये उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मायाका मनुष्यगतिये उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मानका
और देवगतिये उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोभका उदय रहता है । इस नियमके आधारसे
शंकाकारका कहना है कि इस हिसाबसे देवगतिये प्रथम समयमे केवल लोभका जघन्य स्वामित्व
प्राप्त हो सकता है अन्यका नहीं, क्योंकि जिस जीवने उपशमश्रेणिमें बारह कषायोंका अन्तर
कर दिया है उरके देवोंमें उत्पन्न होनेपर प्रथम समयमें अपकर्षण होकर लोभका ही उदय
समयसे निक्षेप होगा अन्यका नहीं । अतः जब वहाँ अन्य प्रकृतियोंका उदयावलिमे निक्षेप
ही सम्भव नहीं तब उनका जघन्य स्वामित्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इस शंकाका जो
समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि देव पर्यायके प्रथम समयमे केवल लोभके
उदयका ही नियम नहीं है अतः वहाँ उक्त सभी कषायोंका जघन्य स्वामित्व बन जाता है ।

* उसी देवको जब उत्पन्न हुए एक आवलि काल हो जाता है तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५२. वही उपशान्तकपायचर देव जब उत्पत्तिकालसे लेकर एक आवलिकाल बिताकर
स्थित होता है तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।
यदि ऐसी आशंका की जाय कि प्रथम समयमे उत्पन्न हुए देवको छोड़कर यहाँ उत्पन्न होनेसे
एक आवलि कालके अन्तमे प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान क्यों किया जा रहा है सो ऐसी
आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम समयवर्ती जीवके जो निषेक हांता है उससे यह
विवक्षित निषेक एक समयकम आवलिप्रमाण गोपुच्छविशेषसे हीन देखा जाता है । यदि कहा
जाय कि एक समयकम आवलिप्रमाण काल तक असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुभार
बदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य जो कि प्रथम समयमें नहीं है यहाँ पर पाया जाता है सो ऐसा

ति पञ्चवहेयं, एदम्हादो चैव मुतादो ततो एदस्स थोवभावसिद्धीदो ।

❁ अणंताणुबंधीणं जहण्णयमोकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो च भीणट्टिवियं कस्स ?

§ ५५३. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❁ सुहुमण्णिओएसु कम्मट्टिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लामिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण तदो अणंताणुबंधी विसंजोएऊण संजोइदो तदो वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण तदो मिच्छुत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स जहण्णयं तिण्हं पि भीणट्टिवियं ।

§ ५५४. खविदकम्मंसियपच्छायदभमिदवेद्धावट्टिसागरोवपढमसमयमिच्छा-

निश्चय करना ठीक नहीं है, क्यों इसी सूत्रसे प्रथम समयवर्ती द्रव्यकी अपेक्षा यह विवक्षित द्रव्य कम सिद्ध होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उपशान्तकपायचर देवके उत्पन्न होनेके समयसे लेकर एक आवलिकालके अन्तमे जघन्य स्वामित्व वतलाया है, देवपर्यायमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्यों नहीं वतलाया :सका उत्तर यह है कि उदय समयसे लेकर एक आवलिकाल तक निपेकोंकी जो रचना होती है वह उत्तरात्तर चयहीन क्रमसे होती है अतः प्रथम समयमे जो द्रव्य प्राप्त होता है उससे आवलिके अन्तिम समयमे प्राप्त होनेवाला द्रव्य एक समय कम एक आवलि-प्रमाणे चयोंसे हीन होता है यही कारण है कि विवक्षित जघन्य स्वामित्व देव पर्यायमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे न देकर प्रथम समयसे लेकर एक आवलिप्रमाणे कालके अन्तिम समयमें दिया है । यद्यपि यह आवलिप्रमाणे कालका अन्तिम समय जब तक उदय समयका प्राप्त होता है तब तक इसमे प्रति समय उदीरणको प्राप्त होनेवाले द्रव्यका संचय होता रहता है तो भी वह सब मिलकर उक्त सूत्रके अभिप्रायानुसार प्रथम समयवर्ती द्रव्यसे न्यून होता है, इसलिये विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमे नहीं दिया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❁ अनन्तानुबन्धियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५३. यह पुच्छासूत्र सुगम है ।

❁ कोई एक जीव है जो सूक्ष्मनिगोदियोंमें कर्मस्थितिप्रमाणकाल तक रहा तदनन्तर अनेक बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके चार बार कपायोंका उपशम किया । फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ । फिर दो छयासठ सागरप्रमाण कालतक सम्यक्त्वका पालन करके मिध्यात्वमें गया । वह प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५४. जो क्षपित कर्माशिविधिले आकर और दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण

इदिसस पयदजहणसामितं होइ ति सुत्तसंसंगहो । किमहमेसो सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदिं हिंदाविदो ? ण, कम्मद्विदिमेलकालं तस्याबद्धानेण विणा जहणसंचयाणुव-
वतीदो । अदो चेय संपुणा एसा सुहुमणिगोदेसु समाणेषवा । सुत्ते पल्लिदोवमसस
असंखेज्जदिभागेणियं कम्मद्विदिमच्छिदो ति अपरुवणादो । तत्थ य संसरमाणसस
वावारविसेसो द्वावासयपडिबद्धो पुब्बं परुविदो ति ण पुणो परुविज्जदि गंधगरव-
भएण । तदो कम्मद्विदिवहिंभूदपल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तकालभंतरे संजमासंजमं
संजमं च बहुसो लभिदाउओ । एत्थतण 'च' सहेण अबुत्तसमुच्चयद्वे ण सम्पत्ताणंताणु-
बंधिविसंजोयणकंडयाणमंतम्भावो वत्तओ । बहुसो बहुवारं लभिदाउओ लद्धवंतओ ।
संजमासंजमादीणमसइं लंभो ण णिप्पओजणो, गुणसेदिणिज्जराए बहुदव्वगालण-
फलतादो । तत्थेव अवांतरवावारविसेसपरुवणद्वेदं वुत्तं । चत्तारि वारे कसाए
उवसामियुण तदो अणंताणुबंधी विसंजोएउण संजोइदो ति । बहुआ कसाउवसामण-
वारा क्खिण होति ? ण, एयजीवसस चत्तारि वारे मोत्तण उवसमसेदिआरोहणा-
संभवादो । कसायुवसामणवाराणं व संजमासंजम संजम-सम्पत्त-अणंताणुबंधिविसंजोयण-

करके मिध्यादृष्टि हुआ है उस मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका सार है ।

शंका—इसे कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्मनिगोदियोंमें क्यों भ्रमाया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कर्मस्थितिप्रमाण कालतक वहां रहे बिना जघन्य संचय नहीं बन सकता है । और इसीलिये पूरी कर्मस्थितिप्रमाण कालको सूक्ष्मनिगोदियोंमें बिताना चाहिये, क्योंकि सूत्रमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कालतक रहा ऐसा सूचित भी नहीं किया है ।

कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर परिभ्रमण करते हुए जो छह आवश्यकसम्बन्धी व्यापार विशेष होता है उसका पहले कथन कर आये हैं, इसलिये ग्रन्थके बंद जानेके भयसे उनका यहाँ पुनः कथन नहीं किया जाता है । तदनन्तर कर्मस्थितिके बाहर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके भीतर बहुत बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त किया । यहाँ सूत्रमें जो 'च' शब्द है वह अनुक्त विषयका समुच्चय करनेके लिये आया है जिससे सम्यक्त्वके काण्डकोके अन्तर्भावका और विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोके अन्तर्भावका कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार इन सबको बहुत बार प्राप्त करता हुआ । इन सबका अनेक बार प्राप्त करना निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसका फल गुणश्रेयिनिर्जराके द्वारा बहुत द्रव्यका गला देना है । या वहीं पर अबान्तर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये यह कहा है । फिर चार बार कषायोंका उपशम करके फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ ।

शंका—कषायोंके उपशमानेके बार बारसे अधिक बहुत क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक जीव चार बार ही उपशमश्रेयि पर आरोहण कर सकता है, इससे और अधिक बार उपशमश्रेयि पर आरोहण करना सम्भव नहीं है ।

शंका—जैसे कषायोंके उपशमानेके बारोंका स्पष्ट निर्देश किया है वैसे ही संयमासंयम,

परिब्रूणवाराणं एषियमेता त्ति पमाणपरूवणा किण्ण कया ? ण, सब्बुकस्सा ण एत्थ हँति, किंतु तप्पाओम्मा चेवे त्ति जाणावणट्टमेत्तियमेता त्ति अपरूवणादो । कुदो सब्बुकस्सवाराणमसंभवो ? ण, तद्दा संते णिच्चावणमणं मोत्तण वेच्चावट्टिसागरोवम-
वेत्तकात्थं संसारे परिब्रमणाभावादो । ण चेसा सब्बा खविदेकिरिया विसंजोइज्ज-
माणामणंताणुबंधीणं णिरत्थिया, सेसकसायदव्वस्स शोषयरीकरणेण फलोवलंभादो ।
जेदं पयदाणुवजोगी, अणंताणुबंधी विसंजोएऊण पुणो वि अंतोमुहुत्तेण संजुज्जंतस्स
अधापवत्तसंकमेण पडिच्चिज्जमाणसेसकसायदव्वानमपपदरीभूदानमुवजोगित्तदंसणादो ।
एवमणंताणुबंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तसंकमेण पडिच्चिज्जमाणस-
कसायदव्वानमपपदरीभूदानमुवजोगित्तदंसणादो । एवमणंताणुबंधी विसंजोइय
अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तभागहारोवट्टिदिवट्टुणहाणिमेत्तेइंदियसमयपवद्धदव्वं
सेसकसाएहिंत्तो पडिच्चिद्धं सगंतो भाविदअंतोमुहुत्तमेत्तणवकबंधं घेतूण तदो वेच्चावट्टि-
सागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गओ । किमट्टमेत्तो सम्मत्तलंभेण वेच्चावट्टि-

संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इनके परिवर्तनवार इतने होते हैं इस प्रकार इनके प्रमाणका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन संयमासंयमादिके सर्वोत्कृष्ट वार नहीं होते, फिन्तु तत्प्रायोग्य होते हैं इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये इतने होते हैं यह कथन नहीं किया ।

शंका—यहाँ सर्वोत्कृष्ट वार क्यों सम्भव नहीं हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वारोके मान लेनेपर निर्वाण गमनके सिवा दो छयासठ सागर कालतक संसारमे परिभ्रमण करना नहीं बन सकता है, इसलिये यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वार सम्भव नहीं है ।

यदि कहा जाय कि विसंयोजनाको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंकी यह सब क्षपणा सम्बन्धी क्रिया निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि शेष कषायोंके द्रव्यका परिमाण अल्प कर देना यही इसका फल है । यदि कहा जाय कि शेष कषायोका द्रव्य अल्प हांता है तो दोओ पर इसका प्रकृतमें क्या उपयोग है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अन्तर्मुहूर्तमें पुनः इससे संयुक्त होने पर अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा शेष कषायोंका अल्प द्रव्य विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त हांता है, इसलिये शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके और अन्तर्मुहूर्तमें उससे संयुक्त होकर अल्प हुए शेष कषायोंके द्रव्यके अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा उनसे विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त होने पर शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता देखी जाती है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके जब पुनः अन्तर्मुहूर्तमें इससे संयुक्त होता है तब अधःप्रवृत्तभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानि प्रमाण एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध द्रव्य शेष कषायोंसे विभक्त होकर इसमें प्राप्त होता है तथा अन्तर्मुहूर्त काल तक मिध्यात्वमें रहनेके कारण अन्तर्मुहूर्त प्रमाण नवकसमयप्रबद्ध प्राप्त होते हैं । इस प्रकार अनन्ताबन्धीके इतने द्रव्यको प्राप्त करके और तदनन्तर दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके यह जीव मिध्यात्वमें जाता है ।

सागरोवमाणि भमाडिदो ? ण, सम्मत्तमाहप्पेण बंधविरहियाणमणंताणुबंधीणमाएण विष्णा वयमुवगच्छंताणमइजहण्णमोबुच्छविहाणडं तहा भमाडणादो । पुणो मिच्छत्तं किं णीदो ? ण, अण्णहा एत्थुइसे दंसणमोहक्त्ववणमाडवेंतस्स पयदजहण्णसामित्त-विद्यादप्पसंगादो । तस्स पढमसमयमिच्छाइडिस्स जहण्णयं तिण्णं पि ओकडुणादो भ्नीणट्टिदियं होइ । एत्थ सिस्सो भणइ—मिच्छाइडिपढमसमए अणंताणुबंधीणं सोदएण आवलियमेत्तट्टिदीओ सामित्तविसईकयायो होंति । सम्माइडिचरिमसमए पुण तेसिमुदयाभावेण त्थिवुक्कसंकमणादो समयूणावलियमेत्तट्टिदीओ ल्भंति, तदो तत्थेव जहण्णसामित्तं दाहामो लाहदंसणादो ति ? ण एस दोसो, एत्थ वि अणंताणुबंधिकोहादीणमण्णदरस्स जहण्णभावे इच्छिज्जमाणे तस्साणुदयं कादूण परोदएणेव सामित्तविहाणे समयूणावलियमेत्ताणं चेव गोबुच्छाणमुवलंभादो । तदो तप्परिहारेणेत्येव सामित्तं दिण्णं, गोबुच्छविसेसं पडुच्च विसेसोवलद्धीदो । जइ एवमुदयावलयिमाबाहं वा आवलियूणं बोलाविय उवरि जहण्णसामित्तं दाहामो ?

शंका—आगे सम्यक्त्व प्राप्त करार कर दो छषासठ सागरप्रमाण काल तक क्यों भ्रमण कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वके माहात्म्यसे बन्ध न होनेके कारण आयके बिना व्ययको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंकी गोपुच्छाओंको अत्यन्त जघन्य करनेके लिये इस प्रकार भ्रमण कराया गया है ।

शंका—इस जीवको पुनः मिध्यात्वमें क्यों ले जाया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि इसे पुनः मिध्यात्वमें नहीं ले जाया गया होता तो वह दर्शनमोहनीयकी क्षणका प्रारम्भ कर देता जिससे इसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विघात प्राप्त हो जाता ।

शंका—प्रथम समयवर्ती वह मिध्यादृष्टि अपकषैणादि तीनोंकी अपेक्षा भ्नीन स्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओका स्वामी होता है इस प्रकार यह जो कहा है सो इस विषयमें शिष्यका कहना है कि मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंका उदय होनेके कारण एक आवलि-प्रमाण स्थितियाँ स्वामित्वके विषयरूपसे प्राप्त होती हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें तो अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेके कारण और उदय स्थितिका स्तिवुक संक्रमणद्वारा संक्रमण हो जानेसे एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इसलिये सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें ही प्रकृत स्वामित्वके देनेमें अधिक लाभ है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें भी अनन्तानुबन्धिसम्बन्धी क्रोधादिकमेंसे जिसका जघन्य स्वामित्व इच्छित हो उसका अनुद्ध्य कराके परोदयसे ही स्वामित्वका कथन करने पर एक समय कम एक आवलिप्रमाण ही गोपुच्छाएँ पाई जाती हैं, इसलिये सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयको छोड़कर मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें ही स्वामित्वका विधान किया है, क्योंकि गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विरोधकी उपलब्धि होती है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उदयावलिको बिताकर या एक आवलि कम आबाधा कालको

तत्त्वतणगोबुद्धाणमेत्तो चडिदद्धानमेत्तविसेसेहि हीणत्तेण लाहदंसणादो । ण एत्थ णवकबंधासंका कायव्वा, आबाहादो उवरि तस्सावट्टाणादो त्ति ? णेदं घट्ठे, कुदो ? उदयावलियबाहारे मिच्छाईडिपढमसमयप्पहुडि बज्झमाणणमणंताणुबंधीणमुवरि समट्ठिदीए सेसकसायदव्वस्स अधापवत्तेण संकमोवत्तंभादो बंधावलियमेत्तकालं बोलाविय सगणवकबंधस्स चिराणसंतेण सह ओकट्ठिय समयविरोहेणावाहाभंभंतरे णिक्खित्तस्सोवत्तंभादो च । तम्हा अधापवत्तसंकमेण पडिच्छिददव्वे उदयावलिय-बाहिरट्ठिदे संते जहण्णसामित्तं दिज्जइ त्ति समंजसमेदं सुत्तं ।

§ ५४५. तदो सुतस्स समुदायत्थो एवं वत्तव्वा—खविदकम्मंसियलक्खणेण कम्मट्ठिदि समयविरोहेण परिभमिय पुणो तसभावेण संजमासंजम-संजम-सम्मत्ताणं-ताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणि तत्पाओग्गपमाणाणि बहूणि लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामिय पुणो वि एइदिएसु पल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तकालभंभंतरे उवसामय-समयपबद्धे णिग्गालिय ततो णिप्पिडिय असण्णिपंचिदिएसु अंतोमुहुत्तं बोलाविय आउअबंभवसेण देवेसुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण छप्पज्जतीओ समाणिय उवसमसम्मत्तं

बिताकर ऊपरक। स्थितियोंमें जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, क्योंकि वहाँ की गोपुच्छ्राएँ यहल्लि जितना स्थान ऊपर जाकर वे प्राप्त हुई हैं उनसे विशेषसे हीन हैं, अतः वहाँ जघन्य स्वामित्वका विधान करनेमें लाभ दिखाई देता है। और यहाँ नवकबन्धके प्राप्त होनेकी भी आशंका नहीं है, क्योंकि नवकबन्धका अवस्थान आबाधाके ऊपर पाया जाता है ?

समाधान—परन्तु यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि एक तो उदयावलिसे बाहर मिध्याहृष्टिके प्रथम समयसे लेकर बँधनेवाले अनन्तानुबन्धियोंके ऊपर समान स्थितिमें शेष कषायोंके द्रव्यका अधःप्रवृत्तसंकमणके द्वारा संक्रमण पाया जाता है और दूसरे बन्धावलिप्रमाण कालको बिताकर अपने नवकबन्धका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ अपकर्षण होकर आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार आबाधाके भीतर निक्षेप देखा जाता है, इसलिये उदयावलिका बिताकर या एक आवलि कम आबाधाकालको बिताकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना उचित नहीं है।

इसलिये अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा त्रिच्छिन्न हु ! द्रव्यके उदयावलिसे बाहर स्थित रहते हुए जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है इसलिये यह सूत्र ठीक है।

§ ५५५. इतने निष्कर्षके बाद इस सूत्र का समुच्चयरूप अर्थ इस प्रकार कहना चाहिये—जैसी आगममें विधि बतलाई है तदनुसार कोई एक जीव क्षपितकर्माशकी विधिसे कर्मस्थिति-प्रमाण काल तक परिभ्रमण करता रहा। फिर त्रस हाकर तत्प्रायोग्य बहुत बार संयमासंयम, संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोंको करके चार बार कषायोंका उपशम किया। फिर दूसरी बार भी एकेन्द्रियोंमें जाकर पत्त्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कालके भीतर उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंको गलाकर और वहाँसे निकलकर असंखी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ अन्तिमुहूर्त रहकर आयुबन्ध हो जानेसे देवोंमें उत्पन्न हुआ। फिर अन्तमुहूर्तमें छह पर्यायियोंको पूरा करके उपशामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर उपशाम-

पदिवज्जिय उवसमममसकालवर्धतरे चेष अणंताणुबधिचउवकं विसंजोइय पुणो धि परिणामवसेण अंतोमुहुत्तेण संजोइय पुव्वमुक्कड्ढिदसेसकसायदव्वमथापवत्तसंकमेण पदिविच्छय अधद्विदिगलणेण विज्झादसंकमेण च तग्गालणदं वेज्जावट्ठीओ समत्त-मणुपालिय मिच्छत्तं गदपढमसमए वट्टंतओ जो जीवो तस्स तेसिमुक्कड्ढणादितिहं पि जहण्णयं भ्रीणद्विदियं होइ ति ।

✽ तस्सेव आवलियसमयमिच्छाइद्विस्स जहण्णयमुदयादो भ्रीण-द्विदियं ।

§ ५५६. तस्सेव खविदकम्मंसियपच्छायदभमिदवेज्जावट्ठिसागरोवममिच्छा-इद्विस्स पढमसमयमिच्छाइद्विआदिकमेण आवलियसमयमिच्छाइद्विभावेणावट्ठियस्स अहिकयकम्माण जहण्णयमुदयादो भ्रीणद्विदियं होइ ति सुत्तथो । एत्थ पढमसमय-मिच्छाइद्विपरिहारेणावलियचरिमसमए जहण्णसामित्तविहाणे कारणं पुव्वं परूविदं । उदयावलियवाहिरे जहण्णसामितं किण्ण दिण्णमिदि चे ? ण, समद्विदिसंकमपदिविच्छद-दव्वस्स उदयं पइ समाणस्स तत्थ बहुत्तुवलंभादो ।

सम्यक्त्वके कालकं भीतर ही अनन्तानुबन्धीचतुष्करी विसंयोजना करके फिर भी परिणामोकी परवशाताके कारण अन्तर्मुहूर्तमें उससे संयुक्त हुआ । फिर पहले उत्कर्षणको प्राप्त हुए शेष कर्मायोंके द्रव्यको अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा प्राप्त करके उसे अधःस्थितिगलनाके द्वारा और विध्यात संक्रमणके द्वारा गलानेके लिये दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किया । फिर मिध्यात्वमे जाकर जब यह जीव उसके प्रथम समयमे विद्यमान होता है तब वह अनन्तानु-बन्धियोंके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

✽ एक आवलि काल तक मिध्यात्वके साथ रहा हुआ वही जीव उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५६. जो क्षपित कर्मांशकी त्रिधिसे आकर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके मिध्यादृष्टि हुआ है और जिसे मिध्यादृष्टिके प्रथम समयसे लेकर मिध्यात्वके साथ रहते हुए एक आवलिभल हुआ है ऐसा वही मिध्यादृष्टि जीव अधिकृत कर्मोंके उदयकी अपेक्षा भीन स्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका अर्थ है । यहाँ पर प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिको छोड़कर एक आवलिके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्वके कथन करनेका कारण पहले कह आये हैं ।

शंका—उदयावलिके बाहर जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उदयावलिके बाहर समान स्थितिमें स्थित द्रव्यका संक्रमण हो जानेसे उसकी अपेक्षा उदयमें अधिक द्रव्यकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिये उदयावलिके बाहर जघन्य स्वामित्व नहीं दिया ।

विशेषार्थ—यहाँ उदयकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धियोंके भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी बतलाया है । यद्यपि इसका स्वामी भी वही होता है जो क्षपितकर्मांशकी

❁ णवुंसपवेदस्स जहणणयमोकडुणादित्तिण्हं पि भीण्हिट्ठियं कस्स ?
§ ५५७. सुगमं ।

❁ अभवसिद्धियपाओग्गेण जहणणएण कम्मेण तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो । तदो अंतोमुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्धं, वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिदं, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि चारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोट्टिआउओ मणुस्सो जादो । तदो देसूण-पुव्वकोट्टिसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपच्चएण असंजमं गदो । ताव असंजदो जाव गुणसेढी णिग्गलिदा त्ति । तदो संजमं पडिवज्जियूण अंतोमुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहणणयं तिण्हं पि भीण्हिट्ठियं ।

§ ५५८. एदस्स साधित्तमुत्तस्स अत्यविवरणं कस्सामो । तं जहा—जो जीवो

विधिसे आकर और दो लघ्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है पर यह स्वामित्व मिध्यात्व का प्राप्त होनेके प्रथम समयमें न देकर एक आबलिकं अन्तिम समयमें देना चाहिये, क्योंकि तब उदयमे अनन्तानुबन्धीके सबसे कम कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । इस पर किसी शंकाकारका कहना है कि स्थितिकं अनुसार उत्तरोत्तर एक एक चयकी हानि होती जाती है, अतः उदयावलिके बाहरके निपेकके उदयमे प्राप्त होने पर और भी कम द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिये यह जघन्य स्वामित्व उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमे न देकर उदयावलिके बाहरकी स्थितिमें देना चाहिये । पर यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मिध्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका बन्ध होता है, इसलिये इसमें अन्य सजातीय प्रकृतियोंका संक्रमण होकर उदयावलिके बाहरका द्रव्य बढ़ जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है ।

❁ नपुंसकवेदके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५७. यह सूत्र सुगम है ।

❁ कोई एक जीव अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ तीन पन्यापमकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो लघ्यासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन किया । फिर बहुत बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त हुआ । फिर चार बार कपार्योंका उपशम करके अन्तिम भवमें एक पूर्व कोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । फिर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक संयमका पालन करके जब अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब परिणामवश असंयमको प्राप्त हुआ और गुणश्रेणिके गलने तक असंयमके साथ रहा । फिर संयमको प्राप्त होकर जो अन्तर्मुहूर्तमें कर्मक्षय करेगा वह प्रथम समयवर्ती संयमी जीव तीनोंकी अपेक्षा भीन स्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५८. अब इस स्वामित्व सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं । वह इस प्रकार है—जो जीव

अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मणेण सह गदो तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो सि एत्थ पदसंबंधो । किमट्टमेसो तिपल्लिदोवमिएसुप्पाइदो चे ? ण, णवुंसयवेदबंध-विरट्टिएसु सुहत्तिलेस्सिएसु पज्जत्तकाले तन्बंधवोच्छेदं काऊणाएण विणा अधट्टिदीए परपयडिसंक्रमेण च थोवयरगोवुच्छ्वाओ गालिष अइजहण्णीकयणिरुद्धगोवुच्छ्वागहण्णं तत्थुप्पायणादो । तदो चेय तेण गालिदत्तिपल्लिदोवममेत्तणवुंसयवेदणिसेएण सगाउए अंतोमुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्धं वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपाल्लिमिदि सुत्तावयवो सुसंबद्धो । सम्मत्तपाहम्मणे बंधविरट्टियस्स णवुंसयवेदस्स तत्थ वेद्धावट्टिसामरोवम-पमाणयूलगोवुच्छ्वाओ गालिष अइसण्हगोवुच्छ्वाहिं जहण्णसामित्तविहाण्णं तहा भमाडणस्स सहलत्तदंसणादो । एत्थेव विसेसंतरपरुवण्णं संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो ति सुत्तावयवस्स अबयारो । ण बहुवारं संजमासंजमादिल्लंभो गिरत्थओ, गुणसेट्ठिणिज्जराए णवुंसयवेदपयदणिसेयाणं गिज्जरणेण तस्स सहलत्तदंसणादो । किमेसो वेद्धावट्टिसागरोवमाणमभंत्तरे चेय असइं संजमासंजम-अणंताणुबंधिविसंजोयण-परियट्टणवारे करेइ आहो तत्तो पुव्वमेवे ति पुच्छिदे तत्तो पुव्वमेव अवभवसिद्धिय-

अभव्योके योग्य जघन्य कर्मके साथ गया और तीन पत्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ इस प्रकार यहाँ पदोका सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—इस जीवको तीन पत्यकी आयुवालोंमें क्यों उत्पन्न कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता दूसरे शुभ तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं इसलिये वहाँ पर्याप्त कालमें नपुंसकवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति कराकर आयुके बिना अधःस्थितिके द्वारा और परप्रकृति संक्रमणके द्वारा स्तोक्ततर गोपुच्छाओंको गलाकर विवक्षित कर्मके अति जघन्य गोपुच्छा प्राप्त करनेके लिये इस जीवको तीन पत्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराया है ।

तदन्तर तीन पत्य प्रमाण नपुंसकवेदके निषेकोको गलाकर जब आयुमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहता है तब सम्यक्त्वको ग्रहण कर उसने दो छथासठ सागर काल तक उसका पालन किया । इस प्रकार सूत्रके पद सुसंबद्ध हैं । फिर सम्यक्त्वके प्रभाषसे वहाँ बन्धरहित नपुंसकवेदके दो छथासठ सागरप्रमाण स्थूल गोपुच्छाओंको गलाकर अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओंके द्वारा जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करनेके लिये इस प्रकारके परिभ्रमण करानेमें लाभ देखा जाता है । तथा इसीमें विरोध अन्तरका कथन करनेके लिये 'संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ' सूत्रके इस हिस्सेकी रचना हुई है । संयमासंयम आदिका बहुत बार प्राप्त करना निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि गुणप्रेणिनिर्जराके द्वारा नपुंसकवेदके प्रकृत निषेकोकी निर्जरा हो जानेसे उसकी सफलता देवी जाती है ।

शंका—क्या यह दो छथासठ सागर कालके भीतर ही अनेक बार संयमासंयम और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके परिवर्तन बारोंको करता है या इससे पहले ही ?

समाधान—दो छथासठ सागर कालको प्राप्त होनेके पूर्व ही जब यह जीव अभव्योके

पाओग्गजहण्णसंतकम्मणांतूण तसेसुपज्जिय तिपल्लिदोवमिएसुप्पज्जमाणो तम्मि संधीए पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेतगुणसेदिणिज्जराकालब्भंतरे सेसकम्माणं व संजमासंजमादिकंडयाणि थोवूणाणि कादूण पुणो तत्थ जाणि परिसेसिदाणि ताणि वेद्धावट्टिसागरोवमब्भंतरे कत्थ वि कत्थ वि विक्खित्तसरूवेण करेदि त्ति एसो एत्थ परिणिच्छओ, सुत्तस्सेदस्स अंतदीवयत्तादो ।

§ ५५६. अत्रैवावान्तरव्यापारविशेषप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रावयवः—चत्वारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिद्धमे भवे पुव्वकोट्टिआउओ मणुस्सो जादो इदि । पल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तसंजमासंजमादिकंडयाणमहसंजमकंडयाणं च अंतरालेसु समयविरोहेण चत्वारि कसाउवसामणवारे गुणसेदिणिज्जराविणाभावित्तेण पयदोवजोगी अणुपालिय चरिमदेहहरो दीहाउओ मणुसो जादो त्ति बुत्तं होइ । ण पुव्वकोट्टाउए उप्पादो गिरत्थओ, गुणसेदिणिज्जराविणाभाविदीहसंजमद्दाए पयदोवजोगित्तादो त्ति तस्स सहलत्तपदंसणहसुवरिमो सुत्तावयवो—तदो देसूणपुव्वकोट्टिसंजममणुपालियूणे त्ति । एत्थ देसूणपमाणमहवस्साणि अंतोमुहुत्तब्भहियाणि । एवं देसूणपुव्वकोट्टिसंजमगुणसेदिणिज्जरं काउणावट्टिदस्स आसण्णे सामित्तसमए वावारविसेसपटुप्पायणहमतोमुहुत्तसेसे परिणामपच्चएण असंजमं गदो त्ति उत्तं ।

§ ५६०. एतुद्दिसे असंजमगमणे फलं परूवेइ—ताव असंजदो जाव गुणसेदी

योग्य जघन्य स्तकर्मके साथ आकर और त्रसोमे उत्पन्न होकर तीन पत्यकी आयुवालोमें उत्पन्न होनेकी स्थितिमें होता है तब इस मध्यकालमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणश्रेणिनिर्जरा कालके भीतर शेष कर्मोंके समान कुछ कम संयमासंयमादि काण्डकोंको करके फिर वहाँ जो कर्म शेष बचते हैं उन्हें दो छयासठ सागर कालके भीतर कहीं कहीं श्रुटित (विक्षिप्त) रूपसे करता है इस प्रकार यहाँ यह निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र अन्तदीपक है ।

§ ५५९. अब यहाँ पर अवान्तर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये सूत्रका अगला हिस्सा आया है कि चार बार कपायोंका उपशम करके अन्तिम भवमें पूर्वकोट्टिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । इसका आशय यह है कि पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयम आदि काण्डकोंके और आठ संयम काण्डकोंके अन्तरालमें आगममें जो विधि बतलाई है उस विधिसे गुणश्रेणिनिर्जराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमें उपयोगी चार कपायोंके उपशामन वारोंको करके बड़ी आयुवाला चरमशरीरी मनुष्य हुआ । यदि कहा जाय कि एक पूर्वकोट्टिकी आयुवाले मनुष्यमें उत्पन्न कराना व्यर्थ है सो भी बात नहीं है, क्योंकि संयमकालका बड़ापन गुणश्रेणि निर्जराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमें उसका उपयोग है, इसलिये इसकी सफलता दिखलानेके लिये सूत्रके आगेका 'तदो देसूणपुव्वकोट्टिसंजममणुपालियूण' यह हिस्सा रचा गया है । यहाँपर देशान्तर प्रमाण अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्ष है । इस प्रकार कुछ कम पूर्वकोट्टि कालतक संयमगुणश्रेणिनिर्जराका करके स्थित हुए जीवके विवक्षित स्वामित्व समयके समीपमें आ जानेपर व्यापारविशेषको बतलानेके लिये 'जो अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहनेपर परिणामोंकी परवशताके कारण असंयमको प्राप्त हुआ' यह कहा है ।

§ ५६०. अब यहाँ असंयमको प्राप्त होनेका प्रयोजन कहते हैं—यह जीव तबतक असंयत

णिग्गलिदा त्ति । जाव संजदेण कदा गुणसेही णिरवसेसं गलिदा ताव असंजदो होऊणच्छिदो त्ति बुचं होइ । ण चेदं णिरत्थयं, गुणसेदिगोबुच्छाओ असंखेज्ज-पंचिदियसमयपवद्धपमाणाओ गालिय अइसण्हगोबुच्छाणं सामित्तविसईकरणेण फळोव-लंभादो । एवमसंजदभावेण गुणसेहिं णिग्गालिय पुणो केत्तिएण वावारेण जहण्ण-सामिचं पडिवज्जइ त्ति । एत्थुत्तरमाह—तदो संजमं पडिवज्जियूण इच्चाइणा । तदो असंजमादो संजमं पडिवज्जिय सव्वणिरुद्धेणतोम्लुहुत्सेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति अवट्ठिदस्स तस्स पडमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहण्णयमोक्कण्णादितिण्हं पि भौणाट्ठिदियं होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो । संजदविदियादिसमएसु किमट्ठं सामिचं ण दिज्जदे ? ण, संजमगुणपाहम्मेण पुणो वि उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ताए गुणसेहीए उदयावलियवन्तरप्पवेसे जहण्णत्ताणुववत्तीदो । तम्हा एत्तिएण पयसेण सण्हीकय-समयूणावलियमेत्तगोबुच्छाओ पेत्तूण संजदपडमसमए पयदजहण्णसामिचं होइ त्ति सुत्तत्थसमुच्चयो । एत्थ सिस्सो भणदि—एदम्हादो समयूणावलियमेत्तगोबुच्छदत्त्वादो जहण्णयमण्णमोक्कण्णादिभौणाट्ठिदियं पेच्छामो । तं कपमिदि भणिदे एसो चेव

रहता है जब तक गुणश्रेणि निर्जीर्ण होती है। जब तक संयतके द्वारा की गई गुणश्रेणि पूरी गलती है तब तक यह जीव असंयत होकर रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यदि कहा जाय कि यह सब कथन करना निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि पञ्चोन्त्रियोंके असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्रेणिगोपुच्छाओको गलाकर प्रकृत स्वामित्वकी विषयभूत अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओके करने रूपसे इसका फल पाया जाता है। इस प्रकार असंयतरूप भावके द्वारा गुणश्रेणिकां गला कर फिर कितनी प्रवृत्ति करके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त होता है ? आगे यही बतलानेके लिये 'तदो संजमं पडिवज्जियूण' इत्यादि कहा है। आशय यह है कि फिर असंयमसे संयमको प्राप्त हुआ। इस बार संयमको तब प्राप्त कराना चाहिए जब और सब विधिके साथ कर्मश्रयको अन्तर्मुहूर्तमे करनेकी स्थितिमे आ जाय। इस प्रकार संयमको प्राप्त होकर जो उसके प्रथम समयमे स्थित है वह अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य नपुंसकवेद-सम्बन्धी कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका आशय है।

शंका—संयत होनेसे लेकर दूसरे आदि समयोंमें यह जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमगुणकी प्रधानतासे फिर भी उदयावलिके बाहर जो गुणश्रेणिकी रचना हुई है उसके उदयावलिके भीतर प्रवेश करने पर जघन्यपना नहीं बन सकता है।

इसलिये इतने प्रयत्नसे सूक्ष्म की गई एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोपुच्छाओको लेकर संयतके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है।

शंका—यहाँ कोई शिष्य कहता है कि यह जो एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोपुच्छा द्रव्य है इससे हम अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला अन्य जघन्य द्रव्य देखते हैं वह कैसे ऐसा पूछने पर वह बोलता है कि क्षपितकर्माराकी विधिसे भ्रमण करके

खविदकम्भसियलक्खणेण भमिदजीवो पुव्वकोटिसजमगुणसेट्ठिणज्जरं करिय अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति उवसमसेट्ठिमारूढो अंतरकिरियापरिसमत्तीए गालिदसमयूणावलिओ कालगदो वेमाणिओ देवो जादो । सो च देवेसुप्पणपढमसमयम्मि पुरिसवेदमोकङ्कियूणुदयादिणिक्खेवं करेइ, उदयाभावेण ओकङ्कजमाणणवुंसयवेदादिपयडीण्णमुदयावलियबाहिरे णिक्खेवं करेइ । एवमुदयावलियबाहिरे गोवुच्छायारेण णिसित्तणवुंसयवेदस्स जाधे विदियसमयदेवस्स एयगोवुच्छमेत्तमुदयावलियव्भंतरं पविसइ ताधे तत्थ णवुंसयवेदस्स ओकङ्कणादितिण्हं पि जहण्णभीणह्दिदियं होइ । पुत्तिवन्लजहण्णसामित्तविसईकयसमयूणावलियमेत्तणिसेएहिंतो एदस्स एयणिसेयमेत्तस्स योवयरत्तदंसणादो त्ति ? णेदं व्हदो, पुत्तिवन्लजहण्णदव्वादो एदस्स असंखेज्जगुणत्तुवलंभादो । तं जहा—इमस्स देवस्स संखेज्जसागरोवमपमाणाउट्ठिदिमेत्तो सम्भत्तकालो अज्ज वि अत्थि । संपहि एत्तियमेत्तणिसेए गालिय अपच्छिमे मणुस्सभवे अवट्ठिदो पुत्तिवन्लजहण्णदव्वसामिओ । एदस्स पुण असंखेज्जगुणहाणिमत्तगोवुच्छाओ गाज्ज वि गलंति, तेण समयूणावलियमेत्तणिसेयदव्वादो एदमेयट्ठिदिव्वमसंखेज्जगुणं होइ, संखेज्जसागरोवमव्भंतरणाणागुणहाणिसत्तागाणमणोणणव्भत्थरासीए समयूणावलिओवट्ठिदाए गुणगारसरूवेण दंसणादो । तम्हा सुत्तुत्तमेव

आया हुआ यही जीव एक पूर्वकोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिकी निर्जरा करके जब जीवनमें अन्तर्गुहूर्त शेष रहा तब उपशमश्रेणि पर चढ़ा और अन्तर क्रियाको समाप्त करके तथा नपुंसकवेदकी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको गलाकर मरा और वैमानिक देव हो गया । और वह देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पुरुषवेदका अपकर्षण करके उसका उदय समयसे लेकर निक्षेप करता है तथा उदय न होनेसे अपकर्षणको प्राप्त हुई नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंका उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है । इस प्रकार उदयावलिके बाहर गोपुच्छाके आकाररूपसे जो नपुंसकवेदका द्रव्य निक्षिप्त होता है उससे जब द्वितीय समयवर्ती देवके एक गोपुच्छाप्रमाण द्रव्य उदयावलिके भीतर प्रवेश करता है तब वहाँ अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा नपुंसकवेदका जघन्य भीनस्थितिक द्रव्य प्राप्त होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त जघन्य स्वामित्वके विषयभूत एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोसे यह एक निषेकप्रमाण द्रव्य अल्प देखा जाता है ?

समाधान—यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यसे यह द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है । खुलासा इस प्रकार है—इस देवके संख्यात सागर आयुप्रमाण सन्यक्त्व काल अभी भी शेष है । अब इतने निषेकोको गलाकर अन्तिम मनुष्यभवंमें उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । परन्तु इस द्रव्यकी असंख्यात गुणहानिप्रमाण गोपुच्छाएँ अभी भी गली नहीं हैं, इसलिये एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोके द्रव्यसे यह एक स्थितिगत द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि यहाँ संख्यात सागरके भीतर नाना गुणहानिशालाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिको एक समय कम एक आवलिसं भाजित करने पर जो लब्ध आत्मा है उतना गुणकार देखा जाता है । इसलिये सूत्रमें कहा हुआ ही स्वामित्व

सामितं गिरवज्जमिदि भिदं ।

✽ इत्थिवेदस्स वि जह्यणयाथि तिण्णि वि म्नीषडिडियाथि एदस्स
वेव तिपलिदोवमिएसु णो उववणयस्स कायव्वाथि ।

निर्दोष है यह बात सिद्ध हुई ।

विशेषार्थ — यहाँ अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है । इसके लिये सूत्रमें जो विधि बतलाई है वह सब क्षपित-कर्मांशकी विधि है, इसलिये इसका यहाँ विशेष खुलासा नहीं किया जाता है । टीकामें उसका खुलासा किया ही है । किन्तु कुछ बातें यहाँ ज्ञातव्य हैं, इसलिये उन पर प्रकाश डाला जाता है । प्रथम बात तो यह है कि सूत्रमें पहले दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण कराके फिर संयमासंयम आदि काण्डकोके करनेका निर्देश किया है, इसलिये यह प्रश्न हुआ कि ये संयमासंयमादि काण्डकोमें परिभ्रमण करनेके बार दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके पहले होते हैं या बादमें होते हैं ? इस शंकाका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि ये दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करनेके पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय ये होते हैं वह काल इसके पहले ही प्राप्त होता है । पहले जघन्य प्रदेशसत्कर्मका निर्देश करते हुए भी संयमासंयमादिकके काण्डकोको कराके ही दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ भ्रमण कराया गया है । इससे भी उक्त बातकी ही पुष्टि होती है, इसलिये यहाँ सूत्रमें जो व्यतिक्रमसे निर्देश किया है वह कोई खास अर्थ नहीं रखता ऐसा यहाँ समझना चाहिये । दूसरी बात यह है कि सूत्रमें जो यह निर्देश किया है कि ऐसा जीव पूर्वोक्त विधिसे आकर जब अन्तमें संयमी होता है तब संयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये । इस पर शंकाकारका यह कहना है कि यदि प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व न देकर द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाता है तो इससे विशेष लाभ है । वह यह कि प्रथम समयमें एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोमें कितना द्रव्य होता है द्वितीयादि समयोंमें वह और कम हो जायगा, क्योंकि आगे आगेके निषेकोमें एक एक चयघट द्रव्य देखा जाता है । इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि संयमको प्राप्त होते ही प्रथम समयसे यह जीव गुणश्रेणिकी रचना करने लगता है । यतः नपुंसकवेद अनुदयरूप प्रकृति है अतः इसकी गुणश्रेणि रचना उद्यावलिके बाहरके निषेकोमें होगी । अब जब यह जीव दूसरे समयमें जाता है तब इसके उद्यावलिके भीतरका प्रथम निषेक स्तिवुक संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप परिणाम जानेसे उद्यावलिके बाहरका एक निषेक उद्यावलिमें प्रविष्ट हो जाता है । यतः उद्यावलिमें प्रविष्ट हुए इस निषेकमें प्रथम समयमें अपकर्षित हुआ गुणश्रेणि द्रव्य भी आ मिला है अतः दूसरे समयमें एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोका जो द्रव्य है वह प्रथम समयमें प्राप्त हुए एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोके द्रव्यसे अधिक हो जाता है, अतः द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्वका विधान न करके प्रथम समयमें ही किया है ।

✽ अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका भी स्वामी यही जीव है । किन्तु इसे तीन पल्पकी आयुवालोंमें उत्पन्न नहीं कराना चाहिये ।

§ ५६१. एदस्स चेवाणंतरपरुविदसामियस्स इत्थिवेदसंबंधीणि तिण्णि वि पयदजहण्णीण्हिदियाणि वत्तवाणि । णवरि तिपल्लिदोवमिएसु अणुववण्णस्स कायव्वाणि । कुदो ? तत्थ णवुंसयवेदस्सेव इत्थिवेदस्स बंधवोच्छेदाभावेण तत्थुप्पायणे फलाणुवलंभादो ।

❊ णवुंसयवेदस्स जहण्णयमुदयादो भीण्हिवियं कस्स ?

§ ५६२. सुगमं ।

❊ सुहुमणिगोदेसु कम्महिद्विमणुपालियूण तसेसु आगदो । संजमा-संजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गच्छो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एहंविए गदो । पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदो ताव जाव उवसामयसमयपबद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो । पुब्बकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । दसवस्स-सहस्सिएसु देवेषु उववणो । अंतोमुहुत्तमुववणेषु सम्मत्तं लद्धमंतोमुहुत्ता-वसेसे जीविदव्वए त्ति मिच्छत्तं गदो । तदो विकड्ढिदाओ दिदीओ तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्वाए एहंविएसुववणो । तत्थ वि

§ ५६१ यह जो अनन्तर जघन्य स्वामी कह आये हैं उसके ही स्त्रीवेदसम्बन्धी तीनों प्रकृत जघन्य भीनस्थितिक द्रव्य कहना चाहिये । किन्तु तीन पत्न्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न नहीं हुए जीवके यह सब विधि बतलानी चाहिये, क्योंकि तीन पत्न्यकी आयुवालोंमें जैसे नपुंसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति पाई जाती है वैसे स्त्रीवेदकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती, इसलिये वहाँ उत्पन्न करानेमें कोई लाभ नहीं है ।

❊ नपुंसकवेदके उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यकां स्वामी कौन है ?

§ ५६२ यह सूत्र सुगम है ।

❊ जो जीव सूक्ष्म निगोदियोंमें कर्मस्थिति प्रमाणकाल तक रहकर त्रसोंमें आया है । फिर जिसने अनेक बार संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वको करके चार बार कषायोंका उपशम किया है । फिर एकेन्द्रियोंमें जाकर उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंके गलनेमें लगनेवाले पन्थके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक वहाँ रहा । फिर मनुष्योंमें आकर और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करते हुए जब अन्तर्मुहूर्त काल शेष बचा तब मिथ्यात्वमें गया । फिर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद सम्यक्त्वको प्राप्त किया तथा जब आयुमें अन्तर्मुहूर्त बाकी बचा तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । और वहाँ सम्यक्त्वकी अपेक्षा स्थितियोंको बढ़ाकर तत्प्रायोग्य सबसे जघन्य मिथ्यात्वका काल शेष रहनेपर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ वह

तप्पाओगगउक्कस्सयं संकिलेसं गदो तस्स पढमसमयएइंदियस्स जहणणय-
सुवयादो भीणडिदियं ।

§ ५६३. एत्थ सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमणुपालियुगे चि वुत्ते सुहुमवणप्फदि-
काइएसु जो जीवो सन्वावासयविसुद्धो संतो कम्मट्ठिदिमणुपालियुगागदो ति घेत्तव्वं,
अण्णहा खविदकम्मंसियत्तविरोहादो । एवमभवसिद्धियपाओगगजहण्णसंतकम्मं काऊण
तसेसु आगदो । ण च तसपज्जायपरिणामो सुहुमणिगोदजोगादो असंखेज्जगुणजोगो
वि संतो णिप्फलो ति जाणावण्हं संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो
इच्चादी भणिदं । संजमासंजमादिगुणसेट्ठिणिज्जराए पडिसमयमसंखेज्जपंचिदियसमय-
पबद्धपडिबद्धाए एइंदियसंचयस्स गालणेण फलोवलंभादो । ण च एत्थतणसंचयस्स
जोगवहुत्तमासंकणिज्जं, तस्स वारं पडि संखेज्जावळियमेतवयादो असंखेज्ज-
गुणहीणतणेण पाहणियाभावादो पुणो वि तस्स एइंदिएसु पळिदोवमासंखेज्जदि-
भागमेत्तकालेण गालणादो च । तदेवाह—तदो एइंदिए गदो इत्यादी । एत्थ जदि वि
उवसामआं णवुंसयवेदं ण बंधइ, तो वि पुरिसवेदादीणं तत्थ बंधसंभवादो तेसिं
णवकबंधस्स गालणट्टमेसो एइंदिए पवेसिदो । ण तेसिं कम्मसाणवुवसामयसमय-

प्रथम समयवर्ती एकेन्द्रिय जीव उदयसे भीनस्थितवाले जघन्य द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ५६३ यहाँ सूत्रमे जो 'सुहुमणिगोदेसु कम्मट्ठिदिमणुपालियुए' कहा है सो इसका
आशय यह है कि सब आवश्यकसे विशुद्ध होता हुआ जो जीव सूक्ष्म वनस्पतिकायिकोमें कर्म
स्थितिप्रमाण काल तक रह कर बाहर आया है । अन्यथा उसे क्षपितकर्माश माननेमे विरोध
आता है । इस प्रकार यह अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । यहि कहा
जाय कि सूक्ष्म निगोदियोंके योगसे त्रसपर्यायमें प्राप्त होनेवाला योग असंख्यातगुणा होता है,
इसलिये त्रसपर्यायका प्राप्त करना निष्फल है सो यह बात भी नहीं है । बस इसी बातका ज्ञान
करानेके लिये सूत्रमें 'संजमासजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो' इत्यादि सूत्र वचन कहा है । प्रत्येक
समयमे पंचेन्द्रियोंके असंख्यात समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संयमासंयम आदि सम्बन्धी
गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा एकेन्द्रिय पर्यायमे हुए संचयको गला देता है । इस प्रकार त्रसपर्यायमें
उत्पन्न होनेकी यह सफलता है । यदि कहा जाय कि इस त्रस पर्यायमें संचय होता है वह योगकी
बहुतायतके कारण बहुत होता है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो
प्रत्येक बार संख्यात आर्वालिप्रमाण समयप्रबद्धोंका उदय होता है उससे वह असंख्यातगुणा
हीन होता है, इसलिये प्रकृतमे उसकी प्रधानता नहीं है । दूसरे फिरसे एकेन्द्रियोंमें जाकर पत्यके
असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालके द्वारा उसे गला देता है । इसकार इसी बातके बतलानेके लिये
सूत्रमें 'तदो एइंदिए गदो' इत्यादि वाक्य कहा है । यहाँ पर यद्यपि उपशामक जीव नपुंसकवेषका
बन्ध नहीं करता है तो भी पुरुषवेदादिकका यहाँ बन्ध सम्भव होनेसे इनके नवकबन्धके
गालन करनेके लिये इसे एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराया है । यदि कहा जाय कि वे कर्मपरमाणु उप-

पबद्धेसु गलिदेसु णवुंसयवेदस्स फलाभावो' ति आसंक्खिज्जं, तेसिमगालणे बज्ज-
माणवेदिज्जामाणणवुंसयवेदपयदीए उवरि परपयदिसंक्कमत्थिवुक्कसंक्कमदव्वस्स बहुत्त-
प्पसंगादो । तदो तत्परिहरणद्वमद्ववस्सम्भंतरणवुंसयवेदसंचयगालणद्वं च तत्थ पवेसो
पयदोवजो गि ति सिद्धं ।

§ ५६४. अंतदीवयं चेवेदमुवसामयसमयपबद्धणिग्गालणवयणं, तेण संजदा-
संजदादिसमयपबद्धणिग्गालणद्वमेसो बहुसो गुणसेदिणिज्जिराकालम्भंतरे सुहुमेइदिपसु
पवेसणिज्जो । एत्थ पुण मुत्तावयवे णिरवयवपरुविदावयवभावत्ये एवं पदसंबंधो
कायव्वो—तदो पच्छा एइदिप गदो संतो ताव अच्छिदो जाव उवसामयसमयपबद्धा
गालिदा ति । केत्तियकालं ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं, अप्पणहा उवसामयसमय-
पबद्धाणं णिग्गालणाणुवचचीदो ।

§ ५६५. एवं कम्मं हदसमुत्पत्तियं काउण तत्थतणसंचयगालणद्वं तदो पुणो
मणुस्सेसु आगदो ति वुत्तं । तत्थागदस्स वावारविसेसपदुप्पायणद्वमाह—पुव्वकोडी
देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । संजमगुणसेदिणिज्जिराप तं
मणुसभवं सहलं काउण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तसेसे आउए देवगदिपाओग्गे मिच्छत्तं गदो

शामकके समयप्रबद्धोंके साथ ही गल जाते हैं, इसलिये इससे नपुंसकवेदको कोई लाभ नहीं है सो
ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंके नहीं गलने पर बंधनेवाली
नपुंसकवेद प्रकृतियों परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा और उदयको प्राप्त हुई नपुंसकवेद प्रकृतिमें स्तित्वुक
संक्रमणके द्वारा बहुत द्रव्यका प्रसंग प्राप्त होता है । इसलिये दांपका परिहार करनेके लिये और
आठ वर्षके भीतर नपुंसकवेदका जो संचय हुआ है उसे गतानेके लिये एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराना
प्रकृतमे उपयोगी है यह सिद्ध हुआ ।

§ ५६२ सूत्रमें 'उवसामयसमयपबद्धा णिग्गालिदा' यह जो वचन दिया है वह अन्त-
दीपक है, इसलिये इससे यह ज्ञात होता है कि संयतासंयत आदिके समयप्रबद्धोंको गलानेके लिये
भी इस जीवका बहुत बार गुणभ्रंशिनर्जरा कालके भीतर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराना
चाहिये । किन्तु यहाँ पर सूत्रके इस हिस्सेके सब श्रवयवोंका भावार्थ कहने पर पदोंका सम्बन्ध
इस प्रकार करना चाहिये—इसके बाद उपशामकके समयप्रबद्ध गलने तक यह जीव एकेन्द्रियोंमें
रहा । वहाँ कितने कालक रहा यह बतलानेके लिए 'पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक
रहा' यह कहा है । अन्यथा उपशामकके समयप्रबद्ध नहीं गल सकते हैं ।

§ ५६५ इस प्रकार कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके एकेन्द्रियोंमें हुए संचयको गलानेके लिये
'तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो' यह सूत्रवचन कहा है । फिर मनुष्योंमें आकर जो व्यापार विशेष
होता है उसका कथन करनेके लिये 'पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं
गदो' सूत्र वचन कहा है । संयमगुणभ्रंशिनर्जराके द्वारा उस मनुष्य भवको सफल करके
जब सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहता है तब देवगतिके योग्य आयुका बन्ध करके
सिध्यात्वको प्राप्त हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

ति उचं होइ । आमरणंतं गुणसेडिणिज्जरमकराविय किमद्वमेसो मिच्छत्तं णीदो ?
 ण, अण्णहा दसवस्ससहस्सिएसु देवेसु उववज्जावेदुमसकियत्तादो । तत्थुप्पायणं च
 सच्चलहु एइदिएसुप्पाइय सामिचविहाणद्वमवगंतव्वं । जइ एवं संजदो चेव अंतो-
 मुहुत्तसेसाउओ मिच्छत्तवसेण एइदिएसुप्पाएववो । दसवस्ससहस्सियदेवेसुप्पायण-
 मणत्थयं, दसवस्ससहस्सम्भंतरसंचयस्स तत्थ संभवेण फलाणुवलंभादो । ण अंतो-
 मुहुत्तमुववण्णेण सम्मत्तं लद्धमिच्छेदेण सुतावयवेण तस्स परिहारो, त्थिवुकसंकमवसेण
 तत्थतणपुरिसवेदसंचयस्स दुप्पडिसेहादो ति ? एत्थ परिहारो बुद्धदे—ण ताव एसो
 संजदो मिच्छत्तं णेदूण एइदिएसुप्पाइदुं सकिज्जइ, तत्थुप्पज्जमाणस्स तस्स तिच्च-
 संकिलेसेण पुच्चगुणसेडिणिज्जराए थोवयरत्तप्पसंगादो । ण एत्थ बि तथा पसंगो,
 देवगइपाओगमिच्छत्तद्दादो एइदियपाओगमिच्छत्तद्दाए संकिलेसावुरणकालस्स च
 संवेज्जगुणत्तेण एत्थतणहाणीदो बहुतरहाणीए तत्थुवलंभादो । ण एत्थ देवेसु संचओ

शंका—मरणपर्यन्त गुणश्रेणिनिर्जरा न कराके इसे मिध्यात्वमें क्यों ले गये हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिध्यात्वमें ले जाये बिना दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें
 उत्पन्न कराना अशक्य होता, इसलिये अन्तमें इसे मिध्यात्वमें ले गये हैं । अतिशीघ्र एकेन्द्रियों-
 में उत्पन्न कराके प्रकृत स्वामित्वका विधान करनेके लिये ही दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें
 उत्पन्न कराया गया है यहाँ ऐसा जानना चाहिये ।

शंका—यदि ऐसा है तो संयतको ही अन्तमुहूर्त आयुके शेष रहने पर मिध्यात्वमें ले
 जाकर और उसके कारण एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । दस हजार वर्षकी आयुवाले
 देवोंमें उत्पन्न कराना अनर्थक है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न करानेसे दस हजार वर्षके भीतर जो
 संचय प्राप्त होता है वह उसके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराने पर बहाँ पाया जाता है, इसलिये
 देवोंमें उत्पन्न करानेसे कोई लाभ नहीं है । यदि कहा जाय कि इससे आगे सूत्रमें जो 'अंतो-
 मुहुत्तमुववण्णेण सम्मत्तलद्ध' इत्यादिक कहा है सो इस वचनसे उक्त शंकाका परिहार हो जाता
 है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवपर्यायमें जो पुरुषवेदका संचय होता है एकेन्द्रियोंमें
 उत्पन्न होने पर वह संचय स्तिवुकसंक्रमणके द्वारा नपुंसकवेदमें प्राप्त होने लगनेके कारण उसका
 निषेध करना कठिन है ?

समाधान—अब उक्त शंकाका परिहार करते हैं—इस संयतको मिध्यात्वमें ले जाकर
 एकेन्द्रियोंमें तो उत्पन्न कराना शक्य नहीं है, क्योंकि जो संयत मिध्यात्वमें जाकर एकेन्द्रियोंमें
 उत्पन्न होनेवाला है उसके तीव्र संक्लेश पाया जानेके कारण पूर्वं गुणश्रेणिनिर्जरा बहुत ही कम
 प्राप्त होती है ।

यदि कहा जाय कि जो संयत मिध्यात्वमें जाकर देव होनेवाला है उसके भी तीव्र संक्लेशके
 कारण पूर्वं गुणश्रेणिनिर्जरा अति स्वल्प प्राप्त होती है सो यह बात नहीं है, क्योंकि देवगतिके
 योग्य मिध्यात्वके कालसे एकेन्द्रियके योग्य जो मिध्यात्वका काल है वह संख्यातगुणा है और उसके
 योग्य संक्लेशको प्राप्त करनेमें भी जो काल लगता है वह भी संख्यातगुणा है, इसलिये एकेन्द्रियोंके
 मिध्यात्वमें गुणश्रेणिनिर्जराकी जितनी हानि होती है उससे देवगतिके मिध्यात्वमें बहुत
 हानि पाई जाती है । यदि कहा जाय कि यहाँ देवोंमें अधिक संचय होता है, इसलिये उक्त दोष तो

अहिभो त्ति उचदोसो वि, तस्स संखेज्जावलियमेतसमयपबद्धपमाणस्स एयसमयगुण-
सेट्ठिणिज्जराए असंखेज्जदिभागत्तेण पाहण्णियाभावादो । एदणेव सेसगईसु वि उप्पा-
यणासंका पडिसिद्धा, तत्थुप्पतिपाओग्गमिच्छत्तद्धाए बहुत्तदंसणादो । किमद्वमेसो
दसवस्ससहस्सिएसु सम्मत्तं गेण्हविओ ? ण, ओकड्डणावहुत्तेण अहियारट्ठिदीए
सण्णीकरणणं तहाकरणादो । मिच्छादिट्ठिमि वि एत्थासंती ओकड्डणा बहुई अत्थि, तदो
उहयत्थ वि सरिसमेदं फलमिदि णासंकणिज्जं, तत्थ ओकड्डणादो सम्माइट्ठिओकड्डणाए
विसोहिपरतंताए बहुवरत्तदंसणादो । तम्हा सुहासियमेदं तोमुहुत्तमुववण्णेण तेण
सम्मत्तं लद्धमिदि । एवमधट्ठिदीए णिज्जरं काऊण अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति
मिच्छत्तं गदो, एइंदिएमुप्पचीए अण्णहाणुववतीदो मिच्छत्तमेसो णीदो । तत्थ उप्पादो
किमद्वमिच्छिज्जे चे ? ण, एइंदियोववादिणो देवस्स तप्पच्छायदपढमसमप एइंदियस्स
च संकिलेसवसेण उकड्डणावहुत्तमोकड्डणोदीरणाणं च थोवत्तमिच्छिय तहान्भुवगमादो ।

बना ही रहता है अर्थात् मिथ्यात्वमें ले जाकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न करानेसे जो दोष प्राप्त होता है वह दोष यहाँ भी बना रहता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक देवके जां संख्यात आबलिप्रमाण समयप्रवर्द्धोंका संचय होता है वह एक समयमें होनेवाली गुणश्रेणि निर्जराके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसीसे शेष गतियोंमें भी उत्पन्न करानेकी आशंकाका निषेध हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न करानेके योग्य मिथ्यात्वका काल बहुत देखा जाता है ।

शंका—इसे दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें ले जाकर सम्यक्त्व किसलिये ग्रहण कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अधिक अपकर्षणके द्वारा अधिकृत स्थितिके सुद्ध करनेके लिये वैसा कराया गया है ।

शंका—जो अपकर्षण यहाँ सम्यग्दृष्टिके नहीं होता वह मिथ्यादृष्टिके भी बहुत देखा जाता है इसलिये विवक्षित लाभ तो दोनों जगह ही समान है, फिर इसे सम्यग्दृष्टि करानेसे क्या लाभ है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके जो अपकर्षण होता है वह विशुद्धिके निमित्तसे होता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टिके होनेवाले अपकर्षणसे बहुत देखा जाता है ।

इसलिये सूत्रमें जो 'अंतोमुहुत्तमुववण्णेण तेण सम्मत्तं लद्धं' यह कहा है सो उचित ही कहा है । इस प्रकार उक्त जीव अधःस्थितिकी निर्जरा करता हुआ जब जीवनमें अन्तमुहूर्त काल शेष रह जाय तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, क्योंकि अन्यथा एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति नहीं बन सकनेके कारण इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं ।

शंका—ऐसे जीवका अन्तमे एकेन्द्रियोंमें उत्पाद् किसलिये स्वीकार किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो देव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें और जो एकेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें संकलेशके कारण उत्कर्षण बहुत होता है और अपकर्षण तथा उदीरणा

एदस्स चेव जाणावणद्वमिदमाह—तदो विकट्टिदाओ द्विदीओ ति । सव्वेसिं कम्मणं द्विदीओ मिच्छत्तसहगदतिव्वयरसंकिलेसवसेण सम्मादिद्विबंधादो वियट्टिदाओ वि दूरमक्खिविय पवद्धाओ संतद्विदीओ च णिरुद्धद्विदीए सह बहमाणाओ दूरयरमुक्खिय णिक्वित्ताओ ति वुत्तं होइ । तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एत्थ सव्वरहस्सगहणेण ओपजहण्णमिच्छत्तकालस्स गहणं पसज्जइ ति तप्पडिसेहृद्धं तप्पाओग्ग-विसेसणं कदं । एइंदिपुत्तिप्पाओग्गसव्वजहण्णमिच्छत्तकालेणे ति भणिदं होइ । एवमेत्तिएण कालेण उक्कट्टणाए उक्कस्सद्विद्विबंधाविणाभाविणीए वावदो पयदगोवुक्खं सण्हीकारिय एइंदिएसु उववण्णो, अण्णहा अइजहण्णणवुंसयवेदोदयासंभवादो । एत्थुदेसे वि पयदोवजोगिपयत्तविसेसपहुप्पायणद्वमाह—तत्थ वि तप्पाओग्गउक्कस्सयं संकिलेसं गदो ति । तत्थ वि उक्कस्सयसंकिलेसं किमिदि णीदो ? उदीरणा-बहुत्तणिरायरणद्वं ।

§ ५६६. एवमेत्तिएण उक्कस्वणेणोवलक्खियस्स तस्स पढमसमयएइंदियस्स णवुंसयवेदसंबंधी जहण्णयसुदयादो मीणाद्विदियं होइ । एत्थ विदियसमयप्पहुट्ठि उवरि गोवुक्खविसेसहाणिवसेण जहण्णसामितं गेण्हामो ति भणिदे ण तहा घेप्पइ,

कम होती है इसलिये ऐसा स्वीकार किया गया है ।

इस प्रकार इसी बातके जतानेके लिये 'तदो विकट्टिदाओ द्विदीओ' यह सूत्रवचन कहा है । मिध्यात्वके साथ प्राप्त हुए अति तीव्र संक्लेशरूप परिणामोंके कारण सब कर्मों की स्थितियोंको सम्यग्दृष्टिके बन्धसे बढ़ाकर अर्थात् बहुत दूर नित्येप करके बाँधा और विवक्षित स्थितिके साथ जो सत्कर्मकी स्थितियां विद्यमान हैं उन्हें बहुत दूर उत्कर्षित करके निक्षिप्त किया यह उक्त सूत्रवचनका तात्पर्य है । तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए' इस सूत्र-वचनमें जो 'सव्वरहस्स' पदका ग्रहण किया है सो इससे ओघ जघन्य मिध्यात्वके कालका ग्रहण प्राप्त होता है, इसलिये उसका निषेध करनेके लिये 'तत्पायोग्य' विशेषण दिया । इससे यहाँ एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिके योग्य सबसे जघन्य काल विवक्षित है यह तात्पर्य निकलता है । इस प्रकार इतने कालके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अविनाभावी उत्कर्षणमें लगा हुआ उक्त जीव प्रकृत गोपुच्छाको सूक्ष्म करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ, अन्यथा अत्यन्त जघन्य नपुंसकवेदका उदय नहीं बन सकता है । इस प्रकार एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी उक्त जीव प्रकृतमें उपयोगी पढ़ने-वाले जिस प्रयत्नविशेषको करता है उसका कथन करनेके लिये 'तत्थ वि तप्पाओग्गउक्कस्सयं संकिलेसं गदो' यह सूत्रवचन कहा है ।

शंका— एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी इस जीवको उत्कृष्ट संक्लेश क्यों प्राप्त कराया गया ?

समाधान—जिससे इसके बहुत उदीरणा न हो सके, इसलिये इसे उत्कृष्ट संक्लेश प्राप्त कराया गया है ।

§ ५६६. इस प्रकार इतने लक्षणोंसे उपलक्षित प्रथम समयवर्ती वह एकेन्द्रिय जीव नपुंसकवेदके उदयसे मीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । यहाँ पर कितने ही लोग दूसरे समयसे लेकर ऊपर गोपुच्छविशेषकी हानि होनेके कारण जघन्य स्वामित्वको ग्रहण

विदियादिसमएसु संकिलेससव्वहाणिदंसणादो । तम्हा एत्येव सामित्तं गिरवज्जमिदि सिद्धं ।

❀ इत्थिवेदस्स जहणण्यमुदयादो भीण्हिवियं ?

§ ५६७. कस्से ति अहियारे संबंधो कायव्वो, अण्णहा सुत्तत्थस्स असंपुण्णत्त-
पसंगादो । सेसं सुगमं ।

❀ एसो चेव णसुंसयवेदस्स पुव्वं परूविदो जावे अपच्छिम्ममणुस्स-
भवग्गहणं पुव्वकोडी देसुणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं
गम्भो । तदो बेमाणियदेवीसु उववणणो अंतोमुहुत्तद्धमुववणणो उक्कस्ससंकिलेसं
गदो । तदो विकड्ढिदाग्भो द्विदीग्भो उक्कड्ढिदा कम्मसा जावे तदो अंतोमुहुत्तद्ध-
मुक्कस्सइत्थिवेदस्स द्विदिं बंधियूण पडिभग्गो जादो । आबलियपडिभग्गाए
तिस्से देवीए इत्थिवेदस्स उदयादो जहण्णयं भीण्हिवियं ।

करनेके लिये कहते हैं परन्तु तत्त्वतः वैसा ग्रहण करना शक्य नहीं है, क्योंकि दूसरे आदि समयोंमें पूरा संक्लेश न रहकर उसकी हानि देखी जाती है, इसलिये निर्दोष रीतिसं जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमें ही प्राप्त होता है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उदयकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व किस प्रकारके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होता है इसका विशेष खुलासा टीकामें किया ही है । उसका आशय इतना ही है कि उक्त क्रमसे जो जीव आकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके नपुंसकवेदका द्रव्य उत्तरोत्तर घटता चला जाता है और इस प्रकार अन्तमें एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयमें नपुंसकवेदका उदयगत सबसे जघन्य द्रव्य प्राप्त हो जाता है ।

❀ उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ५६७. इस सूत्रमें 'कस्स' इस पदका अधिकार हानेसे सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा सूत्रका अर्थ असंपूर्ण रहेगा । शेष कथन सुगम है ।

❀ नपुंसकवेदकी अपेक्षा पहले जो जीव विवक्षित था वही जब अन्तिम मनुष्य भवको ग्रहण करके और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करके अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें गया । फिर वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त काल बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ जिससे उसने वहाँ सम्भव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । और जब यह क्रिया की तभी प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंका उत्कर्षण किया । फिर उस समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त हुआ । इस प्रकार निवृत्त हुए उस देवीको जब एक आवलि काल हो गया तब वह उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

१. विकृत्यां ति उक्कृत्यां कर्म प्र० उदय गा० २२ ।

§ ५६८. एदस्स सामितसुत्तस्स अत्यविवरणं कस्सामो—एसो चैव जीवो गुणुंसयवेदस्स सामित्तेण पुच्चपरुविदो समणंतरपरुविदासेसलक्खणोवलक्खिस्सओ जाधे सामितकालं पेक्खियूण अपच्छिद्धं मणुस्सभवग्गहणं देसूणपुच्चकोट्टिपमाणं पुच्चविहाणेण गुणसेट्ठिणिज्जराविणाभाविसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे सगाउए मिच्छत्तं गदो । एत्थ सच्चत्थ वि पुच्चपरुवणादो णत्थि णाणत्तं । णवरि किमट्टमेसो मिच्छत्तं णीदो ति पुच्छिद्धे इत्थिवेदएमुत्पायणट्टमिदि वत्तव्वं, अण्णहा तत्थुप्पत्तीए असंभवादो । ण तत्थुप्पादो णिरत्थओ, पयदसामित्तस्स सोदएण विणा विहाणाणुववत्तीदो । तमेवाह— तदो वेमाणियदेवीसु उववणो ति । सेसगइपरिहारेण देवगदीए चे उत्पायणं गुणसेट्ठि- लाहरक्खणट्टं अण्णगइपाओग्गमिच्छत्तद्धाए बहुत्तेण तस्स विणासप्पसंगादो । अपज्जत्त- द्धाए च थोवीकरणट्टं, अण्णहा तत्थ बहुदव्वसंचयावत्तीदो । भवणादिहेट्ठिमदेवीसु रप्पाइय गेण्णामो, विसैसाभावादो ति णासंकणिज्जं, तत्थुप्पज्जमाणजीवस्स पुच्चमेव एत्तो तिच्चसंकिलेसावूरणेण गुणसेट्ठिणिज्जरालाहवहुत्तभावावत्तीदो । तत्र तथोत्पन्नस्य

§ ५६८. अब इस स्वामित्वविषयक सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं—जिस जीवका पहलें नपुंसकवेदके स्वामित्वरूपसे कथन कर आये हैं समनन्तर पूर्वमें कहे गये सब लक्षणोंसे युक्त वही जीव जब स्वामित्वकालकी अपेक्षा अन्तिम मनुष्यभवको ग्रहण करके और पूर्व विधिके अनुसार गुणश्रेणिनिर्जराके अविनाभावी संयमका कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक पालन करके अपनी आयुमें अन्तर्मुहूर्त बाकी रहने पर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । यहाँ सभी जगह नपुंसकवेद- सम्बन्धी पूर्व प्ररूपणसे कोई भेद नहीं है ।

शंका—इस जीवको मिध्यात्वमें किसलिये ले गये हैं ?

समाधान—स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न करानेके लिये इसे मिध्यात्वमें ले गये हैं, अन्यथा इसकी उत्पत्ति स्त्रियोंमें नहीं हो सकती ।

यदि कहा जाय कि इस जीवको मिध्यात्वमें उत्पन्न कराना निरर्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि स्वोदयके बिना प्रकृत स्वामित्वका विधान करना नहीं बनता है और स्त्रीवेदका उदय तब हो सकता है जब इसे मिध्यात्वमें ले जाया जाय, इसलिये इसे मिध्यात्वमें उत्पन्न कराया है । इसी बातको बतलानेके लिये 'तदो वेमाणियदेवीसु उववणो' यह कहा है । इसे देवगतिमें ही क्यों उत्पन्न कराया है इस प्रश्नका उत्तर देने के लिये आचार्य कहते हैं कि गुण- श्रेणिजन्य लाभकी रक्षा करनेके लिये शेष गतियोंको छोड़कर देवगतिमें ही उत्पन्न कराया है, क्योंकि अन्य गतिके योग्य मिध्यात्वका काल बहुत होनेसे वहाँ गुणश्रेणिजन्य लाभका विनाश प्राप्त होता है । दूसरे अपर्याप्त कालको कम करनेके लिये भी देवोंमें उत्पन्न कराया है, अन्यथा वहाँ बहुत द्रव्यका संचय प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि भवनवासिनी आदि देवियोंमें उत्पन्न कराके जघन्य स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेवाले ऐसे जीवके पहलेसे ही तीव्र संक्लेश पाया जाता है, इसलिये इसके गुणश्रेणिजन्य बहुत लाभ नहीं बन सकता है । अतः भवनवासिनी देवियोंमें उत्पन्न न कराके वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न कराया

तस्य व्यापारविशेषप्रतिपादनार्थमाह—अंतोमुहुत्तद्भुवणो इत्यादि । अत्रान्तर्मुहूर्त-
मपर्याप्तकाले संक्लेशोत्कर्षस्यासम्भवात्पर्याप्तकालविषयः संक्लेशोत्कर्षः प्ररूपितः ।
तथा परिणतः किंप्रयोजनमित्याशंक्याह—तदो इत्यादि । तदो तम्हा संकिलेसादो
हेउभूदादो वियङ्गिदाओ सव्वेसिं कम्माणं द्विदीओ अंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदिबंधादो
वि दूरमुक्कङ्गिय दीहाबाहाए पवद्धाओ त्ति भणिदं होइ । जाधे एवमुक्कस्सओ संकिलेसो
आवूरिदो ताधे चैव उक्कङ्गणाकमेण चिराणसंतकम्मपदेसा बज्जमाणणवक्कबंधुक्कस्स-
द्विदीए उवरि उक्कङ्गिय णिक्खिता, द्विदिबंधस्सेव उक्कङ्गणाए वि तदण्णयवदिरयाणु-
विहाणत्तादो । ण च उक्कङ्गणाबहुत्ताविणाभावी उक्कस्साबाहापडिवद्धो उक्कस्सओ
द्विदिबंधो णिरत्थओ, णिरुद्धद्विदिपदेसाणमुक्कङ्गणाए विणा सण्णीभावाणुप्पत्तीदो ।
एसो सव्वो वि वावारविसेसो अहियारद्विदिमाबाहाअभंतरे पवेसिय संकिलेसपरिणद-
पढमसमए परुविदो । तदो प्पहुडि अंतोमुहुत्तद्भुक्कस्समित्थिवेदस्स द्विदि बंधियूण
पडिभग्गा जादा त्ति ।

§ ५६६. पत्थतणउक्कस्ससदो अंतोमुहुत्तद्वाए द्विदीए च विसेसणभावेण
संबंधेयव्वो । तेण सव्वुक्कस्समंतोमुहुत्तकालं संकिलेसमावूरिय पण्णारससागरोवमकोडा-
कोडिमेत्तमित्थिवेदस्समुक्कस्सद्विदि बंधिदूण एत्तियं काळमुक्कङ्गणाए पयदणिसेयं जहण्णी-

है । इस प्रकार जो जीव वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके व्यापारविशेषका कथन करनेके
लिये 'अंतोमुहुत्तद्भुवणो' इत्यादि कहा है । यहाँ अपर्याप्त कालके भीतर अन्तर्मुहूर्त तक
संक्लेशका उत्कर्ष नहीं हो सकता, इसलिये पर्याप्त कालविषयक संक्लेशका उत्कर्ष कहा है । इस
प्रकार संक्लेशरूपसे परिणत करानेका क्या प्रयोजन है ऐसी आशंका होने पर 'तदो' इत्यादि
कहा है । आशय यह है कि इस संक्लेशके कारण सब कर्मों की स्थितियोंको बढ़ाया अर्थात् जिन
कर्मोंका स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण हो रहा था उनका बड़े आबाधाके साथ बहुत
अधिक स्थितिको बढ़ाकर बन्ध किया । और जब इस प्रकारका उत्कृष्ट संक्लेश हुआ तब उत्कर्षणके
क्रमानुसार प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंको बंधनेवाले नवकबन्धकी उत्कृष्ट स्थितिके
ऊपर उत्कर्षित करके निक्षिप्त किया, क्योंकि स्थितिबन्धके समान उत्कर्षणका भी संक्लेशके
साथ अन्वय-व्यतिरेकसम्बन्ध पाया जाता है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमे बहुत उत्कर्षणका
अविनाभावी और उत्कृष्ट आबाधासे सम्बन्ध रखनेवाला उत्कृष्ट स्थितिबन्ध निरर्थक है सो यह
बात भी नहीं है, क्योंकि विवक्षित स्थितिके कर्मपरमाणु उत्कर्षणके बिना सूक्ष्म नहीं हो सकते,
इसलिये बहुत उत्कर्षण और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दोनों सार्थक हैं । अधिकृत स्थितिका आबाधाके
भीतर प्रवेश कराके संक्लेशसे परिणत होनेके प्रथम समयमे इस सब व्यापारविशेषका कथन
किया है । फिर यहाँसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कराके फिर
उसे उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त कराया है ।

§ ५६६. यहाँ सूत्रमें जो उत्कृष्ट शब्द आया है सो उसका अन्तर्मुहूर्त काल और स्थिति
इन दोनोंके साथ विशेषणरूपसे सम्बन्ध करना चाहिये । इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि
सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त काल तक संक्लेशको बढ़ाकर उसके द्वारा पन्द्रह कोडाकोड़ी सागरप्रमाण
स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके और इतने ही काल तक उत्कर्षण द्वारा प्रकृत निषेकको जघन्य

करिय संकिलेसादो पदिभग्ना जादा त्ति पेत्तब्बं, अंतोमुहुत्तादो, उवरि उक्कस्स-
 द्विदिबंधपाओग्गुक्कस्ससंकिलेसेणावद्वाणाभावादो । किमेत्थेव पदिभग्गपदमसमय-
 जहण्णसामित्तं दिज्जइ ? न, इत्याह—आबलियपदिभग्गाए तिस्से देवीए इत्यादि ।
 तदित्थणिसेयस्स पयत्तेण जहण्णीकयत्तादो एत्तो तस्स सपयूणावलियमेत्तगोबुच्छ-
 विसेसाणं हाणिदंसणादो च । जइ वि एत्थ ओकड्डणाए संभवो तो वि उदयावलिय-
 वाहिरे चेव ओकड्डिदपदेसग्गस्स णिकखेवो ति भावत्थो । णासंखेज्जलोगपदिभागियं
 दब्बमासंकणिज्जं, तस्स दोग्गुणहाणिपदिभागियगोबुच्छविसेसादो असंखेज्जगुणहीणस्स
 पाहणियाभावादो ।

करके संक्लेशसे निवृत्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेशका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसके बाद फिर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेशके साथ रहना नहीं बन सकता है। क्या यहाँ ही प्रतिभग्न होने के प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व दिया गया है। नहीं, इस प्रकार इसी बातके बतलानेके लिये 'आबलियपदिभग्गाए तिस्से देवीए' इत्यादि कहा है। प्रतिभग्न होनेके समयसे लेकर एक आबलिप्रमाण कालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व देनेका कारण यह है कि वहाँका निषेक प्रयत्नसे जघन्य किया गया है। दूसरे प्रतिभग्न होनेके समयके निषेकसे उसमें एक समय कम एक आबलिप्रमाण गोपुच्छाविशेषोंकी हानि देखी जाती है। यद्यपि यहाँ अपकर्षणकी सम्भावना है तो भी अपकर्षणको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका निक्षेप अधिकतर उदयावलिसे बाहर ही होता है यह इसका भावार्थ है। यदि कहा जाय कि प्रकृतमें स्त्रीवेद उदयवाली प्रकृति होनेसे अपकर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यमें असंख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना द्रव्य तो इस प्रकृतिके उदयावलिसे भीतर ही प्राप्त होता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो गुणहानि अर्थात् निषेकहारका भाग देनेसे जो गोपुच्छविशेष प्राप्त होता है उससे उक्त अपकर्षित द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये उसकी प्रकृतमें प्रधानता नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ पर उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके मीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी बतलाया है सो और सब विधि तो नपुंसकवेदके स्वामित्वके समान है किन्तु अन्तमें मनुष्यभवेके बाद प्रक्रिया बदल जाती है। नपुंसकवेदके प्रकरणमें जैसे उस जीवको मनुष्यमें पैदा करानेके बाद फिर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोमें ले गये और फिर वहाँसे एकेन्द्रियोंमें ले गये वैसे यहाँ न करके इस जीवको मनुष्य भवेके बाद देवियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये। फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उत्कर्षण कराना चाहिये। फिर अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्ट स्थिति-
 बन्धसे निवृत्त होने पर एक आबलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये। इस प्रकरणके अन्तमें टीकामें एक शंका उठाई गई है जिसका भाव यह है कि उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त होनेके प्रथम समयमें प्रस्तुत जघन्य स्वामित्व न कहकर जो उस समयसे लेकर एक आबलिसे अन्तमें जघन्य स्वामित्व कहा है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रति समय जो उपरितन स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षण होता है उसके कारण एक आबलिसे अन्तिम समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे अधिक हो जाता है ? इस शंकाका समाधान दो प्रकारसे किया गया है। समाधानमें पहली बात तो यह बतलाई ग. है कि अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उदयावलिमें न होकर उदयावलिसे बाहर होता है, इसलिये उदयावलिसे अन्तिम समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे

❁ अरदि-सोगाणभोकडुणादितिगभीणद्विविद्यं जहण्णयं कस्स ?

§ ५७०. सुगमं ।

❁ एहंदियकम्मेष जहण्णएण तसेसु आगदो । संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण तिण्णि वारे कसाए उवसामेयूण एहंदिए गदो । तत्थ पल्लिवोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छियूण जाव उवसामयसमयवद्धा गलंति तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुच्चकोडी देसूणं संजममणुपालियूण कसाए उवसामेयूण उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो । जाधे चेय हस्स-रईओ ओकडुिदाओ उदपादिणिक्खित्ताओ अरदि-सोगा ओकडुित्ता

अधिक नहीं हो सकता । पर इस उत्तर पर यह शंका होती है कि यह नियम तो अनुदयवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें है उदयवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें नहीं, क्योंकि उदयवाली प्रकृतियोंमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उदय समयसे प्राप्त होता है, इसलिये पूर्वोक्त शंकासे मूल शंकाका निराकरण न होकर वह पूर्ववत् खड़ी रहती है, इसलिये इस अन्तर्वर्ती शंकाको ध्यानमें रत्नकर समाधानमें दूसरी बात यह कही गई है कि इस प्रकार अपकर्षण होकर जिस द्रव्यका उदयावलिमें निक्षेप होता है वह द्रव्य एक गोपुच्छविशेषके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है । असंख्यात लौकिका भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त होता है उतने अपकर्षित द्रव्यका उदयावलिके अन्दर निक्षेप होता है । यह तो अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण है । तथा दो गुणहानि आयामका भाग देनेपर गोपुच्छविशेष अर्थात् चयका प्रमाण प्राप्त होता है । सर्वत्र एक गुणहानिका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इससे स्पष्ट है कि एक गोपुच्छविशेषसे उदयावलिमें प्राप्त होनेवाले अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये वह यहाँ प्रधान नहीं है । यही कारण है कि उत्कृष्ट संकलेशसे निवृत्त होनेके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व न कहकर एक आवालिकालके अन्तिम समयमें कहा है ।

❁ अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ५७०. यह सूत्र सुगम है ।

❁ जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । फिर संयमासंयम और संयमको अनेक बार प्राप्त करके और तीन बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समयप्रवृत्तोंके गलनेमें लगनेवाले पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक रहा । फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन करके और कषायोंको उपशामा कर उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त हुआ । फिर मरकर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुआ । और जब देव हुआ तब हास्य और रतिका अपकर्षण करके उनका उदय समयसे निक्षेप किया तथा अरति और शोकका अपकर्षण करके उनका

उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता । से काले दुसमयदेवस्स एया द्विदी अरह-
सोगाणमुदयावलियं पविडा ताधे अरदि-सोगाणं जहण्णयं ति एहं पि
भीणद्वियं ।

§ ५७१. एत्थ एइंदियकम्मेण जहण्णएणे त्ति उत्ते अबवसिद्धिय-
पाओरगजहण्णसंतकम्मस्स गहणं कायब्बं, दोण्हमेदेसिं भेदाभावाद्दो । सेसावयवा
बहुसो परुविदत्तादो सुगमा । णवरि तिण्णिवारे कसाए उवसामेयूणे त्ति वयणं
चउत्थकसायुवसामणवारस्स विसेसियपरुवण्हं । चउत्थिवारे कसाए उवसामेयूण
उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो त्ति भणंतस्साहिप्पाओ
उवसमसेदीए कालगदो अहमिंददेवेसु च उप्पज्जइ, अण्णत्थुकस्ससुकल्लेस्साए
असंभवादो त्ति । इंदि जाए लेस्साए परिणदो कालं करेइ त्तिस्से जत्थ संभवो,
तत्थेव णियमेणुप्पज्जइ, ण लेस्संतरविसईकए विसए त्ति । कुदो एस णियमो ?
सहाएदो । ताधे चेव तत्थुप्पण्णपढमसमए हस्स-रदीओ ओकड्ढिदाओ उदयादि-
णिक्खिताओ त्ति एदेण देवेसुप्पण्णपढमसमयप्पहुट्ठि अंतोमुहुत्तकालं हस्स-रदीणं

उदयावलि के बाहर निक्षेप किया । तदनन्तर इस देवके दूसरे समयमें स्थित होनेपर
अरति और शोककी एक स्थिति जब उदयावलिमें प्रवेश करती है तब यह जीव
अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ५७१. यहां सूत्रमें 'जो एइंदियकम्मेण जहण्णाएण' कहा है सो इससे अभव्योंके योग्य
जघन्य सत्कर्मका प्रहण करना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्म और अभव्योंके
योग्य जघन्य सत्कर्म इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है, दोनोंका एक ही अर्थ है । सूत्रके शेष
श्रवणबोका अनेक बार प्ररूपण किया है, इसलिये वे सुगम हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि
चौथी बार कथायके उपशामानेके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे सूत्रमें 'तिण्णिवारे कसाए
उवसामेयूण' यह वचन कहा है । फिर कुब्ज आगे चलकर सूत्रमें 'चउत्थिवारे कसाए उवसामेयूण
उवरंउत्तसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो' जो यह कहा है सो ऐसा कहनेका
यह अभिप्राय है कि उपशामश्रेणिमें मरकर यह अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न होता है, क्योंकि अन्यत्र
उत्पन्न शुक्ललेश्याकी प्राप्ति असम्भव है । यह निश्चित है कि मरते समय पाई जानेवाली
लेश्या जहां सम्भव होती है मरकर जीव नियमसे वहीं उत्पन्न होता है । किन्तु दूसरी लेश्याके
विषयभूत स्थानमें नहीं उत्पन्न होता ।

शंका—यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—स्वभावसे ।

फिर इसके आगे सूत्रमें जो 'ताधे चेव तत्थुप्पण्णपढमसमए हस्स-रदीओ ओकड्ढिदाओ
उदयादिणिक्खिताओ' यह कहा है सो इससे यह ज्ञापित किया है कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम
समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है । तथा फिर

चेव णियमेणुदयो त्ति जाणाविदं । अरदि-सोगा ओकङ्कित्ता उदयावलियबाहिरे णिक्खित्ता त्ति एदेण वि दोण्हमेदेसिमुदयस्स तत्थच्चंताभावो सूच्चिदो, अण्णहा उदयावलियबाहिरे णिक्खेवणियमाभावेण असंखेज्जलोगपट्टिभागेषुदयावलियम्भंतरे णिसिच्चदन्वं घेत्तूण हस्स-रईणं व जहण्णसामित्तं होज्ज ।

§ ५७२. एवमुदयाभावेणुदयावलियबाहिरे ओकङ्किय एयगोषुच्छायारेण णिक्खित्ताणमरइ-सोगाणं से काले दुममयदेवस्स एया द्विदो उदयावलयं पविट्ठा, हेट्ठा एगसमयस्स गलणादो । ताघे तेसिं जहण्णयमोकङ्कणादितिण्हं पि भीणाट्टिदियं होइ, आवलियपविट्ठेयणिसेयस्स तत्तो भीणाट्टिदियत्तेण गहणादो । एत्थुवरि सामित्ता-संकाए णत्थि संभवो, तत्थ समयं पट्टि णिसेयवुट्ठिं मोत्तूण जहण्णभानाणुववत्तीदो । एत्थ के वि आइरिया अत्थसंबंधमत्तं वमाणा भणंति—जहा अंतरकदपढमसमयप्पहुट्टि समयूणावलयमेत्तद्धाणं गंतूण रइ-सोयाणं पढमट्टिदिं गालिय कालं करिय देवेसु-

सूत्रमें 'ओकङ्कित्ता उदयावलयबाहिरे णिक्खित्ता' जो यह कहा है सो इस वचनके द्वारा यह सूचित किया है कि इन दोनोंका उदय वहां अत्यन्त असम्भव है । यदि ऐसा न माना जाय तो उदयावलि के बाहर ही इनके द्रव्यके निक्षेपका नियम न रहनेसे असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदयावलि के भीतर निक्षिप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा हास्य और रतिके समान इनका भी जघन्य स्वामित्व हो जाता । यतः हास्य और रतिके समान इनका जघन्य स्वामित्व नहीं बतलाया, इससे ज्ञात होता है कि देवोंमें उत्पन्न होनेपर अन्तर्मुहूर्त कालतक अरति और शोकका उदय न होकर नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है ।

§ ५७२. इस प्रकार उदय न होनेसे अपकर्षित करके एक गांपुच्छाके आकाररूपसे उदयावलि के बाहर निक्षिप्त हुए अरति और शोककी एक स्थिति तदनन्तर द्वितीय समयवर्ती देवके उदयावलिमें प्रविष्ट होती है, क्योंकि देवके प्रथम समयसे द्वितीय समयवर्ती हो जानेके कारण उदयावलिमें नीचे एक समय गल गया है । तब अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होता है, क्योंकि यहां पर उदयावलि के भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक अपकर्षणादिकी अपेक्षा भीनस्थितिरूपसे ग्रहण किया गया है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें ऊपर अर्थात् देवपर्यायके तृतीय आदि समयोंमें प्रकृत स्वामित्व सम्भव है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक समयमें एक एक निषेककी वृद्धि होती रहती है, इसलिये जघन्यपना नहीं बन सकता है । आशय यह है कि जैसे प्रकृत अहमिन्द्रके द्वितीय समयमें अरति और शोकका उदयावलि के भीतर एक निषेक था वह स्थिति अगले समयोंमें नहीं रहती है । किन्तु तीसरे समयमें उदयावलिमें दो निषेक हो जाते हैं, चौथे समयमें तीन निषेक हो जाते हैं । इस प्रकार उदयावलिमें उत्तरोत्तर निषेकोंकी वृद्धि होनेसे दूसरे समयके सिवा अन्यत्र प्रकृत जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त होता ।

शंका—प्रकरणवशा कितने ही आचार्य यहाँ पर इस प्रकार कथन करते हैं कि जैसे अन्तर करनेके बाद प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान जाने पर रति और शोककी प्रथम स्थितिको गलानेके बाद मरकर देवोंमें उत्पन्न कराने पर लाभ दिखाई

प्यणयिदे लाहो दीसइ । तं कथं ? एत्थेव कालं काऊण देवेसुप्पणपडमससए अंतरदीह-
पमाणं बहुअं होइ दीहमंतरं च पूरेमाणेण गोपुच्छाओ सण्हीकरिय संकुम्भति, अंतर-
द्विदीसु विहज्जिय तदावूरणहमोकड्ढिददव्वस्स पदणादो । तम्हा एवं णिसिचिया-
वद्विद्विदियसमए देवस्स उदयावलियअंतरपविट्ठेयणिसेयदव्वमोकड्ढणादितिण्हं पि
जहण्णभीणट्ठिदियं होइ । उवसंतकसाओ पुण कालं काऊण जइ तत्थुप्पइज्जइ तो
अंतरदीहपमाणं थोवं होइ, हेट्ठदो चैव बहुअस्स कालस्स गालणादो । थोवे वांतरि
पूरिज्जमाणे अंतरणिसेगा थोवा होऊण चिद्वंति, पुञ्जुतदव्वस्स एत्थेव संकुडिय
पदणादो त्ति । तदसमंजसं, कुदो ? अंतरायामाणुसारेणोकड्ढिददव्वादो तप्पूरणहं
पदेसग्गहणोवएसादो । तं जहा—दीहयरमंतरं पूरेमाणेणंतरअंतरणिसिचमाणदव्वादो
संवेज्जभागहीणदव्वं घेत्तूण थोवरंतरपूरओ तत्थ णिसेयविरयरणं करेइ । कुदो एवं
णव्वदे ? विदियद्विद्विपडमणिसेएण सह एयगोपुच्छणहाणुववतीदो ।

देता है वैसे ही प्रकृतमें करना चाहिये । उक्त प्रकारसे मरकर देवोंमें उत्पन्न करनेसे क्या लाभ है
ऐसी आशंका होने पर शंकाकार कइता है कि जो जीव इसी स्थान पर मरकर देवोंमें उत्पन्न होता
है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अन्तरका प्रमाण बहुत अधिक पाया जाता है । और इस
दीर्घ अन्तरमें द्रव्यका निक्षेप करते हुए गोपुच्छाओंको सूक्ष्म करके उनका निक्षेप किया जाता है,
क्योंकि अन्तरको पूरा करनेके लिये जो अपकर्षित द्रव्य प्राप्त होता है उसका अन्तरकी स्थितियोंमें
विभाग होकर पतन होता है । यतः यहाँ पर अन्तरकाल बड़ा है अतः प्रत्येक निषेकमें कम द्रव्य
प्राप्त हुआ । इसलिये इस प्रकारसे निक्षेप करके जो देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलिके
भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक द्रव्य अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य मीनस्थितिरूप होता
है ? किन्तु उपशान्तकषाय जीव मरकर यदि वहाँ उत्पन्न होता है तो इसके अन्तरकालका प्रमाण
कम प्राप्त होता है, क्योंकि इसके यहाँ उत्पन्न होनेसे पूर्व ही अन्तरका बहुतसा काल व्यतीत हो
चुका है । यतः इस देवको थोड़े ही अन्तरको पूरा करना है इसलिये इसके अन्तरसम्बन्धी निषेक
थोड़े होनेसे स्थूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य पहले बड़े अन्तरके भीतर विभक्त होकर प्राप्त
हुआ था वह सबका सब यहाँ इस थोड़ेसे ही अन्तरमें संकुचित होकर पतनको प्राप्त हुआ है ?

समाधान—यह सब कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा उपदेरा पाया जाता है कि जैसा
अन्तरायाम होता है उसीके अनुसार उसको पूरा करनेके लिये अपकर्षित द्रव्यके कर्मपरमाणु
होते हैं । खुलासा इस प्रकार है—बड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव अन्तरायाममें जितने
द्रव्यका निक्षेप करता है थोड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव उसके संख्यातवें भाग द्रव्यको लेकर
वहाँ निषेकचना करता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—अन्यथा द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकके साथ एक गोपुच्छा नहीं बन
सकती, इससे ज्ञात होता है कि अन्तरायामके अनुसार ही उसको भरनेके लिये अपकर्षित द्रव्य
प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—ऐसा सामान्य नियम है कि देवगतिमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयसे
लेकर अन्तर्मुहूर्त तक अरति और शोकका उदय नहीं होता, इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी

❁ अरइ-सोगाणं जहणणयमुदयादो भीणदिवियं कस्स ?

§ ५७३. सुगमं ।

❁ एइदियकम्मणेण जहणणएण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसायमुवसामिदा । तदो एइदिए गदो । तत्थ पल्लिदोवमस्स असल्लेज्जविभागमच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोडो देसूणं संजममणुपालियूण अपडिबविदेण सम्मत्तेण वेमाणिएसु देवेसु उववण्णो । अंतो-सुहुत्तमुववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । अंतोसुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदिं बंधियूण पडिभग्गो जादो तस्स आवलियपडिभग्गस्स भयदुग्गुंठाणं वेदयमाणस्स

अपेक्षा इन दो प्रकृतिप्रोके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व जो क्षपितकर्मांश विधिसे आकर देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके कहा है । उसमें भी प्रकृत जघन्य स्वामित्वके लिये ऐसा स्थल चुना गया है जहाँ इन दोनों प्रकृतियोका केवल एक एक निषेक ही उदयावलिके भीतर प्राप्त हो । यह तभी हो सकता है जब उपशमश्रेणिमें अन्तरकरण करनेके बाद अन्तरकालमें स्थित इस जीवको देवोमे उत्पन्न कराया जाय । यद्यपि यह अवस्था अन्तरकरणके बादसे लेकर नौवें, दसवें या ग्यारहवें किसी भी गुणस्थानसे मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके हो सकती है पर यहाँ उपशान्तमोह गुणस्थानसे मरकर जो जीव देवोंमें उत्पन्न होता है उसके बतलाई है, क्योंकि तब अरति और शोकका केवल एक निषेक ही उदयावलिसे पाया जाता है । कुछ आचार्य अन्तरकरणके बाद प्रथम स्थितिके समाप्त हो जाने पर जो जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके दूसरे समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व बतलाते हैं पर वैसा कथन करनेमे कोई विशेष लाभ नहीं है, अतः उक्त स्वामित्व ही ठीक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष कथन सुगम होनेसे यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है ।

❁ उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ५७३. यह सूत्र सुगम है ।

❁ कोई एक जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ बहुतवार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके और चार बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समय-प्रवद्धोंके गलनेवाले पण्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहा । फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन कर उससे च्युत हुए विना सम्यक्त्वके साथ वैमानिक देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त कालतक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके उससे निवृत्त हुआ । इस प्रकार निवृत्त हुए इसको जब एक आवलि काल हो जाता है तब भय और जुगुप्साका भी वेदन करता

अरदि-सोगाणं जहणय्यमुवयादो भीणडिदियं ।

§ ५७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा । णवरि अपडिवदिदेण सम्मत्तेण० एवं भणिदे तत्थ पुव्वकोडि संजमगुणसेडिमणुपालिय तद्वसाणे मिच्छत्तमगंतूण सो संजदो अपडिवददेणेव तेण सम्मत्तेण कप्पवासियदेवेमुववण्णो त्ति भणिदं होइ । किमट्ठमेसो णवुंसय-इत्थिवेदसामिओ व्व मिच्छत्तं ण णीदो त्ति ? ण, तत्थ मिच्छत्तं गच्छमाणस्स गुणसेडिणिज्जराळाहस्स अत्तपुण्णत्तपसंगादो गुणसेडि-णिज्जराए संपुण्णत्तविहाणट्ठं दंसणमोहणीयं खविय तत्थुप्पाइज्जमाणत्तादो च ण मिच्छत्तमेसो णेदुं सकिज्जदे । अंतोमुहुत्तउववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गओ त्ति भणिदे व्वहि पज्जतीहि पज्जत्तयदो होऊणुक्कस्ससंकिलेसेण आवूरिदो त्ति वुत्तं होइ । संकिलेसा-वूरणे पयोजणमाह—अंतोमुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदिं बंधियूणे त्ति । उक्कस्ससंकिलेसाणुक्कस्स-ट्ठिदिमरदि-सोगाणं बंधमाणो णिरुद्धट्ठिदिमाबाहापविट्ठत्तादो आयविरहियमुक्कट्ठणाए सण्हीकरिय पुणो उक्कस्ससंकिलेसक्खपण पडिभग्गो जादो त्ति संबंधो कायव्वो । एत्थावलियपडिभग्गस्स सामितविहाणे पुव्वपरूविदं कारणं, तस्सेव विसेसणंतर-माह—भय-दुगुंझाणं वेदयमाणस्से त्ति, अण्णहा पयदणिसेयस्सुवरि भय-दुगुंझमोवुच्छाणं हुआ वह जीव उदयकी अपेत्ता अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी है ।

§ ५७४. इस सूत्रके सब पदोंका कथन सुगम है । किन्तु सूत्रमें जो 'अपडिवदिदेण सम्मत्तेण' इत्यादि कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य पर्यायमें कुछ कम एक पूर्व-कोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिका पालन करके उसके अन्तमें मिथ्यात्वमें न जाकर वह संयत संयमसे च्युत हुए बिना ही सम्यक्त्वके साथ कल्पवासी वेदोंमें उत्पन्न हुआ ।

शंका—जैसे नपुंसकवेद और स्त्रीवेदके स्वामीको मिथ्यात्वमें ले गये हैं वैसे ही इसे मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले गये हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाने पर गुणश्रेणिनिर्जराका पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता है । दूसरे पुरी गुणश्रेणिनिर्जराके प्राप्त करनेके लिये दर्शनमोहनीयकी क्षपणा कराके इसे बर्हा उत्पन्न कराया है, इसलिये इसे मिथ्यात्वमें ले जाना शक्य नहीं है ।

सूत्रमें जो 'अंतोमुहुत्तउववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गओ' यह कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि ब्रह्म पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ । उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त होनेका प्रयोजन बतलानेके लिये सूत्रमें 'अंतोमुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदिं बंधियूण' यह कहा है । इसका प्रकृतमें ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि उत्कृष्ट संकलेशसे अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिको बौधनेवाला यह जीव आभाधाके भीतर प्रविष्ट होनेके कारण आर्यसे रहित विवक्षित स्थितिको उत्कर्षणके द्वारा सूक्ष्म करके फिर उत्कृष्ट संकलेशका क्षय हो जानेसे उससे निवृत्त हुआ । यहाँ निवृत्त होने पर एक आबलिके अन्तमें जो स्वामित्वका विधान किया है सो इसका कारण तो पहले कह आये हैं किन्तु यहाँ पर उसका दूसरा विशेषण बतलानेके लिये सूत्रमें 'भयदुगुंझाणं वेदयमाणस्स' यह कहा है । यदि यहाँ इन दो प्रकृतियोंका वेदक नहीं बतलाया

स्थिवुक्कसंकमेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो ।

✽ एवमोचेथ सव्वमोहणीयपयडीणं जहण्णामोकङ्कुणाविभीणविय-
सामित्तं परूखिदं ।

§ ५७५. एतो एदेण सूचिदासेसपरूवणा चोदसमग्गणापटिबद्धा अजहण्ण-
सामित्तपरूवणाए समयाविरोहेणाणुमग्गियन्वा ।

तदो सामित्ताणियोगहारं समत्तं ।

✽ अप्पावहुत्थं ।

§ ५७६. अहियारसंभालणमुत्तमेदं ।

✽ सव्वत्थोषं मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुवयावो भीण्हिवियं ।

§ ५७७. कुदो ? एदस्स चैव उदयणित्सेयस्स एकल्लग्गीभूदसंजदासंजद-
संजद-गुणसेट्ठिसीयस्स गुणित्कम्मंसियपयडिगोवुच्छस्सह्गदस्स गहणादो ।

✽ उक्कस्सयाणि ओकङ्कुणादो उक्कङ्कुणादो संकमणादो च भीण-

जाता तो प्रकृत निषेकके ऊपर भय और जुगुप्साके गोपुच्छोंका स्तितुक संकमण होते रहनेसे जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त हो सकता था ।

विशेषार्थ—उक्त कथनका सार यह है कि जो क्षपितकर्मांशवाला जीव पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर संयमका पालन करे और अन्तमें देव होकर पर्याप्त हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हो । फिर अन्तर्मुहूर्त तक अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता हुआ विचक्षित निषेकको सूक्ष्म करनेके लिये उत्कर्षण करे । फिर जब वह उत्कृष्ट संक्लेशसे च्युत होकर तबसे एक आबलि कालके अन्तमें स्थित होता है और भय तथा जुगुप्साके उदयसे भी युक्त रहता है तब उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है ।

✽ इस प्रकार ओघसे अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा मोहनीयकी सब प्रकृतियों-
के भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कहा ।

§ ५७५. आगे इससे सूचित होनेवाली चौदह मार्गणासम्बन्धी समस्त प्ररूपणा अजघन्य स्वामित्वसम्बन्धी प्ररूपणाके साथ आगमके अनुसार जान लेनी चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

✽ अब अनपबहुत्वका अधिकार है ।

§ ५७६. अधिकारकी स्मृहाल करनेके लिये यह सूत्र आया है ।

✽ मिध्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५७७. क्योंकि यहाँ मिध्यात्वका ऐसा उदय निषेक लिया गया है जो गुणितकर्मांशकी प्रकृतिगोपुच्छाके साथ संयतासंयत और-संयतके युगपत् प्राप्त हुए गुणभ्रेण्णशीर्षरूप है ।

✽ मिध्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले

द्विविद्याणि त्रिणिषि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ५७८. किं कारणं ? समयूणावल्लियमेत्तदंसणमोहक्खवणगुणसेट्ठिगोवुच्छ-
पमाणत्तादो । एत्थ गुणगारपमाणं तप्पाओग्गपत्तिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तं । कुदो ?
संजमासंजम-संजमगुणसेट्ठीहिंतो दंसणमोहक्खवणगुणसेट्ठीए असंखेज्जगुणत्तदंसणादो ।

⊗ एवं सम्मामिच्छुत्त-पण्णारसकसाय-सुखणोक्कसायाणं ।

§ ५८६. जहा मिच्छत्तस्स चउण्हं पदाणं थोववहुत्तगवेसणा कया एवमेदेसि
पि कम्माणमुक्कस्सप्पाबहुअपरिक्खा कायव्वा, विसेसाभावादो ।

⊗ सम्मत्तस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सयमुदयादो भीष्णद्विवियं ।

§ ५८०. चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयसव्वपच्छिमगुणसेट्ठिसीसयस्स
गहणादो ।

⊗ सेसाणि त्रिणिषि वि भीष्णद्विवियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि
विसेसाहियाणि ।

§ ५८१. कुदो तत्तो पदेसि विसेसाहियत्तं ? ण, समयूणावल्लियमेत्तदुचरिमादि-
गुणसेट्ठिदव्वस्स तदसंखेज्जदिभागस्स तत्थ पवेसुवल्लंभादो ।

उत्कृष्ट द्रव्य ये तीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५७८. इसका क्या कारण है ? क्योंकि वह एक समय कम एक आबलिप्रमाण दर्शनमोह-
की क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणियोंपुच्छाप्रमाण है । यहाँ गुणकारका प्रमाण तत्प्रायोग्य पत्यका
असंख्यातवर्ग भाग लेना चाहिये, क्योंकि संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोंसे दर्शनमोहकी
क्षणासम्बन्धी गुणश्रेणि असंख्यातगुणी देखी जाती है ।

* इसी प्रकार सम्यग्भिध्यात्व, पन्द्रह कषाय और छह नोकषायोंकी अपेक्षा
अल्पबहुत्व है ।

§ ५७९. जैसे मिध्यात्वके चार पदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया वैसे ही उक्त कर्मोंके
भी उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका विचार करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

* सम्यक्त्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५८०. क्योंकि जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षण नहीं की है उसके अन्तिम समयमें
जो सबसे अन्तिम गुणश्रेणियोंका द्रव्य विद्यमान रहता है उसका यहाँ ग्रहण किया गया है ।

* सम्यक्त्वके शेष तीनों ही भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्य परस्पर तुल्य होते
हुए भी उससे विशेष अधिक हैं ।

§ ५८१. शंका—उससे ये विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्विचरम समयसे लेकर एक समय कम एक आबलिप्रमाण
द्रव्यका यहाँ प्रवेश पाया जाता है जो कि पूर्वोक्त द्रव्यके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण है, इसलिये
इसे विशेष अधिक कहा है ।

❊ एवं लोभसंजलण-तिणिवेदाणं ।

§ ५८२. जहा सम्पत्तस्स अप्पाबहुअं परुविदमेवं लोभकसाय-संजलण-तिवेदाणमणूणादियं परुवेयब्बं, वित्सेसाभावादो । एवमुक्कस्सप्पाबहुअमोघेण समत्तं । एत्थादेसपरुवणा च जाणिय कायच्चा । तदो उक्कस्सयं समत्तं ।

❊ एत्तो जहण्णयं भ्मीणट्टिवियं ।

§ ५८३. एत्तो उवरि जहण्णभ्मीणट्टिवियस्स अप्पाबहुअं भग्निस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❊ मिच्छुत्तस्स सव्वत्थोबं जहण्णयमुवयादो भ्मीणट्टिवियं ।

§ ५८४. कुदो ? सासणपच्छायदपढमसमयमिच्छादिट्ठिणो ओदारियावलिय-मेत्तसणहयाणं गोवुच्छाणं चरिमणिसेयस्स पयदजहण्णसामित्तविसईकयस्स गहणादो ।

❊ सेसाणि तिणिवि बि भ्मीणट्टिवियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ५८५. कुदो ? संपुण्णावलियमेत्ताणमुदीरणागोवुच्छाणमिह गहणादो । को गुणगारो ? आवलिया सादरेया । सेसं सुगमं । एदंणेव गयत्थाणमप्पणं करेइ—

* इसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है ।

§ ५८२. जिस प्रकार सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंका न्यूनाधिकताके बिना अल्पबहुत्व कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार आंधसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समान हुआ। यहाँ आदेशा प्ररूपणाको जानकर उसका कथन करना चाहिये। तब जाकर उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समान होता है।

* इससे आगे जघन्य भ्मीनस्थितिके द्रव्यका अल्पबहुत्व बतलाते हैं ।

§ ५८३. अब इस उत्कृष्ट अल्पबहुत्वके बाद भ्मीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका अल्पबहुत्व कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है ।

* मिध्यात्वका उदयकी अपेक्षा भ्मीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५८४. क्योंकि सासादन गुणस्थानसे पीछे लौटकर प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके जो उदयावलि संज्ञावाला। गोपुच्छाएँ हैं उनमेंसे यहाँ पर प्रकृत जघन्य स्वामित्यका विषयभूत अन्तिम निषेक लिया गया है ।

* मिध्यात्वके शेष तीनों ही भ्मीनस्थितिवाले द्रव्य परस्परमें तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८५. क्योंकि यहाँ पर सम्पूर्ण आवलिप्रमाण उदीरणा गोपुच्छाओंका महण किया गया है ।

श्रुंका—गुणकारका क्या प्रमाण है ?

समाधान—साधिक एक आवलि गुणकारका प्रमाण है ।

शेष कथन सुगम है। अब इसीसे जिन प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व ज्ञात हो जाता है उसका प्रमुखतासे निर्देश करते हैं—

❁ जहा मिच्छत्तस्स जहणयमप्पाबहुअं तथा जेसिं कम्मसाण-
मुदीरणोदयो अत्थि तेसिं पि जहणयमप्पाबहुअं ।

§ ५८६. जहा मिच्छत्तस्स चत्तारि पदाणि अस्सियुण जहणप्पाबहुअं
परुविदं तथा सेसाणं पि उदीरणोदइल्लाणं कम्माणं णेदव्वमिदि सुत्तयसंगहो ।

❁ अणंताणुबंधि-इत्थि-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा ति एदे अट्ट कम्मसे
मोत्तूण सेसाणमुदीरणोदयो ।

§ ५८७. एत्थ उदीरणाए चेव उदयो उदीरणोदओ ति सावहारणो सुत्तावयवो,
अण्णहा अणंताणुबंधिआदीणं परिवज्जणाणुववत्तीदो । जेसिं कम्मसाणमुदयावलयवन्तरे
अंतरकरणेण अचंचंतमसंताणं कम्मपरमाणुणं परिणामविसेसेणासंखेज्जलोगपट्टिभागे-
णोदीरिदाणमणुहवो तेसिमुदीरणोदओ ति एसो एत्थ भावत्थो । ण चार्णंताणुबंधि-
आदीणमेवंविहो उदीरणोदयो संभवइ, तत्थ तदणुवल्लंभादो । तदो सुत्तुत्तपयहीओ अट्ट
मोत्तूण सम्मत-सम्पामिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंल्लाणमुदीरणाए
चेव मुद्धाए पत्तजहणसामित्ताणं मिच्छत्तस्सेव अप्पाबहुअण्णणाहियं वत्तव्वमिदि सिदं ।

❁ जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं पि सो चेव आलावो अप्पाबहुअस्स
जहणयस्स ।

* जैसे मिध्यात्वका जघन्य अल्पबहुत्व है वैसे ही जिन कर्मोंका उदीरणोदय
होता है उनका भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये ।

§ ५८६. जैसे मिध्यात्वका चार पदोंकी अपेक्षा जघन्य अल्पबहुत्व कहा है वैसे
उदीरणोदयवाले शेष कर्मोंका भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये यह इस सूत्रका
समुदायार्थ है ।

* अनन्तानुबन्धी, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक इन आठ कर्मोंको
झोड़कर शेष कर्म उदीरणोदयरूप हैं ।

§ ५८७. यहाँ पर उदीरणा ही उदयरूपसे विवक्षित है इसलिये उदीरणोदय यह सूत्रवचन
अवधारण सहित है । अन्यथा अनन्तानुबन्धी आदिका निषेध नहीं किया जा सकता है । अन्तर
कर देनेके कारण उदयावलिके भीतर जिन कर्मोंके कर्मपरमाणु बिलकुल नहीं पाये जाते हैं,
परिणामिवशेषके कारण असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदीरणाको प्राप्त हुए उनका
अनुभव करना उदीरणोदय है यह इसका अभिप्राय है । अनन्तानुबन्धी आदिका इस प्रकार
उदीरणोदय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका उदीरणोदय नहीं पाया जाता है । इसलिये
सूत्रोक्त आठ प्रकृतियोंके सिवा जो सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य,
रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियों हैं इनकी शुद्ध उदीरणा होने पर ही जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता
है इसलिये इनका अल्पबहुत्व न्यूनाधिकताके बिना मिध्यात्वके समान कहना चाहिये यह बात
सिद्ध हुई ।

* तथा जिनका उदीरणोदय नहीं होता उनका भी जघन्य अल्पबहुत्वविषयक
आलाप उसी प्रकार है ।

§ ५८८. पुव्वुत्तासेसपयडीणमुदीरणोदइण्लाणं जो जहणणप्पाबहुआलावो सो चेव उदीरणोदयविरहिदपयडीणं पि कायव्वो, विसेसाभावादो । होउ णामाणंताणु-बंधीणमेसो अप्पावहुआलावो, सामित्ताणुसारित्तादो । ण बुण इत्थि-णवुंसयवेदानं, तत्थ सामित्ताणुसरणे तिण्हं पि जहणणभीणट्टिदियादो उदयादो जहणणभीणट्टिदियस्स असंखेज्जगुणत्तदंसणादो । ण एस दोसो, तहाणब्भुवगमादो । तहा चेव उवरि पक्खंतरस्स परूविस्समाणादो । किंतु त्थिउक्कसंकममविवक्खिय समूहेणेव उदयादो वि जहणणभीणट्टिदियस्स वेद्धावट्टिसागरोवमाणि भमाडिय सामित्तं दायव्वमिदि एदेणा-हिप्पाएण पयट्टमेदं । एदम्मि णए अवलंबिज्जमाणे उदयादो जहणणभीणट्टिदियं पेक्खियूण सेसाणं समयूणावलियगुणयारदंसणादो ।

§ ५८८. उदीरणोदयवाली पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंका जो जघन्य अल्पबहुत्व कहा है, उदीरणोदयसे रहित प्रकृतियोंका भी उसी प्रकार अल्पबहुत्व समझना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

शंका—अपने स्वामित्वके अनुसार होनेसे अनन्तानुबन्धियोंका यह अल्पबहुत्वालाप रहा आवे, परन्तु स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका यह अल्पबहुत्व नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ पर स्वामित्वका अनुसरण करने पर जो अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा मीनस्थितिक जघन्य द्रव्य है उससे उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिक जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्यों वैसा स्वीकार नहीं किया है । पक्षान्तर रूपसे आगे इसी बातका कथन भी करेंगे । किन्तु स्तितुक्क संक्रमणकी विवक्षा न करके समूहरूपसे ही उदयकी अपेक्षा भी जघन्य मीनस्थितिवाले द्रव्यका स्वामित्व दो छ्वासठ सागर काल तक भ्रमण कराके देना चाहिये इस प्रकार इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । इस नयका अवलम्बन करने पर उदयकी अपेक्षा जघन्य मीनस्थितिवाले द्रव्यको देखते हुए शेष मीनस्थिति-वाले द्रव्योंका गुणकार एक समय कम एक आवलिप्रमाण देखा जाता है ।

विशेषार्थ—जो उपशमसम्यग्दृष्टि छह आवलि कालके शेष रहने पर सासादनमें जाता है और फिर वहाँसे मिथ्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और एक आवलि कालके अन्तमें उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य होता है । यतः अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा जो मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके निषेक प्रमाण होता है और उदयकी अपेक्षा जो मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके अनितम निषेक प्रमाण होता है, इसलिये यहाँ उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा प्राप्त हुआ मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा बतलाया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, दास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंका चारोंकी अपेक्षा मीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य भी इसी प्रकार उदीरणोदयके होने पर ही प्राप्त होता है, इसलिये इनका अल्पबहुत्व भी पूर्वोक्त प्रकारसे प्राप्त हो जाता है । अब यहाँ शेष आठ प्रकृतियोंको इनमेंसे चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियों तो ऐसी हैं जिनका उक्त चारोंकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व अपने उदयकालमें ही प्राप्त होता है, इसलिये उनका भी अल्पबहुत्व उक्त प्रकारसे बन जाता है । शेष चारमें भी अरति और शोक ऐसी

§ ५८६. संपहि एदेण सुत्तेणारइ-सोयाणं पि उदीरणोदएण विणा पत्तजहण्ण-
सामित्ताणमप्पणाए अइप्पसत्ताए तत्थ विसेसपहुंपायणइमुत्तरमुत्तमाह—

✽ णवरि अरइ-सोगाणं जहण्णयमुदयावो भीणट्टिवियं थोवं ।

§ ५९०. कुदो ? एयणिसेयपमाणत्तादो ।

✽ सेसाणि निगिण वि भीणट्टिवियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि ।

§ ५९१. जइ वि तिण्हमेदासिं पि भीणट्टिवियस्स खवियकम्मंसियपच्छायदोव-
संतकसायचरदेवविदियसमए उदयावत्तियपविट्ठेयणिसेयं चेव प्पेत्तूण जहण्णसामित्तं
जादं तो वि अंतोमुत्तमुवरि गंतूण जादजहण्णभावादो पुब्बिल्लेयणिसेयदन्वादो
विसेसाहियत्तं ण विरूड्ढदे, ओइण्णद्धानमेत्तओबुच्छविसेसाणमहियत्तदंसणादो ।
एवमहिप्पायंतरमवलंबिय अप्पाबहुअमेदेसिं परुविय संपहि सामित्ताशुसारेण
थिवुकसंकमं पहाणीकाऊणप्पाबहुअपरूवणइमिदमाह—

प्रकृतियों हैं जिनके विषयमें उक्त नियम लागू नहीं होता यह बात अगले सूत्र द्वारा स्वयं चूर्ण-
सूत्रकार स्पष्ट करनेवाले हैं । किन्तु ऋग्वेद और नपुंसकवेद ये दो प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनमें उक्त
प्रकारसे अल्पबहुत्व घटित नहीं होता है ।

§ ५८८. अब इस सूत्र द्वारा उदीरणोदयके बिना अरति और शोक इन प्रकृतियोंमें भी
जघन्य स्वामित्वका अतिप्रसंग प्राप्त हुआ, इसलिये इस विषयमें विशेष कथन करनेके लिये
आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ किन्तु इतनी विशेषता है कि अरति और शोकका उदीयकी अपेक्षा भीन-
स्थितिवाला जघन्य द्रव्य थोड़ा है ।

§ ५९०. क्योंकि इसका प्रमाण एक निषेक है ।

✽ शेष तीनों भीनस्थितिवाले द्रव्य तुल्य होते हुए भी उससे विशेष
अधिक हैं ।

§ ५९१. यद्यपि क्षपितकर्माशकी विधिसे आकर जो उपशान्तकषायचर देव हुआ है
उसके दूसरे समयमें उदयाबलिके भीतर प्रविष्ट हुए एक निषेककी अपेक्षा अपकर्षणादि तीनोंसे
ही भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है तथापि अन्तर्मुहूर्त ऊपर जाकर उदयकी
अपेक्षा जघन्यभावको प्राप्त हुए पूर्वोक्त एक निषेकके द्रव्यसे इसे विशेष अधिक माननेमें कोई
विरोध नहीं आता है, क्योंकि जितने स्थान नीचे उतरकर अपकर्षणादिकी अपेक्षा जघन्य
स्वामित्व प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविशेषोंकी अधिकता देखी जाती है ।

विशेषार्थ—उक्त कथनका यह आशय है कि अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य
स्वामित्व उपशान्तकषायचर देवके दूसरे समयमें प्राप्त हो जाता है और उदयकी अपेक्षा जघन्य
स्वामित्व अन्तर्मुहूर्त बाद प्राप्त होता है । अब यहाँ जितना काल आगे जाकर उदयकी अपेक्षा
जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है उतने गोपुच्छविशेषोंकी अर्थात् चर्योंकी हानि हो जाती है, अतः
अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जो जघन्य द्रव्य होता है वह उदयकी अपेक्षा
भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे साधिक होता है यह सिद्ध हुआ ।

✽ अहवा इत्थिवेद-एतुंसयवेदाणं जहणयाणि ओकडुणादीणि तिणिए वि भीणट्टिवियाणि तुल्लाणि थोबाणि ।

§ ५६२. जहाकमेण वेद्धानट्टिसागरोवम-तिपल्लिदोवमग्ग्महियवेद्धानट्टिसागरो-वमाणि भमाडिय सामित्तविहाणादो ।

✽ उदयादो जहणयं भीणट्टिवियमसंखेज्जगुणं ।

§ ५६३. पुव्वुत्तकालमगालिय सामित्तविहाणादो । तं पि कुदो ? त्थिवुक्कसंकम-बहुत्तभयादो ।

✽ अरह-सोगाणं जहणयाणि तिणिए वि भीणट्टिवियाणि तुल्लाणि थोबाणि ।

§ ५६४. उवसंतकसायचरविदियसमयदेवस्स उदयावलयपविट्ठएयणिसेयस्स सव्वपयत्तेण जहण्णीकयस्स गहणादो ।

✽ जहणयमुदयादो भीणट्टिवियं विसेसाहियं ।

इस प्रकार इन सब प्रकृतियोंका अभिप्रायान्तरकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करके अब स्वामित्वके अनुसार स्तित्बुकसंक्रमणको प्रधान करके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ अथवा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीन-स्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं ।

§ ५६२. क्योंकि क्रमसे स्त्रीवेदकी अपेक्षा दो छथासठ सागर काल तक और नपुंसक-वेदकी अपेक्षा तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण कराके इन दोनों वेदोंके स्वामित्वका विधान किया गया है ।

✽ उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे असंख्यातगुणा है ।

§ ५६३. क्योंकि पूर्वोक्त कालको न गलाकर स्वामित्वका विधान किया गया है ।

शंका—ऐसा क्यों किया गया ।

समाधान—स्तित्बुकसंक्रमणके बहुत द्रव्यके प्राप्त होनेके भयसे ऐसा किया गया है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य क्रमसे दो छथासठ सागर पूर्व और तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर पूर्व प्राप्त होता है और अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उक्त काल बाद प्राप्त होता है, इसलिये अपकर्षण आदिकी अपेक्षा प्राप्त हुए भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे उदयकी अपेक्षा प्राप्त हुआ भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा बतलाया है ।

✽ अरति और शोकके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं ।

§ ५६४. क्योंकि जो उपशान्तकषायचर देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलिमें प्रविष्ट हुए और सब प्रयत्नसे जघन्य किये गये एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया है ।

✽ उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे विशेष अधिक है ।

§ ५६५. कुदो ? हस्स-रइथिउकसंकमेण सह पत्तोदयएयणिसेयग्गहणादो । केसियमेत्तो विसेसो ? अंतोमुहुत्तमेतगोबुच्छविसेसेहिं ऊणहस्स-रइथिउकसंकममेत्तो ।

§ ५६६. संपहि एत्थुइसे सव्वेसिमत्थाहियाराणं साहारणभूदमप्पाबहुअदंइयं मज्झदीवियभावेण परूवइस्सामो । तं जहा—सव्वत्थोवो सव्वसंकमभागहारो । किं कारणं ? एगरूवपमाणत्तादो । गुणसंकमभागहारो असंखेज्जगुणो । किं कारणं ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । ओकइकइणभागहारो असंखेज्जगुणो । एसो वि पलिदो० असंखेज्जदिभागो चेव, किंतु पुत्विच्चदो एसो असंखेज्जगुणो ति गुरुवएसो । अघापवत्तभागहारो असंखेज्जगुणो । एदस्स कारणं म्मुत्तणिवद्धमेव । तं कथं ? ट्ठिदिअंतिए मिच्छत्तस्स उकस्सअधाणिसेयट्ठिदिपत्तयसंबंधेण ओकइकइणए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अघापवत्तसंकमेण कम्मस्स अवहारो असंखेज्जगुणो ति भणिट्ठिदि । तदो सिद्धपेदस्सासंखेज्जगुणत्तं । जोगगुणगारो असंखेज्जगुणो । एदस्स कारणं युच्चदे । तं जहा—वेदगे ति अणियोगदारे कोहसंजलणपदेसग्गस्स जहण्णबंध-संकम-उदय-उदीरण-संतकम्माणि अस्सियूणप्पाबहुअं भणिट्ठिदि । तं कथं ? कोहसंजलण-

§ ५६५. क्योंकि हास्य और रतिका स्तिबुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसके साथ अरति और शांके उदयको प्राप्त हुए एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया है ।

शंका—कितना विशेष अधिक है ?

समाधान—हास्य और रतिका स्तिबुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसमेंसे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण गोपुच्छविशेषोंके कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना विशेष अधिक है ।

§ ५६६. अब इस स्थान पर जो सभी अर्थाधिकारोंमें साधारण है ऐसे अल्पबहुत्वदण्डकको मध्यदीपकभावसे दिखलाते हैं । यथा—सर्वसंक्रमणभागहार सबसे थोड़ा है, क्योंकि उसका प्रमाण एक है । इससे गुणसंक्रमणभागहार असंख्यातगुणा है, क्योंकि यह पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इससे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार असंख्यातगुणा है । यद्यपि यह भी पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ता भी पूर्वोक्त भागहारसे यह असंख्यातगुणा है ऐसा गुरुका उपदेश है । इससे अधःप्रवृत्तसंक्रमणभागहार असंख्यातगुणा है । इसके असंख्यातगुणे होनेके कारणका निर्देश सूत्रमे ही किया है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—आगे स्थित्यन्तिक अधिकारमें मिध्यात्वके उत्कृष्ट अधःनिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके सन्बन्धसे अपकर्षण-उत्कर्षणसे प्राप्त हुए कर्मका अवहारकाल थोड़ा और अधःप्रवृत्त संक्रमसे प्राप्त हुए कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है ऐसा कहेंगे, इसलिये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है । अधःप्रवृत्तसंक्रमणभागहारके प्रमाणसे योगगुणकार असंख्यातगुणा है । अब इसका कारण कहते हैं । यथा—वेदक नामके अनुयोगद्वारमें क्रीध संज्वलनकर्मका जघन्य बन्ध, जघन्य संक्रम, जघन्य उदय, जघन्य उदीरण और जघन्य सत्कर्म इनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहेंगे । यथा—‘क्रीधसंज्वलनक्री जघन्य प्रदेशो-

जहणपदेसुदीरणा थोवा, उदयो असंखेज्जगुणो, बंधो असंखेज्जगुणो, संकमो असंखेज्जगुणो, संतकम्मं असंखेज्जगुणमिदि । एत्थ जहणबंधो ति उत्ते एगेइंदियसमयपबद्धमेत्तं गहिदं । जहणसंकमो ति उत्ते एगेमेइंदियसमयपबद्धं द्विविय पुणो घोलमाणजहणजोगेण बद्धपंचिंदियसमयपबद्धमिच्छामो ति जोगगुणगारमेदस्स गुणगारत्तेण ठविय पुणो वि एदस्स हेद्वा अथापवत्तभागहारं ठविय ओवट्टिदे जहणसंकमद्वन्वमागच्छइ । जइ एत्थ जोगगुणगारो थोवो होज्ज तो जहणसंकमद्वन्वस्सुवरि जहणबंधो असंखेज्जगुणो जाएज्ज । 'ण च एवं, बंधस्सुवरि संकमो असंखेज्जगुणो ति पड्ढितादो । तम्हा जोगगुणगारो अथापवत्तभागहारादो असंखेज्जगुणो ति सिद्धं ? कम्मट्टिदिणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ । कुदो ? किंचूणपल्लिदो-वमद्धेदणयपमाणत्तादो । एदस्स कारणस्स गिरुत्तीकरणमिदं । तं जहा—दिवडुगुणहाणिं ठविय जोगगुणगारेण गुणिदं पल्लिदो० असंखे०भागमेत्तो चैव रासी उप्पज्जइ । पुणो एत्थ जोगगुणगारमवणिय तं चैव गुणिज्जमाणं दिवडुगुणहाणियमाणं ठविय जइ णाणागुणहाणिसलागाहि गुणिज्जइ तो दिवडुकम्मट्टिदिमेत्तो रासी उप्पज्जइ ति । एदेण जाणिज्जदे जहा जोगगुणगारादो कम्मट्टिदिणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ ति । पल्लिदोवमस्स छेदणया विसेसा । केत्तयमेत्तो विसेसो ? पल्लिदोवमचंगसलागछेदणयमेत्तो । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ? परमगुरूचएसादो ।

दीरणा थोड़ी है । उससे उदय असंख्यातगुणा है । उससे बन्ध असंख्यातगुणा है । उससे संकम असंख्यातगुणा है और उससे सत्कर्म असंख्यातगुणा है । यहाँ जघन्य बन्ध ऐसा कहनेपर उससे एकेन्द्रियके समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्यका ग्रहण किया है । जघन्य संकम ऐसा कहनेपर इस प्रकारसे प्राप्त हुए संकम द्रव्यका ग्रहण किया है । यथा—एकेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करो । फिर घोलमान जघन्य योगके द्वारा बाँधे गये पञ्चेन्द्रिय समयप्रबद्धको लाना चाहते हैं, इसलिये इसके गुणकाररूपसे योग गुणकारको स्थापित करो । फिर इसके नीचे अधःप्रवृत्तभागहारको स्थापित करके भाग देनेपर जघन्य संकमद्रव्य आता है । यदि यहाँ योगगुणकार अधःप्रवृत्तभागहारसे अल्प होता तो जघन्य संकमद्रव्यसे जघन्य बन्ध असंख्यातगुणा हो जाता । पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सूत्रमें बन्धसे संकम असंख्यातगुणा बतलाया है, इसलिये अधःप्रवृत्तभागहारसे योगगुणकार असंख्यागुणा है यह सिद्ध हुआ । योगगुणकारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ असंख्यातगुणी हैं, क्योंकि वे कुछ कम पत्त्यके अर्धच्छेदप्रमाण हैं । इस कारणका खुलासा इस प्रकार है—डेढ़ गुणहानिको रखकर योगगुणकारसे गुणित करनेपर पत्त्यके असंख्यातर्धे भागप्रमाण ही लब्ध राशि आती है । फिर यहाँ योगगुणकारको अलग करके और गुण्यमान उसी डेढ़ गुणहानिप्रमाण राशिको स्थापित करके यदि नानागुणहानिशलाकाओंसे गुणा किया जाता है तो डेढ़गुणी कर्मस्थितिप्रमाण राशि उत्पन्न होती है । इससे ज्ञात होता है कि योगगुणकारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ असंख्यागुणी हैं । कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाओंसे पत्त्यके अर्धच्छेद विशेष अधिक है ।

श्रंका—कितने अधिक हैं ? -

समाधान—पत्त्यकी बगैरशलाकाओंके जितने अर्धच्छेद हों उतने अधिक हैं ।

पलिदोवमपढमवग्गमूलं असंखेज्जगुणं । सुगममेत्थ कारणं । एगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतर-
मसंखेज्जगुणं । कारणं णाणागुणहाणिसलागाहि कम्मट्ठिदीए ओवट्ठिदीए असंखेज्जाणि
पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि आगच्छंति ति । दिवद्दुगुणहाणिट्ठाणंतरं विसेसाहियं ।
के० विसेसो ? दुभागमेत्तेण । णिसेयभागहारो विसेसो । के०मेत्तेण ? तिभागमेत्तेण ।
अण्णोण्णम्भत्थरासी असंखे०गुणो । एत्थ कारणं सुगमं । पलिदोवमसंखेज्जगुणं ।
सुगमं । विज्झादसंकमभागहारो असंखेज्जगुणो । किं कारणं ? अंगुलस्स असंखे०-
भागपमाणत्तादो । उव्वेळ्ळणभागहारो असंखेज्जगुणो । दोषहमेदेसिमंगुलस्सासंखे०-
भागपमाणत्ताविसेसे वि पदेससंकमप्पाबहुअसुत्तादो एदस्सासंखेज्जगुणमवग्गमदे ।
अणुभागवग्गणाणं णाणापदेसगुणहाणिसलागाओ अणंतगुणाओ । किं कारणं ?
अभवसिद्धि एहिंतो अणंतगुणं सिद्धाणमणंतभागपमाणत्तादो । एगपदेसगुणहाणि-

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुओंके उपदेशसे जाना जाता है ।

पल्यके अर्थच्छेदोसे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा है । इसका कारण सुगम है ।
इससे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है, क्योंकि कर्मस्थितिमें नानागुणाहानि-
शलाकाओंका भाग देनेपर पल्यके असंख्यात प्रथमवर्गमूल प्राप्त होते हैं । एकप्रदेशगुणहानि-
स्थानान्तरसे डेढ़गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है ।

शंका—कितना अधिक है ?

समाधान—दूसरा भाग अधिक है ।

डेढ़गुणहानिस्थानान्तरसे निषेकभागद्वार विशेष अधिक है ।

शंका—कितना अधिक है ?

समाधान—तीसरा भाग अधिक है ।

निषेकभागहारसे अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है । इसका कारण सुगम है ।
इससे पल्य असंख्यातगुणा है । इसका भी कारण सुगम है । इससे विष्यातसंकमभागहार
असंख्यातगुणा है ।

शंका—इसके असंख्यातगुणे होनेका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि विष्यातसंकमभागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है,
इसलिये इसे पल्यसे असंख्यातगुणा बतलाया है ।

विष्यातसंकमभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा है । यद्यपि ये दोनों ही भागहार
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तो भी प्रदेशसंकमअल्पबहुत्वविषयक सूत्रसे ज्ञात होता
है कि विष्यातसंकमभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा है । उद्वेलनभागहारसे अनुभाग
वर्गणाओंकी नानाप्रदेशगुणहानिशलाकाएँ अनन्तगुणी हैं, क्योंकि ये अभवोसे अनन्तगुणी
और सिद्धोके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इससे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है ।

द्वाणंतरमणंतगुणं । दिवद्गुणहाणिद्वाणंतरं विसेसाहियं । णिसेयभागहारो विसेसो ।
अण्णोण्णब्भत्थरासी अणंतगुणो ति ।

एवमप्पाबहुए समत्ते भ्नीणमभ्नीणं ति पदं समत्तं होदि ।

द्विदियं ति चूलिया

भहं सम्महंसणणाणचरित्ताणममलसाराणं ।

जिणवरवयणमहोवह्निगब्भसमब्भूयरयणाणं ॥

सुहुमयतिहुवणसिहरद्विदियंतियसिद्धवदियं वीरं ।

इणमो पणमिय सिरसा वोच्चं द्विदियं ति अहियारं ॥१॥

⊗ द्विदियं ति जं पदं तस्स विहासा ।

§ ५६७. एतो उवरि द्विदियं ति जं पदं मूलगाहाए चरिमावयवभूदं वा सहेण सूचिदासेसविसेसपरूवणं तस्स विहासा अडिकीरदि ति सुतत्थसंबंधो । तत्थ किं द्विदियं णाम ? द्विदीओ गच्छइ ति द्विदियं पदेसमगं द्विदिपत्तयमिदि उतं होदि ।

इससे द्व्यर्धगुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है । इससे निपेकभागहार विशेष अधिक है । इससे अन्योन्याभ्यस्तराशि अनन्तगुणी है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हो जानेपर गाथामे आये हुए

‘भ्नीणमभ्नीणं’ इस पदकी व्याख्या समाप्त होती है ।

स्थितिग चूलिका

जैसे महोदधिके गर्भसे उत्तमोत्तम रत्न निकलते हैं उसी प्रकार जो जिनेन्द्रदेवके वचनरूपी महोदधिसे निकले हैं और जो संसारके सब निर्मूल पदार्थोमे सारभूत हैं ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप तीनों रत्नोकी सदा जय हो ॥ १ ॥

सुखमय और तीन लोकके अम्र भागमे स्थित सिद्धरूपसे बन्दनीय ऐसे इन वीर जिनको मस्तकसे प्रणाम करके स्थितिग नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ २ ॥

* गाथामें जो ‘द्विदियं’ पद है उसका विशेष व्याख्यान करते हैं ।

§ ५७. इसके आगे अर्थान् मूल गाथामें आये हुए ‘भ्नीणमभ्नीणं’ पदकी व्याख्याके बाद मूल गाथाके अन्तिम चरणमें जो ‘द्विदियं’ पद है और जिसके अन्तमे आये हुए ‘वा’ पदसे सांगोपांग सब प्ररूपणाका सूचन होता है, अब उसके विशेष व्याख्यानका अधिकार है यह इस सूत्रका तात्पर्यार्थ है ।

शंका—‘द्विदियं’ इस पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—‘द्विदियं’ का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ स्थितिग अर्थान् स्थितिको प्राप्त हुए कर्मपरमाणु होता है ।

तदो उक्त्सट्टिदिपत्तयादीणं सरूवविसेसजाणावणद्धं पदेसविहत्तीय चूलियासरूवेण एसो अहियारो समोइण्णो त्ति घेत्तवो । संपहि एत्थ संबंत्ताणमणियोगदाराणं परूवणद्धमुत्तरमुत्तं भणइ—

❁ तत्थ तिदिणे अणियोगदाराणि । तं जहा—समुक्तिणा सामित्त-
मप्पाबहुत्तं च ।

§ ५६८. तत्थ टिदियं ति एदस्स बीजपदस्स अत्थविहासाए कीरमाणाए तिणिण अणियोगदाराणि णादब्बाणि भवंति । काणि ताणि त्ति सिस्साभिप्पायं तं जहा त्ति आसंकिंय तेसिं णामणिहेसो कीरदे समुक्तिणा इच्चाइणा । तत्थ समुक्तिणा णाम उक्त्सट्टिदिपत्तयादीणमत्थित्तमेत्तपरूवणा । तत्थ समुक्तिदाणं संबंघविसेस-
परिक्खा सामित्तं णाम । तेसिं चेव थोवबहुत्तपरिक्खा अप्पाबहुत्तमिदि भण्णदे । एवमेत्थ तिणिण अणियोगदाराणि होंति त्ति परूविय संपहि तेहि पयदस्साणुगमं कुणमाणो जहा उदेसो तहा णिहेसो त्ति णायादो समुक्त्तणाणुगममेव ताव विहासिदु-
कामो इदमाह—

❁ समुक्तिणाए अत्थ उक्त्सट्टिदिपत्तयं णिसेयट्टिदिपत्तयं अघा-
णिसेयट्टिदिपत्तयं उदयट्टिदिपत्तयं च ।

§ ५६९. सर्व्वेसिं कम्मणामेदाणि चत्तारि वि ट्टिदिपत्तयाणि अत्थि त्ति

इसलिये उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके विशेष स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये प्रदेशविभक्तिके चूलिकारूपसे यह अधिकार आया है यह तात्पर्य यहाँ लेना चाहिये । अब यहाँ पर जो अधिकार सम्भव हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ इस प्रकरणमें तीन अनुयोगद्वार हैं । यथा—समुत्कीर्तना, स्वप्नित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ५६८. यहाँ पर अर्थात् 'टिदियं' इस बीजपदके अर्थका विवरण करते समय तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे तीन अनुयोगद्वार कौन कौन हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायको 'तं जहा' पदद्वारा प्रकट करके समुत्कीर्तना इत्यादि पदोंद्वारा उनका नामनिर्देश किया है । इनमेंसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना समुत्कीर्तना है । समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें जिनका निर्देश किया है उनके सम्बन्धविशेषकी परीक्षा करना स्वामित्व है और उन्हींके अल्पबहुत्वकी परीक्षा करना अल्पबहुत्व कहलाता है । इस प्रकार इस प्रकरणमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं इसका कथन करके अब उनके द्वारा प्रकृत विषयका अनुशीलन करते हुए 'उद्देश्यके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायके अनुसार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारका ही विवरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, अधःनिषेक-
स्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं ।

§ ५९९. सब कर्मोंके ये चार स्थितिप्राप्त होते हैं यह इसका तात्पर्य है । इस प्रकार इस

समुक्चित्तं होइ । एवमेदेसिमुक्कस्सादिद्विद्विपत्तयाणमत्थित्तमेत्तमेदेण मुत्तेण समुक्चित्तिय
संपहि तेसिं चैव सरूवविसए णिण्णयजणणद्वमद्वपदं परूवेमाणो उक्कस्सद्विद्विपत्तयमेव
ताव पुच्छामुत्तेण पत्तावसरं करेइ—

❊ उक्कस्सयद्विद्विपत्तयं णाम किं ।

§ ६००. उक्कस्सद्विद्विपत्तयसरूवविसेसावहारणपरमेदं पुच्छामुत्तं । संपहि
एदिस्से पुच्छाप उत्तरमाह—

❊ जं कम्मं बंधसमयादो कम्मद्विदीए उदए दीसइ तमुक्कस्स-
द्विद्विपत्तयं ।

§ ६०१. एतदुक्तं भवति—जं कम्मपदेसगं बंधसमयादो प्पहुडि कम्मद्विद्विमेत्त-
कालमच्छियूण सगकम्मद्विद्विचरिमसमए उदए दीसइ तमुक्कस्सद्विद्विपत्तयमिदि भण्णदे,
अग्गद्विदीए वट्टमाणत्तादो ति । णाणासमयपबद्धे अस्सियूण किण्ण घेप्पदे ? ण,
तेसिमक्कमेण अग्गद्विद्विपत्तयत्तासंभवादो । बंधसमए चैव किण्ण घेप्पदे ? ण, चउण्हं
पि द्विद्विपत्तयाणमुदयं पेक्खियूण गहणादो । तत्थ त्ति ण चरिमणिसेयपरमाणुणं
चैव मुद्धाणमुक्कस्सद्विद्विपत्तयसण्णा, किंतु पढमणिसेयादिपदेसाणं पि तत्थुक्कद्विदाण-

सूत्र द्वारा इन उत्कृष्ट आदि स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणुओंका अस्तित्वमात्र बतलाकर अब उनके
स्वरूपके विषयमें विशेष निर्णय करनेके लिये अर्थपदका कथन करते हुए पृच्छासूत्र द्वारा सर्व-
प्रथम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके निर्देशकी ही सूचना करते हैं—

❊ उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ।

§ ६००. उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके स्वरूप विशेषका निश्चय करानेवाला यह पृच्छासूत्र है ।
अब इस पृच्छाका उत्तर कहते हैं—

❊ जो कर्म बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तमें उदयमें दिखाई देता है
वह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त है ।

§ ६०१. इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जो कर्मपरमाणु बन्ध समयसे लेकर कर्मस्थिति-
प्रमाण कालतक रहकर अपनी कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें उदयमें दिखाई देता है वह उत्कृष्ट
स्थितिप्राप्त कर्म कहलाता है, क्योंकि वह अग्रस्थितिमें विद्यमान रहता है ।

शंका—यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्म नाना समयप्रबद्धोंकी अपेक्षा क्यों नहीं लिया
जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंका एक साथ अग्रस्थितिको प्राप्त होना
सम्भव नहीं है ।

शंका—उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका बन्ध समयमें ही क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चारों ही स्थिति प्राप्त कर्मोंका उदयकी अपेक्षा ग्रहण
किया है ।

उसमें भी केवल अन्तिम निषेकके परमाणुओंकी यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा नहीं है

मेसा सण्णा ति घेतत्तं, अण्णहा उक्कस्सयसमयपबद्धस्स अग्गट्ठिदीए जत्तियं गिसितं तत्तियमुक्कस्सेणे ति भणिस्समाणपक्खणाए सह विरोहप्पसंगादो । ण च चरिमणिसेयस्सेव अण्णणाहियस्स जहाणिसित्तसरूवेणोदयसंभवो, ओकट्ठिय विणासियत्तादो । तम्हा एयसमयपबद्धणाणाणिसेयावलंबणेण पयदट्ठिदिपत्तयमवट्ठिमिदि सिद्धं ।

किन्तु प्रथम निषेक आदिके जिन परमाणुओंका उत्कर्षण होकर वहाँ निचेप हो गया है उनकी भी यही संज्ञा है ऐसा अर्थ यहाँपर लेना चाहिये । यदि यह अर्थ न लिया जाय तो 'एक समयप्रबद्धकी अग्रस्थितिमें जितना द्रव्य निक्षिप्त होता है उतना द्रव्य उत्कृष्ट रूपसे अग्रस्थितिप्राप्त है' यह जो सूत्र आगे कहा जायगा उसके साथ विरोध प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि न्यूनाधिकताके बिना अन्तिम निषेकका ही बन्धके समय जैसा उसमें कर्मपरमाणुओंका निचेप हुआ है उसी रूपसे उदय होना सम्भव है सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण होकर उसका विनाश देखा जाता है । इस लिये एक समयप्रबद्धके नाना निषेकोंके अवलम्बनसे ही प्रकृत स्थितिप्राप्त अवस्थित है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—प्रदेशासत्कर्मका विचार करते हुए उत्कृष्टादिकके भेदसे उनका बहुमुखी विचार किया । उसके बाद यह भी बतलाया कि सत्तामें स्थित इन कर्मोंमेंसे कौन कर्मपरमाणु अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य है और कौन कर्मपरमाणु इनके अयोग्य हैं । किन्तु अब तक यह नहीं बतलाया था जि इन सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंके उदयकी अपेक्षा कितने भेद हो सकते हैं ? क्या जिन कर्मोंका जिस रूपमें बन्ध हाता है उसी रूपमें वे उदयमें आते हैं या उनमें हेर फेर भी सम्भव है । यदि हेर फेर सम्भव है तो उदयकी अपेक्षा उसके कितने प्रकार हो सकते हैं ? प्रस्तुत प्रकरणमें इसी बातका विस्तारसे विचार किया गया है । यहाँ ऐसे प्रकार चार बतलाये हैं—उत्कृष्टस्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त । इनमेंसे प्रत्येकका खुलासा चूर्णिसूत्रकारने स्वयं किया है, इसलिये यहाँ हम सबके विषयमें निर्देश नहीं कर रहे हैं । प्रकृतमें उत्कृष्टस्थितिप्राप्त विचारणीय है । चूर्णिसूत्रमें इस सम्बन्धमें इतना ही कहा है कि बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें जो उदयमें दिखाई देता है वह उत्कृष्टस्थितिप्राप्त कर्म है । इस परसे अनेक शंकाएँ पैदा होती हैं ? कि क्या उस अग्रस्थितिमें नाना समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणु लिये जा सकते हैं यह पहली शंका है । इसका समाधान नकारात्मक ही होगा, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंकी अग्रस्थिति एक समयमें नहीं प्राप्त हो सकती । दूसरी शंका यह पैदा होती है कि बन्धके समय ही उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा न देकर जब वह अग्रस्थिति उदयगत होती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा क्यों दी गई है ? इसका समाधान यह है कि ये संज्ञाएँ उदयकी अपेक्षासे ही व्यवहृत हुई हैं, इसलिये जब अग्रस्थिति उदयगत होती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त इस संज्ञाका व्यवहार होता है । तीसरी शंका यह है कि बन्धके समय जिन कर्मपरमाणुओंमें उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है वं ही केवल उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत होनेपर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं या उत्कर्षण द्वारा उसी समयप्रबद्धकी अन्य स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंके भी उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त करके उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत होनेपर डूबे कर्मपरमाणु भी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं ? इसका समाधान यह है कि अग्रस्थितिमें बन्धके समय जितने भी कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं अपनी स्थितिके अन्त समय तक वे वैसे ही नहीं बने रहते हैं । यदि स्थितिकाण्डकघात और संक्रमणकी चर्चाको छोड़ दिया जाय, क्योंकि वह चर्चा इस प्रकरणमें उपयोगी नहीं है तो भी बहुतसे कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण

❁ गिसेयद्विद्विपत्तयं षाम किं ?

§ ६०२. सन्वं पि पदेसगं गिसेयद्विद्विपत्तयमेव, गिसेयद्विद्विपत्तयस्स कम्म-
त्ताणुवत्तीदो । तदो किण्णाम तं गिसेयद्विद्विपत्तयं जं त्रिसेसेणापुवं परुविज्जदि
त्ति ? एवंविहासंकासूचयमेदं पुच्छावक्कं । संपहि एदिस्से आसंकाए गिरायरणहं
तस्स सरुवमुत्तरमुत्तेण परुवेइ—

❁ जं कम्मं जिस्से द्विदीए गिसित्तं ओकड्ढिदं वा उक्कड्ढिदं वा तिस्से
चेव द्विदीए उदए दिस्सइ तं गिसेयद्विद्विपत्तयं ।

§ ६०३. एवमुक्तं भवति—जं कम्मं बंधसमए जिस्से द्विदीए गिसित्तमोकड्ढिदं
वा उक्कड्ढिदं वा संतं पुणो वि तिस्से चेव द्विदीए होऊण उदयकाले दीसइ तं गिसेय-
द्विद्विपत्तयमिदि । एदं च गाणासमयपवद्धप्पयमेयणिसेयमवलंबिय पयट्टमिदि घेत्तव्वं ।
कथमेत्थमोकड्ढिदमुक्कड्ढिदं वा पदेसगमुदयसमए तिस्से चेव द्विदीए दिस्सइ ति

हो जाता है और नीचेकी स्थितिमें स्थित बहुतसे कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होकर वे अप-
स्थितिमें भी पहुँच जाते हैं । तात्पर्य यह है कि बन्धके समय निषेककी जैसी रचना हुई रहती है
उसके अपने उदयको प्राप्त होने तक उसमें बहुत हेरफेर हो जाता है । इससे ज्ञात होता है कि एक
समयप्रबद्धके नानानिषेकसम्बन्धी जितने कर्मपरमाणु अप्रस्थितिमें प्राप्त रहते हैं उनका उदय
होने पर वे सब उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं । चूणिस्त्रमे आगे जो उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मके
स्वामित्वका निर्देश करनेवाला सूत्र है उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट
स्थितिप्राप्त कर्म कित्से कहते हैं इसका विचार किया ।

* निषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ?

§ ६०२. जितना भी कर्म है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त ही होता है, क्योंकि
जो निषेक स्थितिको प्राप्त नहीं होता वह कर्म ही नहीं हो सकता, इसलिये वह निषेकस्थितिप्राप्त
कौनसा कर्म है जिसका विशेष रूपसे यहाँ नये सिरेसे वर्णन किया जा रहा है । इस तरह इस
प्रकारकी आशंकाको सूचित करनेवाला यह पृच्छासूत्र है । अब इस आशंकाका निराकरण करनेके
लिये उसका स्वरूप अगले सूत्र द्वारा कहते हैं—

* जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित
होकर उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थिति-
प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०३. इस सूत्रका यह आशय है कि बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त
हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित होकर फिर भी उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें
दिखाई देता है तो वह कर्म निषेकस्थितिप्राप्त कहलाता है । यह सूत्र नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध
रखनेवाले एक निषेककी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिये ।

शंका—प्रकृतमें जिन कर्मोंको अपकर्षण और उत्कर्षण हुआ है वे कर्म उदय समयमें
उसी स्थितिमें कैसे दिखलाई देते हैं ?

णासंक्रणिज्जं, पुणो वि उक्कङ्कुणोक्कङ्कुणाहि तहाभावाविरोहादो । ण सञ्चेसिं णित्सेय-
द्विदियत्तयत्तादो एदस्स वित्सेसियपरूवणा णिरत्थिया ति पुठ्विन्त्तासंका वि, तेसिमेत्तो
वित्सेसणादो ।

❊ अधाणिसेयद्विदियत्तयं णाम किं ?

§ ६०४. किमेदमुक्कस्सद्विदियत्तयं व एयसमयपवद्धपट्टिवद्धमाहो णाणासमय-
पवद्धणिबंधणिसेयद्विदियत्तयं व, को वा ततो एदस्स लक्खणवित्सेसो ति ? एवं
विहाहिप्पाएण पयट्टमेदं पुच्छामुत्तं ।

❊ जं कम्मं जिस्से द्विदीए णिसित्तं अप्पोकज्जिदं अण्णकज्जिदं तिस्से चेव
द्विदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयद्विदियत्तयं ।

§ ६०५. एतदुक्तं भवति—जइ वि एदं णाणासमयपवद्धानलंबि तो वि

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जिन कर्मों का अपकर्षण हुआ था उनका उत्कर्षण होकर और जिन कर्मों का उत्कर्षण हुआ था उनका अपकर्षण होकर उदय समयमें फिरसे उसी स्थितिमें दिखाई देना विरोधको प्राप्त नहीं होता है ।

यदि कहा जाय कि सभी कर्म निषेकस्थितिप्राप्त होते हैं, इसलिये इसका विशेष रूपसे कथन करना निरर्थक है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनमें विशेषता आ जाती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर निषेकस्थितिप्राप्त कर्मसे क्या अभिप्राय है इसका सुलासा किया गया है । यद्यपि निषेकरचनाके बाहर कोई भी कर्म नहीं होता है पर प्रकृतमें यह अर्थ इष्ट है कि बन्धके समय जो कर्म जिस निषेकमें प्राप्त हुआ हो उदयके समय भी वह कर्म यदि उसी निषेकमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थितिप्राप्त है । जैसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तमें अप्रस्थितिकी मुख्यता रही निषेककी नहीं वैसे ही यहाँ किसी भी स्थितिकी मुख्यता न होकर निषेककी मुख्यता है । यही कारण है कि प्रकृतमें नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी एक निषेकका ग्रहण किया है । इस एक निषेकमें विविध समयप्रबद्धोंके विविध स्थितिवाले कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह इसका तात्पर्य है । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण और उत्कर्षण होकर जो कर्म विवक्षित निषेकसे नीचेकी और ऊपरकी स्थितिमें निक्षिप्त हो गये हैं, पुनः उत्कर्षण और अपकर्षण होकर यदि वे उसी विवक्षित निषेकमें आकर उदय समयमें उसी निषेकमें दिखाई देते हैं तो उनका भी यहाँ ग्रहण हो जाता है ।

❊ यथानिषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ।

§ ६०४. क्या यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मके समान एक समयप्रबद्धसम्बन्धी है या निषेक-
स्थितिप्राप्तके समान नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी है ? उनसे इसके लक्षणमें क्या विशेषता है इस तरह इस प्रकारके अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

❊ जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षण और उत्कर्षणके बिना यदि वह कर्म उदयके समय उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो यह यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०५. इस सूत्रका यह अभिप्राय है—यद्यपि इसका नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध है

पुत्रिवल्लादो एदस्स महंतो विसेसो । कुदो ? जं कम्मं जिस्से द्विदीए बंधसमए णिसित्तमणोकट्टिदयुक्कट्टिदं जहा णिसित्तं तहावट्टिदं संतं तिस्से चेव द्विदीए कम्मोदएण विपच्चिद्विदि तमधाणिसेयद्विदिपत्तयमिदि गहणादो । पुत्रिवल्लं पुण ओकडुक्कडुणवसेण जत्थ तत्थ वावखित्तसरुवेणावट्टिदं संगल्लिदसरुवेण तम्मि चेव द्विदीए उदयमागच्छंतं गहिदमिदि । कथं जहाणिसेयस्स अधाणिसेयववएसो त्ति ण पच्चवट्टेयं, 'वच्चंति कगतदयवा लोवं अत्थं वहति तत्थ सरा' इदि यकारस्स लोवं काऊण णिहेसादो । जहाणिसेयसरुवेणावट्टिदस्स द्विदिक्खएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमयपबद्धसंबंध-पदेसपुंजस्स अत्थाणुगओ पयदववएसो त्ति भणिदं होइ ।

❀ उदयद्विदिपत्तयं णाम किं ?

§ ६०६. पुत्रिवल्लाणि सन्वाणि चेव उदयं पेक्खिण्ण भणिदाणि तम्हा ण ततो एदस्स भेदो त्ति एवंविहासंकाए पयट्टमेदं पुच्छामुत्तं । संपाह एदिस्से आसंकाए णिरायरण्हमिदमाह—

तो भी निषेकस्थितिप्राप्तसे इसमें बड़ा अन्तर है, क्योंकि बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है, अपकर्षण और उत्कर्षणके बिना जिस प्रकार निक्षिप्त हुआ है उसी प्रकार रहते हुए यदि कर्मोदयके समय उसी स्थितिमें यह फल देता है तो वह यथानिषेकस्थितिप्राप्त कर्म है ऐसा यहाँ ग्रहण किया है । परन्तु पहला जो निषेकस्थितिप्राप्त कर्म है सो वहाँ अपकर्षण और उत्कर्षणके बशसे यत्र तत्र कहीं भी निक्षिप्त होकर कर्म अवस्थित रहता है परन्तु गलते समय उसी स्थितिमें वह कर्म उदयको प्राप्त होता है, यह अर्थ लिया गया है ।

शंका—यथानिषेक कर्मकी यथानिषेक यह संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि—'क, ग, त, द, य और व इनका लोप होने पर स्वर उनके अर्थकी पूर्ति करते हैं ।' व्याकरणके इस नियमके अनुसार 'य' का लोप करके उक्त प्रकारसे निर्देश किया है । नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी जो प्रदेशपुंज बन्धके समय जिस प्रकारसे निक्षिप्त हुआ है उसी प्रकारसे अवस्थित रहकर स्थितिका क्षय होने पर उदयमें आता है उसकी यह सार्थक संज्ञा है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—निषेकस्थितिप्राप्तसे इसमें इतना ही अन्तर है कि वहाँ तो जिनका अपकर्षण उत्कर्षण होकर अन्यत्र निक्षेप हुआ है, अपकर्षण उत्कर्षण होकर वे परमाणु यदि पुनः उसी स्थितिमें प्राप्त होकर उदयमें आते हैं तो उनका ग्रहण होता है परन्तु यथानिषेकस्थिति-प्राप्तमें उन्हीं परमाणुओंका ग्रहण होता है जो तदवस्थ रहकर अन्तमें उदयमें आते हैं । इसके सिवा इन दोनोंमें और कोई अन्तर नहीं है ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ?

§ ६०६. पूर्वोक्त सभी स्थितिप्राप्त कर्म उदयकी अपेक्षा ही कहे हैं, इसलिये उनसे इसमें कोई भेद नहीं रहता इस प्रकारकी आशंकाके होने पर यह पुच्छासूत्र प्रवृत्त हुआ है । अब इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ जं कम्ममुदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तमुदयद्विदिपत्तयं ।

§ ६०७. एदस्स भावत्यो—ण ताव अगगद्विदिपत्तयम्मि एदस्स अंतम्भावो, द्विदिविसेसमेयसमयपवद्धं च पेक्खियूण तस्स परुक्खियत्तादो । एत्थ तहाविहणियमा-
भावादो । ण णिसेय-जहाणिसेयद्विदिपत्तएसु वि, तेसिं पि बंधसमयणिसेय-
पडिबद्धत्तादो । तदो जं कम्मं जत्थ वा तत्थ वा द्विदीए होदूण अविसेसेण उदय-
मागच्छदि तमुदयद्विदिपत्तयमिदि घेतव्वं ।

✽ एदमद्वपदं ।

§ ६०८. उक्कस्सद्विदिपत्तयादीणं चउण्हं पि अत्थविसयणिणयणिबंध-
मेदमद्वपदं सव्वेसिं कम्माणं साहारणभावेण परुक्खिदमवहारेयव्वं । पुणो वि
विसेसिय चउण्हमेदेसिं परुक्खणद्वमुत्तरमुत्तं भणइ—

✽ एत्तो एक्केकद्विदिपत्तयं चउच्चिहमुक्कस्समणुक्कस्सं जहणण-
मजहणणं च ।

§ ६०९. एत्तो अद्वपदपरुक्खणाणंतरमेक्केकद्विदिपत्तयं चउच्चिहं होइ उक्कस्सादि-
भेएण । एत्थ एक्केकद्विदिपत्तयग्गहणं पादेक्कं चउण्हं चउहि अहिसंबंधणद्वमेक्केकस्स
वा मिच्छतादिपयडिविसेसस्स चउच्चिहं पि द्विदिपत्तयं पादेक्कमुक्कस्साइभेएण

✽ जो कर्म उदयके समय यत्र तत्र कहीं भी दिग्वाई देता है वह उदयस्थिति
प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०७. इस सूत्रका भावार्थ यह है कि अप्रस्थिति प्राप्तमे तो इसका अन्तर्भाव होता
नहीं, क्योंकि वह स्थितिविशेष और एक समयप्रबद्धकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इसमें उस
प्रकारका कोई नियम नहीं पाया जाता । निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त कर्मों
भी इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी बन्ध समयके निषेकोसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिये
जो कर्म जहाँ कहीं भी स्थितिमे रहकर अन्य किसी प्रकारकी विशेषताके बिना उदयको प्राप्त
होता है वह उदयस्थितिप्राप्त कर्म है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

✽ यह अर्थपद है ।

§ ६०८. उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि चारोंका भी अर्थविषयक निर्णय करनेके सम्बन्धों
यह अर्थपद आया है जो साधारणभावसे सब कर्मोंका कहा गया जानना चाहिये । अब फिर
भी इन चारोंके विषयमे विशेष बातके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ एक एक स्थितिप्राप्तके चार चार भेद हैं—उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य
और अजघन्य ।

§ ६०९ अब इस अर्थपदके कथन करनेके बाद उत्कृष्ट आदिके भेदसे एक एक स्थितिप्राप्त
चार-चार प्रकारका है यह बतलाते हैं । यहाँ सूत्रमे प्रत्येक स्थितिप्राप्तका चार चारसे सम्बन्ध
बतलानेके लिये 'एक्केकद्विदिपत्तयं, पदका ग्रहण किया है । अथवा मिथ्यात्व आदिके एक एक

चउन्विहं होइ त्ति घेतव्वं । तदो सव्वेसिं कम्ममाणं पुध पुध णिरुंभणं काऊण चउण्हं
ट्टिदिपत्तयाणमुक्कस्सादिपदविसेसिदाणमोघादेसेहि परूवणा कायव्वा । एवं कदे
समुक्कित्ताणियोगहारं समत्तं ।

❀ सामित्तं ।

§ ६१०. सुगममेदमहियारसंभालणमुत्तं ।

❀ मिच्छुत्तस्स उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६११. सुगममेदं पुच्छावक्कं । एवं सामित्तविसयाए पुच्छाए तस्सेव
परिकरभावेण अग्गट्टिदिपत्तयवियप्पपरूवणट्टमुत्तरमुत्तं भणइ—

❀ अग्गट्टिदिपत्तयमेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए
वड्डीए जाव ताव उक्कस्सयं समयपबद्धस्स अग्गट्टिदीए जत्तियं णिसित्तं
तत्तियमुक्कस्सेण अग्गट्टिदिपत्तयं ।

§ ६१२. अग्गट्टिदिपत्तयस्म उक्कस्ससामित्ते पुच्छिदे तमपरूविय तन्वियप्प-
परूवणा किमट्टं कीरदे ? ण, उक्कस्सदव्वपमाणे अणवगए तन्विसयसामित्तस्स
सुहेणावगंतुमसकियत्तादां । अहवा उक्कस्ससामित्तपरूवणाए अणुक्कस्ससामित्तं पि

प्रकृतिविशेषके चारो ही स्थितिप्राप्त प्रत्येक उत्कृष्ट आदिके भेदसे चार चार प्रकारके हांते हैं यह
अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये । इसलिये सभी कर्मोंको अलग अलग विवक्षित करके उत्कृष्ट आदि
पदोसे युक्त चारों ही स्थितिप्राप्तोंका आंघ और आदेशकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।
इस प्रकार करने पर समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त होता है ।

❀ अब स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ६१०. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

❀ मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त कर्मका स्वामी कौन है ?

§ ६११. यह पृच्छावाक्य सरल है । इस प्रकार स्वामित्वविषयक पृच्छाके हाने पर उसीके
परिकररूपसे अग्रस्थितिप्राप्तके भेदोका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ एक कर्मपरमाणु अग्रस्थितिप्राप्त होता है, दो कर्मपरमाणु अग्रस्थिति-
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक कर्मपरमाणुके बढ़ाने पर एक समय-
प्रबद्धकी अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता है उत्कृष्ट रूपसे उतना
द्रव्य अग्रस्थितिप्राप्त होता है ।

§ ६१२. शंका—पृच्छा तो अग्रस्थितिप्राप्त कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमें गया था
पर उसका कथन न करके यहाँ उसके भेदोंका कथन किसलिये किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्यके प्रमाणके अनवगत रहने पर तद्विषयक
स्वामित्वका सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ उसके भेदोंका कथन किया गया है ।

अथवा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते समय अनुत्कृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना

परुवेयव्वं, अण्णहा एक्केक्कं द्विदिपत्तयं चउन्विहमिदि परुवणाए विहल्लत्तपसंगादो । तं च उक्कस्सादो परमाणुणादिकमेणावद्धिदं गिरंतरसरुवेण जाव एओ परमाणु ति एदस्स जाणावणद्धमेसा परुवणा ति सुसंबद्धमेदं ।

§ ६१३. संपहि एवं परुविदसंबंधस्सेदस्स सुत्तस्सत्पविवरणं कस्सामो । तं जहा—कम्मद्विदिपढमसमए जं बद्धं मिच्छत्तपदेसगं तं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडि-मेत्तकम्मद्विदीए असंखेज्जे भागे अच्चिदय पुणो पलिदोवमासंखेज्जदिभागपमाणमुक्कस्स-णिल्लेवणकालमत्थि ति सुद्धं होऊण गच्छइ । तत्तो उवरिमाणंतरसमए वि सुद्धं होऊण गच्छइ । एवं गिरंतरं गंतूण जाव कम्मद्विदिचरिमसमए वि सुद्धं होदूण तस्स गमणं संभवइ । पुणो तमेवं णिल्लेविज्जमाणं कम्मद्विदीए पुण्णाए एको वि परमाणु होयूणावढाणं लहइ । किं कारणमिदि भणिदे णिरुद्धसमयपवद्धस्स एगेण वि परमाणुणा विणा जइ कम्मद्विदिचरिमसमओ सुण्णो होऊण लब्भइ तो गल्लिदसेसग-परमाणुणा सहियत्तं सुट्टु लहामो ति णत्थि एत्थ संदेहो । एवं दो वि परमाणु लब्भति । एदेण कारणेण अगगद्विदिपत्तयमेको वा दो वा पदेसा ति सुत्ते उत्तं । एवमेगादि-एगुत्तरियाए वड्डीए ताव एवं णेदव्वं जाव समयपवद्धस्स अगगद्विदीए जत्तियमुक्कस्सयं पदेसगं तं णिसित्तं ति ।

§ ६१४. एत्थ समयपवद्धस्से ति भणिदे सण्णिपंचिदियपज्जत्तएण उक्कस्स-

चाहिये, अन्यथा एक एक स्थिति प्राप्तिकां जो चार चार प्रकारका बतलाया है सो उस कथनको विफलताका प्रसंग प्राप्त होता है । और वह अनुत्कृष्ट उत्कृष्टमेसे निरन्तर एक एक परमाणुके घटाने पर एक परमाणुके प्राप्त होने तक होता है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये यह प्ररूपणा की है, इसलिये यह कथन सुसम्बद्ध है ।

§ ६१३. इस प्रकार इस सूत्रके सम्बन्धका कथन करके अब उसके अर्थका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—कर्मस्थितिके प्रथम समयमे मिथ्यात्वका जो द्रव्य बंधा है वह सत्तर कोड़ाकाड़ी सागरप्रमाण कर्मस्थितिके अस्खयात बहुभाग तक रहता है फिर पत्त्यके असंबन्ध्यातवं भागप्रमाण उत्कृष्ट निलोपन कालके भीतर उसका अभाव हो जाता है । या उससे एक समय और जाने पर उसका अभाव होता है । इस प्रकार निरन्तर एक एक समयके जाने पर कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें भी अभाव होकर उसका गमन सम्भव है । यद्यपि वह इस प्रकार अभावको प्राप्त होता है तो भी कभी कर्मस्थितिके अन्तिम समयमे एक परमाणु भी शेष रहता है । कारण यह है कि विवक्षित समयप्रबद्धके एक परमाणुके बिना भी यदि कर्मस्थितिका अन्तिम समय शून्यरूपसे प्राप्त हो सकता है तो इसमें जरा भं सन्देह नहीं कि अन्य सब परमाणुओंको गलाकर शेष बचे एक परमाणुके साथ भी कर्मस्थितिका वह अन्तिम समय प्राप्त किया जा सकता है । इसी प्रकार कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें दो परमाणु भी प्राप्त होते हैं । इसी कारणसे सूत्रमे 'अगगद्विदिपत्तयं एक्को वा दो वा पदेसा' यह वचन कहा है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको बढ़ाते हुए अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता है उसके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

§ ६१४. यहाँ सूत्रमें जो 'समयपवद्धस्स' यह पद दिया है सो उससे संक्षी पञ्चन्द्रिय

जोगिणा बद्धेयसमयपवद्धस्स गहणं कायव्वं, अण्णहा अग्गट्ठिदीए उक्कस्सणिसेयाणुव-
वत्तीदो । तत्तियमुक्कस्सेण अग्गट्ठिदिपत्तयं जत्तियं तमणंतरपरुव्विदं । चरिमणिसेय-
उक्कस्सपदेसग्गमेत्तियसमयपवद्धणिवद्धं तत्तियमेत्तमुक्कस्सग्गेण अग्गट्ठिदिपत्तयं होइ ति
एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । ण चेदमेत्तियं जहाणिसेयसरूवेण लब्भइ, ओकड्डिय
कम्मट्ठिदिअब्भंतरे विणासियत्तादो । किं तु उक्कड्डुणाए कम्मट्ठिदिचरिमसमए धरिद-
पदेसग्गमेत्तियं होइ ति गहेयव्वं । तम्हा एयसमयपवद्धणाणाणिसेए उक्कड्डिय
धरिदपदेसग्गमेत्तियमुदयगयमुक्कस्सयग्गट्ठिदिपत्तयं होइ ति सिद्धं ।

§ ६१५. एवं णिहाल्लिदपमाणस्सेदस्स अणुक्करसवियप्पेहि सह सामित्तविहाणट्ठ-
मुत्तरमुत्तं भणइ—

❀ तं पुण अण्णदरस्स होज्ज ।

पर्याप्तके द्वारा उत्कृष्ट योगसे बौधे गये एक समयप्रबद्धका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा
अप्रस्थितिमे उत्कृष्ट निषेक नहीं प्राप्त हो सकते हैं। उत्कृष्टरूपसे अप्रस्थितिप्राप्त द्रव्य उतना
ही होता है जितनेका अनन्तर कथन कर आये है। एक समयप्रबद्धके अन्तिम निषेकमे
जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उतना उत्कृष्टरूपसे अप्रस्थितिप्राप्त होता है यह यहाँ इस सूत्रका
समुदायरूप अर्थ है। जिस रूपसे इसका अप्रस्थितिमे निक्षेप होता है उसी रूपसे वह उतना
पाया जाता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण होकर कर्मस्थितिके भीतर ही
उसका विनाश देखा जाता है। किन्तु उत्कर्षणके द्वारा कर्मस्थितिके अन्तिम समयमे उतना
द्रव्य पाया जा सकता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि
एक समयप्रबद्धके नानानिषेकोंका उत्कर्षण होकर उदयगत उतना द्रव्य हो जाता है जो
अप्रस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके बराबर होता है।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार
करते समय यह बतलाया गया है कि उदयके समय अप्रस्थितिमे कमसे कम कितना और
आधिकसे अधिक कितना द्रव्य प्राप्त होता है। स्थितिकाण्डकघात आदिके द्वारा
अप्रस्थितिका सर्वथा अभाव हो जाय यह दूसरी बात है पर यदि उसका अभाव नहीं होता
तो यह सम्भव है कि एक परमाणुको छोड़कर उसके और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर विनाश
हो जाय। यह भी सम्भव है कि दो परमाणुओंके सिवा और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर
विनाश हो जाय। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको बढ़ाते हुए अप्रस्थितिमें एक समय-
प्रबद्धका जितना द्रव्य प्राप्त होता है उतना प्राप्त होने तक यह द्रव्य पाया जा सकता है। पर
सबका सब बन्धके समय अप्रस्थितिमे जैसा प्राप्त हुआ था वैसा ही अपने उदय कालके
प्राप्त होनेतक नहीं बना रहता है, किन्तु इसमेसे बहुतसे द्रव्यका अपकर्षण आदि भी हो जाता
है, इसलिये यह घट तो जाता है तो भी उन्हींका पुनः या अन्य निषेकोंके द्रव्यका उत्कर्षण
करके वह उतना अवश्य किया जा सकता है यह इसका भाव है।

§ ६१५. इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके प्रमाणका विचार करके अब अनुत्कृष्ट
विकल्पोंके साथ इसके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ उस उत्कृष्ट अप्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोई भी जीव होता है ।

§ ६१६. तं पुण पुष्पं पुच्छ्याप विसईकवस्युक्तस्सट्ठिदिपत्तयं सर्गत्तोभाविदा-
णंताणुक्कस्सवियप्पमण्णदरस्स जीवस्स संबंधी होइ, विरोहाभावादो । णवरि त्वचिद-
कम्मसियं मोत्तूण उक्कस्ससामितं बच्चवं, तत्थुक्कस्साभावादो ।

✽ अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६१७. एत्थ मिच्छत्तग्गहणमणुबद्दे । सेसं सुगमं ।

✽ तस्स ताव संवरिसणा ।

§ ६१८. तस्स जहाणिसेयट्ठिदिपत्तयस्स सामित्तरूपवण्हं ताव उवसंदरिसणा
एत्थुवजोगी संबंधदपरूवणा कीरइ त्ति पइज्जासुवमेदं ।

✽ उदयादो जहय्ययमावाहामेत्तभोसविककयूष जो समयपबद्धो तस्स
एत्थि अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६१९. जहाणिसेयसामित्तसमयादो जहण्णावाहामेत्तं हेइदो ओसकियूष बद्धो
जो समयपबद्धो तस्स णिरुद्धिदीए णत्थि जहाणिसेयट्ठिदिपत्तयं पदेसगमिदि
वुत्तं होइ । कुदो तस्स तत्थ णत्थितं ? तत्तो अणंतरोवरिमट्ठिदिमार्दिं काउणुवरि

§ ६१६. जिसका विषय पहले बतला आये हैं और जिसमे अनन्त अनुत्कृष्ट विकल्प
गर्मित हैं उस उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका कोई भी जीव स्वामी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माननेमें
कोई विरोध नहीं आता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर
अन्यके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये, क्यों कि जो क्षपितकर्मांश जीव है उसके उत्कृष्ट
विकल्प सम्भव नहीं है।

विशेषार्थ—एक क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर अन्य सब जीवोंके बन्धके समयमें
अप्रस्थितिमे जिनना द्रव्य प्राप्त हुआ था उदयके समय उत्कर्षणके सम्बन्धसे उनना द्रव्य
पाया जा सकता है, इसलिये उत्कृष्ट अप्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी किसां भां जीवको बतलाया है।

✽ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कौन है ?

§ ६१७. इस सूत्रमें 'मिच्छ्यात्व' पदको अनुगृप्ति होती है। शेष कथन सुगम है।

✽ अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं।

§ ६१८. अब उस यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेके लिए उपसंदर्शना
अर्थात् प्रकृतमे उपयोगी सम्बन्धित अर्थको प्ररूपणा करते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है।

✽ उदय समयसे जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो समयपबद्ध
बंधता है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है।

§ ६१९. यथानिषेकके स्वामित्वसमयसे जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान नीचे (पीछे) जाकर
जोसमयपबद्ध बंधा है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है यह इस
सूत्रका तात्पर्य है।

शंका—उसका वहाँ अस्तित्व क्यों नहीं है ?

समाधान—क्योंकि प्रकृत स्वामित्वके समयसे जो अनन्तरवर्ती उपरिम स्थिति है

पवदसभयपवद्धस्स णिसेयदंसणादो । एदं च अबत्थुविषय्पाणमंतदीवयभावेण परुवेयिदं, तेण जहण्णावाहामेत्ता चेव जहाणिसेयस्स अबत्थुविषय्पा परुवेयव्वा ।

❊ समयुत्तराए आबाहाए एवदिमच्चरिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ अत्थि ।

§ ६२०. कुदो ? आबाहामेतमइच्छाविय पयदसमयपवद्धस्स णिरुद्धिदीए णिसेयदंसणादो । एत्थ जहण्णग्गहणेणाणुवट्टमाणेण आबाहा विसेसियव्वा ।

❊ तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पल्लिदोवमवग्गमूलाणि तावदिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि ।

§ ६२१. तत्तो समयुत्तरजहण्णावाहमेतमोसक्किरूण वद्धसमयपवद्धादो प्पडुद्धि हेट्ठिमसेमासेसमयपवद्धाणं जहाणिसेओ णिरुद्धिदीए णियमा अत्थि जाव असंखेज्जाणि पल्लिदोवमवग्गमूलाणि हेट्ठदो ओसरियुण वद्धसमयपवद्धस्स जहाणिसेओ

उससे लेकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत समयप्रवद्धके निषेक देखे जाते हैं। अवस्तुविकल्पोके अन्तदीपकरूपसे इस विकल्पका कथन किया है। इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके जघन्य आबाधाप्रमाण अवस्तुविकल्पोका कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—आबाधा कालके भीतर निषेकरचना नहीं होती है ऐसा नियम है और यहाँ पर यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको उदय समयमें प्राप्त करना है। किन्तु यह तभी हो सकता है जब जघन्य आबाधाके सब समय गल जावें। इसलिए यहाँ पर जघन्य आबाधाके भीतर किसी भी समयमें बँधे हुए यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके अस्तित्वका विवक्षित स्वामित्व समयमें निषेध किया है। सूत्रमें अन्तदीपक रूपसे मात्र अन्तिम विकल्पका निर्देश किया है, इसलिए उससे आबाधा कालके भीतर बन्धको प्राप्त होनेवाले उन सब यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका विवक्षित स्वामित्व समयमें प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

❊ आबाधाके एक समय अधिक होने पर उस अन्तिम समयप्रवद्धका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें है ।

§ ६२०. क्योंकि आबाधाप्रमाण कालको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके प्रकृत समयप्रवद्धका निषेक विवक्षित स्थितिमें देखा जाता है। इस सूत्रमें जघन्य पदके ग्रहण द्वारा उसकी अनुवृत्ति करके उससे आबाधाको विरोधित करना चाहिये।

❊ फिर वहाँसे लेकर पन्थके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण पीछेके कालके भीतर जितने समयप्रवद्ध बँधते हैं उनका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें नियमसे है ।

§ ६२१. उससे अर्थात् एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयप्रवद्ध बँधता है उससे लेकर पन्थके असंख्यात प्रथम व मूलप्रमाण स्थान नीचे जाकर बँधे हुए समयप्रवद्धके यथानिषेक तकके पीछेके बाकी सब समयप्रवद्धोंका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें नियमसे है ।

त्ति । हेट्टिमासेसकम्मट्टिदिअम्भंतरसंविदसख्वद्वस्स जहाणिसेओ अहियारट्टिदीए किण्ण लम्भइ त्ति भणिदे ण, ओकडुकडुणाहि तस्स णिन्नेवणसंभवेण णिरंतरस्वित-
णियमाभावादो । तं जहा—एयसमयम्मि वड्ढकम्मपोम्मलद्वं णिच्छएणासंखेज-
पल्लिदोवमपडमवग्गमूलमेत्तणिसेएत्तु णिरंतरमवट्ठाणं लहइ । पुणो तदुवरिमम्मोपुच्छ-
प्पहुट्टि ओकडुकडुणरसेण एयपरमाणुणा विणा सुद्धा होऊण गच्छइ । एवं
णिन्नेविदे अहियारगोबुच्छार उवरि तदित्थसमयपचड्ढणिसेओ जहाणिसेयणिसेय-
सरूवेण ण लम्भइ, तेण असंखेज्जपल्लिदोवमपडमवग्गमूलपमाणवेदकालस्सेव गहणं
कयं । अदो चेय णियमा अत्थि त्ति परूविदं, अणियमेण हेट्टिमाणं पि सांतरसरूवेण
संभवविरोहाभावादो । किमेसो अथाणिसेयसंचयकालो बहुओ आहो एयगुणहाणि-
ट्ठाणंतरमिदि ? एसो कालो असंखेज्जगुणो, एत्थासंखेज्जगुणहाणीणपुवल्लंभादो ।
तम्हा एत्थियमेत्तकालम्भंतरसंचओ अप्पहाणीकयहेट्टिमसमयपचड्ढो णिरुद्धट्टिदीए
जहाणिसेयसरूवेण णियमा अत्थि त्ति सिद्धं ।

शंका—पीछेकी सब कर्मस्थितियोंके भीतर संचित हुए द्रव्यका यथानियेक अधिकृत स्थितिमें क्यों नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा उक्त द्रव्यका अभाव सम्भव है, इसलिये उसका निरन्तर अस्तित्व पाये जानेका कोई नियम नहीं है । खुलासा इस प्रकार है— एक समयमें जो पुद्गल द्रव्य बँधता है उसका नियमसे पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण निषेकोमें निरन्तर अवस्थान पाया जाता है । फिर इससे उपरिम गोपुच्छासे लेकर एक परमाणुके बिना शेष सब द्रव्यका अपकर्षण-उत्कर्षणके कारण अभाव हो जाता है । इस प्रकार उसका अभाव हो जाने पर अधिकृत गोपुच्छामें वहाँके समयप्रबद्धका निषेक यथानियेकरूपसे नहीं पाया जाता है, इसलिये यहाँ पर पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण वेदककालका ही ग्रहण किया है । और इसीलिये सूत्रमें 'णियमा अत्थि' यह कहा है, क्योंकि अनियमसे पीछेके समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणुओंका भी यहाँ सान्तररूपसे सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—क्या यह यथानियेकका संचय काल बहुत है या एक गुणहानिस्थानान्तर-प्रनाथ है ?

समाधान—यह काल एक गुणहानिस्थानान्तरके कालसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि यहाँ असंख्यात गुणहानियाँ पाई जाती हैं ।

इसलिये इतने कालके भीतर जो संचय होता है वह विचक्षित स्थितिमें यथानियेकरूपसे नियमसे है यह बात सिद्ध हुई । किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इसमें इस कालसे पीछेके समयप्रबद्धोंके द्रव्यको गौण कर दिया है । अर्थात् उस द्रव्यका यहाँ पाया जाना यद्यपि सम्भव तो है पर नियम नहीं, इसलिये उसकी विवक्षा नहीं की है ।

विशेषार्थ—प्रत्येक कर्म बँधनेके बाद वेदककाल तक तो नियमसे पाया जाता है । उसके बाद उसके पाये जानेका कोई नियम नहीं है । वेदककाल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता

§ ६२२. एवमेदं परुविय संपत्ति एदस्सेव उक्कस्सअघाणिसेयसंचयस्स पमाण-
गवेसणइमुवरिमो सुत्तपबंधो—

⊗ एककस्स समयपबद्धस्स एकिकस्से द्विदीए जो उक्कस्सओ
अघाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं उक्कस्सयमघाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ५२३. गिरुद्धद्विदीओ समयुत्तरजहण्णाबाहमेत्तमोसक्कियूणावद्विदो जो
समयपबद्धो उक्कस्सजोगेण बद्धो तस्स एयस्स समयपबद्धस्स एकिकस्से जहण्णाबाहा-
बाहिरद्विदीए जो उक्कस्सओ अघाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं पल्लिदोवमासंखेज्जदि-
भागमेत्तसगुक्कस्ससंबयका ऋभंतरगलिदावसिद्वणाणासमयपबद्धप्पयमुक्कस्सयमघाणिसेय-
द्विदिपत्तयं ? किं संखेज्जगुणमाहो असंखेज्जगुणमिदि पुच्छिदं होइ । एवं पुच्छिदे
एवदिगुणमिदि परुविससमाणो तस्सेव ताव गुणयारस्स पमाणपरुवणट्टमवहार-
कालप्पाबहुअं गिदरिसणसरूवेण भणदि—

⊗ तस्स गिदरिसणं ।

§ ६२४. तस्स गुणयारस्स सरूवपदंसणट्टं गिदरिसणं भणिस्सामो त्ति
वुत्तं होइ ।

⊗ जहा ।

हे जिसे पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण बतलाया है । इसीलिये यहाँ पर विवक्षित
स्थितिमें वेदककालके भीतरके यथानिषेकोका सदभाव नियमसे बतलाया है ।

§ ६२२. इस प्रकार इसका कथन करके यथानिषेकके इसी उत्कृष्ट प्रमाणका विचार
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* एक समयपबद्धकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिषेक है उससे यह उत्कृष्ट
यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा है ?

§ ६२३. विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे
जाकर उत्कृष्ट योगसे बाँधा गया जो समयपबद्ध अवस्थित है उस एक समयपबद्धकी जघन्य
आवाधाके बाहरकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिषेक प्राप्त होता है उससे पल्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण अपने उत्कृष्ट संचयकालके भीतर गलाकर शेष बचा हुआ नाना समयपबद्ध-
सम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा होता है ? क्या संख्यातगुणा होता है
या असंख्यातगुणा होता है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह बात पुछी गई है । इस प्रकार पुछने
पर इतना गुणा होता है यह बतलानेकी इच्छासे सर्व प्रथम उसी गुणकारके प्रमाणका कथन
करनेके लिये पहले उदाहरणरूपमें अवहारकालका अल्पबहुत्व कहते हैं—

* उसका उदाहरण देते हैं ।

§ ६२४. अब उसके अर्थात् गुणकारके स्वरूपको दिखलानेके लिए उदाहरण कहेंगे यह
उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* यथा—

§ ६२५. तं जहा ति आसंकावयणमेदं ।

❀ ओकडु कडुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोबो ।

§ ६२६. एयसमयम्मि जं पदेसग्गमोकडुदि उकडुदि वा तस्स पदेसग्गस्स आगमणहेदुभूदो जो अवहारकालो सो थोवयरो ति भणिदं होदि ।

❀ अधापवत्तसंक्रमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो ।

§ ६२७. जइ वि एत्थ मिच्छत्तस्स अधापवत्तसंक्रमो णत्थि तो वि ओकडु-कडुणभागहारस्स पमाणपरिच्छेदकरणद्वेदस्स ततो असंखेज्जगुणत्तं परुविदं । एदम्हादो थोवयरीभूदो ओकडु कडुणभागहारो एत्थ गुणयारो होदि ति । अथवा सोलसकसाय-णवणोकसायाणमेयसमयम्मि बद्धमेयद्विदिणिसित्तपदेसग्गमावलिपमेत्त-काले वोलीणे पुणो उवरिसमयप्पट्टुदि ओकडु कडुणाए विणासं गच्छइ । परपयदिसंक्रमेण वि तत्थोकडु कडुणाए विणासिज्जमाणदब्बं पहाणं, परपयदिसंक्रमेण विणासिज्जमाणदब्बमप्पहाणमिदि जाणावणद्वेदमवहारकालप्पाबहुगं भणिदं, अण्णहा तदवगमोवायाभावादो ।

❀ ओकडु कडुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पखिवोबम्मस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ६२५. यह 'तद्यथा' इस प्रकार आशंकावचन है ।

* अपकर्षण-उत्कर्षण द्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह सबसे थोड़ा है ।

§ ६२६. एक समयमें जो कर्म अपकर्षित होता है या उत्कर्षित होता है उस कर्मको प्राप्त करनेके लिये जो अवहारकाल है वह सबसे थोड़ा है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

* उससे अधःप्रवृत्तसंक्रमणद्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह असंख्यातगुणा है ।

§ ६२७. यद्यपि यहाँ मिथ्यात्वका अधःप्रवृत्तसंक्रम नहीं होता है तो भी अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणका निर्णय करनेके लिये इसे उससे असंख्यातगुणा बतलाया है । इस भागहारसे अल्परूप जो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार है वह यहाँ गुणकार होता है । अथवा सोलह कषाय और नौ नोकषायोमेसे एक समयमें बँधा हुआ जो द्रव्य एक स्थितिमें निश्चित हुआ है वह एक आवलि कालके व्यतीत होने पर उपरिस समयसे लेकर अपकर्षण-उत्कर्षण द्वारा विनाशको प्राप्त होता है । यहाँ परप्रवृत्तिसंक्रमणकी अपेक्षा अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य ही प्रधान है किन्तु परप्रवृत्तिसंक्रमणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य प्रधान नहीं है इस प्रकार इस बातको जतानेके लिये यह अवहारकालविषयक अल्पबहुत्व कहा है, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं हो सकता है ।

* अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह पण्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है ।

§ ६२८. जो पुर्वं थोवभावेण परुविदो ओकङ्कङ्कणाए कम्मस्स अवहारकालो सो पमाणेण पत्तिदोवसस्स असंखेज्जदिभागो होइ । कयमेदं परिच्छिज्जदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । संपहि एवमवहारिदपमाणस्स ओकङ्कङ्कणभागहारस्स पयदगुणगारत्त-विहाणद्वयुत्तरसुत्तं—

✽ एवदिगुणमेकस्स समयपबद्धस्स एकस्से दिदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६२९. जावदिओ एसो ओकङ्कङ्कणाए कम्मस्स अवहारकालो एवदिगुणं णिकद्धदिदीदो समयुत्तरजहण्णावाहमेत्तमोसकियुण बद्धसमयपबद्धपदमणिसेय-पटिवद्धादो उक्कस्सयादो अधाणिसेयादो ओषुकस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं सगसंचय-कालभंतरसंचयं होइ ति भणिदं होइ ।

§ ६३०. संपहि एदेण सुत्तेण परुविदो कङ्कङ्कणभागहारमेत्तगुणगारसाहणद्व-मिमा ताव परुवणा कीरदे । तं जहा—उक्कस्सयसामितसमयादो हेद्वदो समयुत्तर-

§ ६२८. जो पहले अल्परूपसे कर्मका अकर्षण-उत्कर्षणअवहारकाल कहा है वह पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

इस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणका निश्चय करके अब उसका प्रकृत गुणकाररूपसे विधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ एक समयप्रबद्धकी एक स्थितिमें प्राप्त उत्कृष्ट यथानिषेकसे उत्कृष्ट यथा-निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य इतना गुणा है ।

§ ६२९. अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा कर्मका यह अवहारकाल जितना है, विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयप्रबद्ध बंधा है उसके प्रथम निषेकसम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिषेकसे आंध उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अपने संचयकालके भीतर संचय रूप होता हुआ उतना गुणा है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—यहाँ विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता है इसका प्रमाण बतलाया है । यह तो पहले ही बतला आये हैं कि इसमें कितने कालके भीतर संचित हुए यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका ग्रहण किया गया है । अब उस संचयको प्राप्त करनेके लिये यह करना चाहिये कि विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयप्रबद्ध बंधा हो उसके प्रथम निषेकमें जितना उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य हो उसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणा कर देना चाहिये । सो ऐसा करनेसे विवक्षित स्थितिमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वहाँ प्रकरणसे कुछ अवहार कालोंका अल्पबहुत्व भी बतलाया है सो वह अपकर्षण-उत्कर्षण अवहारकालका प्रमाण प्राप्त करनेके लिये ही बतलाया है ऐसा समझना चाहिये ।

§ ६३०. इस सूत्र द्वारा जो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण गुणकार कहा है सो उसकी सिद्धिके लिये अब यह प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट स्वाभित्यके समयसे नीचे

जहण्णावाहाए हाइदूण जं बद्धकम्मं तं दिवदुगुणहाणीए खंडेयूणेयखंडमहियार-
गोपुच्छाए उवरि संछुहदि । संपहि एदं बंधावलियादिवकंतमोकडु कहुणभागहारेण
खंडिय तत्थेयखंडं हेहा उवरिं च संछुहिय णासेइ । पुणो विदियसमयम्मि सेसदब्ब-
मोकडु कहुणभागहारेण खंडेयूणेयखंडमेत्तं विणासेइ । णवरि पढमसमयम्मि विणासिद-
खंडादो विदियसमयविणासिदखंडं विसेसहीणं होइ । केतियमेत्तेण ? पढमसमयम्मि
विणासिददब्बं ओकडु कहुणभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । एबं तदियसमए वि
विणासेदि । एत्थ वि अणंतरविणासिददब्बादो विसेसहीणपमाणं पुच्चं व वत्तच्चं ।
एवं चेव चउत्थसमयप्पहुडि गच्छइ जाव समयूणदोआवलियूणजहण्णावाहमेत्तकालो
त्ति । किं कारणं समयूणदोआवलियाओ ण लब्धंति चि भणिदे समयुत्तरजहण्णा-
वाहाए हाइदूण बद्धं जं कम्मं तमावाहापढमसमयप्पहुडि समयूणावलियमेत्तकालं
बोलाविय ओकडु कहुणसरूवेण मासेदुं पारभदि । पुणो ताव ओकडु कहुणाए वावारो
जाव अहियारद्विदी उदयावलियं चरिमसमअपविद्धा त्ति । उदयावलियभंतरपविद्धाए
पुण णत्थि ओकहुणा उक्कुणा वा । तेण कारणेणेदं सयल्लमुदयावलियं पुव्विच्छ-

एक समय अधिक जघन्य आबाधाको स्थापित करके वहाँ जो कर्म बंधा हो उसमें डेह-
गुणहानिका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो वह अधिकारप्राप्त गोपुच्छामें
निक्षिप्त होता है । फिर बंधावलिके बाद इस द्रव्यको अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजित करके
जो एक भाग प्राप्त होता है उसका नीचे-ऊंचे निक्षेप करके नाश कर देता है । फिर शेष द्रव्यमें
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त होता है उसका दूसरे समयमें
नाश करता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमें द्रव्यके जितने हिस्सेका नाश होता
है उससे दूसरे समयमें नाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य विशेषहीन होता है ।

शंका—कितना कम होता है ?

समाधान—प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें अपकर्षण-उत्कर्षण भाग-
हारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना कम होता है ।

इसी प्रकार तीसरे समयमें भी द्रव्यका नाश करता है । यहाँ पर भी पूर्व समयमें विनाशको
प्राप्त हुए द्रव्यसे विशेष हीनका प्रमाण पहलेके समान जानना चाहिये । इसी प्रकार चौथे समयसे
लेकर एक समय कम दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आबाधाप्रमाण कालके प्राप्त होने तक यह
जीव उत्तरोत्तर प्रत्येक समयमें द्रव्यका नाश करता जाता है ।

शंका—यहाँ । क समय कम दो आवलियाँ क्यों नहीं प्राप्त होती हैं ?

समाधान—एक समय अधिक जघन्य आबाधा कालको स्थापित करके उस समय जो
कर्म बंधता है उसे आबाधाके प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलि कालके बाद
अपकर्षण-उत्कर्षणरूपसे ग्रहण करता है । फिर यह अपकर्षण-उत्कर्षणका व्यापार तब तक चालू
रहता है जब तक अधिकृत स्थिति उदयावलिके अन्तिम समयमें प्रवेश नहीं करती । उदयावलिके
भीतर प्रवेश करने पर तो अपकर्षण और उत्कर्षण ये दोनों ही नहीं होते । इस कारणसे इस पूरी

समयूणबंधावलिं च एकदो मेलविद्य एदाहि समयूणदोआवलियाहि परिहीणजहण्णा-
बाहामेतो तदित्यणिसेयस्स ओकड्डुकड्डुणकालो होइ ति भणिंद ।

§ ६३१. संपहि एदमेत्तियकालणहदव्वमिच्छिय सयलेयसमयपबद्धं ठविय
एदस्स हेहा दिवदुगुणहाणिपदुप्पण्णमोकड्डुकड्डुणभागहारं समयूणदोआवलियूण-
जहण्णाबाहाए ओवट्टिय विसेसाहियं काऊण भागहारभावेण द्विविदे णहासेसदव्व-
मागच्छइ । पुणो णहसेसमधाणिसेयदव्वमिच्छामो ति एयसमयपबद्धं ठवेयूण सादिरेय-
दिवदुगुणहाणिमेत्तभागहारे ठविदे णासिदसेसदव्वमागच्छइ । एदं च पढमणिसेओ ति
पणेण संकप्पिय पुध ठवेयव्वं । एगसमयुत्तरजहण्णाबाहाए ठाइदूण बद्धसमयपबद्धस्स
जहाणिसेयपमाणपरूवणा गदा ।

§ ६३२. दुसमयुत्तरजहण्णाबाहाए ठाइदूण बद्धसमयपबद्धस्स वि एदं चेव
परूवणा कायव्वा । णवरि पढमणिसेयमोकड्डुकड्डुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडेण
विदियणिसेओ हीणो होइ, एयवारमोकड्डुकड्डुणाए पत्ताहियघादत्तादो । एदं च
विसेसहीणदव्वं पुव्विरलदव्वस्स पासे विदियणिसेओ ति पुध ठवेयव्वं । एवं
तिसमयुत्तराबाहाबद्धसमयपबद्धपहुडि हेहा ओदारिदूण एगेगणिसेयं पुव्वभागहारेण
विसेसहीणं काऊण णेदव्वं जाव ओकड्डुकड्डुणभागहारमेत्तद्दणे ति । एदं चेव

उदयावलिको और पूर्वोक्त एक समय कम बन्धवलिको एकत्रित करने पर इन एक समय कम
दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आबाधाप्रमाण वहाँके निषेकका अपकर्षण-उत्कर्षणकाल होता है
यह कहा है ।

§ ६३१. अब इतने कालके भीतर नष्ट हुए इस द्रव्यके लानेकी इच्छासे पूरे एक समय-
प्रबद्धको स्थापित करके इसके नीचे डेढ़ गुणहानिसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारमें एक
समय कम दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आबाधाका भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे विशेषा-
धिक करके भागहाररूपसे स्थापित करने पर नष्ट हुए पूरे द्रव्यका प्रमाण आता है । फिर नष्ट
होनेसे जो यथानिषेक द्रव्य बाकी बचा है उसे लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके
और उसके नीचे साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारके स्थापित करने पर नाश होनेसे बाकी
बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आता है । यहाँ यह जो बाकी बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आया है इसे
मनसे प्रथम निषेक मानकर अलगसे स्थापित करे । इस प्रकार एक समय अधिक जघन्य
आबाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धमें जो यथानिषेकका प्रमाण प्राप्त होता है उसका
कथन समाप्त हुआ ।

§ ६३२. दो समय अधिक जघन्य आबाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धका
भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम निषेकमें अपकर्षण-
उत्कर्षणभागहारका भाग देनेसे वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो दूसरा निषेक उतना हीन होता है,
क्योंकि यहाँ अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका एकबार अधिक भाग दिया गया है । इस विशेष हीन
द्रव्यको पूर्वोक्त द्रव्यके पासमें दूसरा निषेक मानकर पृथक् स्थापित करना चाहिये । इसी प्रकार
तीन समय अधिक आबाधाको स्थापित कर बद्धसमयप्रबद्धसे लेकर पीछे जाकर एक-एक
निषेकको पूर्वोक्त भागहार द्वारा एक-एक भाग कम करके अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण स्थानके

एयगुणहाणिअद्वाणपमाणमिदि थूलसरूवेण गहेयव्वं ।

§ ६३३. पुणो विदियगुणहाणिप्पहुट्ठि हेट्ठो बहुगं भीयमाणं गच्छइ जाव अधाणिसेयकालपढमसमओ त्ति । एत्थ सव्वत्थ वि गुणहाणिअद्वाणमणंतरपरूविद-
मवट्ठिदसरूवेण घेत्तव्वं । णिसेयभागहारो पुण दुगुणोकङ्कुक्कहुणभागहारमेत्तो ।
एत्थ पुण एरिसीओ असंखेज्जाओ गुणहाणीओ अत्थि, अधाणिसेयसंचयकालस्स
असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवगमूलपमाणत्तादो । तदो अधाणिसेयकालपढमसमयम्मि
वद्धसमयपवद्धदव्वमेत्थ चरिमणिसेओ सि घेसव्वं ।

§ ६३४. संपहि एदमसंखेज्जगुणहाणिदव्वं सव्वं समयुत्तरावाहाए ठाइदूण
वद्धसमयपवद्धक्कस्सपढमणिसेयपमाणेण समकरणं काउण जोइदे दिवट्ठोकङ्कुक्कहुण-

भागहारमेत्तो गुणगारो उप्पज्जइ । सो च एसो

१
१
२

 । एसो च' सुत्तुत्तगुणयारादो

अद्वाहिओ जादो त्ति एदं मोत्तूण पयारंतरेण गुणगारपरूवणमणुवत्तइस्सामो । तं
जहा—समउत्तरजहण्णावाहाए ठाइदूण वद्धसमयपवद्धसव्वुक्कस्सजहाणिसेयप्पहुट्ठि
हेट्ठा विसेसहीणं विसेसहीणं होऊण गच्छमाणमोकङ्कुक्कहुणभागहारदुभागमेत्तद्वाणं

प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये और यही एक गुणहानिस्थानका प्रमाण है ऐसा स्थूलरूपसे
ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३३. फिर दूसरी गुणाहानिसे लेकर यथानिषेकके कालके प्रथम समयके प्राप्त होने
तक नीचे बहुतसा द्रव्य क्षयका प्राप्त हो जाता है । यहाँ सर्वत्र गुणहानिअध्वानको पूर्वमें कहे
गये गुणहानिअध्वानके समान अवस्थितरूपसे ग्रहण करना चाहिये । निषेकभागहार तो
अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे दूना है । परन्तु यहाँ पर ऐसी असंख्यात गुणहानियाँ होती हैं,
क्योंकि यथानिषेकका संचयकाल पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, इसलिये यथा-
निषेकके कालके प्रथम समयमें जो समयप्रवद्धका द्रव्य बँधता है उसे यहाँ अन्तिम निषेकरूपसे
ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३४. अब इस असंख्यात गुणहानिप्रमाण समस्त द्रव्यको एक समय अधिक
आबाधाको स्थापित करके उस समय बँधे हुए समयप्रवद्धके उत्कृष्ट प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे
समीकरण करके देखने पर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे डेढ़ गुणा गुणकार उत्पन्न होता है ।
वह यह १३ है । और यह सूत्रोक्त गुणकारसे अर्धभागप्रमाण अधिक हो गया है, इसलिए इसे
छोड़कर प्रकारान्तरसे गुणकारका कथन बतलाते हैं । वह इस प्रकार है—एक समय अधिक जघन्य
आबाधाको स्थापित करके जो समयप्रवद्ध बँधता है उसके सबसे उत्कृष्ट यथानिषेकसे लेकर
पीछेके निषेक एक एक ब्य कम होते जाते हैं । और इस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका

१. ता० प्रती 'एसो

२
३

 । एसो च' इति पाठः ।

गंतूणेगसमयपवद्वपडिवद्वुकस्सजहाणिसेयद्वपमाणं चेद्वदि । एदं चेव एयगुणहाणि-
पमाणमिदि घेतव्वं । एवमुवरि वि सव्वत्थोकक्कुक्कुणभागहारं णिसेयभागहारं
काऊण णेदव्वं जाव जहाणिसेयकालपढमसमओ ति । पुणो पुव्वं व सव्वदव्वे
पढमणिसेयपमाणेण कदे ओक्कुक्कुणभागहारस्स तिण्णचउव्वभागमेत्ता पढमणिसेया
होति । एत्थ वि गुणगारो सुत्तुत्तपमाणे ण जादो तम्हा सुत्तुत्तगुणगारुपायणद्वमेत्थो-
क्कुक्कुणभागहारस्स वेत्तिभागमेत्तं गुणहाणिअद्धानमिदि घेतव्वं ।

§ ६३५. संपहि एदस्स गुणहाणिअद्धानस्स साहणद्विममा परूवणा कीरदे ।
तं जहा—जहाणिसेयपढमगुणहाणिपढमणिसेयपहुटि हेद्दा जहाकमं जहाणिसेय-
गोपुच्छपती रचेयव्वा जाव ओक्कुक्कुणभागहारवेत्तिभागमेत्तद्धानमोयरिय द्विदगोवुच्छा
त्ति । एदं चेव एयगुणहाणिद्वानंतरं । एवं विरचिदपढमगुणहाणिदव्वे णिसेयं पडि
चरिमगोवुच्छपमाणं मोत्तूण सेसमहियदव्वं घेतूण पुध द्वेयव्वं । एवं ठविदअहियदव्व-
पमाणगवेसणं कस्सामो । तत्थ ताव चरिमणिसेयादो अणतरोवरिमगोवुच्छा
एयपक्खेवमेत्तेण अहिया होइ । तस्स पमाणं केत्तियं ? जहण्णणिसेयस्स संखेज्जदि-
भागमेत्तं । तस्स को पडिभागो ? रूवूणोक्कुक्कुणभागहारो ? तं पि कुदो ? एकवार-

जितना प्रमाण है उससे अर्धभागप्रमाण स्थान जाकर एक समयप्रचद्वसे प्रतिषद्व उत्कृष्ट
यथानिषेकका प्रमाण आधा प्राप्त होता है । और यही एक गुणहानिका प्रमाण है ऐसा यहाँ
ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार आगे भी सर्वत्र अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको निषेकभागहार
करके यथानिषेक कालके प्रथम समयके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिये । फिर पहलेके समान
सब द्रव्यको प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे करनेपर अपकर्षण उत्कर्षणभागहारके तीन बटे चार
भागप्रमाण प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं । यहाँ पर भी गुणकार सूत्रमें कहे गये गुणकारके बराबर
नहीं हुआ है, इसलिये सूत्रमें कहे गये गुणकारको उत्पन्न करनेके लिये यहाँ पर अपकर्षण-
उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण गुणहानिअध्वान है ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३५. अब इस गुणहानिअध्वानकी सिद्धिके लिये यह प्ररूपणा करते हैं । वह इस
प्रकार है—यथानिषेककी प्रथम गुणहानिके प्रथम समयसे लेकर नीचे अपकर्षण-उत्कर्षण
भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाकर जो गोपुच्छा स्थित है उसके प्राप्त होने तक
क्रमसे यथानिषेक गोपुच्छाओकी पँक्तिकी रचना करना चाहिये और यही एक गुणहानि-
स्थानान्तरका प्रमाण है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके द्रव्यको स्थापित करके उसके प्रत्येक
निषेकमेसे अन्तिम गोपुच्छाके प्रमाणके सिवा शेष अधिक द्रव्यको एकत्रित करके अलग
रख दे । इस प्रकार अलग रखे गये अधिक द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं । यहाँ पर अन्तिम
निषेकका जितना प्रमाण है उससे अनन्तर उपरिम गोपुच्छाका प्रमाण एक प्रत्येकमात्र
अधिक है ।

शंका—उसका प्रमाण कितना है ?

समाधान—जघन्य निषेकके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

शंका—उसका प्रतिभाग क्या है ?

पत्ताहियघादत्तादो । रूवूणत्तमेत्याणवेक्खिय संपुण्णोक्कडुकडुणभागहारमेत्तो पक्खेव-
पडिभागो घेच्चवो । एवं चरिमणिसेयादो दुचरिमणिसेयस्स विसैसो परूविदो ।

६३६. संपहि दुचरिमादो तिचरिमस्स अहियदव्वपमाणाणुगमं कस्सामो ।
तं जहा—दुचरिमणिसेयं दोपडिरासीओ काऊण तत्थेयमोक्कडुकडुणभागहारेण खंडिय
पडिरासीकयरासीए उवरि पक्खित्ते तिचरिमणिसेओ उप्पज्जइ ति एत्थ चरिमणिसेयादो
अहियदव्वपमाणं दो पक्खेवा एओ च पक्खेवपक्खेवो होइ । एदं पि पुव्वं व
पडिरासिय तत्थेयमोक्कडुकडुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडं तत्थेव पक्खित्ते
उच्चरिमणिसेओ उप्पज्जइ ति तत्थ वि जहण्णदव्वादो अहियपमाणं तिण्णि पक्खेवा
तिण्णि चैव पक्खेवपक्खेवा अण्णेणो च तप्पक्खेवो लब्भइ । तथा पंचचरिमे वि
पुव्वविहाणेण चत्तारि पक्खेवा छ पक्खेवपक्खेवा चत्तारि च तप्पक्खेवा अण्णेणा
च चुण्णी होइ । पुणो नत्तो उवरिमे वि पंच पक्खेवा दस पक्खेवपक्खेवा तत्तियमेत्ता
चैव तप्पक्खेवा पच चुण्णीओ अवरेणा च चुण्णाचुण्णी अहियसरूवेण लब्भंति ।
एवं जत्तियमद्धानुवविं चट्ठिय विसैसगव्वेसणा कीरइ चरिमणिसेयादो तत्थ तत्थ
रूवूणचट्ठिदद्धानमेत्ता पक्खेवा दुरूवूणचट्ठिदद्धानसंकलणमेत्ता च पक्खेवपक्खेवा

समाधान—एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार ह ।

शंका—ऐसा क्यों है ?

समाधान—क्योंकि वह एक बार अधिक घातसे प्राप्त हुआ है ।

यद्यपि ऐसा है तो भी एक कमकी विवक्षा न करके यहाँ पर प्रक्षेपका प्रातभाग सम्पूर्ण
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण लेना चाहिये । इस प्रकार चरम निषेकसे द्विचरम निषेकके
विशेषका कथन किया ।

§ ६३६. अब द्विचरम निषेकसे त्रिचरम निषेकमें जो अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका
विचार करते हैं । वह इस प्रकार है—द्विचरम निषेककी दो प्रति राशियाँ स्थापित करो । फिर
उनमेंसे एकमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग दो । भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे अलग
स्थापित की गई दूसरी राशिमें मिला देने पर त्रिचरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस त्रिचरम
निषेकमें चरम निषेकसे अधिक द्रव्यका प्रमाण दो प्रक्षेप और एक प्रक्षेपप्रक्षेप है । अब इस त्रिचरम-
निषेककी भी पूर्ववत् प्रतिराशि करो । फिर उनमेंसे एकमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग
दो । भाग देनेसे जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग स्थापित की गई उसी राशिमें मिला देनेपर
चतुश्चरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस निषेकमें भी जघन्य द्रव्यसे जो अधिक द्रव्य है उसका
प्रमाण तीन प्रक्षेप, तीन प्रक्षेप-प्रक्षेप और एक तत्प्रक्षेप प्राप्त होता है । इसी प्रकार पाँचवें चरम-
निषेकमें भी पूर्व विधिसे अधिक द्रव्यका प्रमाण चार प्रक्षेप, छह प्रक्षेप-प्रक्षेप, चार तत्प्रक्षेप
और एक चूर्णि होता है । फिर इससे ऊपरके निषेकमें भी पाँच प्रक्षेप, दस प्रक्षेप-प्रक्षेप, उतने
ही अर्थात् दस ही तत्प्रक्षेप, पाँच चूर्णि और एक चूर्णिचूर्णि अधिक द्रव्य रूपसे उपलब्ध होते हैं ।
इस प्रकार जितना अध्वान ऊपर जाकर अधिक द्रव्यका विचार करते हैं अन्तिम निषेक । वहाँ
एक कम ऊपर गये हुए अध्वान प्रमाण प्रक्षेप, दो कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनप्रमाण

तिरूवूणचडिदद्याणसंकलणासंकलणामेता च तप्पक्खेवा उप्पाएयव्वा, तेसिं चेव पहाणत्तादो ।

§ ६३७. संपहि पढमणिसेयमस्सियूण चरिमणिसेयादो विसेसपमाणपरिक्खा कीरदे । तत्थ ताव रूवूणोकड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागमेत्ता पक्खेवा लब्धंति । ते च एदे

$\left[\begin{array}{c} ६ २ \\ ६ ३ \end{array} \right]$ । संपहि एत्थ जइ ओकड्डुकड्डुणभागहारतिभागमेत्ता पक्खेवा अत्थि तो एदं चरिमणिसेयपमाणं पावइ । तदो तेसिमुप्पायणविहिं वत्तइस्सामो । चडिदद्याणसंकलण-

मेत्ता पक्खेवपक्खेवा वि एत्थत्थि ति $\left[\begin{array}{c} ० ६ १ २ १ ६ १ २ \\ ६ ६ १ ३ ३ १ २ \end{array} \right]$ एवमेदे आणिय पक्खेवपमाणेण

कदे ओकड्डुकड्डुणभागहारवेणवभागमेत्ता पक्खेवा होंति $\left[\begin{array}{c} ० ६ २ \\ ६ ६ \end{array} \right]$ । एत्थ जइ

ओकड्डुकड्डुणभागहारस्स णवभागमेत्ता पक्खेवा होंति तो एदे तस्स तिभागमेत्ता पक्खेवा जायंति । ते पुण तिरूवूणोकड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागसंकलणासंकलणमेत्तत्पक्खेवे आदिं कादूण सेसखंडे अवलंबिय आणेयव्वा । पुणो ते आणिय पुन्विज्जोक्कड्डुकड्डुण-भागहारवेणवभागमेत्तपक्खेवाणमुवरि पक्खिविय लद्धकिंचूणतत्तिभागमेत्ते पक्खेवे घेतूण पुव्वपरुविदोक्कड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागमेत्तपक्खेवाणमुवरि पक्खित्ते जहण्ण-णिसेयपमाणं पढमणिसेयमस्सियूण अहियदव्वं होइ । एदं च मूलदव्वेण सह

प्रत्तेपप्रत्तेप, तीन कम उपर गये हुए अध्वानके संकलनासंकलनप्रमाण तत्प्रत्तेप उत्पन्न करने चाहिये, क्योंकि यहाँ उनकी ही प्रधानता है ।

§ ६३७. अब प्रथम निषेकमे अन्तिम निषेकसे जितना अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका विचार करते हैं । वहाँ एक अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रत्तेप प्राप्त होते हैं । वे ये हैं— $\frac{६ २}{६ ३}$ । अब यहाँ पर यदि अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके तीसरे भागप्रमाण प्रत्तेप प्राप्त होते हैं तो यह अन्तिम निषेकके प्रमाणको प्राप्त होता है, इसलिये उनके उत्पन्न करनेकी विधि बतलाते हैं—जितना अध्वान आगे गये हैं उनके संकलनमात्र प्रत्तेपप्रत्तेप भी यहाँ पर हैं इसलिये $\frac{० ६ २ ६ २}{६ ६ ३ ३ २}$ इस प्रकार इन्हें लाकर प्रत्तेपके प्रमाणसे करने पर अपकर्षण-

उत्कर्षण भागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रत्तेप होते हैं $\frac{० ६ २}{६ ६}$ । यहाँ पर यद्यपि अपकर्षण-

उत्कर्षण भागहारके नौ भागप्रमाण प्रत्तेप होते हैं तो ये उसके त्रिभागमात्र प्रत्तेप हो जाते हैं । परन्तु वे तीन रूप कम अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागके संकलनासंकलनप्रमाण तत्प्रत्तेपोंसे लेकर शेष खण्डोंका अवलम्बन करके ले आने चाहिए । पुनः उन्हे लाकर पूर्वोक्त अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रत्तेपोंके उपर प्रक्षिप्त करके लब्ध हुए उसके कुछ कम त्रिभागमात्र प्रत्तेपोंको ग्रहण करके पहले कहे गये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रत्तेपोंके उपर प्रक्षिप्त करनेपर प्रथम निषेकके आश्रयसे जघन्य निषेकप्रमाण अधिक

अहिकयणिसैयादो दुगुणमेत्तं जादमिदि सिद्धं ओकड्डुकड्डुणभागहारवेतिभागाणं गुणहाणिट्ठाणतरत्तं । एत्तियमेत्ते गुणहाणिअट्ठाणे संते सिद्धो मुत्तपरूविदो गुणगारो, सव्वदब्बे पढमणिसेयपमाणेण समकरणे कदे समुप्यण्णदिवड्डुगुणहाणिगुणयारस्स संपुण्णोकड्डुकड्डुणभागहारपमाणत्तदंसणादो ।

§ ६३८. एवमेत्तिएण पबंधेण उक्कस्सअधाणिसेयद्विदिपत्तयस्स पमाणं जाणाविय संपहि तदुक्कस्ससामित्तपरूवणद्वमुत्तरमुत्तपबंधो—

❖ इवाणिसुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ६३९. एवं णिदरिसणपरूवणाए सव्वमवहारिदसरूवमुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्से त्ति पुव्वपुच्छाए अणुसंधाणमुत्तमेदं ।

❖ सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स जत्तियमधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं तत्तो बिसेसुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ तस्स जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६४०. एदस्स सुत्तस्सत्थो बुब्बदे—तमुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स होइ त्ति पदसंबंधो । सेसगइजीवपरिहारेण सत्तमपुढविणेरइयस्सेव सामित्तं किमदं कीरदे ? ण, सेसगईमु संकिलेसविसोहीहि णिज्जराबहुत्तं पेक्खिय

द्रव्य होता है । किन्तु यह मूल द्रव्यके साथ अधिकृत निषेकसे दूना हो गया है, इसलिए अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागोंका गुणहानिस्थानान्तर सिद्ध हुआ । इतने मात्र गुणहानिअध्वानके रहते हुए सूत्रमें कहा गया गुणकार सिद्ध हुआ, क्योंकि सब द्रव्यके प्रथम निषेकके प्रमाणसे समीकरण करने पर उत्पन्न हुआ डेढ़ गुणहानिप्रमाण गुणकार सम्पूर्ण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणरूपसे देखा जाता है ।

§ ६३८. इस प्रकार इतने कथनके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका प्रमाण जताकर अब उसके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रोंकी रचना बतलाते हैं—

❖ अब उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कौन है ?

§ ६३९. इस प्रकार उदाहरणके कथन द्वारा जिसके पूरे स्वरूपका निश्चय कर लिया है और जिसके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमें पहले पृच्छा कर आये हैं अब उसी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका अनुसन्धान करनेके लिये यह सूत्र आया है—

❖ सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जितना काल है उससे विशेष अधिक कालके साथ जो नारकी उत्पन्न हुआ है वह उस यथानिषेकके जघन्य कालके अन्तमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी है ।

§ ६४०. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य सातवीं पृथिवीके नारकीके होता है ऐसा यहाँ पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—शेष गतिके जीवोंको छोड़कर सातवीं पृथिवीके नारकीको ही स्वामी क्यों बतलाया है ?

तहाविहाणादो । तं जहा—सेसगदीसु विसोहिकाले बहुअमोकड्डिय हेहा संछुइइ । संकिलेसेण वि बहुअमुकड्डियूणुवरि संछुइइ चि दोहि मि पयारेहिं अहियारगोवुच्छाए बहुदब्बवओं होइ । सत्तमपुढविणेइयम्मि पुण एयंतेण संकिलेसो चेव तेणेयपयारेणेव तत्थ गिज्जरा होइ चि सेसपरिहारेण तस्सेव गहणं कदं । अथवा सत्तमपुढविणेइयस्स संकिलेसबहुलस्स णिकाचणादिकरणेहि बहुअं दब्बमधागिसेयट्टिदिपत्तयसरूवेण लब्भइ, ण सेसगईसु चि एदेणाहिप्पाएण तत्थेव सामित्तं दिण्णं ।

§ ६४१. संपहि तस्सेव विसेमलक्खणपरूवणइमुत्तरमुत्तावयवकळावो एत्थ जत्तियमधागिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयमिदि उत्ते पुव्वं परूविदासंखेज्जपल्लिदोवमपढम-वग्गमूलपमाणुक्कस्सजहाणिसेयसंचयकालमेत्तमिदि घेतव्वं । तं कुदो परिच्छिज्जदं ? ततो विसेमुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ चि मुत्तावयवादो । एत्थ विसेमुत्तरपमाण-मपज्जत्तकालेण सह गदजहण्णावाहमेत्तमिदि गहेयव्वं, आवाहाअभंतरे जहाणिसेयसंभवा-भावादो अपज्जत्तकाले वि जोगबहुत्ताभावेण सव्वुक्कस्सपदेससंचयाणुववत्तीदो । तस्स जहण्णेण इदि वुत्ते तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जहण्णेण अंतोमुहुत्तेणअभहिय-

समाधान—नहीं, क्योंकि शेष गतियोंमें संक्लेश और विशुद्धिके कारण बहुत निर्जरा होता है, इसलिये उसे देखते हुए ऐसा विधान किया है । खुगाना इस प्रकार है—शेष गतियोंमें विशुद्धिके समय बहुत द्रव्यका अपकर्षण होकर उसका नीचेकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है और संक्लेशके कारण बहुत द्रव्यका उत्कर्षण होकर उसका ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है इन प्रकार वहाँ दोनों ही प्रकारों में अधिकृत गोपुच्छाके बहुत द्रव्यका व्यय हो जाता है । किन्तु सातवीं पृथिवीके नारकीके तो एकान्तरूपसे संक्लेश ही पाया जाता है, इसलिये वहाँ एक प्रकारसे ही निर्जरा होती है, इसलिये शेष गतियोंका निराकरण करके केवल उसी गतिका ही ग्रहण किया है । अथवा सातवीं पृथिवीका नारकी संक्लेशबहुल होता है, इसलिये उसके निकाचना आदि कारणोंके द्वारा यथानिषेकस्थितिप्राप्त रूपसे बहुत द्रव्य पाया जाता है, शेष गतियोंमें नहीं, इस प्रकार इस अभिप्रायसे भी वहाँ पर स्वाभित्व दिया है ।

§ ६४१. अब उसीका विशेष लक्षण बतलानेके लिये सूत्रका शेष भाग आया है—यहाँ सूत्रमें जो 'जत्तियमधागिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सय' यह कड़ा है सो उससे पहले कहे गये पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण उत्कृष्ट यथानिषेक संचयकालका ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रमें जो 'ततो विसेमुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ' यह वचन कहा है उससे जाना जाता है ।

यहाँ पर विशेषोत्तर कालका प्रमाण अपर्याप्त कालके साथ व्यतीत हुआ जघन्य आवाधा-प्रमाण काल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक तो आवाधाकालके भीतर यथानिषेकोकी सम्भावना नहीं है और दूसरे अपर्याप्त कालमें भी बहुत योग न होनेके कारण सर्वोत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं बन सकता है । तथा सूत्रमें जो 'तस्स जहण्णेण' यह कहा है सो इसका यह आशय है कि जो

मुक्कस्सयमधाणिसेयकालं भवद्विदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय सव्वलहुं सव्वाओ पज्जतीओ समाणिय उक्कस्सयजहाणिसेयद्विदिपत्तयस्सादिं कादूण पुरदो भण्णमाण-सयविमुद्धीए सम्ममणुपालिदत्तकालस्स त्कालचरिमसमयम्मि वट्टमाणयस्स उक्कस्सय-मधाणिसेयद्विदिपत्तयं होइ ति घेतव्वं । अहवा जत्तिएण कालेण उक्कस्सयमधा-णिसेयद्विदिपत्तयं होइ तस्स कालस्स संगहो कायव्वो । केत्तिएण च कालेण तस्स संचओ ? जहण्णएण अधाणिसेयकालेण । एतहुत्तं भवति—अधाणिसेयकालो जहण्णओ वि अत्थि उक्कस्सओ वि । तत्थुक्कस्सकालभंतरे ओकहु कहुणाए बहु-दव्वविणासेण लाहादंसणादो जहण्णकालस्सेव संगहो कायव्वो ति । तदो तिरिक्खो वा मणुस्सो वा सत्तमाए पुदवीए गेरइएसु उववज्जमाणो जहण्णावाहाजहण्णा-पज्जत्तद्धासमासमेत्तंतोमुहुत्तव्वहियं जहण्णयमधाणिसेयद्विदिपत्तयसंचयकालभवद्विदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय ङ्गपज्जतीओ समाणिय उक्कस्सअधाणिसेयद्विदिपत्तयसंचय-मादविय समयविरोहेण समाणिदत्तकालो जो गेरइओ तस्सुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदि-पत्तयं होइ ति मुत्तत्थसंगहो । जत्थ वा तत्थ वा गिरयाउअव्वभंतरे संचयकालमपरुविय अंतोमुहुत्तुववण्णगेरइयप्पहुडि संचयं कराविय सगसंचयकालचरिमसमए सामितं

नारकी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक उत्कृष्ट यथानिषेक कालको भवके प्रथम समयमें करके उत्पन्न हुआ है और जिसने अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंको समाप्त करके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तसे लेकर आगे कही जानेवाली अपनी विशुद्धिके द्वारा उस कालका भले प्रकारसे रक्षण किया है उस नारकीके उस कालके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये । अथवा जितने कालके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है उस कालका यहाँ संग्रह करना चाहिये ।

शंका—कितने कालके द्वारा उसका संचय होता है ?

समाधान—यथानिषेकके जघन्य काल द्वारा उसका संचय होता है । आशय यह है कि यथानिषेकका जघन्य काल भी है और उत्कृष्ट काल भी है । उसमेंसे उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका विनाश हो जानेके कारण लाभ दिव्याई नहीं देता है, इसलिये यहाँ जघन्य कालका ही संग्रह करना चाहिये ।

इसलिये जो तिर्यञ्च या मनुष्य सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो रहा है वह जघन्य आबाधा और जघन्य अपर्याप्त कालके जोड़रूप अन्तर्मुहूर्त कालसे अधिक यथानिषेकस्थिति-प्राप्तके जघन्य संचयकालको भवस्थितिके प्रथम समयमें प्राप्त करके उत्पन्न हुआ फिर छह पर्याप्तियोंको समाप्त करके और यथानिषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट संचयका आरम्भ करके जब आगममें बतलाई हुई विधिके अनुसार उक्त कालको समाप्त कर लेता है उस नारकीके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति प्राप्त द्रव्य होता है यह इस सूत्रका समुदायार्थ है ।

शंका—नरकायुके भीतर जहाँ कहीं भी संचय कालका कथन न करके नारकीके उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त कालसे लेकर संचयका आरम्भ कराकर फिर अपने संचय कालके अन्तिम समयमें सूत्रकारने जो स्वामित्वका कथन किया है सो उनके ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय है ।

भणंतस्स सुत्तयारस्स को अहिप्पाओ ? ण, उवरि संकिलेसविसोहीणं परावत्त-
णुबलंभादो ।

§ ६४२. पुणो वि पयदसाभियस्स संचयकालभंतरे आवासयविसेसरूवणह-
सुत्तरो सुत्तकलावो—

❀ एदम्हि पुण काले सो षेरहओ तप्पाओग्गउक्कस्सयाणि
जोगडाणाणि अभिक्खं गदो ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इस कालके सिवा अन्यत्र संक्लेश और विशुद्धिका परावर्तन
नहीं बन सकता है, इसलिये और आगे जाकर ऐसा नहीं कहा है ।

विशेषार्थ—एक तो शेष गतियोंमें कभी संक्लेशकी और कभी विशुद्धताकी बहुलता
रहती है, इसलिये वहाँ उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता और दूसरे
यथानिपेकके उत्कृष्ट संचयके लिये निकाचितकरणकी प्राप्ति आवश्यक है । जिसमें विवक्षित
कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीरणा ये कुछ भी सम्भव नहीं
हैं वह निकाचितकरण माना गया है । इस करणकी प्राप्तिके लिए बहुलतासे सक्लेशरूप
परिणामोंकी प्राप्ति आवश्यक है । यतः बहुतायतसे ये परिणाम अन्य गतियोंमें नहीं पाये जाते,
इसलिये भी वहाँ उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता । यही कारण है कि
इसका उत्कृष्ट स्वामित्व नरकगतियें बतलाया है । उसमें भी सातवें नरकके नारकीके जितना
अधिक संक्लेश सम्भव है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं है, इसलिये यह उत्कृष्ट स्वामित्व सातवें
नरकके नारकीको दिया गया है । अब यह देखना है कि सातवें नरकमें भी यह उत्कृष्ट स्वामित्व
कब प्राप्त होता है । इस विषयमें चूर्णिसूत्रकारका कहना है कि कोई मनुष्य या तिर्यक् ऐसे
समयमें नरकमें उत्पन्न हुआ जब उत्पन्न होनेके कुछ ही काल बाद यथानिपेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट
संचयका प्रारम्भ होनेवाला है उसके उस कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट
स्वामित्व प्राप्त होता है । यहाँ जो कुछ अधिक काल बतलाया है सो उससे नारकीके योग्य जघन्य
अपर्याप्तकाल और जघन्य आबाधाकाल लेना चाहिये । सातवें नरकमें उत्पन्न होनेके इतने
काल बाद यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचयकाल प्रारम्भ होता है और जब यह काल समाप्त होता
है तब अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । यह संचय काल पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूल
प्रमाण है यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है । यद्यपि यह संचयकाल जघन्य और उत्कृष्टके
भेदसे अनेक प्रकारका है फिर भी यहाँ उत्कृष्ट कालका ग्रहण न करके जघन्य कालका ग्रहण किया
है, क्योंकि उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत अधिक द्रव्यके विनाश होनेका
भय है । सूत्रमें आये हुए 'जहण्णेण' पदसे भी इसी बातका सूचन होता है । यद्यपि इस पदका
जघन्य आबाधा अर्थ करके भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि तब जघन्य आबाधासे
अधिक उत्कृष्ट संचय कालके अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह अर्थ फलित किया जा सकता
है । किन्तु इससे पूर्वोक्त अर्थ मुख्य प्रतीत होता है और यही कारण है कि इस पदके दो अर्थ करके
भी टीकामें पूर्वोक्त अर्थ पर जोर दिया है ।

§ ६४२. अब प्रकृत स्वामीके संचय कालके भीतर आवश्यक विशेषका कथन करनेके
लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ परन्तु इस संचय कालके भीतर वह नारकी तत्पायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको
निरन्तर प्राप्त हुआ ।

§ ६४३. एदम्नि पुण अघाणिसेयसंचयकालम्भंतरे सो णेरइओ बहुसो बहुसो तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगहाणाणि परिणदो, तेहि विणा पयदुक्कस्ससंचयाणुप्पत्तीदो चि एदेण जोगावासयं परूविदं । एत्थ तप्पाओग्गविसेसखं समयविरोहेण तहा परिणदो ति जाणावणहं । जाव संभवो ताव सब्बुक्कस्सजोगेभेव परिणमिय तस्सासंभवे तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगहाणि बहुसो गदो ति भणिदं होइ ।

❁ तप्पाओग्गउक्कस्सियाहि बड्डीहि बड्डीदो ।

§ ६४४. संखेज्जगुणवट्ठि-असंखेज्जगुणवट्ठि-संखेज्जभागवट्ठिसण्णिदाहि जोब-वट्ठीहि पदेसबंधउट्ठिअविणाभावीहि समयविरोहेण वट्ठिदो । तासिमसंभवे पुण असंखेज्जभागवट्ठीए वि वट्ठिदो ति वुत्तं होइ । णेदं पुब्बुत्तत्यपरूवणादो पुणरुत्तं, तस्सेव विसेसियूण परूवणादो । तम्हा एदेण वि जोगावासयं चेव विसेसिदमिदि घेत्तव्वं ।

❁ तिस्से ट्ठिदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं ।

§ ६४५. जहाणिसेयकालम्भंतरे सब्बत्थोवजहण्णावाहाए उक्कस्सजोगेण च जहण्णयट्ठिदि बंधमाणो सामितट्ठिदीए उक्कस्सपदं काऊण णिसिंचइ ति भणिदं होइ, णिसेयाणमण्णहा योवभावाणुवत्तीदो । संपहि एदेण विहाणेणाणुसारिदोवोण-

§ ६४६. परन्तु इस यथानिषेके संचय कालके भीतर वह नारकी अनेक बार तद्योग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुए बिना प्रकृत उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है। इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा योगावश्यकका कथन किया गया है। यहाँ सूत्रमें तत्प्रायोग्य यह विशेषण आगमानुसार उस प्रकारसे परिणत हुआ यह बतलानेके लिये दिया है। जब तक सम्भव हो तब तक सर्वोत्कृष्ट योगसे ही परिणत रहे और जब सर्वोत्कृष्ट योग सम्भव न हो तब बहुत बार तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त होवे यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

❁ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धियोंसे वृद्धिको प्राप्त हुआ ।

§ ६४७. प्रदेशान्धवृद्धिकी अविनाभावी संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि इन तीन वृद्धियोंके द्वारा जो आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार वृद्धिको प्राप्त हुआ है। परन्तु जब ये तीन वृद्धियाँ असम्भव हों तब वह असंख्यातभागवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होवे यह उक्त कथनका सार है। यदि कहा जाय कि पुनरुक्त अर्थका कथन करनेवाला होनेसे यह सूत्र पुनरुक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसी पूर्वोक्त सूत्रके विशेषणरूपसे इस सूत्रका कथन किया है। इसलिये इस सूत्र द्वारा भी योगावश्यककी विशेषता बतलाई गई है यह अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये।

❁ उस स्थितिके निषेकके उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ ।

§ ६४८. यथानिषेक कालके भीतर सबसे कम जघन्य आघाधा और उत्कृष्ट योगके द्वारा जघन्य स्थितिको बाँधनेवाला वह जीव स्वामित्यविषयक स्थितिमें उत्कृष्टरूपसे कर्मपरमाणुओंको करके उनका निषेक करता है यह इस सूत्रका तात्पर्य है, अन्यथा अस्य निषेक नहीं प्राप्त हो

जहाणिसैयसंचयकालस्स पयदपेरइयस्स पचासण्णसामित्तुहेसे जोगावासयपट्टिवद्ध-
वावारविसैसपरूवणद्धमुत्तरो पबंधो—

❀ जा जहणियया आवाहा अंतोमुहुत्तुत्तरा एवदिसमयअणुदियणा सा
ट्टिवी । तवो जोगहाणाणमुवरिल्लमद्धं गवो ।

§ ६४६. अंतोमुहुत्तुत्तरा जा जहणयावाहा एवदिसमयअणुदियणा सा ट्टिवी
जा पुव्वणिरुद्धा सामित्तुट्टिवी । एत्थंतोमुहुत्तपमाणं जोगजवमउभादो उवरि अच्च्ण-
कालमेत्तं । तदो जोगहाणाणमुवरिल्लमद्धं गओ जोगहाणाणमुवरिल्लभागं गंतूणंतोमुहुत्तमेत्त-
कालमच्छिदो त्ति भणिदं होइ । किमइमेसो जोगहाणाणमुवरिल्लमद्धं णीदो ? जोगवहुत्तेण
वहुदव्वसंचयकरणद्धं । जइ एवं, अंतोमुहुत्तं मोत्तूण सव्वकालं तत्थेव किण्ण
अच्च्वाविदो ? ण, तत्तो अहियं कालं तत्थावहाणासंभवादो । जेणेदमंतदीवयं तेण
पुव्वं पि जाव संभवो ताव तत्थच्छिदो त्ति घेतव्वं । एत्थेव णिल्लीणो चरिमजीवगुण-
हाणिट्ठाणंतरे आवलियाए असखेज्जदिभागमच्छिदो त्ति अवंतरवावारविसैसो
परूवेयव्वो ।

सकते । अब इस विधिसे कुछ कम यथानियेक संचयकालका अनुसरण करनेवाले प्रकृत नारकीके
स्वामित्वविषयक स्थानके समीपवर्ती होनेपर योगावश्यकसे सम्बन्ध रखनेवाला जो व्यापारविशेष
होता है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ अन्तमुहूर्त अधिक जो जघन्य आवाधा है इतने काल तक वह स्थिति
अनुदीर्ण रही । अनन्तर जो योगस्थानोंके उपरिम अद्धभागको प्राप्त हुआ ।

§ ६४६. अन्तमुहूर्त अधिक जो जघन्य आवाधा है इतने काल तक वह स्वामित्वस्थिति
अनुदीर्ण रहती है जिसका कथन पहले कर आये हैं । यहाँ अन्तमुहूर्तसे योगयवमध्यसे ऊपर
रहनेका जितना काल है वह काल लिया है । फिर सूत्रमें जो यह कहा है कि 'तदा जोगहाणाण-
मुवरिल्लमद्धं गवो' सो इसका यह आशय है कि इसके बाद योगस्थानोंके उपरिम भागको
प्राप्त होकर जो अन्तमुहूर्त काल तक रहा है ।

शंका—यह जीव योगस्थानोंके उपरिम भागको क्यों प्राप्त कराया गया है ?

समाधान—बहुत योगके द्वारा अधिक द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव योग-
स्थानोंके उपरिम भागको प्राप्त कराया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तमुहूर्त न रखकर पूरे काल तक वहीं इस जीवको क्यों
नहीं रखा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इससे अधिक काल तक वहाँ रहना सम्भव नहीं है ।

यतः यह कथन अन्तदीपक है अतः इससे यह अर्थ भी लेना चाहिये कि पूर्वमें भी जब
तक सम्भव हो तब तक यह जीव वहाँ रहे । यहाँ जीवकी अन्तिम गुणहाणिस्थानान्तरमें
आवलिसे अखण्डव्यातबंध भागप्रमाण काल तक रहनेरूप जो अचान्तर व्यापारविशेष इसीमें गर्भित
है उसका कथन करना चाहिये ।

❁ दुसमयाहियआबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-
आबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगमुबवण्णो ।

§ ६४७. एत्थ तिस्से द्विदीए इदि अणुवट्टदे । तेणेवमहिसंबंधो कायण्णो—
तिस्से सामित्तद्विदीए दुसमयाहियजहण्णाबाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए समयाहिय-
जहण्णाबाहचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सजोगहाणं पडिवण्णो त्ति । चरिम-
दुचरिम-तिचरिमसमयअणुदिण्णादिकमेणोरियरिय दुसमयाहिय-एयसमयाहियआबाहा-
चरिमसमयअणुदिण्णाए गिरुद्धद्विदीए सो णेरइओ उक्कस्सजोगहाणेण परिणदो त्ति
भणिदं होइ । वे समए मोत्तूण बहुअं कालमुक्कस्सजोगेणेव किण्ण अच्च्वाचिदो ? ण,
वेसमयपाओग्गस्स तस्स तहासंभवाभावादो ।

❁ तस्स उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६४८. तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जाधे सा द्विदी उदयमागदा ताधे
उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं होइ त्ति उत्तं होइ ।

§ ६४९. संपहि एत्थ उवसंहारे भण्णमाणे तत्थ इमाणि तिण्णिण अणियोग-
दाराणि । तं जहा—संचयाणुगमो भागहारपमाणाणुगमो लब्धपमाणाणुगमो चेदि ।

* उस स्थितिके दो समय अधिक आबाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होने
पर और एक समय अधिक आबाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होने पर उत्कृष्ट
योगको प्राप्त हुआ ।

§ ६४०. इस सूत्रमें 'तिस्से द्विदीए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । इससे ऐसा सम्बन्ध
करना चाहिये कि उस स्वाभित्वस्थितिके दो समय अधिक जघन्य आबाधाके अन्तिम समयमें
अनुदीर्ण रहने पर और एक समय अधिक जघन्य आबाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण रहने
पर जो उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ है । चरम समय, द्विचरम समय और त्रिचरम समयमें
अनुदीर्ण रहने आदिके क्रमसे उतरकर दो समय अधिक और एक समय अधिक आबाधाके
चरम समयमें विवक्षित स्थितिके अनुदीर्ण रहने पर वह नारकी उत्कृष्ट योगस्थानसे परिणत
हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

झंका—दो समयको छोड़कर बहुत काल तक उत्कृष्ट योगके साथ ही क्यों नहीं रखा
गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो योग दो समयके योग्य है उसका और अधिक काल तक
रहना सम्भव नहीं है ।

* वह नारकी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६४८. इन पूर्वोक्त विशेषताओंसे युक्त जो नारकी है उसके जब वह स्थिति उदयको
प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है यह इस सूत्रका
आशय है ।

§ ६४९. अब यहाँ पर उपसंहारका कथन करते हैं । उसमें ये तीन अनुबोगद्वार होते हैं ।
यथा—संचयानुगम, भागहारप्रमाणानुगम और लब्धप्रमाणानुगम । उनमेंसे सर्वे प्रथम

तत्त्व संक्षयाणुगमेण जहाणिसेयकालपढमसमयसंचिददव्वमहियारद्विदीए जहाणिसेयसरूवेणत्थि । एवं जेदव्वं जाव चरिमसमयसंचओ ति । संक्षयाणुगमो गदो ।

§ ६५०. एत्तो भागहारपमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—असंखेज्जपल्लिदोवम-पढमवग्गमूलमेत्तं हेददो ओसरिय द्विदपढमसमयपवद्धसंचयस्स भागहारे उप्पाइज्जामणे समयपवद्धमेगं ठविय जहाणिसेयसंचयकालभंतरणाणाणुगहाणिसलगाओ पल्लिदोवम-पढमवग्गमूलद्धच्छेदणाहितो असंखेज्जगुणहीणाओ विरलिय द्दुगुणिय अप्पोण्ण-ग्गमासणिप्पण्णरासिसादिरेओ भागहारो ठवेयव्वो । एवं ठविदे एत्तियमेत्तगुणहाणीओ गालिय परिसेसिदमहियारगोबुच्छादो प्पहुडि अंतोकोडाकोद्विदव्वभागच्छइ । संपहि इमं संबदव्वमहियारगोबुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवद्दुगुणहाणमेत्तं होइ ति दिवद्दुगुण-हाणीओ वि भागहारत्तेण ठवेयव्वो । तदो अहियारगोबुच्छदव्वं णिसेयसरूवेणा-गच्छइ । पुणो जहाणिसेयद्विदिपत्तयमिच्छामो ति असंखेज्जा लोगा वि भागहार-सरूवेणेदस्स ठवेयव्वो । तं जहा—पयदगोबुच्छदव्वं जहाणिसेयकालपढमसमयप्पहुडि बंधावलियमेत्तकाले वोलीणे ओक्कड्ढुक्कड्ढुणभागहारेण खंदिदेयखंदमेत्तं हेदोवरि परसरूवेण गच्छइ । विदियसमए वि ओक्कड्ढुक्कड्ढुणभागहारपडिभागेण परसरूवेण

संक्षयाणुगमकी अपेक्षा विचार करते हैं—यथानिषेक कालके प्रथम समयमें जो द्रव्य संचित होता है वह यथानिषेकरूपसे अधिकृत स्थितिमें है । इस प्रकार संचयकालके अन्तिम समय तक जानना चाहिये । आशय यह है कि संचय कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें यथानिषेकरूपसे संचित होनेवाला द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है । इस प्रकार संक्षयाणुगम समाप्त हुआ ।

§ ६५०. अब इससे आगे भागहारप्रमाणानुगमको बतलाते हैं । यथा—पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान पीछे जाकर प्रथम समयमें प्राप्त हुए संचयका भागहार उत्पन्न करनेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करे । फिर उसका पत्त्यके प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोंसे असंख्यातगुणी हीन यथानिषेक संचयकालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि-शलाकाओंका विरलन कर और दूनाकर परस्परमें गुण करके उत्पन्न हुई राशिसे कुछ अधिक मागहार स्थापित करे । इस प्रकार स्थापित करने पर इतनी गुणहानियोंको गलानेके बाद अधिकृत गोपुच्छासे लेकर अन्तःकोडाकोडीप्रमाण शेष द्रव्य प्राप्त होता है । अब इस पूरे द्रव्यको अधिकृत गोपुच्छाके बराबर हिस्सा करके विभाजित करने पर वह डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिको भी भागहाररूपसे स्थापित करे । तब जाकर अधिकृत गोपुच्छाका द्रव्य निषेकरूपसे प्राप्त होता है । अब यहाँ यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य लाना है इसलिये इसका असंख्यात लोकप्रमाण भागहार और भी स्थापित करे । खुलासा इस प्रकार है—यथानिषेककालके प्रथम समयसे लेकर बन्धावलिप्रमाण कालके व्यतीत होने पर प्रकृत गोपुच्छाके द्रव्यमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो उतना द्रव्य नीचे ऊपर अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है । दूसरे समयमें भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना द्रव्य अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है । इस

गच्छइ । एवमेगेखंडे गच्छमाणे पुच्छभागहारवेतिभागमेत्तद्भाणं गंतूण पयदणिसेयस्स अद्धमेत्तं चेहइ । पुणो वि एत्तियमद्भाणं गंतूण चउवभागो चेहइ । एवमुवरि वि णेयव्वं जाव अहियारट्ठिदी उदयावल्लियम्भंतरे पविट्ठा ति । एवं होइ ति काऊणेत्थतण-
णाणागुणहाणिसलागाणं पमाणाणुगमं कस्सामो । तं कथं ? ओकइ कडुणभागहार-
वेतिभागमेत्तद्भाणं गंतूण जइ एया गुणहाणिसलागा लब्भइ तो असंखेज्जपलिदोवम-
पढमवगमूलपमाणं जहाणिसेयकालम्मि केत्तियाओ णाणागुणहाणिसलागाओ
लहामो ति तेरासियं काऊण जोइदे असंखेज्जपलिदोवमपढमवगमूलमेत्ताओ
लब्भंति । पुणो इमाओ विरलिय विंगं करिय अण्णोण्णभासे कदे असंखेज्जा लोमा
उपपज्जंति । तदो एत्तियं पि भागहारत्तेण समयपबद्धस्स हेहदो ठवेयव्वमिदि भणिबं ।
पुणो एदे तिण्णि वि भागहारे अण्णोण्णपट्ठुपण्णे करिय समयपबद्धम्मि भागे हिदे
आदिसमयपबद्धमस्सियुण अहियारट्ठिदीए जहाणिसेयसरूवेणावट्ठिदपदेसगमागच्छइ ।
तम्हा असंखेज्जलोगमेत्तो आदिसमयपबद्धस्स संचयस्स अवहारो ति घेत्तव्वं । संपहि
त्रिदियसमयपबद्धसंचयस्स वि भागहारो एवं चेव वत्तव्वो । णवरि पढमसमयसंचय-
भागहारादो सो किंचूणो होइ । केत्तिपण्णो ति भणिदे ओकइ कडुणभागहारेण
खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण । एवं भागहारो धोवूणकमेण तदियसमयपबद्धसंचयपट्ठुडि

प्रकार एक एक खण्डके अन्य गोपुच्छारूप होते हुए पूर्व भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थानोंके जाने पर प्रकृत निषेक अर्धभागप्रमाण शेष रहता है । फिर भी इतने ही स्थान जाने पर प्रकृत निषेक चतुर्थ भागप्रमाण शेष रहता है । इस प्रकार आगे भी अधिकृत स्थितिके उदयाबलिमे प्रवेश होने तक जानना चाहिये । ऐसा होता है ऐसा समझकर यहाँकी नाना गुणहानिशलाकाओंके प्रमाणका विचार करते हैं । यथा—अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके यदि दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान जाने पर एक गुणहानिशलाका प्राप्त होती है तो पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण यथानिषेक कालमे कितनी नाना गुणहानिशलाकाएँ प्राप्त होंगी इस प्रकार त्रैराशिक करने पर वे नाना गुणहानिशलाकाएँ पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण ही प्राप्त होती हैं । फिर इनका विरलन कर और दूना कर परस्परमें गुणा करने पर असंख्यात लोकप्रमाण राशि उत्पन्न होती है । इसीसे इसे भी भागहाररूपसे समयप्रबद्धके नीचे स्थापित करे यह कहा है । फिर इन तीनों ही भागहारोंका परस्परमें गुणा करके जो प्राप्त हो उसका समयप्रबद्धमें भाग देने पर प्रथम समयप्रबद्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमें यथानिषेकरूपसे जो द्रव्य अवस्थित है उसका प्रमाण आता है, इसलिये प्रथम समयप्रबद्धके संचयका भागहार असंख्यात लोकप्रमाण ग्रहण करना चाहिये । दूसरे समयप्रबद्धके संचयका भी भागहार इसी प्रकार कहना चाहिये । किन्तु प्रथम समयसम्बन्धी संचयके भागहारसे वह कुछ कम होता है ।

शंका—कितना कम होता है ?

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त होता है उतना कम होता है ।

इस प्रकार भागहार उत्तरोत्तर कम होता हुआ तीसरे समयप्रबद्धके संचयसे लेकर

मंतृणोक्कुकुणभागहारवेतिभागमेतद्भागे पुत्रभागहारस्स अद्धमेत्तो होइ । एवं जाणियूण णेद्व्वं जाव जहाणित्सेयकालचरिमसमओ ति । णवरि चरिमसमयपबद्ध-संचयस्स भागहारो सादिरियदिवडुगुणहाणिमेत्तो होइ ।

§ ६५१. संपहि लद्धपमाणानुगमं कस्सामो । तं जहा—चरिमसमयमि बंधियूण णिसित्तपमाणेण जहाणित्सेयद्विदिपत्तयसव्वद्व्वं कीरमाणमोक्कुकुण-भागहारमेत्तं होइ । तं कथं ? चरिमसमयपहुडि ओक्कुकुणभागहारवेतिभाग-मेत्तद्भागे हेट्टदो ओदरिय बद्धसमयपबद्धद्व्वपढमणित्सेयस्स अद्धपमाणं चेहइ ति । तं चेव गुणहाणिट्ठाणंतरं होइ । तेण पढमगुणहाणिद्व्वं सव्वं चरिमसमयमि बंधियूण णिसित्तपढमणित्सेयपमाणेण कीरमाणमोक्कुकुणभागहारवेतिभागानं तिण्णि-चउव्वभागमेत्तपढमणित्सेयपमाणं होइ । तं च संदिट्ठीए एदं $\begin{matrix} ० & ६ \\ १ & २ \end{matrix}$ । पुणो विदियादि-

सेसगुणहाणिद्व्वं पि तप्पमाणेण कीरमाणं तेत्तियं चेव होइ $\begin{matrix} ० & ६ \\ १ & २ \end{matrix}$ । संपहि दोण्हमेदेसिं एकदो मेलणे कदे ओक्कुकुणभागहारो चेव दिवडुगुणहाणिपमाणं होइ । पुणो एदेण दिवडुगुणहाणिमोक्कुकुणिय समयपबद्धे भागे हिदे जं लद्धं तत्तियमेत्तमुक्कस्स-सामित्तविसईकथं जहाणित्सेयद्विदिपत्तयं होइ ।

अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाने पर वह पूर्व भागहारसे आधा रह जाता है । यथानिषेक कालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इसी प्रकार जानकर उसका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्तिम समयप्रबद्धके संचयका भागहार साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण है ।

§ ६५१. अब लब्धप्रमाणका विचार करते हैं । यथा—अन्तिम समयमें बांधकर यथानिषेकस्थितिप्राप्त सब द्रव्यके निष्पन्न हुए द्रव्यके बराबर खण्ड करनेपर वे, अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहारका जितना प्रमाण है, उतने प्राप्त होते हैं ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—अन्तिम समयसे लेकर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान पीछे जाकर बंधे हुए समयप्रबद्धके द्रव्यका प्रथम निषेक आधा रह जाता है, इसलिये वही एक गुणहानिस्थानान्तर होता है, अतः प्रथम गुणहानिके सब द्रव्यको अन्तिम समयमें बांध कर निष्पन्न हुए प्रथम निषेकके बराबर बराबर खण्ड करनेपर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागका तीन बटे चार भागप्रमाण प्रथम निषेकोंका प्रमाण होता है । संदृष्टिकी अपेक्षा उसका प्रमाण $\frac{3}{4}$ का $\frac{3}{4}$ होता है । फिर दूसरी आदि शेष गुणहानियोंका द्रव्य भी तत्प्रमाण खण्ड करनेपर उतना $\frac{3}{4}$ का $\frac{3}{4}$ ही होता है । अब इन दोनोंको एकत्रित करने पर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार ही डेढ़ गुणहानिप्रमाण होता है । फिर इससे डेढ़ गुणहानिको अपवर्तित करके समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना उत्कृष्ट स्वाभित्त्वका विषयभूत यथानिषेकस्थिति-प्राप्त द्रव्य होता है ।

§ ६३२. एवमेतिष्य पबंधेण उक्तस्सजहाणित्सेयद्विदित्तवस्स सामितं परुविय संपहि एदेणेव गयत्यस्स णित्सेयद्विदित्तयस्स वि सामित्तसमुप्पण्णद्वुत्तरं सुत्तं भणइ—

✽ णित्सेयद्विदित्तयं पि उक्तस्सयं तस्सेव ।

§ ६३३. गयत्यमेदं सुत्तं, पुब्बिद्वादो अबिसिद्धपरुवणत्तादो । अदो चेव कममुल्लंघिय तस्सेव पुवं सामित्तविहाणं क्वं, अण्णहा एदस्स जाणावणोवाया-भावादो । एत्थ जुण विसो—पमाणाजुगमे कीरमाणे पुब्बिद्वादो अोकडु कडुणाए गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिदव्वमेत्तेणेदं विसेसाहियं होइ ति वत्तवं ।

§ ६३४. संपहि जहावसरपत्तमुक्कस्सयमुदपट्टिदित्तयस्स सामितं परुवेमाणो पृच्छामुत्तमाह—

✽ उदयद्विदित्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६३५. एत्थ मिच्छत्तस्से ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।

✽ गुणित्कम्मंसिञ्जो संजमासंजमगुणसेहिं संजमगुणसेहिं च काज्जण

§ ६.२. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करके अब यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त इसी प्रबन्धके द्वारा गतार्थ है तथापि उसके स्वामित्व को बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी भी वही है ।

§ ६३३. यह सूत्र अवगतप्राय है, क्योंकि पिछले सूत्रसे इसके कथनमें कोई विरोधता नहीं है । और इसीलिये क्रमका उल्लंघन करके पहले उसीके स्वामित्वका कथन किया है, अन्यथा इसके ज्ञान करानेका दूसरा कोई उपाय नहीं था । किन्तु प्रमाणानुगमके कथनमें यहां इतना विशेष और कहना चाहिये कि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य अन्यत्र प्राप्त होता है वह फिरसे वहीं आ जाता है, इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके द्रव्यसे इसका द्रव्य इतना विशेष अधिक होता है ।

विशेषार्थ—यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जो संचयकाल और स्वामी पहले बतला आये हैं वही निषेकस्थितिप्राप्तका भी प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संचय सातवें नरकमें उक्त प्रकारसे ही बन सकता है । तथापि यथानिषेकस्थितिप्राप्तसे इसका उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक हो जाता है । कारण यह है कि यथानिषेकस्थितिप्राप्तमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जितना द्रव्य कम हो जाता है वह यहाँ पुनः बढ़ जाता है ।

§ ६३४. अब यथावसर प्राप्त उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेकी इच्छासे पृच्छा सूत्र कहते हैं—

✽ उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६३५. इस सूत्रमें मिध्यात्वप्रकृतिका अधिकार होनेसे 'मिच्छत्तस्स' इस पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

✽ जो गुणितकर्माश्रवाला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिको

मिच्छतं गदो जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदिवणाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदचट्टिदिपत्तयं ।

§ ६५६. एदस्स सुत्तस्सत्थपरुवणा उदयादो उक्कस्सभीणट्टिदियसामित्त-सुत्तभंगो । एवं मिच्छत्तस्स चउण्हं पि ट्टिदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तं परुविय संपहि एदेण समाणसामियाणं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमप्पणं करेइ—

❀ एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि ।

§ ६५७. जहा मिच्छत्तस्स चउण्हमगाट्टिदिपत्तयादीणं सामित्तविहाणं कदमेवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि, विसेसाभावादो । णवरि सम्मत्तस्स जहाणिसेय-णिसेय-ट्टिदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तं भण्णमाणे उव्वेन्नलणकालादो जह् जहाणिसेयकालो बहुओ होइ तो पुव्वमेव जहाणिसेयस्सादिं करिय पुणो संचयं करेमाणो चैव उवसमसम्मत्तं पट्टिवज्जिय अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण संचयं काऊण पुणो अविणट्टवेदय-पाओग्गकालम्मि वेदयसम्मत्तगहणपढमसमए वट्टमाणो जो जीवो तस्स पढमसमय-वेदयसम्मादिट्टिस्स तिसु वि जहाणिसेयगोबुच्छामु उदयं पविस्समाणासु उक्कस्स-सामित्तं वत्तव्वं । अध अघाणिसेयसंचयकालादो उव्वेन्नलणकालो बहुओ होज्ज तो पुव्वमेव पट्टिवण्णसम्मत्तो मिच्छत्तं गंतूण पुणो जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्सादिं काऊण

करके मिध्यात्वमें गया है उसके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त हुए हैं तब वह मिध्यात्वके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६५६. पहले उदयसे अज्ञानस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रका जैसा विवेचन किया है उसीप्रकार इस सूत्रका भी विवेचन कर लेना चाहिये । इसप्रकार मिध्यात्वके चारो ही स्थितिप्राप्तोके स्वामित्वका कथन करके अब इससे जिनके स्वामी समान हैं ऐसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे कथन करते हैं—

❀ इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके स्वामित्वका भी विधान करना चाहिये ।

§ ६५७. जिस प्रकार मिध्यात्वके चारों अप्रस्थितिप्राप्त आदिके स्वामित्वका कथन किया है उसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भी करना चाहिये क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करने पर उद्वेदनकालसे यदि यथानिषेकका काल बहुत होवे तो पहलेसे ही यथानिषेकका प्रारम्भ करके फिर संचय करता हुआ ही उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और अन्तर्मुहूर्त काल तक उसके साथ रहकर मिध्यात्वमें जावे । और वहाँ संचय करके वेबक योग्य कालके नारा हाँकनेके पहले ही वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके उसके प्रथम समयमें जो जीव स्थित है उस प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके तीनों ही यथानिषेक गोपुच्छाओंके उदयमें प्रवेश करने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । और यदि यथानिषेकके संचयकाल ! उद्वेलेनाका काल बहुत होवे तो पहले से ही सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिध्यात्वमें जावे । फिर यथानिषेकस्थितिप्राप्तका

संचयं करिय महिद्वेदगसम्मत्तपढमसमए तिण्हं पि गोबुच्छाणं पदेसग्गमेकल्लगीभूद-
मुदयगदं धरिय द्विदो जीवो पयदुक्कस्ससामिओ होइ ति वत्तव्वं । एत्थ पुण चिसिद्धोव-
एसमस्सियुण अण्णदरपक्कपपरिग्गहो कायव्वो; संपहियकाले तहाविहोवएसभावादो ।
संपहि इमपधाणिसेयगोबुच्छमुदयावल्लियं पवेसिय पढमसमए चेव सम्मत्तं गेण्हावेसो
जहण्णावाहमेत्तं वा सामित्तसमयादो हेद्वदो ओसारिय, उवरि संचयाभावादो चि
भणिदे ण, सम्मत्तं पडिवज्जाविय पुणो उदयावल्लियं जहण्णावाहमेत्तकालं वा वोळाविय
सामित्ते दिज्जमाणे जहाणिसेयद्विदिदव्वस्स बहुअस्स ओकड्डुणाए विणासप्पसंगादो ।
किं कारणमुदयावल्लियवाहिरावट्टिदावत्थाए ताव ओकड्डुणाए बहुदव्वविणासो
सम्मत्ताहिमुहस्स होइ ति ण एत्थ संचओ । उदयावल्लियपविट्टपढमसमए चि
सम्मत्तं गेण्हमाणो पुव्वमेवंतोमुहुत्तपत्थि चि तदहिमुहावत्थाए चेव विमुज्झंतो बहुअं
दव्वमोक्कड्डुणाए णासेइ ति ण तत्थ सम्मत्तं पडिवज्जाविदो । एवं सम्मामिच्छत्तस्स
चि सामित्तं वत्तव्वं । णवरि पुव्वविहाणेण संचयं करिय सम्मामिच्छत्तं पडिवण्णपढम-
समयसम्मामिच्छाइद्विस्स जहाणिसेयद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च कायव्वं ।

आरम्भ करके संचय करे और इसप्रकार जब वह संचयकालके अन्तमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहे तब उसके तीनों ही गोपुच्छाओंका द्रव्य एकत्रित होकर उदयको प्राप्त होने पर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसा कथन करना चाहिये। परन्तु यहाँ विशिष्ट उपदेशको प्राप्त करके किसी एक पक्षको स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि वर्तमान कालमें ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता जिससे समुचित निर्णय किया जा सके।

शंका—अब इस यथानिषेकगोपुच्छाको उदयावलिमें प्रवेश कराके उसके प्रथम समयमें ही सम्यक्त्वको ग्रहण करावे या स्वामित्व समयसे जघन्य अबाधाकालका जितना प्रमाण है उतना पीछे जाकर सम्यक्त्वको ग्रहण करावे, क्योंकि इसके ऊपर उत्कृष्ट संचयका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि सम्यक्त्वको प्राप्त कराके फिर उदयावलि या जघन्य अबाधाप्रमाण कालका वित्ताकर उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तो अपकर्षणके द्वारा यथानिषेक-स्थितिप्राप्तके बहुत द्रव्यका अपकर्षणके द्वारा विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि उदयावलिसे बाहर अवस्थित रहते हुए सम्यक्त्वके अभिमुख होनेके कारण इसके अपकर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका विनाश देखा जाता है इसलिये यहाँ उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता। इसीप्रकार जो उदयावलिमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें भी सम्यक्त्वको ग्रहण करता है वह अन्तर्मुहूर्त काल पहले ही सम्यक्त्वके सन्मुखरूप अवस्थाके होनेपर विद्युद्धिको प्राप्त होता हुआ अपकर्षणद्वारा बहुत द्रव्यका नाश कर देता है, इसलिये वहाँ स्वामित्व नहीं प्राप्त कराया है। इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वका भी स्वामित्व कहना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वविधिसे संचय करके जो सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्मिध्यादृष्टिके यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य करना चाहिये।

विशेषार्थ—मालूम होता है कि यथानिषेककाल और उद्वेलनाकाल इनमेंसे कौन छोटा है और कौन बड़ा इस विषयमें मतभेद रहा है। एक परम्पराके मतानुसार उद्वेलनाकालसे यथानिषेककाल बड़ा है और दूसरी परम्पराके मतानुसार यथानिषेककालसे उद्वेलनाकाल बड़ा है।

§ ६५८. संपहि उदयद्विदिपत्तयस्स सामित्तवित्सेसपरूवणइत्तुत्तरसुत्तं भणइ—

❁ णवरि उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमुदयादो भ्मीयद्विविय-
भंगो ।

§ ६५९. सम्मतस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सब्बोदयं तं घेत्तूण
सम्माभिच्छत्तस्स वि उदिण्णसंजमासंजमसंजमगुणसेदिगोवुच्छसीसयाणि घेत्तूण
पढमसमयसम्माभिच्छाइद्विम्मि गुणित्तरियपच्छायदम्मि सामित्तविहाणं पदि ततो
वित्सेसाभावादो ।

§ ६६०. एवमेदं परूविय संपहि मिच्छत्तसमाणसामियाणं सेसाणं पि

टीकामें बतलाया है कि इस समय ऐसा विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं जिसके आधारसे यह निर्णय किया जा सके कि अमुक मत सही है, अतः विशिष्ट उपदेश मिलने पर ही इस विषयका निर्णय करना चाहिये । तथापि यदि यथानिषेककाल बढ़ा होवे तो उद्वेलनाका प्रारम्भ पीछेसे कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये और यदि उद्वेलनाकाल बड़ा हो तो उद्वेलनाका प्रारम्भ हानेके बादसे यथानिषेकके संचयका प्रारम्भ कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि ऐसा किये बिना उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है । यहां पर टीकामें एक विवाद यह भी उठाया गया है कि सम्यक्त्व प्राप्त करानेके कितने काल बाद उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाय ? सिद्धान्त पक्ष सम्यक्त्व प्राप्त कराके उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व दिलानेका है पर शंकाकार यह स्वामित्व सम्यक्त्व प्राप्त करनेके बाद एक आवलिकाल या जघन्य आबाधाप्रमाण काल होने पर दिलाना चाहता है किन्तु विचार करने पर सिद्धान्त पक्ष ही समीचीन प्रतीत होता है जिसका विशेष खुलासा टीका में किया ही है । इसप्रकार सम्यक्त्वके यथानिषेक और निषेधस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार किया । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षासे भी विचार कर लेना चाहिए । किन्तु इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यग्मिध्यात्वका उदय वहीं पर पाया जाता है ।

§ ६५८. अब उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका भंग उदयसे उत्कृष्ट भ्मीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके समान है ।

§ ६५९ जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है उसके दर्शनमोहनीयका क्षय करनेके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका जो सर्वोदय होता है उसकी अपेक्षा गुणितक्रियावाले जीवके उदयस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया गया है । इसीप्रकार उदयको प्राप्त हुए संयमा-संयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिगोपुच्छशीर्षोंकी अपेक्षा सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें गुणितक्रियावाले जीवके सम्यग्मिध्यात्वके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया है इसलिये इन दोनों प्रकृतियोंकी अपेक्षा उदयसे भ्मीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे इसमें कोई भेद नहीं है ।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके उदयसे भ्मीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामित्व पहले घतला आये हैं उसीप्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये ।

§ ६६०. इसप्रकार एक स्वामित्वका कथन करके मिध्यात्वके समान स्वाभीवाले क्षेप

सम्यप्यणद्वमुत्तरो पबंधो—

❖ अणंताणुबंधि-अटकसाय-द्वयण्योकसायाणं मिच्छस्तभंगो ।

§ ६६१. जहा मिच्छत्तस्स सव्वेसिमुक्कस्सट्ठिद्विपत्तयादीणं सामितपरूवणा कया तहा एदेसिं पि कम्मणं कायव्वा, विसेसाभावादो । संपहि एत्थ संभवविसेस-पदुप्पायणद्वमुत्तरमुत्तमाह—

❖ णवरि अटकसायाणमुक्कस्सयमुदयट्ठिद्विपत्तयं कस्स ?

§ ६६२. सुगमं ।

❖ संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवयगुणसेट्ठिसीसएसु त्ति एदाओ तिण्णि वि गुणसेटीओ गुणिककम्मंसिएण कदाओ । एदाओ काऊण अबिण्णे सु असंजमं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेट्ठिसीसएसु उक्कस्सयमुदय-ट्ठिद्विपत्तयं ।

§ ६६३. अणंताणुबंधीणमणूणाहिओ मिच्छत्तभंगो त्ति ते मोत्तूण पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणकसाएसुकस्ससामितविहाययमुत्तस्सेदस्स उदयादो उक्कस्सभीणट्ठिद्विय-सामितमुत्तस्सेव अवयवसमुदायत्थपरूवणा कायव्वा । एयंताणुवट्ठिचरिमसमयसंजदा-संजद-संजदपरिणामेहि कदगुणसेट्ठिसीसयाणि दोण्णि वि एकदो काऊण पुणो वि कम्मो का भी मुख्यरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* अनन्तानुबन्धीचतुष्क, आठ कषाय और छह नोकषायोंका भंग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ६६१. जिसप्रकार मिथ्यात्वके सभी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी करना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । अब यहाँ जो विशेषता सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु आठ कषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६६२. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षण-सम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्ष इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको करके और इनका नाश किये बिना असंयमको प्राप्त हुआ है वह गुणश्रेणिशीर्षोंके उदयमें आनेपर उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६३. अनन्तानुबन्धियोंका भंग न्यूनाधिकताके बिना मिथ्यात्वके समान है, अतः उन्हें छोड़कर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करने-वाले इस सूत्रके अवयवार्थ और समुदायार्थकी प्ररूपणा उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वको कथन करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये । एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें संयतासंयत और संयतरूप परिणामोंके द्वारा किये गये दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षोंको मिलाकर

ताणमुबरि दंसणमोहकखवयगुणसेदिसीसयं पक्खिविय कदकरणिज्जअथापवत्तसंजद-
भावेणंतोमुहुत्तं गुणसेदीओ आवूरिय से काले तिण्हं पि गुणसेदिसीसयाणमुदओ
होइदि त्ति कालं करिय देवेसुप्पणपढमसमयअसंजदम्मि सत्थाणम्मि चैव वा परिणाम-
पच्चएणासंजमं गदपढमसमयम्मि सामित्तविहाणं पढि दोण्हं विसेसाणुवलंभादो ।

§ ६६४. एवमदृकसायाणमुदयद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तविसेसं सूचिय
संपहि छण्णोकसायाणं पयदुक्कस्ससामित्तविसेसपरूवणद्वमुत्तरोपकमो—

❀ छण्णोकसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विपत्तयं कस्स ?

§ ६६५. सुगममेदमासंकासुत्तं ।

❀ चरिमसमयअपुव्वकरणे वट्टमाणयस्स ।

§ ६६६. एत्थ गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्से त्ति वक्कसेसो, अण्णहा उक्कस्स-
भावाणुवत्तीदो । सेसं सुगमं । एत्थेवांतरविसेसपरूवणद्वमुत्तरोपत्ताणमवयारो—

❀ हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुगुंल्लाणमवेदओ कायव्वो ।

फिर भी उनके ऊपर दर्शनमोहनीयकी क्षणाम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षको प्रक्षिप्त करके फिर कृतकृत्य
और अधःप्रवृत्तसंयमरूप भावके द्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक गुणश्रेणियोंको पूरण करके तदनन्तर
समयमें तीनों ही गुणश्रेणिशीर्षका उदय होगा पर ऐसा न होकर पूर्व समयमें ही मरकर देवोमें
उत्पन्न हुआ उस असंयत देवके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । या
स्वस्थानमें ही परिणामोंके निमित्तसे असंयमको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट
स्वामित्व होता है । इस प्रकार स्वामित्वकी अपेक्षा इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ।

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानावरण इन आठ कषायोंके उदयस्थिति-
प्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी कौन है इसका प्रकृतमें विचार किया है सो यह पूरा बर्णन इन्हीं आठ
कषायोंके उदयसे मीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे मिलता जुलता है, इसलिये उसके
समान इसका विस्तार समझ लेना चाहिये ।

§ ६६४. इसप्रकार आठ कषायोंके उदयस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषको सूचित
करके अब छह नोकषायोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेके
सूत्र कहते हैं—

❀ इह नोकषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६६५. यह आशंका सूत्र सुगम है ।

❀ जो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह इह नोकषायोंके उत्कृष्ट
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६६. यहाँ अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव गुणितकर्मांश क्षपक होता है अतः सूत्रमें
'गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स' इतना वाक्य शेष है जो जाँझ लेना चाहिये, अन्यथा उत्कृष्ट भावकी
उत्पत्ति नहीं हो सकती । शेष कथन सुगम है । अब इस विषयमें अत्रान्तर विशेषका कथन
करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं—

❀ हास्य, रति, अरति और शोकका यदि उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे
भय और जुगुप्साका अवेदक करना चाहिए ।

§ ६६७. सुगमं ।

❊ जह भयस्स तदो दुगुंछाए अवेदओ कायव्वो । अब दुगुंछाए तदो भयस्स अवेदओ कायव्वो ।

§ ६६८. सुगममेदं पि सुत्तं । एवं पुव्विल्लप्पणाए विसेसपरूवणं समाणिय सेसकम्माणमुक्कस्ससामित्तविहाणट्टमुत्तरो पबंधो—

❊ कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६६९. सुगमं ।

❊ उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं जहा पुरिमाणं कायव्वं ।

§ ६७०. जहा पुरिमाणं मिच्छत्तादिकम्माणमग्गट्टिदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तं परूविदं तथा कोहसंजलणस्स वि परूवेयव्वं, विसेसाभावादो । एवमेदस्स समप्पणं कादूण संपहि सेसाणं ट्टिदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तविहाणट्टमुत्तरिमंगंथावयारो—

❊ उक्कस्सयमधाणिसेपट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६७१. सुगमं ।

❊ कसाए उवसामित्ता पडिबदिदूण पुणो अंतोमहुत्तेष कसाया

§ ६६७. यह सूत्र सुगम है ।

* यदि भय हा उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे जुगुप्साका अवेदक करना चाहिये । यदि जुगुप्साका उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे भयका अवेदक करना चाहिये ।

§ ६६८. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार पहले जिनके विशेष व्याख्यानकी सूचना की रही उनका विशेष कथन समाप्त करके अब शेष कर्मोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६६९. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व आदिके समान क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्ति द्रव्यका स्वामी करना चाहिए ।

§ ६७०. जिस प्रकार मिथ्यात्व आदि कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार क्रोधसंज्वलनका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार इसका प्रमुखतासे कथन करके अब शेष स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका ग्रन्थ आया है—

* उत्कृष्ट यथानिषेक स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६७१. यह सूत्र सुगम है ।

* जो जीव कपार्योंका उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर दूसरी बार

उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिहा, तम्हि उक्कस्सयमभाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६७२. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा—एक्केण जीवेण कसाए उवसामिता पडिवदिदूण पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया उवसामिदा । सो च जीवो संखेज्जंतोमुहुत्तम्भहियसोलसवस्सूणमभाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण णेरएसु संचयं कादूण तदो उवट्ठिदो । दो-तिण्णिभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय मणुस्सेसु आगदो ति घेत्तव्वं, अण्णहा उक्कस्ससंचयाणुप्पत्तीदो । विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिहा एवं भणिदे जम्मि उदेसे सामित्तभवसंबंधि-विदियवारकसायउवसामणाए वावदस्स तत्पाओग्गजहणिया आबाहा पुण्णा सा द्विदी पुव्वमेव आदिहा विवक्खित्वा ति वुत्तं होइ ।

§ ६७३. एत्थ णेरइएसु चेव मिच्छत्तादिकम्माणं व पयदुक्कस्ससामित्तमदादूण उवसमसेट्ठिं चढाविय सामित्तविहाणे लाहपदंसणट्ठमिमा ताव परूवणा कीरदे । तं जहा—संखेज्जंतोमुहुत्तम्भहियसोलसवस्सेहि परिहीणं जहाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण सत्तमपुदविणेरइएसु तदाउअचरिमभागे अभाणिसेयकालम्भंतरे संचयं करिय कालं काऊण दो-तिण्णिभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय मणुस्सेसुवज्जिय गम्भादिअट्ठ-वस्साणमंतोमुहुत्तम्भहियाणमुवरि संजमेण सह पढमसम्मत्तमुप्पाइय पुणो नंदयसम्मा-
अन्तमुहूर्तकालके द्वारा कषायका उपशम किया । इस प्रकार इस दूसरी उपशमनाके होनेपर अबाधा जहाँ पूर्ण होती है प्रकृतमें वह स्थिति विवक्षित है । उसके उदयको प्राप्त होनेपर उससे युक्त जीव उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६७२. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—एक जीव है जो कषायका उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर भी उसने अन्तमुहूर्त कालमें कषायका उपशम किया । वह जीव पहले संख्यात अन्तमुहूर्त अधिक सोलह वर्ष कम यथानिषेकके कालतक पूर्वविधिसे नारकियोंमें सञ्चय करके वहाँसे निकला और दो तीन भव तिर्यञ्चोके लेकर मनुष्योंमें आया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है । 'विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिहा' सूत्रमें जो यह कहा है सो इसका यह आशय है कि स्वामित्वसम्बन्धी भवमें दूसरी बार कषायकी उपशमनाके जिस स्थानमें रहते हुये तत्प्रायोग्य जघन्य आबाधा पूर्ण होती है वह स्थिति पूर्वमें ही विवक्षित थी ।

§ ६७३. अब प्रकृतमें नारकियोंमें ही मिथ्यात्व आदि कर्मोंके समान प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व न देकर जो उपशमश्रेणिएपर चढ़ाकर स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें लाभ है यह दिखलानेके लिये यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं । यथा—कोई एक जीव है जिसने संख्यात अन्तमुहूर्त अधिक सोलह वर्षसे हीन यथानिषेकका जितना काल है उतने काल तक सातवीं पृथिवीका नारकी रहते हुए अपनी आयुके अन्तिम भागमें यथानिषेकके कालके भीतर पूर्वविधिसे यथानिषेकका संचय किया फिर मरा और तिर्यचोके दो तीन भव लेकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तमुहूर्त हो जानेपर संयमके साथ प्रथमोपशम

इष्टिभावेणंतोमुहुत्तमच्छिद्य पुणो वि सेदिसमारोहणद्वं दंसणमोहणीयमन्ताणुबधि-
विसंजोयणपुरस्सरमुवसामिय कसायाणमुवसामणद्वमधापवत्तकरणं पविट्टपदमसमए
बट्टमाणम्मि अहियारद्विदीए जहाणिसेयचिराणसंचयदव्वमेगसमयपबद्धस्स असंखेज्ज-
भागमेत्तं होइ ।

§ ६७४. तस्सोवद्वणे ठविज्जमाणे एगं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय एदम्मि
ओकद्दुक्कडुणभागहारेणोबट्टिदसादिरेयदिवडुगुणहाणीए भागे हिदे तत्थतणचिराण-
संतकम्मसंचयदव्वमागच्छइ । एवंविहेण पुव्वसंचएणुवसमसेट्ठिमेलो बहुदव्वसंचय-
करणद्वं चट्टमाणो अथापवत्तपदमसमयम्मि तदणंतरहेट्ठिमट्ठिदिवंधयादो पळिदोवमस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तमोसरिदणंतोकोडाकोट्टिमत्तद्विदिं बंधइ ।

§ ६७५. संपहियबंधमस्सियूण अहियारगोबुच्छाए उवरि णिसित्तदव्वे
इच्छिज्जमाणे एगं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स असंखेज्जभागम्भहिय-
दिवडुभागहारं ठविदे पदमणिसेयादो संखेज्जावलियमेत्तद्वानुवरि चट्टियूणावट्टिद-
अहियारद्विदीए णिसित्तदव्वमागच्छदि । एवं बंधमस्सियूण पयदगोबुच्छसंचयभाग-
हारो परुविदो । संपहि तत्थेव द्विदिपरिहाणिमस्सियूण लब्धमाणसंचयाणुगमं
वत्तइस्सामो । को द्विदिपरिहाणिसंचओ णाम ? उच्चदे—एयं द्विदिवंधं बंधिय पुणो

सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । फिर वेदकसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहूर्त तक रहकर श्रेणिपर चढ़नेके
लिये अनन्तालुवन्धीकी विसंयोजनाके साथ दर्शनमोहनीयका फिरसे उपशम किया । इस प्रकार
यह जीव जब कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत होता है तब इसके अधःकरणमें प्रवेश करके
उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुये विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकका प्राचीन सत्कर्म एक
समयप्रबद्धका असंख्यातवों भाग प्राप्त होता है ।

§ ६७४. अब इस द्रव्यको प्राप्त करनेके लिए भागहार क्या है यह बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके
एक समयप्रबद्धको स्थापित करे । फिर इसमें अपकर्षण-उत्त्वर्षणभागहारसे भाजित साधिक डेढ़
गुणहानिका भाग देनेपर वहाँका प्राचीन सत्कर्मरूप संचयद्रव्य आता है । इस प्रकार यहाँ जो पूर्व
संचय प्राप्त हुआ है सो उससे बहुत द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ता
हुआ अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें इसके अनन्तरवर्ती पूर्व समयमें जितना स्थितिबन्ध किया
रहा उससे पत्यके असंख्यातवों भाग कम अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिबन्धको करता है ।

§ ६७५. अब इस समय बंधे हुए द्रव्यकी अपेक्षा अधिकृत गोपुच्छामें निक्षिप्त हुआ
द्रव्य लाना चाहते हैं, इसलिये पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका असं-
ख्यातवों भाग अधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे प्रथम निषेकसे
संख्यात आवलि ऊपर जाकर स्थित हुई अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य निक्षिप्त होता है उसका
प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार बन्धकी अपेक्षा प्रकृत गोपुच्छामे संचयको प्राप्त हुए द्रव्यके
भागहारका कथन किया । अब वहाँ पर स्थितिपरिहानिकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले संचयका विचार
करते हैं—

प्रश्नका—स्थितिपरिहानिसंचय किसे कहते हैं—

अंतोमुहुत्तेणणेगडिदिबंधं बंधमाणो अगडिदीदो हेहा पलिदोवमस्स संखे०भाग-
मेत्तमोसरियुण बंधइ । पुणो तं हीणडिदिपदेसग्गं सेसडिदीणमुवरी विहंजिय पदमाणं
डिदिपरिहाणिसंचओ णाम । तस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय
एयस्स सयलंतोकोडाकोटीअब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय विंगं करिय
अण्णोण्णअभत्थरूवूणीकदरासिम्मि परिहीणडिदिअब्भंतरणाणागुणहाणी विरलिय
विंगं करिय अण्णोण्णअभासजणिदरूवूणारासिणोवट्टदम्मि भागहारत्तेण ठविदे डिदि-
परिहाणिदब्बमागच्छइ । पुणो तम्मि सादिरेयदिवडुगुणहाणीए भागे हिदे अहियार-
डिदीए उवरि डिदिपरिहाणीए पदिददब्बसंचओ आगच्छइ । संपहि एवंविहेसु तिसु
वि संचएसु डिदिपरिहाणिसंचओ पहाणं, तस्सेव उवरि समयं पडि वडिटंसणादो ।

§ ६७६. एदं च डिदिपरिहाणिकालभाविदब्बमधापवसकरणपढमसमयादो

समाधान—ऐसा जीव एक स्थितिबन्धका बौध्दक अन्तर्मुहूर्तवाद जब दूसरे स्थिति-
बन्धको बौध्दता है तो वह दूसरा स्थितिबन्ध अग्रस्थितिसे पत्यका संख्यातर्वां भाग कम बौध्दता है ।
अर्थात् पहला स्थितिबन्ध जितना होता था उससे यह पत्यका संख्यातर्वां भाग कम होता है । इस
प्रकार जितनी स्थिति कम जाती है उसके कर्मपरमाणु शेष स्थितियोंमें विभक्त होकर प्राप्त होते हैं ।
बस इस प्रकार जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे ही स्थितिपरिहानिसंचय कहते हैं । अब इस द्रव्यको
प्राप्त करनेके लिये भागहार क्या है यह बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको भाव्यरूपसे
स्थापित करे । फिर पूरी अन्तःकोडाकोड़ीके भीतर जितनी नानागुणहानिशलाकाएँ प्राप्त हों
उनका विरलन करके दूना करे । फिर परस्परमें गुणा करके जो राशि उत्पन्न हो उनमेंसे एक कम
करे । फिर इसमें परिहीन स्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानियोंका विरलन करके और विरलित
राशिको दूना करके परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि आबे एक कम उसका भाग दे और इस
प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसे पूर्वोक्त भाव्यराशिका भागहार करनेपर स्थितिपरिहानि द्रव्यका
प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसमें डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अधिकृत स्थितिमें स्थितिपरि-
हानिसे द्रव्यका जितना संचय प्राप्त होता है उसका प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार यहाँ जो
तीन प्रकारके संचय प्राप्त हुए हैं उनमेंसे स्थितिपरिहानिसे प्राप्त हुआ संचय प्रधान है, क्योंकि
आगे प्रत्येक समयमें उसीकी वृद्धि देखी जाती है ।

विशेषार्थ—बन्धकालके पूर्व समय तक अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त हुआ रहता
है वह प्राचीन सत्कर्म संचित द्रव्य है । बन्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता
है वह बन्धकी अपेक्षा निक्षिप्त हुआ द्रव्य है । तथा स्थितिपरिहानिसे विवक्षित स्थितिमें प्रति समय
ओ अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है वह स्थितिपरिहानिसंचित द्रव्य है । यद्यपि स्थितिपरिहानिसंचित
द्रव्य बन्धकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें ही आ जाता है किन्तु बन्धसे प्राप्त होनेवाले द्रव्यको
धुब करके उत्तरोत्तर स्थितिपरिहानिसे जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है उसकी यहाँपर अलगसे
परिगणना की है । इतना ही नहीं किन्तु वह उत्तरोत्तर बढ़ता भी जाता है, इसलिये उसकी प्रधानता
भी मानी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इनमेंसे किसका कितना प्रमाण है और वह किस
प्रकार प्राप्त होता है इसका विचार मूलमें किया ही है ।

§ ६७६. अब स्थितिपरिहानिके कालमें कितना द्रव्य प्राप्त होता है इसका विचार करते

तदणंतरहेट्टिमसमयम्मि वद्धसमयपवद्धं सादिरेयदिवहुगुणहाणीए भागं घेत्तूण लद्धदव्वमेत्तं होदूण पुणो द्विदिपरिहाणीए लद्धअसंखेज्जभागमेत्तदव्वेण अहियं होइ । इमं च तिससे अहियारद्विदीए ओकड्डुकड्डुणाहि गच्छमाणं पि दव्वं पेक्खियूण असंखेज्जभागव्वअहियं होइ । तं कथं ? गच्छमाणदव्वस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदिय-समयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारोवट्टिददिवहुगुणहाणिमेत्त-भागहारे ठविदे चिराणसंचयदव्वमागच्छदि । पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारे ठविदे सादिरेयदिवहुगुणहाणिसमयपवद्धस्स पयदगोबुच्छवयागमणद्वं भागहारो जादो । पुव्वुत्तसंचओ पुण समयपवद्धं सादिरेयदिवहुगुणहाणीए खंडिय तत्थेयखंडं द्विदिपरिहीणदव्वं च दो वि घेत्तूण होइ, तेणेसो अणंतरहेट्टिमसमयसंचयादो संपहिय-समयम्मि गच्छमाणदव्वादो च असंखेज्जदिभागव्वअहो होइ ति सिद्धं । संपहिय-संचएण चिराणसंतकम्मसंचयदव्वं पेक्खियूण असंखेज्जभागवट्टी चेव होइ । कुदो? ओकड्डुकड्डुणभागहारोवट्टिददिवहुगुणहाणिसंखंडिदेगसमयपवद्धमेत्तचिराणसंचयादो एदस्स वट्टमाणसमयसंचयस्स असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो । एवमथापवत्तकरण-पढमसमयसंचयपरूवणा कदा । एत्तो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्वमेगमवट्टिदद्विदिं बंधइ ति

हैं—अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे उसके अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें बंधे हुए समयप्रवद्धमें साधिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर जितना लब्ध आवे उतना महणकर वह लब्ध द्रव्यप्रमाण होकर पुनः स्थितिकी परिहानिसे प्राप्त हुए असंख्यात भागप्रमाण द्रव्यसे अधिक होता है । और यह द्रव्य उस अधिकृत स्थितिमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातवे भागप्रमाण अधिक होता है ।

शंका— सो कैसे ?

समाधान— क्योंकि, जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उसको लानेके लिये भागहारके स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियका एक समयप्रवद्ध स्थापित करे । फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षण भाग-हारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्राचीन संचित द्रव्य प्राप्त होता है । फिर इस संचित द्रव्यके नीचे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारको स्थापितकर भाग देनेपर प्रकृत गोपुच्छा-मंसे व्ययका प्रमाणा लानेके लिये वह साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्धका भागहार हो जाता है । परन्तु पूर्वोक्त संचय तो एक समयप्रवद्धको साधिक डेढ़ गुणहानिसे भाजित करनेपर बहौ प्राप्त हुआ एक भाग और स्थितिपरिहीन द्रव्य इन दोनोंको मिलाकर होता है, इसलिए यह द्रव्य अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यसे और वर्तमान कालमें व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातवे भाग अधिक होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु इस वर्तमान कालीन संचयमें प्राचीन संचय द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि डेढ़ गुणहानिमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उसका एक समयप्रवद्धमें भाग देनेपर प्राचीन संचय द्रव्य आता है । उससे यह वर्तमान समयका संचय असंख्यातगुणा हीन देखा जाता है । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो संचय होता है उसका कथन किया । अब इससे आगे एक अन्तर्मुहूर्त कालतक पूरी अवस्थित स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये बहौ अवस्थित संचय

अबहिदो संचओ होइ । जवरि मोबुच्छविसेसं पडि विसेसो अत्यि सो जाणियव्बो । ततो परं पळिदोवमस्स असंखे०भागमेचमोसरिय अण्णे हिदिबंधे आढते असंखेज्ज-भागवट्टीए विसरिसो संचओ समुप्पज्जइ । एत्थ वि पुव्वं व परूवणा कायव्वा । एवं जत्थ जत्थ हिदिबंधोसरणं भविस्सदि तत्थ तत्थ सेसहिदिं हिदिपरिहाणिं च जाणिदूण संचयपरूवणा कायव्वा । एवमणेण विहाणेण अघापवत्त-अपुव्वकरणाणि वोलिय अणियट्टिअद्दाए संखेज्जे भागे च गंतूण जाव दूरावकिट्टिसण्णिदो हिदिबंधो चेइइ ताव गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेट्ठिमसमयसंचयं च पेक्खियूण समयं पडि जो संचओ सो असंखेज्जभागवट्टीए चेव गच्छइ । तदो पळिदोवमस्स संखे०भागमेचदूरावकिट्टि-सण्णिददहिदिबंधे अच्चिदे सेसस्स असंखेज्जा भागा हाइयूण असंखेज्जदिभागो वज्जइ । एवं बंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवट्टी चेव होऊण गच्छइ जाव जहण-परित्तासंखेज्जदणयमेत्तगुणहाणिपमाणो हिदिबंधो जादो त्ति । तदित्थहिदिं बंध-माणस्स असंखेज्जभागवट्टीए पज्जवसाणं होइ । पुणो एयगुणहाणिं हाइयूण बंध-माणस्स गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेट्ठिमसमयसंचयं च पेक्खियूण संखेज्जभागवट्टीए आदी जादा । एदं च सेटीए संबवं पडुच्च भणिदं, अण्णहा सेससेसस्स असंखेज्जे भागे परिहाविय बंधमाणस्स तहाविहसंभवाणुवलंभादो । संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्जभागवट्टी चेव तस्सोकडुक्कडुणभागहारोवट्टिददिवडुगुणहाणि-

होता है । किन्तु गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विशेषता है सो जान लेनी चाहिये । फिर उससे आगे पत्यका असंख्यातर्वा भाग कम अन्य स्थितिबन्ध होता है, इसलिय असंख्यातभागवृद्धिसे विसट्टरा संचय उत्पन्न होता है । यहाँ भी पहलेके समान कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार जहाँ जहाँ स्थितिबन्धापसरण होगा वहाँ वहाँ शेष स्थिति और स्थितिपरिहाणिको जानकर सञ्चयका कथन करना चाहिये । इस प्रकार इस विधिसे अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको बिता कर अनिवृत्ति करणके कालमें संख्यात बहुभागप्रमाण स्थान जाकर दूरापकृष्टि संज्ञावाले स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक प्रति समयमें व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे और अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें हुए सञ्चयसे प्रत्येक समयमें होनेवाला सञ्चय असंख्यातभागवृद्धिको लिये हुए होता है । फिर पत्यके संख्यातवर्त भागप्रमाण दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थितिबंधके रहते हुए शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका घात करके असंख्यातर्वा भाग प्रमाण स्थितिका बन्ध होता है । सो इसप्रकारका बन्ध करनेवाले जीवके भी प्रति समय असंख्यातभागवृद्धि ही होती है और यह जघन्य परीतासंख्यातके जितने अर्धच्छेद हों उतने गुणहानिप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक होती रहती है । इस प्रकार यहाँ अन्तमें जो स्थिति प्राप्त हो उसका बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका पर्यवसान होता है । फिर एक गुणहानिका कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उस समय व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा और अन्तरवर्ती नीचेके समयमें हुए संचयकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । किन्तु यह सब श्रेणियों सम्भव है इस अपेक्षासे कहा है, अन्यथा उत्तरोत्तर जो स्थिति-बन्ध शेष रहता है उसका असंख्यातर्वा भाग कम होकर आगे आगे बन्ध होता है इस प्रकारकी सम्भावना नहीं उपलब्ध होती । यहाँ पुराने संचयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि उसका प्रमाण एक समयप्रवद्धमें अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिका भाग

भजिदेयसमयपबद्धपमाणत्तदंसणादो । एवं रूवूण-दुरूवूणादिकमेण जहण्णपरित्तासंखेज्ज-
 छेदणयमेत्तगुणहाणीसु परिहीयमाणामु संखेज्जभागवट्टीए गंतूण जत्थुद्देसे एयगुण-
 हाणिआयामो द्विदिबंघो जादो तत्थुद्देसे गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेट्ठिमसमयसंचयं च
 पेक्खिव्यूण संपहियसंचओ दुगुणो जादो । चिराणसंचयं पेक्खिव्यूण पुण तक्काले वि
 असंखेज्जभागवट्टी चैव । पुणो पढमगुणहाणिं तिण्णि खंडाणि काऊण तत्थ हेट्ठिम-
 दोखंडाणि मोत्तूण उवरिममेयखंडं सेसगुणहाणीओ च ओसरिय बंधमाणस्स तिगुणो
 संचओ जादो । तं जहा—पढमगुणहाणीए विसेसहाणिमजोइय सव्वणिसेया सरिसा
 त्ति आयामेण तिण्णि खंडे काऊण तत्थेयखंडमवणिय पुथ द्वेयेव्वं । पुणो विदियादि-
 गुणहाणिदव्वं पि तावदियं चैव होदि त्ति तहेव तिण्णि भागे काऊण तत्थ तिभागं
 घेत्तूण पुच्चमवणिय पुथ द्विदितिभागेण सह मेलाविदे ते वि वे-तिभागा जादा । एवमेदे
 तिण्णि वे-तिभागा एकदो मेलिदा तिगुणत्तं सिद्धं । अथवा दुगुणं सादिरेयमिदि
 वत्तव्वं । सुहुमट्ठिदीए गिहाल्लिज्जमाणे गुणहाणिअद्धमेत्तविसेसाणं हीणत्तदंसणादो ।
 एवमुवरि वि किंचूणत्तं जाणिय जोजेयव्वं । एवं गंतूण पढमगुणहाणिं रूवाहियजहण्ण-
 परित्तासंखेज्जमेत्तखंडाणि काऊण तत्थ हेट्ठिमदोखंडाणि मोत्तूणवरिमसव्वखंडाणि
 सेसगुणहाणीओ च ओसरिय बंधमाणे गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेट्ठिमसंचयं च
 पेक्खिय असंखेज्जगुणवट्टीए आदी जादा । एत्तो प्पहुट्ठि उवरि सव्वत्थ असंखेज्ज-

देने पर जा लव्य आवे उतना देखा जाता है । इसप्रकार एक कम दो कम आदि के क्रमसे
 जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदप्रमाण गुणहानियोंके हीन होनेतक संख्यातभागवृद्धिसे
 जाकर जहाँ एक गुणहानिआयामप्रमाण स्थितिबन्ध हो जाता है वहाँ व्ययको प्राप्त हुआ
 द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमे संचित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा वर्तमानकालीन
 संचय दूना हो जाता है । परन्तु पुराने सत्त्वकी अपेक्षा उस समय भी असंख्यातभागवृद्धि
 ही है । फिर प्रथम गुणहानिके तीन खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्ड छोड़कर
 ऊपरके एक खंड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेवाले जीषके तिगुना संचय हो
 जाता है । यथा—प्रथमगुणहानिमें जो उत्तरोत्तर निषेकोंकी विरोध हानि होती गई है इसकी गिनती
 नहीं करके सब निषेक समान हैं ऐसा मानकर उनके समान तीन खण्ड करके उनमेंसे एक
 खण्डको निकालकर अलग स्थापित कर दे । फिर द्वितीयादि गुणहानियोंका द्रव्य भी उतना ही
 होता है इसलिये उसीप्रकार तीन भाग करके उनमेंसे तीसरे भागको ग्रहण करके पूर्वमें निकालकर
 पृथक् स्थापित किये गये तीसरे भागमें भिला वेनेपर वे भी दो बटे तीन भागप्रमाण हो जाते हैं ।
 इसप्रकार इन दो बटे तीन भागोंको एकत्रित करनेपर तिगुने हो जाते हैं इसलिये इस समय तिगुना
 संचय होता है यह बात सिद्ध हुई । अथवा साधिक दुगुना-संचय होता है ऐसा कहना चाहिये,
 क्योंकि सूक्ष्मदृष्टिसे अवलोकन करने पर गुणहानिके अर्धभागप्रमाण विशेषोंकी हानि देखी जाती
 है । इसीप्रकार आगे भी कुछ कमको जानकर उसकी योजना करते जाना चाहिये । इस प्रकार
 आगे जाकर प्रथम गुणहानिके एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे
 नीचेके दो खण्डोंके सिवा ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करने पर
 व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमें संचित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा

गुणवट्टी चैव होऊण गच्छइ ति घेतव्वं ।

§ ६७७. संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्जभागवट्टीए अंतो कम्मि उदेसे होइ ति भणिदे जहणपरितासंखेज्जेणोकड्डुकड्डुणभागहारं खंदेयूण छद्धपमाणेण पढमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्ठिमदोखंडाणि मोत्तूणुवरिमासेसखंडाणि सेसगुणहाणीओ च हाइयूण वंधमाणस्स असंखेज्जभागवट्टीए चरिमवियप्पो होइ । तं कथमिदि भणिदे एयं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड्डुगुणहाणिभागहारं हेहदो ठविय उवरि जहणपरितासंखेज्जेणोवट्ठिदओकड्डुकड्डुणभागहारे गुणयारसरूवेण ठविदे संपहियसंचओ आगच्छइ । चिराणसंचए पुण इच्छिज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारोवट्ठिददिवड्डुगुणहाणिभागहारो ठवेयव्वो । एवं कदे चिराणसंचओ अधापवत्तकरणपढमसमयपट्ठिबद्धो आगच्छइ । तेणासंखेज्ज-भागवट्टी एत्य परिसमप्पइ ति णत्थि संदेहो ।

§ ६७८. संखेज्जभागवट्टिपारंभो कत्थ होइ ति पुच्छिदे उक्कस्ससंखेज्जोवट्ठिद-ओकड्डुकड्डुणभागहारपमाणेण पढमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्ठिमदोखंडं मोत्तूण उवरिम-सव्वखंडाणि सेसगुणहाणीओ च हाइयूण वंधमाणे संखेज्जभागवट्टीए आदी होइ । एत्थोवट्ठणं पुव्वं व काऊण सिस्साणं पवोहो कायव्वो । एत्तो प्पहुडि संखेज्ज-भागवट्टी चैव होऊण गच्छदि जाव ओकड्डुकड्डुणभागहारस्स एगरूवं भागहारत्तेण

असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । अब इससे आगे सर्वत्र असंख्यातगुणवृद्धिका ही क्रम चालू रहता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६७७. अब पुराने सञ्चयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धिका अन्त क्रिस स्थानमें होता है यह बतलाते हैं—जघन्य परीतासंख्यातसे अपकर्षण-उपकर्षण भागहारको भाजित करके जो लब्ध आवे उतने प्रथम गुणहानिके खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके बाकीके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका अन्तिम विकल्प होता है । यह कैसे होता है अब इसी बातको बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके नीचे इसके डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारको स्थापित करनेपर और ऊपर जघन्य परीतासंख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको गुणकाररूपपर स्थापित करनेसे वर्तमान-कालीन संचय प्राप्त होता है । किन्तु पुराने सञ्चयको लानेकी इच्छासे पंचेन्द्रियके एक समय-प्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे अधःप्रवृत्तकरणका प्रथम समयसम्बन्धी पुराना संचय प्राप्त होता है । अतः यहाँ असंख्यातभागवृद्धि समाप्त होती है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।

§ ६७८. अब संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ कहाँपर होता है यह बतलाते हैं—प्रथम गुण-हानिके उत्कृष्ट संख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यात-भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । यहाँपर पहलेके समान अपवर्तन करके शिष्योंको ज्ञान कराना चाहिये । अब इससे आगे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका एक अद्भुत भागहाररूपसे प्राप्त होनेतक

चेदइ ति । पुणो त्काले पढमगुणहाणिभोक्कड्डुकड्डुणभागहारमेतखंडाणि काऊण तत्थ हेट्टिमदोखंडाणि मोत्तणुवरिमसख्वखंडेहि सह सेसासेसगुणहाणीओ परिहाविय बंधमाणे संखेज्जगुणवट्टीए आदी जादा । तदो ओक्कड्डुकड्डुणभागहारहुगुणमेत्तं पढम-गुणहाणि खंडिय तत्थ हेट्टिमदोखंडाणि मोत्तणु उवरिमासेसखंडेहि सह सेसगुण-हाणीओ ओसरिय बंधमाणे चिराणसंचएण सह तिगुणं संचओ होइ । एवं तिगुण-चउग्गुणादिकमेण गंतुणुक्कस्ससंखेज्जगुणोक्कड्डुकड्डुणभागहारमेत्ताणि पढमगुणहाणि-खंडाणि काऊण तत्थ हेट्टिमदोखंडाणि परिवज्जिय उवरिमासेसखंडाणि सेसगुण-हाणीओ च द्विट्ठिपरिहाणि करिय बंधमाणे असंखेज्जगुणवट्टीए आदी जादा । एतो पाए उवरि सख्वद्धा संखेज्जगुणवट्टीए चेव गच्छइ । एवं द्विट्ठिबंधसहस्साणि बहूणि गंतुणु तदो उवरिमसंचयं गहिदमिच्छिय ओवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय पुणो तम्मि असंखेज्जवस्सायामेण त्कालियद्विट्ठिबंधेण भागे हिदे एयगोबुच्छ-पमाणमागच्छइ । पुणो वि अंतोमुहुत्तकालं तं चेव द्विट्ठिं बंधइ ति अंतोमुहुत्तेण तम्मि ओवट्टिदे समयपबद्धभागहारो होइ । एवमोवट्टिय इमो संचओ पुध द्ववेयव्वो ।

§ ६७६. संपहि अण्णेगं द्विट्ठिबंधं बंधमाणो तदणंतरहेट्टिमबंधादो असंखेज्ज-गुणहीणं हेट्टदो ओसरइ । एत्थोवट्टणं पुव्वं व कायव्वं । णवरि पुट्ठिवल्लसंचयादो एस संचओ असंखेज्जगुणो होइ । इमं पि संचयदव्वं पुध द्ववेयव्वं । एवमसंखेज्ज-

संख्यातभागवृद्धिका ही क्रम चालू रहता है । फिर उस समय प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर उपरके सब खण्डोंके साथ बाकीकी सब गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । फिर प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कर्षणसे दूने खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर उपरके सब खण्डोंके साथ शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर पुराने सत्त्वके साथ तिगुना संचय होता है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके तिगुने और चौगुने आदिके क्रमसे आगे जाकर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे उत्कृष्ट संख्यातगुणे खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर उपरके सब खण्ड और शेष गुणहानिप्रमाण स्थितिको घटाकर बन्ध करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । अब इससे आगे सर्वदा संख्यातगुणवृद्धिका की क्रम चालू रहता है । इस प्रकार हजारो स्थितिखण्डोंको बिताकर इससे उपरके सञ्चयको लानेकी इच्छासे भारहारके स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियके एक समप्रबद्धको स्थापित करके फिर उसमें तत्काल वैचनेवाले असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धका भाग देनेपर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक उसी स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये उसमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह समय-प्रबद्धका भागहार होता है । इस प्रकार अपवर्तित करके इस सञ्चयको अलग स्थापित करना चाहिये ।

§ ६७६. अब एक अन्य स्थितिबन्धको बाँधता हुआ इसके अनन्तरवर्ती नीचेके बन्धसे असंख्यातगुणे हीन नीचे जाकर बाँधता है । यहाँपर भी पहलेके समान अपवर्तन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वके संचयसे यह संचय असंख्यातगुणा होता है । इस सञ्चय द्रव्यको

वस्सायामाणि होऊण संखेज्जट्टिदिबंघसहस्साणि गच्छंति जाव संखेज्जवस्सट्टिदिबंघो जादो त्ति । कम्मि पुणो संखेज्जवस्सिओ ट्टिदिबंघो होइ त्ति भणिदे अंतरकरण-समत्तिपढमसमए होइ ।

§ ६८०. संपट्टि एत्थतणसंचयं गहिदुमिच्छामो त्ति ओवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्जावलियमेत्तं संपहियट्टिदिबंघायामं भागहारं ठविय भागे हिदे एयगोबुच्छमागच्छइ । एवमंतोमुहुत्तं चेव ट्टिदि बंघइ त्ति अंतोमुहुत्तेण तम्मि भागहारे ओवट्टिदे समयपबद्धभागहारो संखेज्जरूवमेत्तो होइ । एदं पि दव्वं पुध ठवेयव्वं । पुणो अण्णेगं ट्टिदिबंघं बंधमाणो पुव्विल्लवंधादो संखेज्जगुणहीणो हेट्ठदो ओसरइ । एदस्स वि पुव्वओवट्टणं कायव्वं । णवरि पुव्विल्ल-संचयादो इमो संखेज्जगुणो । एसो वि पुध ठवेयव्वो । एवमेदेण कमेण संखेज्जगुणहीणो बंधो होऊण गच्छइ जाव वत्तीसवस्समेत्तो ट्टिदिबंघो जादो त्ति । सो कम्मि होइ त्ति पुच्छिदे चरिमसमयपुरिसवेदबंधयम्मि होइ । तत्तो प्पहुट्टि ट्टिदिबंघो विसेसहीणो होऊण गच्छइ । एवं संखेज्जे ट्टिदिबंधे ओसारिय णेदव्वं जाव कोहसंजलणस्स संखेज्जंतोमुहुत्तंभहियअट्टवस्समेत्तट्टिदिबंघो त्ति । तत्तो उवरि संचयं ण लहामो । किं कारणं ? एत्तो उवरिमट्टिदिबंधाणमहियारट्टिदीदो हेट्ठा चेव पउत्तिसणादो ।

भी प्रथक् स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार संख्यात वर्षका स्थितिबन्ध प्राप्त होनेतक असंख्यात वर्षके आयामवाले संख्यात हजार स्थितिबन्ध होते हैं ।

शंका—संख्यात वर्षका स्थितिबन्ध किस स्थानमें होता है ?

समाधान—अन्तरकरणकी समाप्तिके बाद प्रथम समयमें होता है ।

§ ६८०. अब यहांका संचय लाना इष्ट है इसलिये इसके भागहारको बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका वर्तमान स्थितिबन्धके आयामवाला संख्यात आवलिप्रमाण भागहार स्थापित करके भाग देने पर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त तक ही स्थिति बाँधता है इसलिये इस भागहारमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देने पर समयप्रबद्धका भागहार संख्यात अंकप्रमाण प्राप्त होता है । इस द्रव्यको भी प्रथक् स्थापित करे । फिर एक दूसरे स्थितिबन्धको बाँधता हुआ पूर्वोक्त बन्धसे संख्यातगुणा हीन नीचे जाकर बाँधता है । इसे भी पहलेके समान भाजित करना चाहिये । किन्तु इतनी विरोधता है कि पिछले सञ्चयसे यह सञ्चय संख्यातगुणा होता है । इसे भी प्रथक् स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार वत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर बन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है ।

शंका—वत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध किस स्थानमें जाकर होता है ?

समाधान—पुरुषवेदके बन्धके अन्तिम समयमें होता है ।

इससे आगे स्थितिबन्ध उत्तरोत्तर विशेष हीन होता जाता है । इस प्रकार क्रोधसंज्वलनके संख्यात अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके प्राप्त होने तक संख्यात स्थितिबन्ध हो लते हैं । अब इससे आगे संचय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इससे ऊपरके स्थितिबन्ध अधिकृत

एवमुवरि चट्टिय अंतोमुहुत्तद्धमच्छिय तदो अद्धाक्खएण परिवदमाणणो मुहुमसांपराइयद्धं
 वोळिय अणियट्टिउवसामणो जादो । संपट्टि एवमोदरमाणस्स कम्मि पदेसे
 अहियारट्टिदिसंचयं लहइ ति पुच्छिदे जम्मि उद्देसे चट्टमाणस्स संचयवोच्छेदो
 जादो तद्दुद्देसं थोवंतरेण ण पावेइ ति ओयरमाणस्स संखेजंतोमुहुत्तद्धमहियअट्ट-
 वस्समेत्तट्टिदिबं धो जायदे । ततो प्पहुट्टि अहियारणोवुच्छा अभाणित्सेयसंचयं लहइ ।
 एवं णेदव्वं जाव असंखेज्जवस्समेत्तो ट्टिदिबं धो जादो ति । किंविहो सो असंखेज्ज-
 वस्सिओ ट्टिदिबं धो ति भणिदे तप्पाओग्गसंखेज्जरूवाणि ओकड्डुकड्डुणभागहारं च
 अपणोण्णगुणं करिय णिप्पाइदो जो रासी तत्तियमेत्तो जाव एहूरं ताव संचयं लहामो ।
 एत्तो उवरि संचयं ण लहामो, ओकड्डुकड्डुणाहिं गच्छमाणदव्वस्स ट्टिदिपरिहाणि-
 संचयं पेक्खियूण वहुत्तुवलंभादो । एवमेत्तियमेत्तकालसंचयं काऊण तदो अणियट्टि-
 अपुव्व-अधापवत्तकमेण हेट्ठा परिबदिय पुणो वि अंतोमुहुत्तेण कसायउवसामणाए
 अब्भुट्टिदो । एदिस्से वि उवसमसेहीए संचयविही पुव्वं व परूवेयव्वा । णवरि
 चट्टमाणस्स जाधे संखेज्जरूवगुणिदो कड्डुकड्डुणभागहारमेत्तट्टिदिबं धो जादो तदो
 पहुट्टि संचयं लहामो, हेट्ठा आयादो वयस्स बहुत्तोवलंभादो । सेसविहीए णत्थि

स्थितिसे नीचे ही प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ऊपर चढ़कर और अन्तर्मुहूर्त कालतक वहाँ रहकर
 फिर उपशान्तमोहका काल पूरा हो जानेके कारण वहाँसे गिरकर और सूक्ष्मसाम्परायिकके कालको
 बिताकर अनिष्टत्तिउपशामक हो जाता है ।

शंका—इसप्रकार उतरनेवाले इस जीवके विवक्षित स्थितिका सञ्चय किस स्थानमें प्राप्त
 होता है ?

समाधान—जिस स्थानमें चढ़नेवाले जीवके सञ्चयकी व्युच्छित्ति होती है उस
 स्थानको थोड़े अन्तरसे नहीं प्राप्त करता, इसलिए उतरनेवाले जीवके जब संख्यात अन्तर्मुहूर्त
 अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता है तब वहाँसे लेकर विवक्षित गोपुच्छा यथानिवेक
 सञ्चयको प्राप्त होती है ।

इसप्रकार असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्धके होने तक जानना चाहिये ।

शंका—वह असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध किस प्रकारका होता है ?

समाधान—तद्योग्य संख्यात अंकोंको और अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको परस्परमें
 गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतना इतने दूर जाने तक यह संचय प्राप्त होता है, इससे
 ऊपर सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाला द्रव्य
 स्थितिपरिहानिसे होनेवाले सञ्चयकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है ।

इस प्रकार इतने कालतक सञ्चय करके फिर अनिष्टत्तिकरणा, अपूर्वकरण और अधःप्रकरणके
 क्रमसे नीचे गिरकर फिर भी अन्तर्मुहूर्त बाद कषायोंका उपशाम करनेके लिए उच्यत हुआ । इसके भी
 उपशामश्रेणिमें सञ्चयका क्रम पहलेके समान कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़ने-
 वाले जीवके जब संख्यात अङ्कसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण स्थितिबन्ध होता है
 तब वहाँसे सञ्चय प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे आयासे व्यय बहुत पाया जाता है । इसके अतिरिक्त

णाणत्तं । एवमुवरिं चदिय हेद्दा ओदरदूणंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तं गंतूण मणुस्साउअं बंधिय कमेण कालं काऊण मणुसेसुववण्णो अंतोमुहुत्तवंधियअट्टवस्साणमुवरि सम्मत्तं संजमं च जुगवं पढिवज्जिय सव्वलहुं कसायउवसामणाए अब्भुट्ठिदो । एत्थ वि संचयविही पुवं व परूवेयव्वा । णवरि चढमाणो जाव अप्पणो चरिमट्ठिदिबंधो ताव संचयं लहदि त्ति वत्तवं । ओदरमाणो वि चढमाणस्स जम्मि चत्तारिमासमेत्तो चरिमट्ठिदिबंधो जादो तमुह्वेसमंतोमुहुत्तेण पावेदि त्ति अट्टमासमेत्तट्ठिदिबंधमाट्टवेइ ताधे पुव्विन्ल्लचरिमट्ठिदिबंधसंचयस्स अट्टमेत्तसंचयमहियारट्ठिदी लहइ । एत्तो प्पहुट्ठि पुव्वविहाणेण संचयं करेमाणो हेद्दा ओयरिय अंतोमुहुत्तेण पुणो वि उवसमसेट्ठिमारूढो । एत्थ वि पुवं व संचयं काट्ठणोदरमाणस्स अणियट्ठिअट्टाए अब्भंतरे जाधे तप्पाओग्गसंखेज्जरूवगुणिदोक्कड्ढुकड्ढुणभागहारमेत्तो ट्ठिदिबंधो जादो ताधे तदित्थट्ठिदि बंधमाणेण अहियारगोवुच्छाए उवरि पढमणिसेयं काट्ठणुवरि पदेसरयणा कदा । एदस्सुवरि असंखेज्जगुणमण्णेगं ट्ठिदिबंधं बंधमाणस्स संचयं ण लहामो, अहियारट्ठिदीए आवाहाअब्भंतरे पवेसियत्तादो । एत्तो च अधाणिसेयउक्कस्ससंचओ पुव्वसुवसमसेट्ठि चढमाणस्सोदरमाणस्स वा तम्मि भवे आवाहाअब्भंतरमपविसिय आगदो संपहि चेव पविट्ठो । कधमेदं परिच्छिज्जदे ? चढमाणोदरमाणअपुव्वकरणअणियट्ठि-

श्लोप विधिमें कोई भेद नहीं है । इस प्रकार ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्तमें यह जीव मिथ्यात्वमें गया और मनुष्यायुको बाँधकर क्रमसे मरा और मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षके बाद सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त करके अतिशीघ्र कपायाँका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । यहाँपर भी सञ्चयविधिका कथन पहलेके समान करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़नेवाला जीव अपने अन्तिम स्थितिवन्धके प्राप्त होनेतक सञ्चय करता रहता है यहाँ इतना कथन करना चाहिए । उतरनेवाला जीव भी चढ़नेवाले जीवके जिस स्थानमें चार माह प्रमाण अन्तिम स्थितिवन्ध होता है उस स्थानका अन्तर्मुहूर्तमें प्राप्त करता है, इसलिये आठ माह प्रमाण स्थितिवन्धका आरम्भ करता है । उस समय पूर्वांक अन्तिम स्थितिवन्धके सञ्चयका आधा संचय विवक्षित स्थितिमें प्राप्त होता है । अब यहाँसे आगे पूर्वविधिसे सञ्चय करता हुआ नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्त बाद फिर भी उपशमश्रेणिपर चढ़ता है । यहाँ पर भी पहलेके समान सञ्चय करके उतरनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरण कालके भीतर जब तद्योग्य संख्यात अङ्कोंसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तब उस स्थितिको बाँधनेवाला जीव अधिकृत गोपुच्छामें प्रथम निषेकका निक्षेप करके प्रदेशरचना करता है । फिर इसके ऊपर असंख्यातगुणे अन्य स्थितिवन्धको बाँधनेवाले जीवके अधिकृत स्थितिमें सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तब विवक्षित स्थिति आधाकालके भीतर पाई जाती है । यह यथानिषेकका उत्कृष्ट संचय जो जीव पहले उपशमश्रेणिपर चढ़ा था और उतरा था उसके उसी भवमें आधाधाके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त हुआ था किन्तु अब प्रविष्ट हुआ है ।

शंका—यह किस प्रमाण से जाना ?

समाधान—चढ़ते समयके और उतरते समयके अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-

करण-मुहुमसांपराइय-उवसंतकसायकालसव्वसमासादो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय पमत्ता-
पमत्तपरावत्तसहस्सवाबारेणावद्विदकालादो च मोहणीयस्स अणियट्टिजहण्णिया आवाहा
संखेज्जगुणा, तस्सेव मोहणीयस्स अपुव्वकरणम्मि उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा,
अणियट्टिम्मि मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिबंधो संखेज्जगुणो त्ति उवसमसेटीए अप्या-
वहुअं भणिहिदि । एदेण णव्वदि जहा चढमाणअपुव्वावाहादो अंतोमुहुत्तम्भहिणं
होऊण द्विदमहियारगोवुच्छं पुव्वं चढमाणोदरमाणणमावाहाअंभंतरमपचिसियूणागमणं
लहइ त्ति । एदं च सव्वं मणेणावहारिय विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि पुण्णा
मा द्विदी आदिहा त्ति सुत्तयारेण परूविदं ।

§ ६८१. एत्थ विदियाए त्ति उत्ते विदियभवग्गहणसंबंधिणो दो वि कसाउव-
सामणवारा घेपंति, तेसि जाइदुवारेणेत्यत्तावलंबणादो सुत्तस्स अंतदीवयभावेण
पयट्टतादो वा । संपहि पुव्वं परूविदासंखेज्जवस्सद्विदिबंधियस्स पढमणिसेयं लट्टणा-
वाहाअंभंतरे पचिसिय अणियट्टिअद्दाए स'खेजे भागे अपुव्वकरणं च बोलेयूण पुणो
क्रमेण पमत्तापमत्तट्टाणे अहियारगोवुच्छाए उदयमागच्छमाणे कोहस'जलणस्स
उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तय' होइ । एदं च हियए करिय तम्हि उक्कस्सयमधा-
णिसेयद्विदिपत्तयमिदि बुत्तं । तम्मि द्विदिविसेसे उदयपत्ते पयदुक्कस्ससामितं होइ त्ति

साम्पराय और उपशान्तमोह इन सब कालोंका जितना जोड़ हो उससे तथा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त
करके प्रमत्त और अप्रमत्तके हजारो परिवर्तनोंमें लगनेवाले अवस्थितकालसे मोहनीयकर्मकी
अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी जघन्य अबाधा संख्यातगुणी होती है । इससे उसी मोहनीयकी अपूर्वकरणमें
उत्कृष्ट अबाधा संख्यातगुणी होती है । इससे अनिवृत्तिकरणमें मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा होता है । इसप्रकार आगे चलकर उपशमश्रेणिमें अल्पबहुत्व कहेंगे । इसमें जाना जाता
है कि जो अधिकृत गोपुच्छा चढ़ते समय प्राप्त हुए अपूर्वकरणके अबाधाकालसे अन्तर्मुहूर्त अधिक
होकर स्थित है वह पूर्वमें जो उपशमश्रेणिपर चढ़ा और उतरा था उसके उस समय प्राप्त हुए
अबाधाकालके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त होती है । इस सब व्यवस्थाको मनमें निश्चित
करके 'विदियाए उवसामणाए अवाहा जम्हि संपुण्णा सा द्विदी आदिहा' ऐसा सूत्रकारने
कहा है ।

§ ६८१. यहाँ सूत्रमें जो 'विदियाए उवसामणाए' ऐसा कहा है सो इससे दूसरे भवसम्बन्धी
कषायोके उपशमानेके दोनों ही बार ग्रहण करने चाहिये, क्योंकि जातिकी अपेक्षा ये दोनों एक हैं,
इसलिये एक वचनरूपसे इनका कथन किया है । या यह सूत्र अन्तर्दीपकभावसे प्रवृत्त हुआ है,
इसलिये सूत्रमें एक ही वाक्य निर्देश किया है । अब पहले जो असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध
कहा है उसके प्रथम निषेकको प्राप्त कराके और अबाधाके भीतर प्रवेश कराके अनिवृत्तिकरणके
संख्यात भागोंको और अपूर्वकरणको बिताकर फिर क्रमसे जब अप्रमत्तसंयत और प्रमत्तसंयत
गुणस्थानमें अधिकृत गोपुच्छा उदयको प्राप्त होती है तब क्रोधसंवलनका यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त द्रव्य उत्कृष्ट होता है । इसप्रकार इस बातको हृदयमें करके सूत्रमें 'तम्हि उक्कस्सयमधा-
णिसेयद्विदिपत्तय' यह वचन कहा है । उस स्थितिविशेषके उदयको प्राप्त होनेपर प्रकृत उत्कृष्ट

भावत्यो ।

§ ६८२. संपहि एत्य लद्धपमाणाणुगमे भण्णमाणे पढमवारं चढमाणेण लद्धं सव्वसंचयं ठविय पुणो चउहि रूवेहि तम्हि गुणिदे एयसमयपबद्धस्स संखेज्जदि-
भागो आगच्छइ, संखेज्जवस्सियट्ठिदिबंधसंचयस्सेव पाहणियादो । एवं
कोहसंजळणस्स पयदुक्कस्ससामित्तं परुविय संपहि एसो चेव णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स वि
सामिओ होइ त्ति जाणावणद्वमुत्तरमुत्तमोइण्णं—

⊗ णिसेयट्ठिदिपत्तयं च तम्हि चेव ।

§ ६८३. तम्हि चेव ट्ठिदिविसेसे पुव्वणिरुद्धे णिसेयट्ठिदिपत्तयं पि उक्कस्सं
होइ, दोण्हमेदेसिं ट्ठिदिपत्तयाणं सामित्तं पडि विसेसादंसणादो । णवरि दच्चविसेसो
जाणयेव्वो, तत्तो एदस्स ओकद्धुक्कहुणाहि गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्वमेत्तेणाहिय-
भावोबलंभादो ।

⊗ उक्कस्सयमुदपट्ठिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६८४. सुगमं ।

स्वामित्व होता है यह इसका भावार्थ है ।

§ ६८२. अब यहाँ लब्धप्रमाणका विचार करते हैं—पहली बार उपशमश्रेणिपर चढ़ने
और उतरनेसे जो संचय प्राप्त हो उस सबको स्थापित करे । फिर उसे चारसे गुणा करनेपर एक
समयप्रबद्धका संख्यातवां भाग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धका
प्राप्त हुआ संचय ही प्रधान है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके
अब यही निषेकस्थितिप्राप्तका भी स्वामी होता है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

⊗ उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी वही स्वामी है ।

§ ६८३. जो स्थिति यथानिषेकके उत्कृष्ट स्वामित्वके समय विवक्षित थी उसी स्थिति-
विशेषमें निषेकस्थितिप्राप्त भी उत्कृष्ट होता है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितिप्राप्तोंमें स्वामित्वकी
अपेक्षा कोई भेद नहीं देखा जाता । किन्तु द्रव्यविशेषको जान लेना चाहिये, क्योंकि यथानिषेक-
स्थितिमेंसे अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययकां प्राप्त हो जाता है वह इसमें पुनः जहाँका
तहाँ आ जाता है इसलिये यथानिषेककी अपेक्षा इसमें इतना द्रव्य अधिक पाया जाता है ।

विशेषार्थ—पिछले सूत्रमें यथानिषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट स्वामी बतला आये हैं ।

उसीप्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका भी उत्कृष्ट स्वामी जान लेना चाहिये, इसकी अपेक्षा इन दोनोंमें
कोई अन्तर नहीं है यह इस सूत्रका भाव है । किन्तु इतनी विशेषता है कि यथानिषेकस्थिति-
प्राप्तका जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उससे निषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट द्रव्य अधिक होता है,
क्योंकि यथानिषेकमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जिस द्रव्यकी हानि हो जाती है इसमें वह द्रव्य
पुनः जहाँका तहाँ आ जाता है ।

⊗ उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६८४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ चरिमसमयकोहबेदयस्स ।

§ ६८५. एत्थ गुणिककम्मंसियविसेसणं फलाभावादो ण कदं । कुदो फलाभावो चे ? कोहसंजलणपोराणपढमद्विदिं सव्वं गाळिय पुणो किट्टिवेदगेण ओकड्डियुणंतरम्भंतरे गुणसेद्विआयारेण णिसित्तपढमद्विदीए समयाहियावळियचरिम-णिसेयं येत्तुण पयदसाभित्तविहाणे गुणिककम्मंसियत्तकयफलविसेसाणुवलंभादो । खवगविसेसणमेत्थाणुत्तसिद्धमिदि ण कदं । एवं कोहसंजलणस्स सव्वेसिं द्विदिपत्तयाण-मुक्कस्ससामित्तं परुविय सेससंजलणानं पि सव्वपदानमेदगेण समप्पणद्विमिदमाह—

❀ एवं माण-माया-लोहाणं ।

§ ६८६. जहा कोहसंजलणस्स चउण्हं द्विदिपत्तयाणं सामित्तविहाणं कय एवं माण-माया-लोहसंजलणानं पि कायव्वं, विसेसाभावादो । णवरि जहाणिसेय-णिसेय-द्विदिपत्तयाणमुक्कस्सदव्वसंचओ कोहसंजलणस्स बंधे वोच्छिण्णे वि लब्भइ जाव सगबंधवोच्छेदसमओ ति । अण्णं च लोभसंजलणस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं गुणिककम्मंसियस्सेव होइ, एत्तिओ चेव विसेसो ।

* जो जीव अपने अन्तिम समयमें क्रोधका वेदन कर रहा है वह उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६८५. इस सूत्रमें विशेष फल न देखकर गुणितकर्मांश यह विशेषण नहीं दिया है ।

शंका—इस विशेषणका विशेष फल क्यों नहीं है ?

समाधान—यह जीव क्षापणाके समय क्रोधसंज्वलनकी पुरानी प्रथम स्थितिका पूरीकी पूरी गजा देता है फिर कृष्टिका वेदन करते समय अन्तरकालके भीतर अपकर्षण द्वारा गुणुभ्रेणिरूपते प्रथम स्थितिकी रचना करता है । तब एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम निषेककी अपेक्षा प्रकृत स्वामित्वका विधान किया जाता है, अतः इसमें गुणितकर्मांशकृत कोई विशेष फल नहीं पाया जाता है ।

सूत्रमे क्षापक विशेषणका विना कहे ही प्रहण हो जाता है, इसलिये उसे सूत्रमे नहीं दिया है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके सभी स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके शेष संज्वलनोंके सभी पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व भी इसीके समान है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वलनके सब पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ६८६. जिसप्रकार क्रोधसंज्वलनके चारों स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार मान, माया और लोभ संज्वलनोंका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट द्रव्यका संचय क्रोधसंज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर भी अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके समय तक होता रहता है । तथा दूसरी विशेषता यह है कि लोभ संज्वलनका उदयस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य गुणितकर्मांशके ही होता है । बस इतनी ही विशेषता है ।

❁ पुरिसवेदस्स चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो ।

§ ६८७. पुरिसवेदस्स जहावसरपत्ताणि चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कस्से ति आसंक्रिय कोहसंजलणभंगो ति अण्णणा कया, विसेसाभावादो । संपहि उदयद्विदिपत्तयसामित्तगयविसेसपदुप्पायणद्वमुत्तरमुत्तारंभो—

❁ णवरि उदयद्विदिपत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स ।

§ ६८८. तत्थ चरिमसमयकोहवेदयस्स खवयस्स पयदुकस्ससामित्तं, एत्थ पुण चरिमसमयपुरिसवेदयस्स खवयस्से ति वत्तव्वं । अण्णं च गुणिदकम्मंसियत्तं पि एत्थ विसेसो, तत्थ गुणिदकम्मंसियत्तस्सानुवजोगित्तादो । एत्थ पुण गुणिदकम्मंसियत्तमुवजोगी चेव, अण्णहा पयडिगोवुच्चाए थूलभावाणुप्पतीदो ।

❁ इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं मिच्छत्तभंगो ।

§ ६८९. सुगममेदमप्पणामुत्तं ।

❁ उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च कस्स ?

§ ६९०. सुगममेदं पुच्चासुत्तं ।

❁ पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्त द्रव्योंका भंग क्रोधसंज्वलनके समान है ।

§ ६८७. अब पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोके स्वामित्वका कथन अबसर प्राप्त है, इसलिये उनका स्वामी कौन है ऐसी आशंका करके पुरुषवेदके चारो ही स्थितिप्राप्तोका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है यह कहा है. क्योंकि क्रोधसंज्वलनके कथनसे इस कथनमे कोई विशेषता नहीं है। अब उदयस्थितिप्राप्त स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ किन्तु इतनी विशेषता है कि जो गुणितकर्माश्रवाला जीव पुरुषवेदका क्षय कर रहा है वह अपने अन्तिम समयमें उसके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी है ।

§ ६८८. क्रोधसंज्वलनका कथन करते समय क्षपक क्रोधवेदके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है किन्तु यहाँ पर क्षपक पुरुषवेदके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह कहना चाहिये । दूसरे गुणितकर्माश्रवाले जीवके इसका उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यहाँ इतनी विशेषता और है । क्रोधसंज्वलनके उदयप्राप्तको गुणितकर्माश्र होनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका उपयोग नहीं है किन्तु यहाँपर गुणितकर्माश्रपना उपयोगी ही है, अन्यथा प्रकृत गोपुच्छा स्थूल नहीं हो सकती ।

❁ स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ६८९. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

❁ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६९०. यह दृच्छासूत्र सुगम है ।

❁ इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतो-
मुहुत्तस्संतो दो वारे कसाए उवसामिदा । जाधे बिदिघाए उवसामणाए
जहण्णयस्स डिदिबंधस्स पढमणिसेयट्ठिदी उदयं पत्ता ताधे अधाणिसेयादो
णिसेयादो च उक्कस्सयं डिदिपत्तयं ।

§ ६६१. एत्थ इत्थिवेदसंजदेणे ति वयणं सोदएण सामितविहाणहं, परोदएण
पयदुक्कस्ससामितविहाणोवायाभावादो । तेणेत्थिवेदसंजदेणेत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिद-
कम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो वारे कसाया उवसामिदा । एकवारं कसाए उवसामिय
पडिवदिय पुणो वि सव्वलहुं कसाया उवसामिदा ति उत्तं होइ । ण च पुरिसवेद-
पूरिदकम्मंसियत्तमेत्थाणुवजेगी, तिउक्कसंकमेणोवजोगित्तदंसणादो । ण णवुंसयवेद-
पूरियकम्मंसिएण अइप्पसंगो, असंखेज्जवस्साउएसु अधाणिसेयसंचयकालव्भंतेरे तस्स
पूरणोवायाभावादो । सेसं जहा कोहसंजलणस्स भणिदं तथा वत्तव्वं । णवरि असंखेज्ज-
वस्साउअतिरिक्खेसु मणुस्सेसु वा संखेज्जंतोमुहुत्तव्भहियसोलसवस्सेहिं सादिरेय-
दसवस्ससहस्सपरिहीणमधाणिसेयसंचयकालमणुपालिय तत्थित्थि-पुरिसवेदे पूरेयुण
तदो दसवस्ससहस्सिएसुववज्जिय कमेण मणुस्सेसु आगदो ति वत्तव्वं । जहा कोह-
संजलणस्स उवसामयसंचयाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो च कओ तथा एत्थ वि गिरवसेसो

* स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्माशको पूरण करनेवाला जो स्त्रीवेदके उदयवाला
संयत जीव अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार कषायोंका उपशम करता है और ऐसा करते
हुए जब उसके दूसरी उपशामनाके समय जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति
उदयको प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ६६१. सूत्रमें 'इत्थिवेदसंजदेण' यह वचन स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनेके लिये
दिया है, क्योंकि परोदयसे प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । ऐसा जो स्त्रीवेदके
उदयवाला संयत जीव है वह स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्माशका पूरण करके अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर दो
बार कषायोंको उपशामता है । एक बार कषायोंका उपशम करके और उपशमश्रणीसे च्युत होकर
फिर भी अतिशीघ्र कषायोंका उपशम करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यदि कहा जाय कि
पुरुषवेदके कर्माशका पूरण करना प्रकृतमें अनुपयोगी है सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि स्तितु-
संक्रमणके द्वारा उसकी उपयोगिता देखी जाती है । और ऐसा कथन करनेसे जिसने नपुंसकवेदके
कर्माशका पूरण किया है उसके साथ अतिप्रसङ्ग भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि असंख्यात वर्षकी
आयुवालोंमें यथानिषेक संचयकालके भीतर उसका पूरण करना नहीं बन सकता है । शेष कथन
क्रोधसंज्वलनके समान करना चाहिये । किन्तु प्रकृतमें इतना विशेष कहना चाहिये कि असंख्यात
वर्षकी आयुवाले तिर्यंच और मनुष्योंमें संख्यात अन्तर्मुहूर्त और सोलह वर्ष अधिक दस हजार
वर्षसे न्यून यथानिषेक संचयकालका पालन करके तथा वहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेदका पूरण करके
फिर बहसे निकलकर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर क्रमसे मनुष्य हुआ ।
क्रोधसंज्वलनका जिस प्रकार उपशामकसम्बन्धी सञ्चयका और लब्धप्रमाणका विचार किया है

कायव्बो ।

❖ उदयद्विद्विपत्तयमुक्त्स्सयं कस्स ?

§ ६६२. इत्थिवेदस्से त्ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।

❖ गुणितकम्मसियस्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स तस्स उक्त्स्सयमुदयद्विद्विपत्तयं ।

उसी प्रकार वह सबका सब विचार यहाँ भी करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ पर स्त्रीवेदके यथानिषेक स्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामीका विचार करते हुए जो यह बतलाया है कि पहले स्त्रीवेद और पुरुषवेदका पूरण करके स्त्रीवेदके उदयके साथ संयत होकर दो बार कषायोंका उपशम करते हुए जब दूसरी बार उपशामनाके समय जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है सो इसका आशय यह है कि सर्वप्रथम यह जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच या मनुष्योंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँ यथानिषेकका जितना संचयकाल है उसमेंसे संख्यात अन्तर्मुहूर्त और सोलह वर्ष अधिक एक हजार वर्षमें न्यून कालके शेष रहनेपर स्त्रीवेद और पुरुषवेदका संचय प्रारम्भ करे । और इस प्रकार वहाँकी आयु समाप्त करके दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होवे । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष व्यतीत होनेपर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त करे । फिर द्वितीयोपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करके अतिशीघ्र उपशमभेगिणपर आरोहण करे और वहाँसे च्युत होकर दूसरी बार पुनः उपशमभेगिणपर आरोहण करे । फिर क्रमसे च्युत होकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः मनुष्यायुका बन्ध करके दूसरी बार भी मनुष्य होवे और वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे क्रिया करे । इस प्रकार दूसरी बार उपशामना करनेवाले इस जीवके जब जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । यहाँ स्त्रीवेदके संचयके साथ जो पुरुषवेदके सञ्चयका विधान किया है सो इसका फल यह है कि स्तिवुक संक्रमणके द्वारा पुरुषवेदका द्रव्य स्त्रीवेदमें मिल जानेसे स्त्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उदयगत उत्कृष्ट संचय बन जाता है । यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार तो नपुंसकवेदका द्रव्य भी मिलता है पर प्रकृतमें उसका विधान क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान है कि स्त्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उत्कृष्ट सञ्चयकाल असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें व्यतीत होता है और वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, अतः ऐसे जीवके नपुंसकवेदका अधिक सञ्चय नहीं पाया जाता । यही कारण है कि प्रकृतमें इसका उल्लेख नहीं किया है । वैसे स्त्रीवेदका उदय रहते हुए इसका द्रव्य भी स्तिवुक संक्रमणके द्वारा स्त्रीवेदमें प्राप्त होता रहता है । पर उसकी परिगणना यथानिषेकस्थितिमें या निषेकस्थितिमें नहीं की जा सकती । शेष व्याख्यान संज्वलन क्रोधके समान यहाँ भी जानना चाहिये ।

❖ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी कौन है ।

§ ६६२. इस सूत्रमें अधिकारके अनुसार 'इत्थिवेदस्स' पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

❖ जो गुणितकर्मांश स्त्रीवेदी क्षपक जीव अपने उदयके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह स्त्रीवेदके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६३. एत्थ गुणिदकम्मंसियणिहेसो तप्पडिवक्खकम्मंसियपडिसेहमुहेण पयडिगोबुच्छाए थूलभावसंपायणफलो । खवयणिहेसो अक्खवययुदासपओजणो; अण्णत्थ गुणसेहीए बहुत्ताभावादो । चरिमसमयइत्थिवेदयणिहेसो तदण्णपरिहारदुवारेण गुणसेडिसीसयग्गहणहो । एवंविहस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ।

⊗ एवं णवुंसयवेदस्स ।

§ ६६४. जहा इथिवेदस्स चउण्हमुक्कस्सद्विदिपत्तयाणं सामित्तपरूवणा कया एवं णवुंसयवेदस्स वि कायव्वा, विसेसाभावादो ।

⊗ णवरि णवुंसयवेदोदयस्से त्ति भाणिवच्चाणि ।

§ ६६५. एत्थ 'णवरि' सवो विसेसद्वसूचओ । को विसेसो ? णवुंसयवेदस्से त्ति आत्तावो, अण्णहा पयदुक्कस्ससामित्तविहाणाणुववत्तीदो ।

एवमुक्कस्सद्विदिपत्तयसामित्तं समत्तं ।

⊗ जहण्णाणि द्विदिपत्तयाणि कायव्वाणि ।

§ ६६६. सुगममेदं पइज्जामुत्तं ।

§ ६६३. यहाँ सूत्रमें जो 'गुणिदकम्मंसिय' पदका निर्देश किया है सो यह इसके विपक्षी क्षुपितकर्मार्थके निषेधद्वारा प्रकृत गोपुच्छाकी स्थूलताको प्राप्त करनेके लिए किया है । 'खवय' इस पदका निर्देश अक्षपकका निराकरण करनेके लिए किया है, क्योंकि गुणश्रेणीके सिवा अन्यत्र बहुत द्रव्य नहीं पाया जाता है । तथा सूत्रमें जो 'चरिमसमयइत्थिवेदय' इस पदका निर्देश किया है सो वह स्त्रीवेदसे भिन्न वेदके निषेधद्वारा गुणश्रेणिशीर्षके ग्रहण करनेके लिये किया है । इस तरह पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जो जीव है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ।

* इसी प्रकार नपुंसकवेदका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिये ।

§ ६६४. जिस प्रकार स्त्रीवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार नपुंसकवेदका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

* किन्तु यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदके उदयवाले जीवके करना चाहिये ।

§ ६६५. इस सूत्रमें जो 'णवरि' पद है वह भी विशेष अर्थका सूचक है ।

शंका—वह विशेषता क्या है ?

समाधान—यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदवालेके ही होता है यह विशेषता है जिसका कथन यहाँ करना चाहिये, अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता है ।

इसप्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ ।

* अब जपन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका कथन करते हैं ।

§ ६६६. यह प्रतिज्ञासूत्र सुगम है ।

❁ सव्वकम्मायां पि अग्गट्ठिदियपत्तयं जहण्णयमेच्चो पदेसो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज ।

§ ६६७. कथमणंतपरमाणुसमण्णिदस्स अग्गट्ठिदिण्णियेस्स जहण्णेणेओ पदेसोव-
लंभइ ? ण, ओकड्ढुकड्ढुभावसेण सुद्धं णिन्त्लेविज्जमाणस्स एयपरमाणुमेतावद्वाणे
विरोहाभावादो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज, विरोहाभावादो ।

§ ६६८. एवं सव्वेसिं कम्माणमग्गट्ठिदिपत्तयजहण्णसामित्तमेक्कवारेण परुचिय
संपहि सेसट्ठिदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तविहाणट्ठमुवरिमं पबं धामाडवेइ ।

❁ मिच्छत्तस्स णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिविपत्तयं च जहण्णयं कस्स ?

* सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य प्रमाण एक परमाणु है और
उसका स्वामी कोई भी जीव है ।

§ ६६७. शंका—जब कि अग्रस्थितिप्राप्त निषेक अनन्त परमाणुओंसे बनता है तब फिर
उसमें जघन्यरूपसे एक परमाणु कैसे पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके कारण उन सबका अभाव होकर एक
परमाणु मात्रका सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता है । और इसका स्वामी कोई भी जीव
हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका कथन युगपत्
किया है सो इसका कारण यह है कि अपकर्षण और उत्कर्षणके कारण अग्रस्थितिमें एक परमाणु
रहकर जब वह उदयमें आता है तब यह जघन्य स्वामित्व होता है और यह स्थिति सभी कर्मोंमें
घटित हो सकती है, अतः सब कर्मोंके स्वामित्वको युगपत् कहनेमें कोई बाधा नहीं आती । यहाँ
यह शंका की जा सकती है कि अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हांता है यह तो ठीक है
पर उनका उत्कर्षण कैसे हा सकता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि बन्धके समय जिनकी जितनी
शक्तिस्थिति पाई जाती है उनका उतना ही उत्कर्षण हो सकता है । किन्तु अग्रस्थितिके कर्म
परमाणुओंमें जब एक समय मात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है तब फिर उनका उत्कर्षण
होना सम्भव नहीं है । सो इस शंकाका यह समाधान है कि अग्रस्थितिके कर्म परमाणुओंका
अपकर्षण होकर पहले उनका नीचेकी स्थितिमें निक्षेप हो जाता है और फिर उत्कर्षण हांता
है, इस विचक्षासे अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण बन जाता है । इसी कारणसे यहाँ अग्र-
स्थितिके परमाणुओंके अपकर्षण और उत्कर्षणका विधान किया है । अथवा बन्धके समय जिन
कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं हुआ उनकी अग्रस्थितिका शक्तिस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता
है, इस अपेक्षासे भी यहाँपर उत्कर्षण घटित किया जा सकता है और इसीलिए यहाँपर
उत्कर्षणका विधान किया है ।

§ ६६८. इस प्रकार सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको एक साथ
कहकर अब शेष स्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेकी रचनाका
आरम्भ करते हैं—

* मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी
कौन है ?

§ ६६६. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

⊛ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइडिस्स तप्पाओग्गुक्कस्स-
संक्लिडिस्स तस्स जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च ।

§ ७००. उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइडिस्स जहण्णयं णिसेयद्विदि-
पत्तयं होइ त्ति एत्थ सुत्तयाहिसंबंधो । सो च उवसमसम्माइही छमु जावळियासु
उवसमसम्मत्तदाए सेसासु आसाणं गंतूण मिच्छत्तं पडिवण्णो त्ति घेतवं, अण्णाहा
उक्कस्ससंक्लिसेसाभावेणोदीरणाए जहण्णत्ताणुववतीदो । सुत्ते असंतमेदं कथमुक्कम्भदे ?
ण, तप्पाओग्गुक्कस्ससंक्लिडिस्से त्ति विसेसणेण तदुवलादीदो । कथमेदस्स उवसम-
सम्माइडिपच्छायदपढमसमयमिच्छाइडिणा उवरिमद्विदीहिंतो ओकड्वियउदीरिददव्वस्स
णिसेयद्विदिपत्तयत्तं, कथं च ण भवे बंधसमयणिसेयमस्सियूण, तस्स पुब्बं
समुक्कित्तियत्तादो । ओकट्टुणाणिसेयं पि पेक्खियूण ण तस्स वि णिसेयद्विदिपत्तयत्तं
वोत्तुं जुत्तं, तहाव्वुवगमे गुणसेदिसीसओदएण णिसेयद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्त-
विहाणाइप्पसंगादो । तदो णेदं सामित्तविहाणं घट्टइ त्ति ? एत्थ परिहारो बुब्बदे—को

§ ६६६. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

⊛ जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम
समयवर्ती मिध्यादृष्टि जीव है वह निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य
स्वामी है ।

§ ७००. उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर जो प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि जीव है वह
निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी होता है इस प्रकार यहाँ पर सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध
करना चाहिये । किन्तु वह उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलिप्रमाण
कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाकर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये,
अन्यथा परिणामोंमें उत्कृष्ट संक्लेशके नहीं प्राप्त होनेसे जघन्य उदीरणा नहीं बन सकती है ।

शंका—इसका निर्देश सूत्रमें तो किया नहीं है अतः यह अर्थ यहाँ कैसे लिया जा
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्रमें जो 'तप्पाओग्गुक्कस्ससंक्लिडिस्स' यह विशेषण दिया
है सो इससे उक्त अर्थका ग्रहण हो जाता है ।

शंका—जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टि है वह
जिस द्रव्यका ऊपरकी स्थितिमेंसे अपकर्षण करके उदीरणा करता है वह द्रव्य निषेकस्थितिप्राप्त
कैसे हो सकता है और बन्धके समय निषेकमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह निषेकस्थितिप्राप्त कैसे
नहीं होता, क्योंकि पहले निषेकस्थितिप्राप्तका इसी रूपसे कथन किया है । यदि कहा जाय कि
अपकर्षणसम्बन्धी निषेककी अपेक्षासे उसे निषेकस्थितिप्राप्त कहा जायगा सो ऐसा कथन करना
भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर गुणश्रेणिशीर्षके उदयसे निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट
स्वामित्वका विधान करनेपर अतिप्रसंग दोष आता है, इसलिये यह जो उक्त प्रकारसे स्वामित्वका
कथन किया है वह नहीं बनता है ?

एवं भणइ ? उदीरणादब्धं सच्चमेव पयदजहण्णसामित्तविसईकयमिदि । किंतु तित्से चेव ढिदीए पुच्चयंवरहण्णकीरमणीए पदेसग्गमोक्कट्टियुत्तरिमिदिदीसु समयविरोहेण पक्खित्तमत्थिससेण्णिमोक्कट्टिय असंखेज्जखेणपडिभागोदयम्मि पुणो वि तत्थेव णिसिचमार्णं पयदजहण्णसामित्तविसईकयमिदि भणामो । तदो णाणंतकृतदोसो त्ति ।

§ ७०१. संपरि एत्थ पयदसामित्तपडिग्गहिय दब्धपमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—मिच्छदस्स अंतरब्भंतरिद्विद्वअहियारिदिदीए अंतरकरणपारंभसमए णाणा-समयपवद्धपडिचद्धणिए अस्सियुण तप्पाओग्गमेयसमयपवद्धमेत्तं पदेसग्गमत्थि तं पुण सच्चं णिसेयडिदिपक्खं ण होइ, किंतु हेडिभोवरिमिदिदीणमुक्कट्टुणोक्कट्टुणेहि तत्थ संगहिट्ठदब्धेण सह समयपवद्धपमार्णं होइ । पुणो केत्थियेत्तमंतरकरणपारंभे अहियारि-दिदीए णिसेयडिदिपक्खमिदि पुच्छिदे तदसंखेज्जदिभागपमाणमिदि भणामो ।

समाधान—अब इस शंकाका परिहार करते हैं—प्रकृतमें ऐसा कौन कहता है कि जितना भी उदीरणाका द्रव्य है वह सभी प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय है । किन्तु यहाँ हम ऐसा कहते हैं कि पहले अन्तर करनेके लिये उत्कीरणा करते समय उसी स्थितिके द्रव्यका उत्कर्षण करके ऊपरकी स्थितियोंमें यथाविधि निक्षेप किया गया था अब इस समय असंख्यात लोकका भाग देकर जितना लब्ध हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करके उद्यगत उसी स्थितिमें फिरसे निक्षेप करनेपर वह प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय होता है, इसलिये जो दोष पहले दे आये हैं वह यहाँ नहीं प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर मिध्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उद्यस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है । जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें ब्रह्म आवलि कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाता है और तदनन्तर मिध्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षित होकर जो मिध्यात्वका द्रव्य उद्यममें आता है वह सबसे कम होता है, इसलिये उद्य-स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी यहाँ पर बतलाया है । इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी भी जान लेना चाहिये । किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि उस समय जितना भी द्रव्य उद्यममें प्राप्त हुआ है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं कहलाता । किन्तु उसी स्थितिसम्बन्धी जितना भी द्रव्य अपकर्षित हो करके वहाँ पाया जाता है वह निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कहलाता है । यतः यह भी जघन्य द्रव्य होता है, इसलिये निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व यहाँ पर दिया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७०१. अब यहाँ पर प्रकृत स्वामित्वकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाणाका विचार करते हैं । जो इस प्रकार है—अन्तरकरणके प्रारम्भ समयमें अन्तरके भीतर जो विवक्षित स्थिति स्थित है उसमें मिध्यात्वका नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाले निषेकोकी अपेक्षा तत्रायोग्य एक समयप्रबद्ध-प्रमाण द्रव्य पाया जाता है परन्तु वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं होता है । किन्तु नीचेकी स्थितियोंका उत्कर्षण होकर और ऊपरकी स्थितियोंका अपकर्षण होकर वहाँ जो द्रव्यका संकलन होता है उसके साथ वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता है ।

शंका—जो फिर अन्तरकरणके प्रारम्भमें विवक्षित स्थितिमें निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना होता है ?

तस्सोवदृणे ठविज्जमारणे तप्पाओग्गमेयसमपबद्धं ठविय पुणो जहाणिसेयक्काळम्भंतर-
संचयमिच्छामो सि तस्सोकद्धुकङ्कणभागहारोवट्टिददिवद्वुणुणहाणिभागहारे ठविदे
जहाणिसेयसंचओ आगच्छइ । ओकङ्कणादीहि गंतूण पुणो वि एत्थेव पदिददव्वभेदस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तमिच्छिय तम्मि भागहारे किंचूणीकदे पयदणिसेयदव्वभागच्छइ ।
असंखेज्जभागूणं चेवमंतरं करेमाणेणुक्कड्डिय अणुकीरमाणीसु ड्ढिदीसु ठविददव्वं होइ ।
पुणो एदस्सोकद्धुकङ्कणभागहारे ठविदे पढमसमयमिच्छादिहिणोकड्डिददव्वं पयद-
णिसेयपडिबद्धमागच्छइ ।

§ ७०२. संपहि तप्पाओग्गुक्कस्ससत्तकिलेसेणोदीरिददव्वमिच्छामो सि असंखेज्ज-
लोगभागहारमावलिवाप गुणिदं ठवेऊणोकड्डिदे पयदजहण्णसामितपडिगगहिंयं दव्व-
मागच्छइ । एत्थ मिच्छाइद्विविद्यादिसमएसु जहण्णसामितं दाहामो सि णासंकगिज्जं,
विद्यादिसमएसु उदीरिज्जमाणबहुअदव्वपवेसे ण जहण्णत्ताणुववत्तीदो । पढम-
समयम्मि ओकड्डियूण णिसित्तदव्वं विद्यादिसमएसु उदयमागच्छमाणमत्थि चेव ।
तस्सुवरि पुणो वि पुवं तिस्से ड्ढिदीए उक्कड्डिदपदेसगमुदयावलिउम्भंतरे ओकड्डियूण

समाधान—विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य है उसका असंख्यातवाँ भागप्रमाण द्रव्य
निषेकस्थितिप्राप्त होता है ऐसा हम कहते हैं ।

अब इसको प्राप्त करनेके लिये भागहार क्या है यह बतलाते हैं—एक समय-
प्रबद्धको स्थापित करे फिर यथानिषेक कालके भीतर सञ्चय लाना इष्ट है इसलिये उसका
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजित बद्ध गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे, इससे यथा-
निषेकका सञ्चय आ जाता है । अपकर्षणादिकके द्वारा व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य फिरसे इसीमें
अर्थात् यथानिषेकके द्रव्यमें सम्मिलित हो जाता है जो कि इसके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः
उसे अलग करनेकी इच्छासे प्रकृत भागहारको कुछ कम कर देनेपर प्रकृत निषेकका द्रव्य आ जाता
है । तात्पर्य यह है कि अन्तरको करते समय उत्कर्षण द्वारा अनुत्कीर्यमाण स्थितियोंमें जो द्रव्य
प्राप्त होता है वह पूर्वोक्त द्रव्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम होता है । फिर इसका अपकर्षण-
उत्कर्षणप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके द्वारा प्रकृत निषेकसम्बन्धी
अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण होता है ।

§ ७०२. अब तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशके द्वारा उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य लाना है,
इसलिये आवलिके असंख्यातवें भागसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहारको स्थापित करके
जो द्रव्य प्राप्त हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला
द्रव्य आता है ।

शंका—यहाँ पर मिध्यादृष्टिके द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाना चाहिये ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वितीयादि समयोंमें उदीरणाके
द्वारा बहुत द्रव्यका प्रवेश हो जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य द्रव्य नहीं प्राप्त हो सकता । आशय यह
है कि जिस द्रव्यका प्रथम समयमें अपकर्षण होकर ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप हुआ है वह तो
द्वितीयादि समयोंमें उदयमें आता हुआ देखा ही जाता है । किन्तु इसके अतिरिक्त उस स्थितिके
जिस द्रव्यका पहले उत्कर्षण हुआ था उसका अपकर्षण होकर फिरसे उदयावलिके भीतर उस

संखुम्भइ । एवं च संखुम्भे एयसमयसंचयादो बुप्पहुडि समयसंचओ बहुओ होइ
 त्ति ण तत्थ छाहो अत्थि, तदो ण तत्थ सामित्तं दाउं सक्किज्जइ त्ति भावत्थो । ण
 गोबुच्छविसेसहाणिमस्सियुण पच्चवट्ठेयं, ततो विदियादिसमयसंचयस्स बहुत्तम्भव-
 गमादो । एवं चेव उदयट्ठिदिपत्तयस्स वि जहण्णसामित्तं वत्तव्वं । णवरि एदस्स
 पमाणाणुगमे भण्णमाणे एयं समयपबद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवडुगुणहाणिगुणयारे
 ठविदे विदियट्ठिदिसव्वदव्वभागच्छइ । पुणो ओकड्ठिदव्वमिच्छामो त्ति ओकड्ठुक्कहुण-
 भागहारो ठवेयव्वो । पुणो वि उदीरणादव्वमिच्छिय असंखेज्जा लोगा आवल्लिय-
 पदुप्पण्णा भागहारसरूवेण ठवेयव्व्वा । एवं ठविदे पयदजहण्णसामित्तविसईकयदव्व-
 मंगच्छइ ।

§ ७०३. एत्थ सिस्सो भणइ—उदयावल्लियचरिमसमए मिच्छाइट्ठिमि
 उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियस्सेव पयदस्स वि जहण्णसामित्तं गेण्हामो, चट्ठिद्वान-
 मेत्तगोबुच्छविसेसपरिहाणिवसे ण तत्थेव जहण्णत्तदंसणादो । एवं णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स
 वि वत्तव्वं, अण्णहा पुव्वावरविरोहदोसप्पसंगादो त्ति ? ण एस दोसां, गोबुच्छ-
 विसेसेहिंदो विदियादिसमयसंचिददव्ववहुत्ताहिप्पायावल्लवणेदेस्स पयट्ठत्तादो । ण

स्थितिमे निक्षेप होता है । और इस प्रकार निक्षेप होनेपर एक समयके सञ्चयसे दो आदि समयको
 सञ्चय बहुत होता है, इसलिये उसमें कोई लाभ नहीं है, अतः द्वितीयादि समयमें स्वामित्व
 नहीं दिया जा सकता । यदि कहा जाय कि द्वितीयादि समयमें गोपुच्छविशेषकी हानि
 देखी जाती है, इसलिये वहाँ जघन्य स्वामित्व बन जायगा सो ऐसा निश्चय करना भी
 ठीक नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषका जितना प्रमाण है इससे द्वितीयादि समयको
 सञ्चय बहुत स्वीकार किया है । प्रकृतमें जैसे निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व कहा है
 उसी प्रकार उदयस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इसका
 प्रमाण लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका डेढ़ गुणहानिप्रमाण
 गुणकार स्थापित करनेपर द्वितीय स्थितिका सब द्रव्य आ जाता है । फिर अपकर्षित द्रव्य
 जाना है, इसलिये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको स्थापित करना चाहिये । फिर भी उदीरणाको
 प्राप्त हुए द्रव्यके लानेकी इच्छासे एक आवलिसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहार स्थापित
 करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य आ
 जाता है ।

§ ७०३. शंका—यहाँपर शिष्य कहता है कि जिसप्रकार उदयावलि के अन्तिम समयमें
 मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वके उदयसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है उसीप्रकार
 प्रकृत उदयप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व भी उदयावलि के अन्तिम समयमें ही ग्रहण करना चाहिये,
 क्योंकि उदयावलिका अन्तिम समय जितना ऊपर जाकर प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविशेषोंकी
 हानि हो जानेसे उदयप्राप्त द्रव्यका जघन्यपना वहींपर देखा जाता है । इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्त
 द्रव्यका भी जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये, अन्यथा पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषोंकी अपेक्षा द्वितीयादि समयमें

पुष्पावरविरोहदोससंभवो वि, उवएसंतरपदंसणद्धं तस्य तथा परूविषयसादो ।

§ ७०४. संपहि जहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स जहण्णसायिच्चं वरूवेमाणो पुच्छाप अवसरं करेइ—

संचित होनेवाला द्रव्य बहुत होता है इस अभिप्रायसे यह सूत्र पृथक् हुआ है और इससे पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उपदेशान्तरके दिखलानेके लिये वहाँपर उस प्रकारसे कथन किया है ।

विशेषार्थ—जिस समय जो द्रव्य उदयमें आता है वही उस समय उदयसे मीनस्थिति-वाला द्रव्य माना गया है, क्योंकि वह द्रव्य उदयप्राप्त होनेसे निजीर्ण हो जानेवाला है अतः उसमें पुनः उदयकी योग्यता नहीं पाई जाती । इस प्रकार विचार करनेपर उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य और उससे मीनस्थितिवाला द्रव्य ये दोनों एक ही ठहरते हैं । यों जब ये एक हैं तो इनका जघन्य और उत्कृष्ट स्वामित्व भी एक ही होना चाहिये । अर्थात् जो उदयसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा वही उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा और जो उदयसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा वही उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा । यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि मिथ्यात्वकी अपेक्षा इन दोनोंका जघन्य स्वामी एक नहीं बतलाया है । उदयसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त करनेके समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयमें दिया है किन्तु उदयस्थिति प्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें दिया है । इसप्रकार देखते हैं कि इन दोनों कथनोंमें पूर्वापर विरोध है जो नहीं होना चाहिये था । टीकामें इस विरोधका जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि पूर्वोक्त कथन इस आशयसे किया गया है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समय तक एक समय कम उदयावलिके भीतर गोपुच्छ विशेषका जो द्रव्य संचित होता है उससे उस कालके भीतर अपकर्षण द्वारा संचित होनेवाला द्रव्य न्यून होता है । किन्तु यह कथन इस अभिप्रायसे किया गया है कि द्वितीयादि समयोंमें संचित होनेवाला द्रव्य गोपुच्छविशेषोंसे अधिक होता है, इसलिए उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है । इसप्रकार कौन कथन किस अभिप्रायसे किया गया है इसका पता भले ही लग जाता है तथापि इससे विरोधका परिहार नहीं होता है, क्योंकि आखिर यह प्रश्न तां बना ही रहता है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयके द्रव्य और वहाँसे जाकर उदयावलिके अन्तिम समयके द्रव्य इनमेंसे कौन कम है और कौन अधिक है ? इस शंकाका टीकामें जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि इस विषयमें दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं । एक सम्प्रदायके मतसे मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयमें जो द्रव्य होता है वह न्यून होता है । और दूसरा सम्प्रदाय यह है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जो द्रव्य होता है वह न्यून होता है । चूर्णिसूत्रकारके सामने ये दोनों ही सम्प्रदाय रहे हैं, इसलिये उन्होंने एकका उल्लेख मिथ्यात्वके उदयसे मीनस्थितिवाले द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको बतलाते हुए कर दिया और दूसरेका उल्लेख यहाँ किया है । सकर्मप्राभृत और श्वेतान्बर मान्य कर्मप्राभृत व पंचसंग्रह इनमें प्रथम मतका ही उल्लेख है । अर्थात् वहाँ मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उदयावलिके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व बतलाया है ।

§ ७०४. अब यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करते हुए पृच्छासुत्र कहते हैं—

❁ मिच्छुत्तस्स जहणण्यमधाणिसेयद्विद्विपत्तयं कस्स ?

§ ७०५. सुममं ।

❁ जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेष जहणणएण तसेसु आगदो । अंतोसुहुत्तेथ सम्मत्तं पडिबण्णो । बेद्धावद्विसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपाक्षियूण मिच्छुत्तं गवो । तप्पाओग्गउक्कसिया मिच्छुत्तस्स जावविया आबाहा तावदिमसमय मिच्छुत्ताइद्विस्स तस्स जहणण्यमधाणिसेयद्विद्विपत्तयं ।

§ ७०६. एदस्स सुत्तस्सत्थो बुच्चदे । तं जहा—जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेष जहणणएणे ति उत्ते एइंदिएसु द्विदिसंतकम्मं हदसमुत्पत्तियं काऊण पत्तिदोवमासंखेज्ज-भागूणसागरोवममेत्तसव्वजहण्णेइंदियद्विदिसंतकम्मेष सह गदो ति घेत्त्वं । गुणितकम्मंसियलक्खणेण तच्चिवरीयकम्मंसियलक्खणेण वा आगमणेण ण एत्थ पयोजणमत्थि । किंतु एइंदियसव्वजहण्णद्विदिसंतकम्ममेवेत्थोवजोगी, तत्थतणपदेस-थोवबहुत्तेण पओजणाभावादो ति भावत्थो । कुदो पओजणाभावो ? उवरि दूरद्धाणं गंतूण बेद्धावद्विसागरोवमावसाणे पयदसामित्तविहाणुद्दे से हेट्ठिमसंचयस्स जहाणिसेय-सरूवेणासंभवादो । एइंदियद्विदिसंतकम्मं पुण तत्थुद्देसे तदभावीकरणेण पयदोव-

❁ मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७०५. यह सूत्र सुगम है ।

❁ एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर जिसने अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया है । फिर दो छ्पासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके जो मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य मिध्यात्वकी जितनी उत्कृष्ट आबाधा हो उतने काल तक जो मिध्यात्वके साथ रहा है वह मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७०६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । जो इसप्रकार है—सूत्रमें जो 'जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेष जहणणएण' यह पद कहा है सो इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि एकेन्द्रियोंमें स्थितिसत्कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके जो जीव एकेन्द्रियका सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म जो पत्त्यका असंख्यातर्षा भाग कम एक सागर बतलाया है उसके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है । यहाँपर गुणितकर्माशकी विधिसे या क्षणितकर्माशकी विधिसे आनेसे कोई प्रयोजन नहीं है किन्तु एकेन्द्रियका सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म ही यहाँ उपयोगी है, क्योंकि ऐसे जीवके कर्म परमाणु ओढ़े हैं या बहुत इससे प्रकृतमें प्रयोजन नहीं है यह उक्त कथनका भावार्थ है ।

शंका—प्रकृतमें कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वसे क्यों प्रयोजन नहीं है ?

समाधान—क्योंकि ऊपर बहुत दूर जाकर दो छ्पासठ सागर कालके अन्तमें जहाँ प्रकृत स्वामित्वका विधान किया है वहाँ इतने नीचेके संबन्धका यथानिषेकरूपसे पाया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु उस स्थानमें जाकर एकेन्द्रियके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका अभाव कर देनेसे

जोगी, अण्णहा अंतोकोडाकोडीमेतद्विदिसंतकम्मेस्स वेद्धावद्विसागरोवमाणुव्वरि वि संभवेण जहण्णभावाणुववत्तीदो । एइंदियजहण्णद्विदिसंतकम्मेणेवे ति णावहारणमेत्थ कावच्चं, किंतु ततो समयुत्तराद्विकमेण सादरेयवेद्धावद्विसागरोवममेतद्विदिसंतकम्मे ति ताव एदेसिं पि द्विदिविषप्पाणमेत्थ महणे विरोहो णत्थि, वेद्धावद्विसागरोवमाणि गाल्लिय उव्वरि सामित्तविहाणादो । तदो उव्वलक्खणमेत्थमेदं ति घेतच्चं ।

§ ७०७. एवंविहेण द्विदिसंतकम्मेण तसेसु आगदो । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो एवं भणिदे असण्णिपंविदियपज्जत्तएसु जहण्णाउएसुववज्जिय सब्बलहुं पज्जत्तीओ समाणिय अंतोमुहुत्तेण देवाउअं बंधिय कमेण कालं कादूण देवेसुववज्जिय सब्बलहुं सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो होदूण विस्संतो विसोहिमापूरिय सम्मत्तं पडिवण्णो ति भणिदं होइ । ण च सम्मत्तुपायणमेदं णिरत्तव्वं, सम्मत्तगुणपाहम्मेण मिच्छत्तस्स बंधवोच्छेदं कादूणंतोमुहुत्तमेत्तसमयपवव्वाणं गाल्लणेण फलोवलंभादो । एदस्सेव अत्थविसेसस्स पदेसणद्वं वेद्धावद्विसागरोवमाणि सम्मत्त-मणुपालियूणे ति भणिदं । एवं वेद्धावद्विसागरोवमाणि समयाविरोहेण सम्मत्तमणुपालिय तदवसाणे मिच्छत्तं गदो, अण्णहा पयदसामित्तविहाणोवायाभावादो । एवं मिच्छत्तं

एकेन्द्रियके योग्य स्थितिसत्कर्म ही प्रकृतमें उपयोगी है, अन्यथा अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थिति-सत्कर्मका दो छथासठ सागरके ऊपर भी सम्भव होनेसे जघन्यपना नहीं बन सकता है ।

एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ ही जो त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसा यहाँ अवधारण नहीं करना चाहिये । किन्तु एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक दा छथासठ सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म तकके इन सब स्थितिचिक्त्तोंका भी यहाँपर ग्रहण करनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दो छथासठ सागर कालके चले जानेके बाद तदनन्तर स्वामित्वका विधान किया गया है, इसलिये 'एइंदिय-जहण्णद्विदिसंतकम्मेण' यह पद उक्त कथनका उपतक्षणमात्र है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

§ ७०७. इसके आगे सूत्रमें 'इस प्रकारके स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ' जो ऐसा कहा है सो इसका यह तात्पर्य है कि जघन्य आयुके साथ असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र पर्यामियोंको पूरा करके अन्तर्मुहूर्तमें देवायुका बन्ध किया और क्रमसे मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र सब पर्यामियोंको पूरा किया । फिर विश्रामके बाद विशुद्धिको प्राप्त करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । यदि कहा जाय कि इस प्रकार सम्यक्त्वको उत्पन्न कराना निरर्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे मिध्यात्वकी बन्धव्युच्छिप्ति करके मिध्यात्वके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयप्रवद्धोंको गलाने रूप फल पाया जाता है । इस प्रकार इसी अर्थविशेषको दिखलानेके लिये सूत्रमें 'वे द्धावद्विसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण' यह कहा है । इस प्रकार दो छथासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्तमें मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । यदि इस जीवकों अन्तमें मिध्यात्वमें न ले जाय तो प्रकृत स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है, इसीसे इसे अन्तमें मिध्यात्वमें ले गये हैं । इस प्रकार मिध्यात्वको प्राप्त हुए इस जीवके

पदिवणसस सामिचुहेसपहुप्पायणहुवुरिमो सुवावबो—तप्पाओग्गुक्कस्सिय-
मिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा इवादि ।

§ ७०८. एत्थ वेद्धावहीणमंते उक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तं गदस्स
पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स सामित्तमपरुविय पुणो वि अंतोमुहुत्तं गंतूण तप्पाओग्गु-
क्कस्सावाहाचरिमसमयमिच्छाइट्ठिम्मि कदमं लाहमुदिसिय जहण्णसामित्तविहाणं कीरइ
त्ति णासंकणिज्जं, तप्पाओग्गउक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गुक्कस्सट्ठिदिं
बंधमाणेणावाहाअंतरावट्ठिदाहियारट्ठिदिपदेसाणमोक्कहुक्कहुणाहिं जहण्णीकरणेण
लाहदंसणादो पढमसमयउदयगदगोबुच्छादो तप्पाओग्गुक्कस्सावाहचरिमसमयगोबुच्छस्स
चट्ठिद्वान्णमेत्तगोबुच्छविसेसेहि परिहीणत्तदंसणादो च । ण एत्थ णवकबंधसंचयस्स
संभवो, आवाहावाहिरे तस्सावट्ठणादो ।

स्वामित्वविषयक स्थानके दिखलानेके लिए 'तप्पाओग्गुक्कस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा'
इत्यादि आगेका शेष सूत्र आया है ।

७०८. यहाँ पर यदि कोई ऐसी आशंका करे कि दो छयासठ सागरके अन्तमें उत्कृष्ट
संक्लेशको पूरा करके मिध्यात्वको प्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके स्वामित्वका कथन न
करके फिर भी अन्तमुहूर्त जाकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयवर्ती मिध्यादृष्टिके
जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें क्या लाभ है सो उसकी ऐसी आशंका करना
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे दो लाभ दिखाई देते हैं । प्रथम तो यह कि तत्प्रायोग्य संक्लेशको
पूरा करके मिध्यात्वकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाले जीवके अबाधाके भीतर प्राप्त
हुई अधिकृत स्थितिके कर्मपरमाणु अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जघन्य कर दिये जाते हैं और
दूसरे प्रथम समयमें उदयको प्राप्त हुई गोपुच्छासे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयमें
जो गोपुच्छा है उसमें जितने स्थान ऊपर जाकर वह स्थित है उतने गोपुच्छविशेषोंकी हानि देखी
जाती है । इसप्रकार इन दो लाभोंको देखकर मिध्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका
विधान न करके उत्कृष्ट अबाधाके अन्तिम समयमें उसका विधान किया है । यदि कहा जाय कि
यहाँ नवकबंधका सञ्चय हो जायगा सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसका अवस्थान अबाधाके
बाहर पाया जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्वके यथानियेकस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया
है । इसकी प्रथम विशेषता यह बतलाई है कि सर्वप्रथम ऐसे जीवको एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । टीकामें इस विशेषताका खुलासा करते हुए जो
कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि त्रसोंमें उत्पन्न होनेवाला यह जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मवाला ही हो ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है किन्तु इस कथनको उपलक्षण मानकर
इससे ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका मिध्यात्व स्थितिसत्कर्म एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मसे एक समय अधिक हो, दो समय अधिक हो । इस प्रकार उत्तरोत्तर स्थिति
बढ़ाते हुए जिसका स्थितिसत्कर्म साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हो वह जीव भी यहाँ
लिया जा सकता है । इसका कारण यह बतलाया है कि जब प्रकृत जघन्य स्वामित्व साधिक
दो छयासठ सागरके बाद ही प्राप्त होता है तो इतने स्थितिसत्कर्मवाले जीवको महण करनेमें कोई

§ ७०६. एत्थ संचयाणुगमे भण्णमाणे एदमधाणिसेयद्विदिपसयजहण्णदब्बं केत्तियमेवकालसंचिदमिदि उत्ते अंतोमुहुत्तमेवकालसंचिदमिदि पेत्तब्बं । तं जहा—
 थावरकायादो भिम्तंतूण असण्णिपंचिदिपसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकाखं सागरोवमसहस्सपेत्ति
 मिच्छषट्ठिदिं बंधमाणो जहाणिसेयद्विदिसंचयं काऊण पुणो देवेसुववज्जिय तत्थ वि
 अपज्जराकालं सव्वमंतोकोडाकोटियेत्तद्विदिषंभेण संचयं करिय पुणो वि जाव सम्मच-
 न्चहणपाओगो होइ ताव संचयं करेइ ति । एवमंतोमुहुत्तसंचओ लब्भइ । उवरि
 सम्मचगुणमाहप्पेण मिच्छत्तस्स बंधवोच्छेदादो गत्थि संचओ । एदं च अंतोमुहुत्त-
 पमाणसमयपवत्तद्वद्विददब्बं सम्मत्तेण वेत्तावद्विसागरोवमाणि परिभ्रममाणस्स
 संखेज्जस्वब्भहियआवलिपत्तेदणयमेत्तगुणहाणीओ उवरिं चदिदस्स संखेज्जावलिप-
 पेत्तसमयपवत्तद्वपमाणं गत्थिसयूणेगसमयपवत्तद्वपमाणेणावचिइइ । पुणो एदं पि समय-

आपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त स्थानको प्राप्त होनेके पूर्व ही यह स्थितिसत्कर्म गल जायगा ।
 इसके बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कराकर दो छयासठ सागर कालतक यथाविधि इस जीवको
 सम्यक्त्वके साथ रखा है सो इसके दो फायदे बतलाये हैं । प्रथम तो यह कि इसके मिध्यात्वका
 न्यूनतन बन्ध नहीं होता और दूसरा यह कि यह जीव एकेन्द्रिय पर्यायके शेष रहे सञ्चयको तो
 गलाता ही है साथ ही साथ एकेन्द्रिय पर्यायके बाद त्रस पर्यायमें आनेपर जो सम्यक्त्वको प्राप्त
 करके पूर्वतक मिध्यात्वका न्यूनतन बन्ध हुआ है उसे भी यथाशक्य निर्जायी करता है । इसके बाद
 इसे मिध्यात्वमें ले जाकर मिध्यात्वका वहाँके योग्य उत्कृष्ट बन्ध करावे और आबाधाके अन्तिम
 समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व दे । मिध्यात्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें यह जघन्य
 स्वामित्व न बतलाकर जो आबाधाके अन्तिम समयमें बतलाया है सो इसके दो कारण बतलाये
 हैं । प्रथम तो यह कि मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर जितने स्थान ऊपर जाकर
 आबाधाका अन्तिम समय प्राप्त होता है उतने चयोंकी उसमें हानि देखी जाती है और दूसरा
 यह कि अपकर्षण उत्कर्षणके द्वारा भी उसका द्रव्य कम हो जाता है । इस प्रकार इन दो लाभोंको
 देखकर आबाधाके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व दिया है ।

§ ७०६. यहाँ पर सञ्चयानुगमका विचार करनेपर यह यथानिषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्य
 कितने कालमें संचित होता है ऐसा पूछनेपर अन्तर्मुहूर्त कालमें सञ्चित होता है ऐसा यहाँ प्रहण
 करना चादिये । खुलासा इस प्रकार है—स्थावरकाय पर्यायसे निकलकर असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न
 होकर अन्तर्मुहूर्त कालतक एक हजार सागरप्रमाण मिध्यात्वकी स्थितिको बाँधता हुआ यथा-
 निषेकस्थितिका संचय करता है । फिर देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँ भी अपर्याप्त कालतक अन्त-
 कोडाकोड़ीप्रमाण स्थितिबन्ध करके संचय करता है । फिर भी पर्याप्त होनेपर जबतक यह जीव
 सम्यक्त्व ग्रहणके योग्य होता है तबतक सञ्चय करता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त कालतक होनेवाला
 सञ्चय प्राप्त हो जाता है । इसके आगे सम्यक्त्वगुणकी प्रधानतासे मिध्यात्वकी बन्धव्युच्छिप्ति
 हो जाती है, इसलिये सञ्चय नहीं प्राप्त होता । अब यह जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयप्रबद्धोंका
 द्रव्य है सो इसमेंसे सम्यक्त्वके साथ दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करनेवाले और
 संख्यात अद्भुत अधिक एक आवलिके अधोच्छेदप्रमाण गुणहानियों ऊपर चढ़े हुए जीवके संख्यात
 आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंका नाश होकर एक समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहता है । फिर

पवद्धमेतसेसद्वमसखेज्जाओ गुणहाणीओ गालिय पच्छा मिच्छत्तं गंतूणावाहाचरिम-
समय समयपवद्धस्स असंखेज्जाभागमेत्तं होदूण जहाणित्सेयसरूवेण जहण्णयं होदि ति ।

§ ७१०. एदस्स भागहारपमाणाणुगमं बसइस्सामो । तं जहा—एयं समय-
पवद्धं ठविब पुणो एदस्स संखेज्जावकियगुणगारे ठविदे असण्णिपंचिदिएसु देवेसु च
उववज्जिय अंतोसुहुत्तमेत्तकालं करिय संचयदब्बं होइ । पुणो एदस्स वेज्जावट्टिसागरोवम-
ब्भंतरणाणागुणहाणि विरलिय विगं करिय अण्णोण्णम्भत्थरासिम्मि भागहारे
ठविदे गलिदावसेसद्वमभागच्छइ । पुणो एदमहियारगोबुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवट्ट-
गुणहाणिमेत्तं होइ ति दिवट्टगुणहाणिभागहारे ठविदे अहियारगोबुच्छभागच्छइ ।
इमं वेज्जावट्टिसागरोवमकालं सव्वमोक्कइणाए णासेइ ति । पुणो वि ओक्कइडुक्कइण-
भागहारवेतिभागायामेणुप्पाइदणाणागुणहाणि विरलिय विगं करिय अण्णोण्णम्भास-
णिपण्णासंखेज्जलोगमेत्तरासिम्मि भागहारसरूवेण ट्टिदे ओक्कइदसेसं जहाणित्सेय-
सरूवमहियारट्टिदिद्वमभागच्छइ । एवभागच्छइ ति कट्टु वेज्जावट्टिसागरोवमणाणा-
गुणहाणिसलागाणमण्णोण्णम्भत्थरासी दिवट्टगुणहाणी असंखेज्जलोगा च अण्णोण्ण-
पहुप्पणा संखेज्जावलयोवट्टिदा समयपवद्धस्स भागहारो भागलद्धं च पयदजहण्ण-
सामित्तविसईकयं दब्बं होइ ।

यह जो एक समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहा है सो उसमेसे भी असंख्यात गुणहानियोंको गलाकर
अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर आबाधाके अन्तिम-समयमें जो एक समयप्रबद्धका असंख्यातवाँ
भाग शेष रहता है वही यथानिवेक जघन्य द्रव्य है ऐसा यहाँ समझना चाहिये ।

§ ७१०. अब इसके भागहारके प्रमाणका विचार करते हैं । यथा—एक समयप्रबद्धको
स्थापित करके फिर इसके संख्यात आवलिप्रमाण गुणकारके स्थापित करनेपर असंखी पंचेन्द्रियों
और देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर जितने द्रव्यका संचय होता है उसका प्रमाण
आता है । फिर इसकी दो छथासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओंको विरलन करके
और दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे उक्त राशिके भागहाररूपसे स्थापित
करनेपर गलकर शेष बचे हुये द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसके अधिकृत गोपुच्छाके
बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिये डेढ़ गुणहानिको भागहार
स्थापित करनेपर अधिकृत गोपुच्छा प्राप्त होती है । दो छथासठ सागर कालतक अपकर्षणके द्वारा
इसका भी नाश होता रहता है, इसलिये फिर भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागके
भीतर जितनी नाना गुणहानियाँ प्राप्त हों उनका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा
करनेसे उत्पन्न हुई असंख्यात लोकप्रमाण राशिको भागहाररूपसे स्थापित करनेपर अपकर्षण
होनेके बाद शेष बचा हुआ यथानिवेकरूप अधिकृत स्थितिका द्रव्य आता है । इस प्रकार अधिकृत
स्थितिका द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा मानकर दो छथासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना
गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि डेढ़ गुणहानि और असंख्यात लोक इनको परस्पर
गुणा करके जो उत्पन्न हो उसमें संख्यात आवलियोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह एक समय
प्रबद्धका भागहार होता है और इस भागहारका एक समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे
उतना प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य होता है ।

§ ७११. संपहि एदेणेव गयत्थं सम्मत्तस्स वि जहाणित्सेयद्विदियत्तयजहण्ण-
सामित्तं परूवेमाणो सुत्तुत्तरं भणइ—

⊗ जेण मिच्छत्तस्स रथिदो अधाणित्सेओ तस्स चेष जीवस्स
सम्मत्तस्स अधाणित्सेओ कायव्वो । एवरि तिस्से उक्कस्सियाए सम्मत्तद्धाए
चरिमसमए तस्स चरिमसमयसम्माइडिस्स जहण्णयमधाणित्सेयद्विदियत्तयं ।

§ ७१२. जेण जीवेण मिच्छत्तस्स जहण्णओ जहाणित्सेओ पुब्बुत्तविहाणेण
विरइओ तस्सेव जीवस्स सम्मत्तस्स वि जहण्णओ जहाणित्सेओ कायव्वो । एवरि
तिस्से उक्कस्सियाए वेद्धावट्टिसागरोबमपमाणाए सम्मत्तद्धाए चरिमसमए वट्टमाणस्स
तस्स चरिमसमयसम्माइडिस्स पयदजहण्णसामित्तं कायव्वं, अण्णहा तन्विहाणोवाया-
भावादो । तं जहा—पुव्वविहाणेणागंतूण पढमद्धावट्टिं भमिय पुणो विदियद्धावट्टीए
अंतामुहुत्तावसेसे दंसणमोहक्खववणमब्भुट्टिय अहियारद्विदिदव्वं गुणसेट्ठिणिज्जराए
णासेमाणो उदयावल्लियबाहिरद्विदमिच्छत्तचरिमफालिदव्वं सव्वं समद्विदीए सम्मा-
मिच्छत्तस्सुवरि संकामिय पुणो तेणेव विहिणा सम्मामिच्छत्तचरिमफालिदव्वं पि सव्वं
सम्मत्तस्सुवरि संकामेदि । एवं तिण्हं पि जहाणित्सेयद्विदीओ एकदो कादूण पुणो

§ ७११. अब सम्यक्त्वके यथानिवेक स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व भी इसीसे गतार्थ
है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिसने मिध्यात्वका यथानिवेकप्राप्त द्रव्य किया है उसी जीवके सम्यक्त्वके
यथानिवेकका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके उत्कृष्ट
कालके अन्तिम समयमें उस सम्यग्दृष्टिके रहनेपर वह अपने अन्तिम समयमें यथा-
निवेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यका स्वामी है ।

§ ७१२. जिस जीवने मिध्यात्वका जघन्य यथानिवेक द्रव्य पूर्वोक्तविधिसे प्राप्त किया है
उसी जीवके सम्यक्त्वके जघन्य यथानिवेकद्रव्यका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता
है कि जो दो छयासठ सागरप्रमाण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल है उसके अन्तिम समयमें विद्यमान
हुए । उस सम्यग्दृष्टि जीवके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये,
अन्यथा प्रकृत जघन्य स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है । सुलासा इस प्रकार
है—कोई एक जीव है जिसने पूर्वोक्त विधिसे आकर प्रथम छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण
किया । फिर दूसरे छयासठ सागरमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर दर्शनमोहनीयकी क्षणालके लिये
उद्यत होकर वह अधिकृत स्थितिके द्रव्यका गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा नाश करने लगा और ऐसा
करते हुए वह उदयावलिके बाहर स्थित हुए मिध्यात्वकी अन्तिम फालिके सब द्रव्यको सम्यग्मि-
ध्यात्वकी समान स्थितिमें संक्रमित करके फिर उसी विधिसे सम्यग्मिध्यात्वकी अन्तिम फालिके
सब द्रव्यको भी सम्यक्त्वके ऊपर संक्रमित करता है । इस प्रकार तीनों ही कर्मोंकी यथानिवेक
स्थितियोंको एकत्रित करके फिर दर्शनमोहनीयकी क्षणालके अन्तिम समयमें उन तीनों ही

अक्खीणदंसणमोहचरिमसमयम्मि तिसु वि द्विदीसु सम्मतसरूवेणुदयमागदासु जहण्णय-
मधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं होइ, चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्सेव चरिमसमयसम्माइडि
त्ति सुत्ते विवक्खियत्तादो ।

❊ **विसेयादो च उदयादो च जहण्णयं टिविपत्तयं कस्स ?**

§ ७१३. एत्थ सम्मतस्से त्ति अहियारसंबंधो । सुगममण्णं ।

❊ **उच्चसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइडिस्स तप्पाओग्ग-
उक्कस्ससंक्खिडिस्स तस्स जहण्णयं ।**

§ ७१४. एदस्स सुत्तस्स मिच्छत्तसामित्तसुत्तस्सेव गिरवयवा अत्थपरुवणा
कायवा, विसेसाभावादो । एत्तिओ पुणो विसेसो—तत्थ पढमसमयमिच्छाइडिस्स
सामित्तं जादं, एत्थ पढमसमयवेदयसम्माइडिस्से त्ति ।

स्थितियोंके सम्यक्त्वरूपसे उदयमें आनेपर जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है । यहाँ
सूत्रमें जो 'चरिमसमयसम्माइडिस्स' पद दिया है सो इससे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला
अन्तिम समयवर्ती जीव ही विवक्षित है ।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया
है । सो इसे प्राप्त करनेके लिये और सब विधि तो मिथ्यात्वके समान है किन्तु इतनी विशेषता
है कि जब उक्त जीवको सम्यक्त्वके साथ दूसरे छयासठ सागरसे परिभ्रमण करते हुए अन्तमुहूर्त
शेष रह जाय तब उससे श्वायिकसम्यग्दर्शनकी प्राप्ति करावे और ऐसा करते हुए जब सम्यक्त्व
प्रकृतिके उदयका अन्तिम समय प्राप्त होता है तब यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य द्रव्य होता है ।

❊ **सम्यक्त्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी
कौन है ?**

§ ७१३. इस सूत्रमें 'सम्मत्तस्स' इस पदका अधिकारवश संबन्ध होता है । शेष कथन
सुगम है ।

❊ **जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशसे युक्त
प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीव है वह उक्त दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य
स्वामी है ।**

§ ७१४. जिस प्रकार मिथ्यात्वविषयक स्वामित्व सूत्रका सर्वांगीण कथन किया है उसी
प्रकार इस सूत्रका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।
किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वविषयक स्वामित्वका कथन करते समय प्रथम समयवर्ती
मिथ्यादृष्टिके स्वामित्व प्राप्त कराया गया था किन्तु यहाँ पर वह प्रथम समयवर्ती वेदक-
सम्यग्दृष्टिके प्राप्त करना चाहिये ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थिति-
प्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व लानेके लिये जीवको उपशमसम्यक्त्वसे छह आबलिकालके शेष

§ ७१५. संपहि सम्मत्तस्स जहाणिसेयद्विदिपत्तयधंणेण सम्मामिच्छत्तजहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स सामित्तरुवणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❁ सम्मत्तस्स जहणणओ जहाणिसेओ जहा परुबिओ तीए चेव परुवणाए सम्मामिच्छत्तं गब्भो । तवो उक्कस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहणणयं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ७१६. सम्मत्तस्स जहणणओ जहाणिसेओ जहापरुविदो, तीए चेव परुवणाए अण्णाहिवाए सम्मामिच्छत्तस्स वि पयदजहणणसामिओ परुवेयव्वो । णवरि सच्चुक्कस्ससम्मत्तद्धाए चरिमसमए सम्मत्तस्स णिक्कजहणणसामितं जादं । एवमेत्थ पुण विदियद्धावट्टिकालभंतरे अंतोमुहुत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तं पडिक्कणस्स तप्पाओग्गुक्कस्संतोमुहुत्तमेत्तसम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमयम्मि पयदजहणणसामितं होइ चि एत्तिओ चेव विसेसो ।

रहने पर सासादनमे ले जाकर फिर मिध्यात्वमें ले जाया गया था और तब मिध्यात्वके प्रथम समयमें उक्त जघन्य स्वामित्व प्राप्त कराया गया था। किन्तु समयक्त्वका उदय मिध्यात्व गुणस्थानमें सम्भव नहीं है, इसलिये जिस जीवको सम्यक्त्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना हो उसे उपशमसम्यक्त्वका काल पूरा होनेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशानके साथ वेदकसम्यक्त्वमें ले जाय। इस प्रकार जब यह जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब इसके उक्त वेदकसम्यक्त्वके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है। यहाँ सम्यक्त्वकी कम से कम उदीरणा प्राप्त करने के लिये तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशके साथ वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कराया गया है।

§ ७१५. अब सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वके समान ही सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व है यह बतलानेके लिये भागेका सूत्र कहते हैं—

❁ सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्ररूपणाके अनुसार कोई एक जीव सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। फिर जब वह सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें विद्यमान रहता है तब वह सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है।

§ ७१६. जिस प्रकार सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेक द्रव्यका प्ररूपण किया, न्यूनाधिकतासे रहित उसी प्ररूपणाके अनुसार सम्यग्मिध्यात्वके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके सर्वोत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ पर दूसरे ब्रह्मासठ सागरके भीतर अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुए जीवके सम्यग्मिध्यात्वके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है, इतनी ही विशेषता है।

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करने के लिये और सब विधि सम्यक्त्व प्रकृतिके समान जानना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता

❊ सम्नामिच्छुत्तस्स जहण्णयं षिसेयादो उदयादो च द्विविपत्तयं कस्स ?

§ ७१७. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❊ उबसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयसम्नामिच्छुत्तस्स तप्पाओ-गुक्कस्सत्संकिळिदस्स ।

§ ७१८. सुगममेदं सुत्तं ।

❊ अयांताणुबंचीयं षिसेयादो अयाणिसेयादो च जहण्णयं द्विविपत्तयं कस्स ?

§ ७१९. सुगममेदं पुच्छावक्कं ।

❊ जो एइवियद्विसंतकम्मेष जहण्णण पंचिविए गओ । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवएणो । अयांताणुबंधिं विसंजोइत्ता पुणो पडिवदिवो । रहस्स-

हैं कि दूसरे छथासठ सागरमें जब अन्तर्मुहूर्त काल शेष रह जाय तब इस जीवको सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें ले जाय । और वहाँ जब उसका अन्तिम समय प्राप्त हो तब प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये । सम्यग्मिध्यात्वका उदय सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये तो इसे उक्त गुणस्थानमें ले गये हैं । तथा सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जितना स्थान ऊपर जाकर प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है उतने गोपुच्छविशेषोंको कम करनेके लिये यह स्वामित्व सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें न बतलाकर उसके अन्तिम समयमें बतलाया है ।

* सम्यग्मिध्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिद्रव्यप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी कौन है ।

§ ७१७. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्पायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव है वह उक्त स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी है ।

§ ७१८. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस आशयका सूत्र अनेक बार आ चुका है, इसलिये वहाँ जिस प्रकार वर्णन किया है उसी प्रकार प्रकृतमें भी करना चाहिये । किन्तु सम्यग्मिध्यात्वका उदय मिश्र गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होने पर इस जीवको सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें ही ले जाना चाहिये, यहाँ इतनी विशेषता है । शेष कथन सुगम है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी कौन है ?

§ ७१९. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जिसने एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की ।

कालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिबएणो । वेद्धावडिसागरोवभाणि अणुपालियूण
मिच्छुत्तं गओ तस्स आबलियमिच्छाहडिस्स जहएणयं खिसेयादो अच-
खिसेयादो च डिबिपत्तयं ।

§ ७२०. एइ'दियद्विदिसंतकम्मस्स जहणयस्सेत्थाल्लंबणमजुवजोगी, अणंताणु-
वंधि विसंजोयणाए गिस्संतीकरिय पुणो पडिबादेण अइरहस्सकालपडिबडेण संजोइय
पडिबण्णवेदयसम्मत्तम्मि अंतोमुहुत्तमेत्तणवकबंधं घेतूण परिभमिदवेद्धावडिसागरोवम-
जीवम्मि सामिचविहाणादो ? ण एस दोसो, सेसकसापणं जुत्तावत्थाए अभापवत्तेण
समद्विदिसंकमबहुत्तणिवारणदं तदब्धुवगमादो । ण च समद्विदिसंकमस्स जहाणिसेय-
द्विदिपत्तयत्ताभावमवलंबिय पच्चवट्ठेयं, जहाणिसित्तसरूवेण समद्विदीए संकंतस्स
पदेसगस्स तथाभावाविरोहादो । तम्हा गुणितकम्मंसिओ वा खविदकम्मंसिओ वा
एइ'दियजहणद्विदिसंतकम्मेण सह गदो असण्णिपंचिदिएसु तप्पाओग्गजहणंतो-
मुहुत्तमेत्तजीविपमुववज्जिय समयविरोहेण देवेसुववणो । तदो अंतोमुहुत्तेण सम्मचं
घेतूण अणंताणुवंधि विसंजोइसा पुणो अंतोमुहुत्तेण संजुत्तो होदूण सव्वरहस्सेण

फिर जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर और अनन्तानुबन्धीका संयोजन करके अति शीघ्र
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर जो दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका
पालन करके मिध्यात्वमें गया । उसे वहाँ गए जब एक आवलि काल होता है तब
वह जीव जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी है ।

§ ७२०. शंका—प्रकृतमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मका आलम्बन करना
अनुपयोगी है, क्योंकि विसंयोजना द्वारा अनन्तानुबन्धीको निःसव्व करके फिर सम्यक्त्वसे
च्युत होकर और स्वल्प कालद्वारा अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होकर जो वेदकसम्यक्त्वको
प्राप्त हुआ है और जिसने अन्तर्मुहूर्तप्रमाण नवक समयप्रबद्धोंको ग्रहण करके दो छथासठ
सागर काल तक परिभ्रमण किया है उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान किया है । इस
शंकाका आशय यह है कि जब कि विसंयोजनाके बाद पुनः संयुक्त होने पर दो छथासठ
सागरके बाद प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहा है तब इस जीवको प्रारम्भमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
सत्कर्मवाला बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त
होता है तब अथःप्रवृत्तसंकमणके द्वारा इसमें शेष कषायोंका बहुत समस्थितिसंक्रमन प्राप्त हो
एतदर्थ उक्त बात स्वीकार की है ।

यदि कहा जाय कि जो शेष कषायोंका समस्थितिसंक्रमन हुआ है उसमें यथानिषेक-
स्थितिपना नहीं पाया जाता है सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यथानिषेक-
रूपसे समस्थितिमें जो द्रव्य संक्रान्त होता है उधे यथानिषेकस्थितिरूप माननेमें कोई बाधा
नहीं आती । इसलिये गुणितकर्मांश या क्षुपितकर्मांश जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थिति-
सत्कर्मके साथ तत्प्रायोग्य जघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुवाले असंज्ञियोंमें उत्पन्न होकर यथाविधि
देशोंमें उत्पन्न हुआ । तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीकी

कालेषु सम्मत्तं पट्टिवर्णो । वेद्वावट्टिसागरोवमाभि समयविरोहेण समयतमणुपालिव
तदवसाथे भिच्छत्तं गदो तस्सावलिभिमिच्छाद्विस्स पयद्वजहण्णसाभित्तं होइ । तथो
परं सेसकसायाणं समद्विदिसंक्रमेण पट्टिच्छिद्वहुदव्वावट्टायेण जहण्णमावाणुववचीदो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयं जहण्णायं कस्स ?

§ ७२१. अणंताणुबंधिग्गहणमिहाणुवट्टदे । सेसं सुगमं ।

❀ एहंदिक्कम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो । तमिह संजमासंजमं
संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसाभित्ता एहंदिप गमो ।
असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छियूण उवसामयसमयपवद्धेसु गल्लिदेसु

विसंयोजना करके फिर अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होकर अति स्वल्प कालद्वारा
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर दो छथासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन
करके अन्तमें मिथ्यात्वमें गया उसके मिथ्यात्वमें गये एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत
जघन्य स्वामित्व होता है । एक आवलि कालके बाद जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं होता इसका
कारण यह है कि एक आवलिके बाद शेष कषायोंका समस्थितिसंक्रमण होकर अनन्तानुबन्धीसे
बहुत द्रव्य प्राप्त हो जाता है, अतः जघन्यपना नहीं बन सकता ।

विशेषार्थ—यहाँ अनन्तानुबन्धीके निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त
द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है । जिसे यह स्वामित्व प्राप्त कराना है उसका प्रारम्भमें
एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाला होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इससे
विसंयोजनाकेबाद जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होता है तब इसके समस्थिति-
संक्रमण अधिक नहीं पाया जाता है । यदि ऐसा न मानकर इसके स्थितिसत्कर्मको संज्ञीके योग्य
मान लिया जाता तो इससे निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य बहुत हो जाता
और तब उक्त द्रव्यको जघन्य प्राप्त करना सम्भव न होता । यही कारण है कि प्रकृतमें एकेन्द्रियके
योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाले जीवको ग्रहण करके प्रकृत जघन्य स्वामित्व ग्रहण किया गया
है । फिर भी यह ध्यान उपलक्षणरूप है जिससे यहाँ ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका
स्थितिसत्कर्म अधिकसे अधिक साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण हो, क्योंकि जिस स्थल
पर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना है उससे एक समय कम स्थितिके रहते हुए संयुक्त
अवस्थामें समस्थितिसंक्रमणके द्वारा निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके
अधिक होनेका डर नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७२२. इस सूत्रमें 'अणंताणुबंधि' इस पदका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ उसकी
अनुवृत्ति पाई जाती है । शेष कथन सुगम है ।

❀ जो कोई एक जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें
आया । वहाँ संयमासंयम और संयमको बहुतबार प्राप्त करके और चार बार कषायों-
का उपशम करके एकेन्द्रियोंमें गया । वहाँ असंख्यात वर्षों तक रहकर उपशामक-
सम्बन्धी समयप्रवृद्धोंके गल जाने पर पंचेन्द्रियों में गया । वहाँ अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानु-

पंथिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण अणंताणुबंधि विसंजोजिता तदो संजोएऊण जहणणएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मत्तं खड्डण वेद्धावडिसागरोवमाणि अणंताणुबंधियो गालिदा । तदो मिच्छुत्तं गदो तस्स आवलियमिच्छुत्ताइडिस्स जहणणयमुदयदिविपत्तयं ।

§ ७२२. ण एत्थ पुणो वि विसंजोइज्जमाणगणमणंताणुबंधीणं खविदकम्मंसियत्तं गिरत्थयमिदि आसंक्किज्जं, संजुतावत्थाए सेसकमाएहितो पडिद्धिज्जमाण — दव्वस्स जहणणीकरणेण फल्लोवलंभादो । तम्हा जो जीवो एइंदिजहणणपदेससंतकम्मेण सह तसेसु आगदो । तत्थ य संजमासंजमादीणमसइं लंभेण चहुक्खुत्तो कसायाणमुवसामगाए च गुणसेदिसरूवेण बहुदव्वगालणं काऊण पुणो एइंदिएसु पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालमच्छिय णिग्गालिदोवसामयसमयपवद्धो समयविरोहेण पंथिदिएसुववज्जिय अंतोमुहुत्तेण सम्मतग्गहणपुरस्सरमणंताणुबंधि विसंजोइय संजुत्तो सव्वलदं सम्मत्तपडिलंभेण वेद्धावडिसागरोवमाणि अधद्विदीए गालिय पडिविदो तस्स आवलियमिच्छुत्ताइडिस्स पयदजहणणसामिचं होइ ति सिद्धं ।

बन्धीकी विसंयोजना करके तदनन्तर उससे संयुक्त हो जघन्य अन्तर्मुहूर्तकाल द्वारा फिरसे सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो क्षयासठ सागर काल तक अनन्तानुबन्धियोंको गलाता रहा । तदनन्तर मिथ्यात्वमें गया । उसे वहाँ गये जब एक आवलि काल होता है तब वह उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२२. यदि यहाँ ऐसी आशंका की जाय कि जब अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना होनेवाली है तब उन्हें पूर्वमें ही क्षपितकर्मांश बतलाना निरर्थक है तो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि संयुक्त अवस्थामें अनन्तानुबन्धीमें शेष कषायोंका द्रव्य जघन्य होकर प्राप्त होता है, इसलिये इसकी सफलता है । अतः जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया और वहाँ संयमासंयमादिककी अनेकवार होनेवाली प्राप्ति द्वारा और बार बार हुई कषायोंकी उपशामना द्वारा गुणभेदिरूपसे बहुत द्रव्यको गलाकर फिर एकेन्द्रियोंमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहकर और वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रवर्द्धोंको गलाकर यथाविधि पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको ग्रहण करके अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना की । फिर उससे संयुक्त होकर और अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करके अधःस्थिति द्वारा दो क्षयासठ सागरप्रमाण स्थितियोंको गलाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए एक आवलि कालके होने पर प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पूर्वमें क्षपितकर्मांशकी विधि बतलाकर फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कराई गई है । इस पर शंकाकारका यह कहना है कि जब आगे चलकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना होनेवाली ही है तब पूर्वमें क्षपितकर्मांशपनेके विधान करनेकी क्या सफलता है । इसका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि क्षपितकर्मांशकी विधि अन्य कषायों

❁ बारसकसायाणं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च जहण्णयं कस्स ?

§ ७२३. सुगमं ।

❁ जो उबसंतकसाओ सो मदो देवो जावो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च ।

§ ७२४. एदस्स सुत्तस्सत्थो उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियसामित्तमुत्तस्सेव वत्त्वाणेयव्वो । णवरि एत्थ पढमसमयसामित्तविहाणं साहिप्पाओ भिच्छत्तस्सेव वत्तवो ।

❁ अघाणिसेयट्ठिदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ।

§ ७२५. सुगमं ।

❁ अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णण्ण कम्मण तसेसु उववण्णो । तत्थ तप्पाओग्गुकस्सट्ठिदिं बंधमाणस्स जहेही आवाहा तावदिमसमए तस्स जहण्णयमघाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । अइक्कंते काले कम्मट्ठिदिअंतो सहं पि तसो ण आसी ।

पर भी लागू होती है । इससे यह लाभ होता है कि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होता है तब अन्य कषायोका कम द्रव्य अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित होता है । शेष कथन सुगम है ।

❁ बारह कषायोंके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ।

§ ७२३. यह सूत्र सुगम है ।

❁ जो उपशान्तकषाय जीव मरकर देव हुआ है वह प्रथम समयवर्ती देव निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२४. जिस प्रकार उदयसे म्लीनस्थितिविषयक स्वामित्व सूत्रके अर्थका व्याख्यान किया है उसी प्रकार इस सूत्रके अर्थका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु यहाँ जो प्रथम समयमें स्वामित्वका विधान किया है सो मिथ्यात्वके समान इसका अभिप्राय सहित व्याख्यान करना चाहिये ।

❁ यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७२५. यह सूत्र सुगम है ।

❁ अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ जो त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है । किन्तु इसके पूर्व कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर जो एक बार भी त्रस नहीं हुआ है । फिर वहाँ तत्पायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको वौंधते हुए जितनी आवाधा होती है उसके अन्तिम समयमें वह यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२६. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे । तं जहा—जो जीवो सन्वावासयविमुद्धीए सुहुमणिगोदेसु कम्मट्टिदिमणुपालिय अभवसिद्धियपाओगजहण्णपदेससंतकम्मं काऊण तेण सह सण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । एसो च जीवो अइक्कंते काले कम्मट्टिदीए अब्भंतरे सइं पि तसो ण भासी । कम्मट्टिदिअब्भंतरे तसपज्जायपरिणामे को दोसो चे ? एइंदियजोगादो असंखेज्जगुणतसकाइयजोगेण तत्थुप्पज्जिय बहुदव्वसंचयं कुणमाणस्स गिरुद्धट्टिदीए जहण्णजहाणिसेयाणुप्पत्तिदोसदंसणादो । तसकाइएसु आगंतूण सम्मतुप्पत्तिमंजमासंजमादिगुणसेट्ठिणिज्जरार्हिं पयदणिसेयस्स जहण्णीकरण-वावारेणच्छमाणस्स लाहो दीसइं ति णासकणिज्जं, ओकड्हुकड्हुणभागहारारदो जोग-गुणागारस्स असंखेज्जगुणत्तेण अभाणिसेयदव्वस्स तत्थ णिज्जारादो आयस्स बहुत्त-दंसणादो । तम्हा अइक्कंते काले कम्मट्टिदिअब्भंतरे तसपज्जायपडिसेहो सफळो ति सिद्धं ।

§ ७२७. एत्थ कम्मट्टिदि ति भणिदे पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण्णभहिय-एइंदियकम्मट्टिदीए गहणं कायव्वं, सेसकम्मट्टिदिअवलंबणे पयदोवजोगिफलविसेसा-णुवलंभादो । जइ एवं पच्छा त्रि तसभावपत्थगा णिरत्थिया ति ण पच्चवट्ठेयं,

§ ७२६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । जो इस प्रकार है—जो जीव समस्त आवश्यककी विशुद्धिके साथ सूदमनिगोदियोंमें कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा और अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म को प्राप्त करके उसके साथ संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । किन्तु यह जीव इसके पूर्व कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर एक बार भी त्रस नहीं हुआ ।

शंका—कर्मस्थिति कालके भीतर त्रस पर्यायके योग्य परिणामोंके होनेमें क्या दोष है ?

समाधान—एकेन्द्रियके योगसे असंख्यातगुणे त्रसकायिकोंके योगके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर बहुत द्रव्यका संचय करनेवाले जीवके विवक्षित स्थितिमें जघन्य यथानिषेककी प्राप्ति नहीं हो सकती है । यही बड़ा दांष है जिससे इस जीवको कर्मस्थिति कालके भीतर त्रसोंमें नहीं उत्पन्न कराया है । यदि ऐसी आशंका की जाय कि त्रसकायिकोंमें आकर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और संयमासंयम आदिके निमित्तसे होनेवाली गुणश्रेणिनिर्जराओंके द्वारा प्रकृत निषेकका जघन्य करनेमें लगे हुए जीवके लाभ दिखाई देता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणरूप भागहारसे योगका गुणकार असंख्यातगुणा होनेके कारण यथानिषेक द्रव्यकी वहाँ निर्जराकी अपेक्षा आय बहुत देखी जाती है, इसलिये पिछले वीते हुए समयमें कर्मस्थितिके भीतर त्रसपर्यायका निषेध करना सफल है यह सिद्ध होता है ।

§ ७२७. यहाँ सूत्रमें जो 'कर्मस्थिति' का निर्देश किया है सो उससे पत्थके असंख्यातवें भागसे अधिक एकेन्द्रियके योग्य कर्मस्थितिका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि शेष कर्मस्थितिका अबलम्बन करने पर प्रकृतमें उपयोगीरूपसे उसका कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता है । यदि ऐसा है तो एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलनेके बाद भी पीछेसे त्रसपर्यायमें उत्पन्न कराना निरर्थक है

उकङ्कणागिबंधणळाहस्स अंतोमुहुत्तपडिबद्धस्स तत्थ दंसणादो त्ति जाणावणट्टमेद-
योइण्णं 'तत्थ तप्पाओग्गमुक्कस्सट्ठिदिं बंधमाणस्स' इच्चादि । तत्थुप्पण्णपढमसमए चेव
तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिंलेसेण तप्पाओग्गुक्कस्सट्ठिदिमंतोमुहुत्तमावाहं काऊण बंधइ ।
एवं बंधमाणस्स जहेही एसा तप्पाओग्गुक्कस्सिया आवाहा तेत्थियमेत्तकालमुक्कङ्कणाए
वावदस्स तस्स तावदिमसमयतसस्स पयदजहण्णसामिच्चं होइ त्ति एसो एदस्स भावत्थो,
उवरि सामित्ताविहाणं पि तत्थ तसकाइयणवगबंधस्सावट्ठाणादो । एत्थ संचयादि-
परूवणा जाणिय कायत्वा ।

❁ एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय दुगुंझाणं ।

सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाला उत्कर्षण-
निमित्तक लाभ वहाँ देखा जाता है । और इसी बातके बतलानेके लिये सूत्रमे 'तत्थ तप्पाओग्ग-
मुक्कस्सट्ठिदि बंधमाणस्स' इत्यादि वाक्य कहा है । त्रसोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे ही तत्रपर्याग्य
उत्कृष्ट संकलेशके द्वारा तद्योग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँधता है जिसका आवाधा काल अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण होता है । इस प्रकार बन्ध करनेवाले इस जीवके तद्योग्य जितनी उत्कृष्ट आवाधा होती है
उतने काल तक उत्कर्षणमे लगे हुए इस त्रसजीवके अन्तिम समयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्व हांता
है यह इस सूत्रका भावार्थ है । इसके आगे स्वामित्वका विधान इसलिये नहीं किया है, क्योंकि
वहाँ त्रसकायिकके नवकबन्धका सद्भाव पाया जाता है । यहाँ पर संचय आदिकी प्ररूपणा
जानकर कर लेनी चाहिए ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करनेके लिये पहले
इस जीवको परपके असंख्यातत्रं भागसे अधिक कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्म एकेन्द्रियोमे
रहने दे । तथा इसका एकेन्द्रियोमे रहनेका जो काल है उस कालके भीतर इसे त्रसोंमें उत्पन्न
कराना युक्त नहीं है, क्योंकि इससे लाभके स्थानमें हानि अधिक है । लाभ तो यह है कि
अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा प्रकृत निषेकका द्रव्य उत्तरोत्तर कम होता जाता है पर जितना यह द्रव्य
कम हांता है उससे बहुत अधिक न्यूनतम द्रव्य उसमें प्राप्त होता रहता है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षण
गुणकारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा बड़ा है । इसलिये जब तक अभव्यके योग्य जघन्य द्रव्य
नहीं होता तब तक इसे एकेन्द्रियोमें ही रहने दे । फिर वहाँसे त्रसोंमें उत्पन्न करावे, यहाँ उत्पन्न
होने पर तद्योग्य उत्कृष्ट संकलेशसे तद्योग्य उत्कृष्ट आवाधा प्राप्त करनेके लिये उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
करावे । फिर आवाधाके अन्तिम समयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त करे । आवाधाके अन्तिम
समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त कानेमें दो लाभ हैं । एक तो त्रसपर्यायमें आने पर जितने
स्थान ऊपर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है उतने गोपुच्छविशेषोंकी हानि देखी जाती है
और दूसरे उदयावृत्तिके सिधा उतने काल तक उत्कर्षण होता रहता है जिससे प्रकृत निषेकका
द्रव्य उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है । इस प्रकार बारह कषायोंके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका
जघन्य स्वामी कौन है इसका विचार किया ।

❁ इसी प्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके विषयमें भी जानना
चाहिये ।

§ ७२८. जहा वारसकसायाणं तिण्ह पि द्विदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तं परुविदं तथा एदेसिं पि कम्माणं परुवेयव्वं, विसेसाभावादो ।

⊗ इत्थिण्णुं सयवेद-अरदि-सोगाणमधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं जहा संजलणाणं तथा कायव्वं ।

§ ७२९. अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णपदेससंतकम्पेण सह तसकाइपमुप्पाइय आवाहाचरिमसमए सापित्तविहाणेण विसेसाभावादो ।

⊗ जम्हि अधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेव णिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं ।

§ ७३०. सुगममेदमप्पणामुत्तं, पुच्चिन्लादो अविसिद्धपरुवणत्तादो ।

⊗ उदयद्विदिपत्तयं जहा उदयादो भीणद्विदियं जहण्णयं तथा णि रवयव्वं कायव्वं ।

§ ७३१. सुगममेदमप्पणामुत्तं ।

एवं जहण्णसामित्तं समत्तं ।

—:०—

§ ७२८. जिस प्रकार बारह कपायोके तीनों ही स्थितिप्राप्त द्रव्योके जघन्य स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार पूर्वोक्त कर्मोंके विषयमे भी जानना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

* स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका कथन संज्वलनोंके समान करना चाहिए ।

§ ७२९. क्योंकि दोनों स्थलोंमें अभवयोके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसकायिकोंमें उत्पन्न होकर आवाधाके अन्तिम समयमे स्वामित्वका विधान किया है, इसलिए उनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

* उक्त कर्मोंका जिस स्थलपर जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है उसी स्थलपर जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी कथन करना चाहिये ।

§ ७३०. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि इसका व्याख्यान पूर्वोक्त सूत्रके व्याख्यानके समान है ।

* तथा उक्त कर्मोंके जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका सम्पूर्ण कथन उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यके समान करना चाहिये ।

§ ७३१. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

इम प्रकार जघन्य स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ ।

❁ अन्पाबहुअं ।

§ ७३२. सुगममेदमहियारसंभालणमुत्तं । तं च दुविहं जहण्णुक्कस्सभेण ।
तत्थुक्कस्सन्पाबहुअपरूवणहमुत्तरमुत्तारंभो—

❁ सव्वपयडीणं सव्वत्थोवमुक्कस्सयमगगट्टिदिपत्तयं ।

§ ७३३. कुदो ? उक्कस्सजोगेण बद्धेयसमयपबद्धे अंगुलस्सासंखे० भागेण
खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो ।

❁ उक्कस्सयमघाणिसेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७३४. एत्थ गुणगारपमाणमोकडडुकडुणभागहारपदुप्पणकम्मट्टिदिणाणागुण-
हाणिसलागण्णोणवभत्थरासिमेत्तं । णवरि तिण्णिवेदचदुसंजलणार्ण तप्पाओगसंखेज्ज-
रुओवट्टिदअंगुलस्सासंखे० भागमेतो गुणगारो । एत्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं गुणगार-
विसओ पडिबोहो कायव्वो ।

❁ णिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयं विसेसाहियं ।

§ ७३५. केत्तियमेत्तेण ? ओकडडुकडुणाहिं गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्व-

* अब अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ७३२. अधिकारका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगम है । वह अल्पबहुत्व का प्रकारका
है—जघन्य और उत्कृष्ट । अब इनमेंसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

* सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७३३. क्योंकि उत्कृष्ट योगसे बाँधे गए एक समयप्रबद्धमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागका
भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उनका इसका प्रमाण है, इसलिये यह सबसे थोड़ा है ।

* उससे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७३४. यहाँपर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुईं नानागुणहानि-
शक्ताकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण
है । अर्थात् इस गुणकारके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके गुणित करनेपर उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है यह इसका भाव है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अङ्गुलके असंख्यातवें
भागमें तत्प्रायोग्य संख्यात अङ्गुलका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना तीन वेद और चार
संज्वलनोंकी अपेक्षा गुणकार होता है । यहाँपर भागहारको स्थापित करके शिष्योंको गुणकार-
विषयक ज्ञान कराना चाहिये ।

* उससे उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है ।

§ ७३५. दांका—कितना अधिक है ?

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययका प्राप्त होता है उ५ ।

मेत्तेण । तं पुण अधाणिसेयदव्वस्स असंखे० भागमेत्तं । तस्स पडिभागो ओकइहुक्कहुण-
भागहारो ।

§ ७३६. कुदो ? सञ्चेसिं कम्माणं गुणसेडिगोवुच्चोदएण पत्तकस्सभावत्तादो ।
एत्थ गुणगारो सम्मतस्स अंगुलस्स असंखेदिभागो । लोइसंजळजस्स सँखेज्जखुवगुणिद-
दिवइगुणहाणिमेत्तो । तिणिसंजलण-तिवेदानं तप्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तो ।
सेसकम्माणमसंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तो । एत्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं पडिचोहो
कायव्वो ।

एवमुक्कस्सप्पावहुअं समत्तं ।

✽ जहण्णयाणि कायव्वणि ।

§ ७३७. एत्तो उवरि जहण्णद्विदिपत्तयाणमप्पावहुअं कायव्वमिदि भणिदं
होइ ।

✽ सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहण्णयमग्गद्विदिपत्तयं ।

§ ७३८. किं कारणं ? एगपरमाणुपमाणत्तादो ।

फिरसे वहाँ प्राप्त होनेपर जितना इसका प्रमाण है उतना अधिक है किन्तु यह यथानियेकस्थितिप्राप्त
द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । उसका प्रतिभाग अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार है ।

✽ उससे उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७३६. क्योंकि सभी कर्मोंके गुणश्रेणिगोपुच्छाके उदयसे इस उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति
होती है, इसलिए यह उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्तसे भी असंख्यातगुणा है । यहाँ सम्यक्त्वका गुणकार
अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । लोभसंज्वलनका गुणकार संख्यात अङ्गुलसे गुणित डेढ़
गुणदानिप्रमाण है । तीन संज्वलन और तीन वेदोंका गुणकार तद्योग्य पल्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । तथा शेष कर्मोंका गुणकार पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । यहाँ पर
भागहारका स्थापित करके शिष्योंको प्रतिबोध कराना चाहिये ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

✽ अब जघन्य अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये ।

§ ७३७. अब इससे आगे जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये,
यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

✽ मिथ्यात्वका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७३८ क्योंकि इस प्रमाण एक परमाणु है ।

❊ जहृणयं णिसेयट्टिदिपत्तयं अणंतगुणं ।

§ ७३६. कुदो ? अणंतपरमाणुपमाणत्तादो ।

❊ जहृणयमुदयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७४०. कथमेदेसिमुवसमसम्माइट्टिपच्छायदपढमसमयमिच्छाइट्टिणोदीरिदा-संखेज्जलोगपट्टिभागियदव्वपट्टिबद्धत्तेण समाणसामियाणमण्णोणमवेक्खिय असंखेज्ज-गुणहीणाहियभावो ति णासंकणिज्जं, समाणसामियत्ते वि दव्वबिसेसावलंबणेण तहाभावाविरोहादो । तं जहा—णिसेयट्टिदिपत्तयस्स अहियारट्टिदीए अंतरं करेमाणेण उवरिमुक्कट्टिदपदेसा पुणो संकिलेसवसेणासंखेज्जलोगपट्टिभाएणोदीरिदा सामित्त-विसईक्या उदयादो जहृणयट्टिदिपत्तयस्स पुण अंतोकोटाकोटीमेत्तोवरिमासेसट्टिदीहितो ओकट्टिय उदीरिदसव्वपरमाणु सामित्तपट्टिगहिया तदो जइ वि एकम्मि चे उद्वेसे दोण्हं सामित्तं संजादं तो वि णाणेयणिसेयपट्टिबद्धत्तेण असंखेज्जगुणहीणाहियभावो ण विरुद्धे । एत्थ गुणयारोक्कट्टिगुणभागहारोवट्टिदिवट्टुगुणहाणिवग्गमेत्तो ।

* उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है ।

§ ७३९. क्योंकि इसका प्रमाण अनन्त परमाणु है ।

* उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४०. शंका—जब कि उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात लोकका भाग देकर जितने द्रव्यकी उदीरणा करता है उसकी अपेक्षा इन दोनोंका स्वामी समान है तब फिर इनमेसे एकका असंख्यातगुणा हीन और दूसरेको असंख्यातगुणा अधिक क्यों बतलाया है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि इनका स्वामी समान है तथापि द्रव्यविशेषकी अपेक्षा ऐसा होनेमें कोई विरोध नहीं आता । खुलासा इस प्रकार है—निषेकस्थितिप्राप्तकी अपेक्षासे अन्तरको करनेवाले जीवके द्वारा विवक्षित स्थितिके जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करके ऊपर निक्षेप किया है उनमेसे संक्लेशके कारण असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने वे ही कर्मपरमाणु उदीर्ण होकर स्वामित्वके विषयभूत होते हैं । किन्तु जघन्य उदयस्थितिप्राप्तकी अपेक्षा तो अन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण ऊपरकी सब स्थितियोंमेसे अपकर्षण होकर उदीरणाको प्राप्त हुए सब परमाणु स्वामित्वरूपसे स्वीकार किये गये हैं, इसलिये यद्यपि एक ही स्थलपर दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामित्व होता है तो भी एक स्थितिप्राप्तमे नाना निषेकोंके कर्मपरमाणु हैं और दूसरेमें एक निषेकके कर्मपरमाणु हैं, इसलिए इनके परस्परमें असंख्यातगुणे अधिक और असंख्यातगुणे हीन होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यहाँ पर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका बड़े गुणहानिके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण है ।

❀ जहणणयमधारिसेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७४१. एत्थ गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा तप्पाओग्गासंखेज्जरूवाणि वा । कथमसंखेज्जलोगमेत्तगुणयारूपत्ती ? उच्चदे—उदयट्टिदिपत्तयस्स जहणणदव्वे इच्छिज्जमाणे दिवड्डगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धे ठविय तेमिं ओकइड्डुकड्डुणभागहारेण पटुप्पण्णा असंखेज्जा लोगा भागहारसरूवेण ठवेयव्वा । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स पुण जहणणदव्वं संखेज्जावलियमेत्तसमयपवद्धे अंगुलस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तं होइ । एदस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे संखेज्जावलिय-मेत्तसमयपवद्धाणं वेद्धावट्टिसागरोवमभंतरणाणागुणहाणिं विरलिय विगुणिय अण्णेण्ण-वत्थरासिम्मि भागहारत्तेण ठविदे गल्लिदसेसदव्वमागच्छइ । एवं च सव्वदव्वसुववरिम-अंतोकोडाकोटीमेत्तट्टिद्विसेसेसु विहज्जिय ट्टिदमधारिसेयजहणणसाभित्तिसईकय-गोवुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवड्डगुणहाणियमाणं होइ त्ति दिवड्डगुणहाणीं वि एदस्स भागहारो ठवेयव्वा । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । पुणो एदस्मि पुच्चिन्लदव्वे-णोवट्टिदे असंखेज्जा लोगा गुणगारो आगच्छइ ।

७४२. अहवा जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स वि असंखेज्जा लोगा भागहारो ।

❀ उमसे जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४१. यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्क है ।

शंका — असंख्यात लोकप्रमाण गुणकारकी उत्पत्ति कैमे होती है ?

समाधान—उदयस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यको लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानिप्रमाण समय-प्रबद्धोंको स्थापित करके उनके भागहाररूपसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके द्वारा उत्पन्न किये गये असंख्यात लोकोंको स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । किन्तु यथानिपेकस्थितिप्राप्तका जघन्य द्रव्य तो संख्यात आवलिप्रमाण समय-प्रबद्धोमे अङ्कुलके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जा एक भाग आवे उतना होता है । इसका भागहार स्थापित करनेपर संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोंके भागहाररूपसे दो छयासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो अन्योन्याभ्यस्त राशि उत्पन्न हांती है उसे स्थापित करनेपर गलकर जो द्रव्य शेष रहता है उसका प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार ऊपरके अन्तःकोड्डाकोड्डी प्रमाण स्थितिनिशेषोंमें जो सब द्रव्य विभक्त होकर स्थित है उसके यथानिपेकके जघन्य स्वाभित्तिके विषयभूत गोपुच्छके बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिये डेढ़ गुणहानिको भी इसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । फिर इसमें पूर्वोक्त द्रव्यका भाग देनेपर असंख्यात लोकप्रमाण गुणकार प्राप्त हांता है ।

§ ७४२. अथवा यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी असंख्यात लोकप्रमाण भागहार होता है,

कुदो ? पुव्वपरुविदभागहारे संते पुणो वि ओकङ्कणमस्सियुणुप्पणवेद्धावट्टिसागरोवम-
ब्धंतरणाणाणुणहाणिसळागाणमसंखेज्जपळ्ळिदोवमपडमवग्गमूलमेत्ताणं अप्पणोण्णवभत्थ-
रासीए असंखेज्जलोगपमाणाए भामहारत्तेण पवेसदंसणादो । तदो पदम्मि हेट्टिमरासिणा
ओवट्टिदे तप्पाओग्गासंखेजरूवमेत्तो गुणगारो आगच्छदि ति घेत्त्वं ।

❊ एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छुत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-रह-भय-
दुगुंङ्काणं ।

§ ७४३. जहा मिच्छत्तस्स जहण्णओ अप्पावहुगआलावो कओ तहा सम्मत्तादि-
पयटीणं पि अणणाहिओ कायव्वो, विसेसाभावादो । णवरि सामित्ताणुसारेण
गुणयारविसेसो जाणियव्वो ।

❊ अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवं जहणणयमग्गट्टिदिपत्तयं ।

§ ७४४. सुगमं ।

❊ जहणणयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमणंतगुणं ।

§ ७४५. एत्थ वि कारणं सुगमं ।

❊ जहणणयं णिसेयट्टिदिपत्तयं विसेसाहियं ।

क्योंकि पूर्वोक्त भागहारके रहते हुए फिर भी अपकर्षणकी अपेक्षा दो छयासठ सागरके भीतर
उत्पन्न हुई पत्थके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण नाना गुणहानिरालाकाओकी असंख्यात
लोकप्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशिका भागहाररूपसे प्रवेश देखा जाता है । फिर इसे नीचेकी
राशिसे भाजित करनेपर तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्कप्रमाण गुणकार आता है ऐसा यहाँ ग्रहण
करना चाहिए ।

❊ इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह काषाय, पुरुषवेद, हास्य,
रति, भय और जुगुप्सा इनका भी जघन्य अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

§ ७४३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अल्पबहुत्वका कथन किया है न्यूनाधिकताके
बिना उसी प्रकार सम्यक्त्व आदि प्रकृतियोंके अल्पबहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि
मिथ्यात्वके कथनसे इनके कथनमे कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सबकी
अपेक्षा गुणकार एकसा नहीं है इसलिए अपने अपने स्वामीके अनुसार गुणकार जानना चाहिये ।

❊ अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७४४. इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

❊ उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है ।

§ ७४५. यहाँ जो जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यसे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको
अनन्तगुणा बतलाया है सो इसका कारण सुगम है ।

❊ उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है

§ ७४६. एदं पि सुगमं, समाणसामियत्ते वि दव्वगयविसेसमस्सियुण विसेसाहिय-
भावस्स पुव्वमेव समत्थियत्तादो ।

❀ जहण्णयमुदयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्ज गुणं ।

§ ७४७. कुदो ? सामित्तभेदाभावे वि सेसकसाएहितो पडिच्छियुण्णुक्कट्ठिद-
दव्वमाहप्पेण पुव्विज्जादो एदस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो । एत्थ गुणगारो असंखेज्जा
लोगा ।

❀ एवमित्थिवेद-णुत्तुंसयवेद-अरदि-सोगाणं ।

§ ७४८. जहा अणंताणुवंधिच्चउक्कस्स जहण्णट्ठिदिपत्तयाणमप्पाबहुअं परूविथं
एवं पयदकम्ममाणं पि परूवेयव्वं; दव्वट्ठियणयावलंबणे विसेसाणुवलंबादो । पज्जवट्ठियणए
पुण अवलंबिज्जमाणे सामित्ताणुमारेण गुणयारविसेसो जाणियव्वो ।

एवमप्पाबहुअं समत्तं । तदो द्विविद्यं ति पदस्स विहासा समत्ता । एत्थेव
'पयडी य मोहणिज्जा' एदिस्से मूळगाहाए अत्थो समत्तो ।

तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता ।

§ ७४६. यह सूत्र भी सुगम है । यद्यपि यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी
एक है तथापि द्रव्यगत विशेषताकी अपेक्षासे विशेषाधिकता होती है इसका समर्थन पहले ही
कर आये हैं ।

❀ उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४७. क्योंकि यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी एक है
तथापि शेष कषायोंसे संक्रमित होकर उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यके माहात्म्यसे पूर्वकी अपेक्षा
यह असंख्यातगुणा देखा जाता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है ।

❀ इसीप्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकका अल्पबहुत्व जानना
चाहिये ।

§ ६४८. जिसप्रकार अनन्तानुबन्धियोंके चारों जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका अल्पबहुत्व कहा
है इसीप्रकार प्रकृत कर्मोंके जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका अल्पबहुत्व भी कहना चाहिये, क्योंकि
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं पायी जाती । पर्यायार्थिक नयका
अवलम्बन करने पर तो स्वामित्वके अनुसार गुणकारविशेष जानना चाहिये ।

इसप्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर 'द्विविद्यं' पदका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ ।
तथा यहाँ पर 'पयडी य मोहणिज्जा' इस मूल गाथाका अर्थ समाप्त हुआ ।

इसप्रकार चूलिका सहित प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई ।

१ पदेसविहत्तिचुगिणसुत्ताणि

पुस्तक ६

'पदेसविहत्ती दुविहा—मूलपयडिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिपदेसविहत्ती च । तत्थ मूलपयडिपदेसविहत्तीए गदाए 'उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्तं । 'मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्ती कस्स ? वादरपुढविजीवंसु कम्मट्टिदिमिच्छदाउओ तदो उवट्टिदो तसकाए वेसागरोवमसहस्साणि सादिरेयाणि अचिच्छदाउओ अपचिच्छमाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि दोभवग्गहणाणि तत्थ अपचिच्छमे तेत्तीसं सागरोवमिए णेरइयभवग्गहणे चरिमसमयणेरइयस्स तस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । 'एवं वारसकसाय-द्धण्णोकसायाणं । 'सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ को होदि ? गुणिदकम्मसिओ दंसणमोहणीयक्खवओ जम्मि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ । 'सम्मत्तस्स त्रि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छत्तं समत्ते पक्खित्तं तस्स सम्मत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं । 'णउंसयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मसिओ ईमाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । 'इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मसिओ असंखेज्जवस्साउए गदो तम्मि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण जम्मि पूरिदो तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । 'पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मसिओ ईसाणेसु णउंसयवेदं पूरेदूण तदो कमेण असंखेज्जवस्साउएसु उववण्णो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेण इत्थिवेदो पूरिदो । तदो सम्भत्तं लब्धिदूण मदो पलिदोवमट्टिदीओ देवो जादो । तत्थ तेणेव पुरिसवेदो पूरिदो । तदो चुदां मणुसो जादो सब्वलहुं कसाए खवेदि । तदो णउंसयवेदं पक्खिविदूण जम्मि इत्थिवेदो पक्खित्तो तस्समए पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । 'तेणेव जाधे पुरिसवेद-द्धण्णोकसायाणं पदेसग्गं कोधसंजलणे "पक्खित्तं ताधे कोधसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । "एसेव कोधो जाधे माणे पक्खित्तो ताधे माणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । "एसेव माणो जाधे मायाए पक्खित्तो ताधे मायासंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एसेव माया जाधे लोभसंजलणे पक्खित्ता ताधे लोभसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

(१) पृ० २ । (२) पृ० ६० । (३) पृ० ७२ । (४) पृ० ७६ । (५) पृ० ८१ । (६) पृ० ८८ । (७) पृ० ९१ । (८) पृ० ९६ । (९) पृ० १०४ । (१०) पृ० ११० । (११) पृ० १११ । (१२) पृ० ११३ । (१३) पृ० ११४ ।

'मिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंतकम्मिओ को होदि ? सुहुमणिगोदेसु कम्महिदि-
मच्छिदाउओ तत्थ सव्वबहुआणि अपज्जत्तभवग्गहणाणि दीहाओ अपज्जत्तद्धाओ
तप्पाओग्गजहण्णयाणि जोगहाणाणि अभिक्खं गदो । तदो तप्पाओग्गजहण्णियाए
वट्टीए वट्टिदो । जदा जदा आउअं बंधदि तदा तदा तप्पाओग्गउक्कस्सएसु जोगहाणेसु
वट्टिदि हेट्टिणीं हिदीणिं णिसेयस्स उक्कस्सपदेसतप्पाओग्गं उक्कस्सविसोहिमभिक्खं
गदो । जाधे अबवसिद्धियपाओग्गं जहण्णगं कम्मं कदं तदो तसेसु आगदो । संजमा-
संजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारे कसाए उवसाभित्ता तदो
वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेदूण तदो दंसणमोहणीयं खवेदि । अपच्छिम-
हिदिखंडयमविणिज्जमाणयमवणिदुमुदयावलियाए जं तं गळमाणं तं गलिदं । जाधे
एक्किस्से हिदीए दुसमयकालहिदिगं सेसं ताधे मिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं ।
'तदो पदेसुत्तरं दुपदेसुत्तरमेवमणंताणि हाणाणि तम्मि हिदिविसेसे । 'केण कारणेण ?
जं तं जहाक्खयागदं तदो उक्कस्सयं पि समयपबद्धमेत्तं । 'जो पुण तम्मि एक्कम्मि
हिदिविसेसे उक्कस्सगस्स विसेसो असंखेज्जा समयपबद्धा । 'तस्स पुण जहण्णयस्स
संतकम्मस्स असंखेज्जदिभागो । 'एदेण कारणेण एयं फइयं । 'दोसु हिदिविसेसेसु
विदियं फइयं । 'एवभावलियत्तमयुणमेत्ताणि फइयाणि । 'अपच्छिमस्स हिदिखंडयस्स
चरिमसमयजहण्णफइयमादिं कादूण जाव मिच्छत्तस्स उक्कस्सं ति एदमेगं फइयं ।

'सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? तथा चेव सुहुमणिगोदेसु
कम्महिदिमच्छिदूण तदो तसेसु संजमासंजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लद्धूण चत्तारि
वारे कसाए उवसायेदूण वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेदूण मिच्छत्तं गदो ।
दीहाए उव्वेळणद्धाए उव्वेळिदं तस्स जाधे सव्वं उव्वेळिदं उदयावलिया गलिदा
जाधे दुसमयकालहिदियं एक्कम्मि हिदिविसेसे सेसं ताधे सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णं
पदेससंतकम्मं । 'तदो पदेसुत्तरं । 'दुपदेसुत्तरं । 'णिरंतराणि हाणाणि उक्कस्सपदेस-
संतकम्मं ति । 'एवं चेव सम्मतस्स वि । 'दोण्हं पि एदेसि संतकम्माणमेगं फइयं ।

'अट्टण्हं कसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? अबवसिद्धियपाओग्ग-
जहण्णयं काऊण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लद्धूण
चत्तारिवारे कसाए उवसाभिदूण एइदिए गदो । तत्थ पळिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-
मच्छिदूण कम्मं हदसमुपपत्तियं कादूण कालं गदो तसेसु आगदो कसाए खवेदि

(१) पृ० १२४-१२५ । (२) पृ० १५६ । (३) पृ० १५७ । (४) पृ० १५८ । (५) पृ० १६२ ।
(६) पृ० १६३ । (७) पृ० १६४ । (८) पृ० १६६ । (९) पृ० १६७ । (१०) पृ० २०२-२०३ । (११) पृ०
२१७ । (१२) पृ० २१८ । (१३) पृ० २४४ । (१४) पृ० २४५ । (१५) पृ० २४८ ।

अपच्छिमे द्विद्विखंडे अवगदे अधद्विदिगलणाए उदयावलियाए गलतीए एकस्से द्विदीए सेसाए तम्मि जहण्णयं पदं । 'तदो पदेसुत्तरं । गिरंतराणि द्वाणाणि जाव एगद्विद्विखंडेसस्स उक्कस्सपदं । एदमेगफइयं । एदेण कमेण अद्वण्हं पि कसायाणं समययुणावलिमेषाणि फइयाणि उदयावलियादो । 'अपच्छिमद्विद्विखंडयस्स चरमसमयजहण्णपदमार्दि कादूण जावुक्कस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फइयं ।

'अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तमंगो । 'णवुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? तथा चेव अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णेण संतकम्मेण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लइधूण चत्ताग्गि बारे कसाए उवसामिदूण तदो तिपलिदोवमिएसु उववण्णो । तत्थ अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए ति सम्मत्तं घेतूण वेळावद्वि-सागरीवमाणि सम्मत्तद्धमणुपालिदूण मिच्छत्तं गंतूण णवुंसयवेदमणुस्सेसु उववण्णो । सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खवेदुमाहत्तो । तदो तेण अपच्छिमद्विद्विखंडयं संक्खुहमाणं संक्खुद्धं । उदओ णवरि गिरवसेसो तस्स चरिमसमयणवुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेससंत-कम्मं । 'तदो पदेसुत्तरं । गिरंतराणि द्वाणाणि जाव तप्पाओग्गो उक्कस्सओ उदओ ति । 'एदमेगं फइयं । 'अपच्छिमस्स द्विद्विखंडयस्स चरिमसमयजहण्णपदमार्दि कादूण जाव उक्कस्सपदेससंतकम्मं गिरंतराणि द्वाणाणि । 'एवं णवुंसयवेदस्स दो फइयाणि । एवमिद्विखंडेसस्स । णवरि तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो । पुरिसवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयपुरिसवेदोदयक्खवगेण घोळमाणजहण्ण-जोगहाणे वट्टमाणेण जं कम्मं बद्धं तं कम्ममावलिमसमयअवेदो संकामेदि । जत्तो पाए संकामेदि तत्तो पाए सो समयपवद्धो आवलिमाए अकम्मं होदि । तदो एगसमय-मोसकिदूण जहण्णयं पदेससंतकम्महाणं । तस्स कारणमिमा परूवणा कायव्वा । पढमसमयअवेदगस्स केतिया समयपवद्धा । दो आवलिमाओ हुसमऊणाओ । केण कारणेण ? 'जं चरिमसमयसवेदेण बद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलिमाए तिचरिम-समयादो ति दिस्सदि दुचरिमसमए अकम्मं होदि । जं दुचरिमसमयसवेदेण बद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलिमाए चहुचरिमसमयादो ति दिस्सदि । तिचरिमसमए अकम्मं होदि । 'एदेण कमेण चरिमावलिमाए पढमसमयसवेदेण जं बद्धं तमवेदस्स पदमावलिमाए चरिमसमए अकम्मं होदि । जं सवेदस्स दुचरिमाए आवलिमाए पढमसवए पवद्धं तं चरिमसमयसवेदस्स अकम्मं होदि । जं तिस्से चेव दुचरिमसमय-सवेदावलिमाए विदियसमए बद्धं तं पढमसमयअवेदस्स अकम्मं होदि । एदेण

(१) पृ० २५३ । (२) पृ० २५५ । (३) पृ० २५६ । (४) पृ० २६७-२६८ । (५) पृ० २७४ ।
 (६) पृ० २८२ । (७) पृ० २८३ । (८) पृ० २९१ । (९) पृ० २९३ । (१०) पृ० २९४ । (११) पृ० २९५ । (१२) पृ० २९६ ।

कारणेण वेसमयपवद्धेण लहदि अवगदवेदो । सवेदस्स दुचरिमावळियाए दुसमयूणाए चरिमावळियाए सव्वे च एदे समयपवद्धे अवेदो लहदि । एसा ताव एका परूवणा । इमा अण्णा परूवणा । दोहि चरिमसमयसवेदेहि तुल्लजोगेहि बद्धं कम्मं तेसिं तं संतकम्मं चरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । दुचरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । एवं सव्वत्थ । एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकम्महाणाणि परूवेदव्वाणि । जहा— जो चरिमसमयसवेदेण बद्धो समयपवद्धो तम्हि चरिमसमयअणिल्लेविदे घोळमाण-जहण्णजोगहाणमादिं कादूण जत्तियाणि जोगहाणाणि तत्तियमेत्ताणि संतकम्महाणाणि । चरिमसमयसवेदेण उक्कस्सजोगेणे त्ति दुचरिमसमयसवेदेण जहण्णजोगहाणेणे त्ति एत्थ जोगहाणमेत्ताणि [संतकम्महाणाणि] लब्धंति । चरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो दुचरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो तिचरिमसमयसवेदो अण्णदरजोगहाणे त्ति एत्थ पुण जोगहाणमेत्ताणि पदेससंतकम्महाणाणि [लब्धंति] । एवं जोगहाणाणि दोहि आवळियाहि दुसमयूणाहि पदुप्पण्णाणि । एत्तियाणि अवेदस्स संतकम्महाणाणि सांतराणि सव्वानि । चरिमसमयसवेदस्स एगं फहयं । दुचरिमसमयसवेदस्स चरमद्विदिस्वंडगं चरिमसमयविण्हं । तस्स दुचरिमसमयसवेदस्स जहण्णगं संतकम्म-मादिं कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओपुकस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

“कोधसंजलणस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयकोधवेदगेण खवगेण जहण्णजोगहाणे जं बद्धं तं जं वेलं चरिमसमयअणिल्लेविदं तस्स जहण्णयं संतकम्मं । ” जहा पुरिसवेदस्स दोआवळियाहि दुसमऊणाहि जोगहाणाणि पदु-प्पण्णाणि एवदियाणि संतकम्महाणाणि सांतराणि । एवमावळियाए समऊणाए जोगहाणाणि पदुप्पण्णाणि एत्तियाणि कोधसंजलणस्स सांतराणि संतकम्महाणाणि । “कोधसंजलणस्स उदए वोच्छिण्णे जा पदमावळिया तत्थ गुणसेदी पविट्टल्लिया । तिस्से आवळियाए चरिमसमए एगं फहयं । ” दुचरिमसमए अण्णं फहयं । “एव-मावळियसमयूणमेत्ताणि फहयाणि । चरिमसमयकोधवेदयस्स खवयस्स चरिमसमय-अणिल्लेविदं खंडयं होदि । तस्स जहण्णसंतकम्ममादिं कादूण जाव ओपुकस्स कोधसंजलणस्स संतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

“जहा कोधसंजलणस्स तथा माण-यायासंजलणाणं । ” लोभसंजलणस्स जहण्णगं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभावसिद्धियपाओग्गेण जहण्णगेण कम्मेण तसकाव गदो ।

(१) पृ० २६७ । (२) पृ० २६८ । (३) पृ० २६९ । (४) पृ० ३०१ । (५) पृ० ३१५ । (६) पृ० ३१७ । (७) पृ० ३१९ । (८) पृ० ३७३ । (९) पृ० ३७५ । (१०) पृ० ३७६ । (११) पृ० ३७७ । (१२) पृ० ३७८ । (१३) पृ० ३७९ । (१४) पृ० ३८० । (१५) पृ० ३८१ । (१६) पृ० ३८२ । (१७) पृ० ३८३ ।

तन्मि संजमासंजमं संजमं च बहुवारं लद्धावओ कसाए च उवसाभिदावओ । तदो क्रमेण मणुस्सेमुववण्णो । दीहं संजमद्धमणुपालेदूण कसायवखवणाए अब्भुद्धिदो तस्स चरिमसमयअपावत्तकरणे जहण्णमं लोभसंजलणस्स पदेससंतकम्मं । 'एदमादि कादूण जावुकस्सय' संतकम्मं गिरंतराणि द्वाणाणि । 'छण्णोक्कसायाणं जहण्णयं' पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारं कसाए उवसामेदूण तदो क्रमेण मणुसो जादो । तत्थ दीहं संजमद्धं कादूण खवणाए अब्भुद्धिदो तस्स चरिम-समयद्विदिखंडए चरिमसमयअणिज्जेविदे छण्णं कम्मसाणं जहण्णयं' पदेससंतकम्मं । 'तदादियं' जाव उक्कस्सियादो एगमेव फहयं ।

पुस्तक ७

'कालो । 'मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एगसमओ । अणुकस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । 'अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ति । अथवा खवगं पडुच्च वासपुधत्तं । 'एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं । 'णवरि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणमणुकस्सदव्वकालो जहण्णेण अंतोयुहुत्तं । 'उक्कस्सेण वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सारिदेयाणि । 'जहण्णकालो जाणिदूण णेदव्वो ।

"अंतरं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहण्णुकस्सेण अणंतकाल-मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । "एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं । णवरि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चदुसंजललणाणं च उक्कस्सपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि । "अंतरं जहण्णयं जाणिदूण णेदव्वं ।

"णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो जहण्णुकस्सभेदेहि । अट्टपदं कादूण सव्व-कम्माणं णेदव्वो । "सव्वकमाणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो । "अंतरं णाणाजीवेहि सव्वकमाणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा ।

"अण्णोवहुअं । सव्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं । "कोधे उक्कस्स-पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । "कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

- (१) पृ० ३८४ । (२) पृ० ३८५-३८६ । (३) पृ० ३८६ । (४) पृ० १ । (५) पृ० २ । (६) पृ० ३ । (७) पृ० ४ । (८) पृ० ५ । (९) पृ० ६ । (१०) पृ० ७ । (११) पृ० २५ । (१२) पृ० २६ । (१३) पृ० २७ । (१४) ३७ । (१५) पृ० ५० । (१६) पृ० ५३ । (१७) पृ० ७४ । (१८) पृ० ७५ । (१९) पृ० ७६ ।

'एइदिएसु सन्वत्थोवं सम्पत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्म' । 'सम्पामिच्छित्ते उक्कस्स-
पदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'अपञ्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोहे
उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । 'मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं ।
लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । पञ्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्म'
विसेसाहियं । कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । 'मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्म'
विसेसाहियं । लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेस-
संतकम्म' विसेसाहियं । कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मायाए उक्कस्स-
पदेससंतकम्म' विसेसाहियं । 'लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मिच्छित्ते
उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं । रदीए
उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । 'इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्म' संखेज्जगुणं ।
सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं ।
णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । 'दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंतकम्म'
विसेसाहियं । भए उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्म'
विसेसाहियं । माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । कोहे उक्कस्सपदेस-
संतकम्म' विसेसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । 'लोहे उक्कस्स-
पदेससंतकम्म' विसेसाहियं ।

जहणणदंडओ ओयेण सकारणो भणिहिदि । "सन्वत्थोवं समत्ते जहणणपदेस-
संतकम्म' । "सम्पामिच्छित्ते जहणणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । "केण कारणेण ?
"सम्पत्ते उच्चेल्लिदे सम्पामिच्छित्तं जेण कालेण उच्चेल्लोदि एदम्मि काले एक्कं पि
पदेसगुणहाणिट्ठाणंतं गत्थि एदेण कारणेण । "अणंताणुबंधिमाणे जहणणपदेससंत-
कम्ममसंखेज्जगुणं । "कोहे जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मायाए जहणणपदेससंत-
कम्म' विसेसाहियं । लोहे जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मिच्छित्ते जहणणपदेस-
संतकम्ममसंखेज्जगुणं । "अपञ्चक्खाणमाणे जहणणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । "कोहे
जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मायाए जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं ।
लोहे जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । पञ्चक्खाणमाणे जहणणपदेससंतकम्म' विसेसा-
हियं । "कोहे जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । मायाए जहणणपदेससंतकम्म'
विसेसाहियं । लोभे जहणणपदेससंतकम्म' विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहणणपदेस-

- (१) पृ० ६१ । (२) पृ० ६२ । (३) पृ० ६३ । (४) पृ० ६४ । (५) पृ० ६५ । (६) पृ० ६६ ।
(७) पृ० ६७ । (८) पृ० ६८ । (९) पृ० ६९ । (१०) पृ० १०० । (११) पृ० १०२ । (१२) पृ० १०३ ।
(१३) पृ० १०४ । (१४) पृ० १०५ । (१५) पृ० १०७ । (१६) पृ० १०८ । (१७) पृ० ११० ।
(१८) पृ० १११ ।

संतकम्ममणंतगुणं । 'माणसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं' । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । इत्थिवेदस्स जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं' । 'हस्से जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । दुगुंडाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'भए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । लोभसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं' ।

गिरयगईए सन्वत्थोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं । 'सम्मामिच्छते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्मंमसंखेज्जगुणं । कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मिच्छते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'अपच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । पच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । इत्थिवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममणंतगुणं । णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । दुगुंडाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'भए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । माणसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । कोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । लोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'जहा गिरयगईए तथा सन्वाप्तु गईसु । णवरि मणुसगदीए ओघं ।

"एइदिपसु सन्वत्थोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं । सम्मामिच्छते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । 'कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

- (१) पृ० ११२ । (२) पृ० ११३ । (३) पृ० ११४ । (४) पृ० ११५ । (५) पृ० ११६ ।
 (६) पृ० ११७ । (७) पृ० ११८ । (८) पृ० ११९ । (९) पृ० १२० । (१०) पृ० १२१ । (११) पृ० १२२ ।
 (१२) पृ० १२३ । (१३) पृ० १२४ । (१४) पृ० १२६ ।

लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।
 'अपञ्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोधे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । 'पञ्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोरे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोहे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं । इत्थिवेदे
 जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । 'हस्से जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । रदीए
 जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । 'अरदीए
 जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । णत्तुंसपवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 दुग्गुब्बाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'लोभसंजलणे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

एतो भुजगरं पदणिकखेव-वड्डीओ च कायव्वाओ । जहा उक्कस्सयं पदेस-
 संतकम्मं तथा संतकम्मट्ठाणाणि । एवं पदेसविहत्ती समत्ता ।

भीणाभीणचूलिया

'एतो भीणमभीणं ति पदस्स विहासा कायव्वा । 'तं जहा । अत्थि ओकहुणादो
 भीणट्ठिदियं उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं संकमणादो झीणट्ठिदियं उदयादो भीणट्ठिदियं ।
 'ओकहुणादो भीणट्ठिदियं णाम किं ? जं कम्ममुदयावलियव्भंतरे ट्ठियं तमोकहुणादो
 भीणट्ठिदियं । जमुदयावलियवाहिरे ट्ठिदं तमोकहुणादो अज्भीणट्ठिदियं । 'उक्कणादो
 भीणट्ठिदियं णाम किं ? जं ताव उदयावलियपविट्ठं तं ताव उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं
 "उदयावलिवाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्कहुणादो भीणट्ठिदियं । तस्स णिदरिसणं ।
 तं जहा—जा समयाहियाए उदयावळियाए ट्ठिदी एदिस्से ट्ठिदीए जं पदेसग्गं
 तयादिट्ठं । 'तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी
 विदिवक्कंता बद्धस्स तं कम्मं ण सक्का उक्कट्ठिहुं । 'तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि दुसमया-
 हियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवक्कंता तं पि उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं ।
 'एवं गंतूण जदि वि जहणियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिवक्कंता तं पि

- (१) पृ० १२६ । (२) पृ० १३० । (३) पृ० १३१ । (४) पृ० १३२ । (५) पृ० १३३ ।
 (६) पृ० १७१ । (७) पृ० २३५ । (८) पृ० २३७ । (९) पृ० २३६ । (१०) पृ० २४२ । (११) पृ० २४३ ।
 (१२) पृ० २४४ । (१३) पृ० २४५ । (१४) पृ० २४६ ।

उक्कड्डणादो भ्नीणडिदियं । 'समयुत्तराए उदयावळियाए तिस्से द्विदीए जं पदेसगं तस्स पदेसगस्स जइ जहणियाए आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता तं पदेसगं सका आवाधामेतमुक्कड्डिउमेक्किस्से द्विदीए णिसिंचिदुं । 'जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता । एवं गंतूण वासेण वा वासपुत्रेण वा सागरोबमेण वा सागरोबपुत्रेण वा ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता तं सच्चं पदेसगं उक्कड्डणादो अज्झणीणडिदियं ।

'समयाहियाए उदयावळियाए तिस्से चेव द्विदीए पदेसगस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो ति अवत्थु । दो समया पवद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु । तिण्णि समया पवद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु । एवं गिरंतरं गंतूण आवळिया पवद्धस्स अइच्छिदा ति अवत्थु । 'तिस्से चेव द्विदीए पदेसगस्स समयुत्तरावळिया वद्धस्स अइच्छिदा ति एसो आदेसो होज्ज । तं पुण पदेसगं कम्मडिदिं णो सका उक्कड्डिदुं । समयाहियाए आवळियाए ऊणियं कम्मडिदिं सका उक्कड्डिदुं । 'एदे वियप्पा जा समयाहियउदयावळिया तिस्से द्विदीए पदेसगस्स । 'एदे चेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावळिया तिस्से द्विदीए पदेसगस्स । 'एवं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाव आवाहाए आवळियूणाए एवदिमादो ति ।

'आवळियाए समयूणाए ऊणियाए आवाहाए एवदिमाए द्विदीए जं पदेसगं तस्स के वियप्पा ? 'जस्स पदेसगस्स समयाहियाए आवळियाए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता तं पि पदेसगमेदिस्से द्विदीए णत्थि । जस्स पदेसगस्स दुसमयाहियाए आवळियाए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता तं पि णत्थि । "एवं गंतूण जहेही एसा द्विदी एत्तिएण ऊणा कम्मडिदी विदिवकंता जस्स पदेसगस्स तमेदिस्से द्विदीए पदेसगं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भ्नीणडिदियं । एदं द्विदिमादिं कादूण जाव जहणियाए आवाहाए एत्तिएण ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता जस्स पदेसगस्स तं पि पदेसगमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण सच्चमुक्कड्डणादो भ्नीणडिदियं । "आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मडिदी विदिवकंता जस्स पदेसगस्स तं पि एदिस्से द्विदीए पदेसगं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भ्नीणडिदियं । "तेण परमज्झणीणडिदियं । "समयूणाए आवळियाए ऊणिया आवाहा एदिस्से द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

- (१) पृ० २४७ । (२) पृ० ३४८ । (३) पृ० २४१ । (४) पृ० २४२ । (५) पृ० २४३ ।
 (६) पृ० २४७ । (७) पृ० २४८ । (८) पृ० २६० । (९) पृ० २६१ । (१०) पृ० २६२ ।
 (११) पृ० २६३ । (१२) पृ० २६४ । (१३) पृ० २६५ । (१४) पृ० २६६ ।

एदादो द्विदीदो समयुक्ताए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो ।^१ सा पुण का द्विदी । दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया जा आवाहा एसा सा द्विदी । इदाभिमोदिस्से द्विदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ? जावदिया हेद्विस्त्रियाए द्विदीए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा । 'जहेही एसा द्विदी तत्तियं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदे-सग्गस्स तं पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भीणद्विदियं' । एदादो द्विदीदो समयुत्तरद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तद्युक्कड्डणादो भीणद्विदियं । एवं गंतुण आवाहाभेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए द्विदीए दीसइ तं पि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं । 'आवाहासमयुत्तरभेत्तं द्विदि-संतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स तं पि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं' । आवाधा दुसमयुत्तरभेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदिस्से द्विदीए दिस्सइ तं पि पदेसग्गपुक्कड्डणादो भीणद्विदियं । 'तेण परमुक्कड्डणादो अजभीण-द्विदियं' । दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एवडिमाए द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

एत्तो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो । एत्तो पुण द्विदीदो समयुत्तरा द्विदी कदमा ? जहणिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया एवडिमा द्विदी । 'एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । णवरि अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा । एस कपो जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा ति । 'जहणियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं' । 'एवमुक्कड्डणादो भीणद्विदियस्स अहपदं समत्तं ।

एत्तो संकमणादो भीणद्विदियं । जं उदयावलियपविट्ठं तं, णत्थि अण्णो वियप्पो ।

‘उदयादो भीणद्विदियं’ । जमुदिण्णं तं, णत्थि अण्णं ।

‘एत्तो एगेगभीणद्विदियमुक्कस्सयमणुक्कस्सयं’ जहण्णयमजहण्णयं च ।

सामित्तं । 'मिच्चत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो भीणद्विदियं कस्स ? गुणिद-कम्मसियस्स सञ्चलहुं दंसणमोहणीयं खवेत्तस्स अपच्छिम्मद्विदिसंखंडयं संखुब्भमाणयं संखुब्भमावलिया समयूणा सेसा तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो भीणद्विदियं । "तस्सेव उक्कस्सयमुक्कड्डणादो संकमणादो च भीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ? "गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमणुणसेठी संजमणुणसेठी च एदाओ गुणसेठीओ

(१) पृ० २६७ । (२) पृ० २६८ । (३) पृ० २६९ । (४) पृ० २७० । (५) पृ० २७१ । (६) पृ० २७२ । (७) पृ० २७३ । (८) पृ० २७४ । (९) पृ० २७५ । (१०) पृ० २७६ । (११) पृ० २७८ । (१२) पृ० २७९ ।

काऊण मिच्छत्तं गदो । जाधे गुणसेदिसीसयाणि पढमसमयमिच्छादिद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं ।

'सम्मत्तस्स उक्कस्सयमोकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो उदयादो-च भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमादत्तो 'अधद्विदियं' गलत्तं जाधे उदयावळियं पविस्समाणं पविट्ठं ताधे उक्कस्सयमोकङ्कणादो वि उक्कङ्कणादो वि संकमणादो वि भ्नीणद्विदियं । 'तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं तमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं ।

'सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो च भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स अपच्छिदमद्विदिसंखंडयं संखुब्भमाणयं संखुद्धं उदयावलिया उदयवज्जा भरिदस्त्रिया तस्स उक्कस्सयमोकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो च भ्नीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेदीओ काऊण ताधे गदो सम्मामिच्छत्तं जाधे गुणसेदिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाद्विद्विस्स उदयमागदाणि ताधे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाद्विद्विस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं ।

'अणंताणुबंधीणमुक्कस्सयमोकङ्कणादितिण्हं पि भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेदीहि अविणट्ठाहि अणंताणुबंधी विसंजोएदुमादत्तो तेसिमपच्छिमद्विदिसंखंडयं संखुब्भमाणयं संखुद्धं तस्स उक्कस्सयमोकङ्कणादितिण्हं पि भ्नीणद्विदियं । 'उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं कस्स ? संजमासंजम-संजमगुणसेदीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेदिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाद्विद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स पढमसमयमिच्छाद्विद्विस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं ।

'अट्ठण्हं कसायाणमुक्कस्सयमोकङ्कणादितिण्हं पि भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ कसायक्खवणाए अब्भुद्धिदो जाधे अट्ठण्हं 'कसायाणमपच्छिमद्विदिसंखंडयं संखुब्भमाणयं संखुद्धं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्नीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं कस्स ? 'गुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवण-गुणसेदीओ एदाओ तिण्णि गुणसेदीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढमसमय-असंजदस्स गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अट्ठकसायाणमुक्कस्सयमुदयादो-भ्नीणद्विदियं ।

^१ 'कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकङ्कणादितिण्हं पि भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिद-

कर्मसिचस्स कोभं खवेतस्स चरिमद्धिदिव्हदयचरिमसमयअसंखुहमाणयस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणद्धिदियं । 'उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं' पि तस्सेव । एवं चेव भावसंजळणस्स । णवरि माणद्धिकंदयं चरिमसमयअसंखुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणद्धिदियाणि । 'एवं चेव मायासंजळणस्स । णवरि मायाद्धिकंदयं चरिमसमयअसंखुहमाणयस्स हस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणद्धिदियाणि । लोहसंजळणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भीणद्धिदियं कस्स ? शुण्णिकम्मंसिचस्स सच्चसंतकम्मभावलियं पविससमाणयं पविहुं ताधे उक्कस्सयं तिय्हं पि भीणद्धिदियं । 'उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं' कस्स ? चरिमसमयसकसायक्खवगस्स ।

'इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचउण्हं पि भीणद्धिदियं कस्स ? इत्थिवेदपूरिकम्मंसियस्स आवलियचरिमसमयअसंखोहयस्स तिण्णि वि भीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि । 'उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स ।

पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचउण्हं पि भीणद्धिदियं कस्स ? 'शुण्णिकम्मंसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवलियचरिमसमयअसंखोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणद्धिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं चरिमसमयपुरिसवेदस्स ।

णवुंसयवेदस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणद्धिदियं कस्स ? शुण्णिकम्मंसियस्स णवुंसयवेदेण अवद्धिदस्स खवयस्स णवुंसयवेदआवलियचरिमसमयअसंखोहयस्स तिण्णि वि भीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि । 'उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं' तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदक्खवयस्स ।

ज्जणोकसायाणमुक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीणद्धिदियाणि कस्स ? शुण्णिकम्मंसिएण खवएण जाधे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव कम्मसाणमुदयावलियाओ पुण्णाओ ताधे उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भीणद्धिदियाणि । 'तेसिं चेव उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियं' कस्स ? शुण्णिकम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमयअपुक्करणे वट्टमाणयस्स । 'णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोमाणं जइ कीरइ भय-दुमुंझाणमवेदगो 'कायव्वो । जइ भयस्स तदो दुमुंझाए अवेदगो कायव्वो । अह दुमुंझाए तदो भयस्स अवेदगो कायव्वो । उक्कस्सयं सामिचं समत्तधोयेण ।

"एत्तो जहण्णयं सामिसं वत्तइस्सामो । मिच्छत्तस्स जहण्णयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो च भीणद्धिदियं कस्स ? उवसामओ छसु आवलियासु सैसासु

(१) पृ० ३०२ । (२) पृ० ३०३ । (३) पृ० ३०४ । (४) पृ० ३०५ । (५) पृ० ३०६ ।
 (६) पृ० ३०७ । (७) पृ० ३०८ । (८) पृ० ३०९ । (९) पृ० ३१० । (१०) पृ० ३११ ।
 (११) पृ० ३१२ ।

आस्तां गओ तस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्सं जहण्यमोकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं । उदवादो जहण्यं भीणट्टिदियं तस्सेव आवलिय-
मिच्छाइद्विस्सं ।

सम्मत्तस्स ओक्कहुणादितिण्हं पि भीणट्टिदियं कस्स ? उवसमसमत्तपच्छायदस्स
पढमसमयवेदथसम्माइद्विस्स ओक्कहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।
तस्सेव आवलियवेदथसम्माइद्विस्स जहण्यमुदयादो भीणट्टिदियं । एवं सम्मा-
मिच्छत्तस्स । णवरि पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विस्स आवलियसम्मामिच्छाइद्विस्स चेदि ।

अट्टकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुयुंछाणं जहण्यमोकहुणादो
उक्कहुणादो च भीणट्टिदियं कस्स ? उवसंतकसाओ मदो देवो जादो तस्स
पढमसमयवेदथस्स जहण्यमोकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।
तस्सेव आवलियउववण्णस्स जहण्यमुदयादो भीणट्टिदियं ।

अणंताणुबंधीणं जहण्यमोकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं
कस्स ? सुहुमणिओएसु कम्मट्टिदिमणुपालियुण संजमासंजमं संजमं च बहुसो
लभिदावओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयुण तदो अणंताणुबंधी विसंजोएऊण
संजोइदो । तदो वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेयुण तदो मिच्छत्तं गदो तस्स
पढमसमयमिच्छाइद्विस्स जहण्यं तिण्हं पि भीणट्टिदियं । तस्सेव आवलियसमय-
मिच्छाइद्विस्स जहण्यमुदयादो भीणट्टिदियं ।

णवुंसयवेदस्स जहण्यमोकहुणादितिण्हं पि भीणट्टिदियं कस्स ? अभव-
सिद्धियपाओण्णेण जहण्णएण कम्मएण तिपलित्तोवमिएसु उववण्णो । तदो अंतोमुहुत्तसेसे
सम्मत्तं लद्धं । वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालिदं । संजमासंजमं संजमं च
बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिये भवे पुण्वकोटाउओ मणुस्सो
जादो । तदो देवणपुण्वकोटिसंजमणुपालियुण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपण्णएण
असंजमं गदो । ताव असंजदो आव गुणसेठी णिग्गलिदा त्ति तदो संजमं पडिवज्जियुण
अंतोमुहुत्तेण कम्मक्कवयं काहिदि त्ति तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहण्यं
तिण्हं पि भीणट्टिदियं । इत्थिवेदस्स वि जहण्यमाणि तिण्णि वि भीणट्टिदियाणि
एदस्स च । विपलित्तोवमिएसु णो उववण्णयस्स कायव्वाणि । णवुंसयवेदस्स
जहण्यमुदयादो भीणट्टिदियं कस्स ? सुहुमणिओएसु कम्मट्टिदिमणुपालियुण तस्सेसु
आगदो । संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गओ । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता

(१) पृ० ३१६ । (२) पृ० ३२० । (३) पृ० ३२२ । (४) पृ० ३२२ । (५) पृ० ३२७ ।
(६) पृ० ३२८ । (७) पृ० ३३३ । (८) पृ० ३३४ । (९) पृ० ३३६ । (१०) पृ० ३४० ।

तदो एइदिप गदो । पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमच्छिदो जाव जाव उवसामवसमय-
पवद्धा णिग्गलिदा ति । तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो । पुव्वकोटी देसूणं संजममणु-
पालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । दसवस्सासहस्सिएसु देवेसु उववण्णो ।
अंतोमुहुत्तसुववण्णेण सम्मत्तं लद्धं । अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए ति मिच्छत्तं गदो ।
तदो वि विकट्टिदाओ ट्टिदीओ तथाओग्गसत्तरहस्साए मिच्छत्तदाए एइदिपसुववण्णो ।
तत्थ वि 'तप्पाओग्गउक्कस्सय' संकिलेसं गदो तस्स पढयसमयएइदियस्स जहण्णय-
मुदयादो भीणट्टिदिय' ।

^१इत्थिवेदस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदिय' ? एसो चेव णंजुसयवेदस्स
पुव्वं परुविदो जाधे अपच्छिदमणुस्सभवग्गहणं पुव्वकोटी देसूणं संजममणुपालियूण
अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गओ, तदो वेमाणियदेवीसु उववण्णो अंतोमुहुत्तद्धसुववण्णो
उक्कस्ससंकिलेसं गदो । तदो विकट्टिदाओ ट्टिदीओ उक्कट्टिदा कम्मंसा जाधे तदो
अंतोमुहुत्तद्धसुक्कस्सइत्थिवेदस्स ट्टिदिं बंधियूण पडिभग्गो जादो । आवलियपडिभग्गाए
तिस्से देवीए इत्थिवेदस्स उदयादो जहण्णय' भीणट्टिदिय' ।

^२अरदि-सोगाणमोकट्टुणादित्तिग्गभीणट्टिदिय' जहण्णय' कस्स ? एइदियकम्मणे
जहण्णएण तसेसु आगदो । संजमासंजमं सजमं च बहुसो लद्धूण तिण्णि वारे कसाए
उवसामेयूण एइदिप गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छियूण जाव
उवसामयसमयपवद्धा गलंति तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोटी देसूणं संजम-
मणुपालियूण कसाए उवसामेयूण उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवपिओ
जादो । जाधे चेय हस्स-रईओ ओकट्टिदाओ उदयादिणिक्खत्ताओ अरदि-सोगा
ओकट्टिता 'उदयावलियबाहिरे णिक्खत्ता । से काले दुसमयदेवस्स एया ट्टिदी
अरइ-सोगाणमुदयावलिय' पविट्ठा ताधे अरदि-सोगाणं जहण्णय' तिण्हं पि
भीणट्टिदिय' । 'अरइ-सोगाणं जहण्णयंमुदयादो भीणट्टिदिय' कस्स ? एइदिय-
कम्मणे जहण्णएण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं सजमं च बहुसो गदो । चत्तारि
वारे कसायमुवसामिदा । तदो एइदिप गदो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागमच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा ति । तदो मणुस्सेसु आगदो ।
तत्थ पुव्वकोटी देसूणं संजममणुपालियूण अपडिबदिदेण सम्मत्तेण वेमाणिएसु देवेसु
उववण्णो । अंतोमुहुत्तसुववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । अंतोमुहुत्तसुक्कस्सट्टिदिं
बंधियूण पडिभग्गो जादो । तस्स आवलियपडिभग्गस्स भय-दुगु'द्वानं वेदयमाणस्स

'अरइ-सोगाणं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' । 'एवमोघेण सन्वमोहणीयपयदीणं जहणमोक्कड्डणादिभ्नीणट्टिदियसामितं परुबिदं' ।

अप्पाबहुअं । सन्वत्थोवं मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं । उक्कस्सयाणि ओक्कड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो च भ्नीणट्टिदियाणि तिण्णि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । एवं सम्मामिच्छत्त-पण्णारसकसाय-उण्णोक्कसायाणं । सम्मतस्स सन्वत्थोवमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीण-ट्टिदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 'एवं लोभसंजलण-तिण्णिवेदाणं ।

एत्तो जहणयं' भ्नीणट्टिदियं' । मिच्छत्तस्स सन्वत्थोवं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । 'जहा मिच्छत्तस्स जहणयमप्पाबहुअं तथा जेसिं कम्मसाणमुदीरणोदयो अत्थि तेसिं पि जहणयमप्पाबहुअं । अणंताणुबंधि-इत्थिवेद-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा चि पदे अह कम्मसे मोत्तूण सेसाणमुदीरणोदयो । जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं पि सों चेव आलावां अप्पाबहुअस्स जहणयस्स । 'णवरि अरइ-सोगाणं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' थोवं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 'अहवा इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहणयाणि ओक्कड्डणादीणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । उदयादो जहणयं' भ्नीणट्टिदियमसंखेज्जगुणं । अरइ-सोगाणं जहणयाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' विसेसाहियं' । 'एवमप्पाबहुए समत्ते भ्नीणट्टिदियं' ति पदं समत्तं होदि ।

भ्नीणाभ्नीणाहियारो समतो ।

ट्टिदियं ति चूलिया

ट्टिदियं ति जं पदं तस्स विहासा । 'तत्थ तिण्णि अणियोगहाराणि । तं जहा—समुक्कित्तणा सामितमप्पाबहुअं च । समुक्कित्तणाए अत्थि उक्कस्सट्टिदियत्तयं णिसेय-ट्टिदियत्तयं अधाणित्सेयट्टिदियत्तयं उदयट्टिदियत्तयं' च । "उक्कस्सयट्टिदियत्तयं णाम किं ? जं कम्मं बंधसमयादो उदए दीसइ तमुक्कस्सट्टिदियत्तयं" । "णिसेयट्टिदियत्तयं णाम किं ? जं कम्मं जिस्से ट्टिदीए णिसित्तं ओक्कट्टिदं वा उक्कट्टिदं वा तिस्से चेव ट्टिदीए उदए

(१) पृ० ३५५ । (२) पृ० ३५६ । (३) पृ० ३५७ । (४) पृ० ३५८ । (५) पृ० ३५९ । (६) पृ० ३६१ । (७) पृ० ३६२ । (८) पृ० ३६६ । (९) पृ० ३६७ । (१०) पृ० ३६८ । (११) पृ० ३७० ।

दिस्सइ तं णिसेयद्विदिपत्तयं । 'अधाणिसेयद्विदिपत्तयं' णाम किं ? जं कम्मं जिस्से द्विदीए णिसित्तं अणोकड्ढिदं अणुक्कड्ढिदं तिस्से चेव द्विदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेय-द्विदिपत्तयं । 'उदयद्विदिपत्तयं' णाम किं ? 'जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तमुदयद्विदिपत्तयं । एदमद्वपदं । एत्तो एक्केक्कद्विदिपत्तयं चउविहमुक्कस्समणुक्कस्सं जहणमजहणं च ।

'सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं' कस्स ? अग्गद्विदिपत्तय-मेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए वड्डीए जाव ताव उक्कस्सयं समय-पबद्धस्स अग्गद्विदीए जत्तियं णिसित्तं तत्तियमुक्कस्सेण अग्गद्विदिपत्तयं । 'तं पुण अण्णदरस्स होज्ज । 'अधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं' कस्स ? तस्स ताव संदरिसणा— उदयादो जहण्णयमाबाहामेत्तमोसक्कियूण जो समयपबद्धो तस्स णत्थि अधाणिसेय-द्विदिपत्तयं । 'समयुत्तराए आवाहाए एवदिमचरिमसमयपबद्धस्स अधाणिसेओ अत्थि । तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पल्लिदोवमवग्गमूलाणि तावदिमसमयपबद्धस्स अधाणिसेओ गियमा अत्थि । 'एक्कस्स समयपबद्धस्स एक्किस्से द्विदीए जो उक्कस्सओ अधाणिसेओ तत्तो केवदिगुणं उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ? तस्स णिदरिसणं । जहा—'ओक्कड्ढुक्कड्ढुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंक्रमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो । ओक्कड्ढुक्कड्ढुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 'एवदिगुणमेक्कस्स समयपबद्धस्स एक्किस्से द्विदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

'इदाणियुक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं' कस्स ? सत्तमाए पुठवीए णेरइयस्स जत्तियमधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं' तत्तो विसेपुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ तस्स जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'एदमिह पुण काले सो णेरइओ तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगहाणाणि अभिक्खं गदो । 'तप्पाओग्गुक्कस्सयाहि वड्डीहि वड्ढिदो । तिस्से द्विदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं । 'जा जहण्णिया आवाहा अंतोमुहुत्तुरा एवदिसमयअणुदिण्णा सा द्विदी । तदो जोगहाणाण-मुवरिन्लमद्दं गदो । 'हुसमयाहियआवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगमुववण्णो । तस्स उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'णिसेयद्विदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव ।

(१) पृ० ३७१ । (२) पृ० ३७२ । (३) पृ० ३७३ । (४) पृ० ३७४ । (५) पृ० ३७६ । (६) पृ० ३७७ । (७) पृ० ३७८ । (८) पृ० ३८० । (९) पृ० ३८१ । (१०) पृ० ३८२ । (११) पृ० ३८६ । (१२) पृ० ३८७ । (१३) पृ० ३८८ । (१४) पृ० ३८९ । (१५) पृ० ३९० । (१६) पृ० ३९१ ।

उदयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमगुणसेहिं संजम-
गुणसेहिं च काऊण मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेहिसीसयाणि उदिण्णाणि ताधे
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयट्टिदिपत्तयं । एवं समत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि । 'णवरि
उक्कस्सयमुदयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियभंगो ।

'अर्णताणुबंधिचउक्क-अट्टकसाय-उण्णोकसायाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि अट्ट-
कसायाणमुक्कस्सयमुदयट्टिदिपत्तयं कस्स ? संजमासंजम-संजम-हंसणमोहणीयक्खवय-
गुणसेहीओ त्ति एदाओ तिण्णि वि गुणसेहीओ गुणिदकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ
काऊण अविणहेसु अस्संजमं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेहिसीसएसु उक्कस्सयमुदयट्टिदि-
पत्तयं । 'उण्णोकसायाणमुक्कस्सयमुदयट्टिदिपत्तयं कस्स ? चरिमसमयअपुञ्चकरणे
वट्टमाणयस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोमाणं जइ कीरइ भय-दुगुंछाणमवेदओ कायव्वो ।
'जइ भयस्स तदो दुगुंछाए अवेदओ कायव्वो । अथ दुगुंछाए तदो भयस्स अवेदओ
कायव्वो ।

कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं कस्स ? उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं जहा
पुरिमाणं कायव्वं । उक्कस्सयमग्गणिसेयट्टिदिपत्तयं कस्स ? कसाए उवसामिता पडिवदिदूण
पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया 'उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि
पुण्णा सा ट्टिदी आदिट्ठा । तम्हि उक्कस्सयमग्गणिसेयट्टिदिपत्तयं । 'णिसेयट्टिदिपत्तयं
च तम्हि चैव । उक्कस्सयमुदयट्टिदिपत्तयं कस्स ? 'चरिमसमयकोहवेदयस्स । एवं
माण-माया-लोहाणं ।

'पुरिसवेदस्स चत्तारि वि ट्टिदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो । णवरि उदयट्टिदि-
पत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदक्खवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स । इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्ग-
ट्टिदिपत्तयं मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सयअग्गणिसेयट्टिदिपत्तयं णिसेयट्टिदिपत्तयं च
कस्स ? 'इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो
वारे कसाए उवसामिदा । जाधे विदियाए उवसामणाए जहण्णयस्स ट्टिदिबंधस्स
पढमणियेसट्टिदी उदयं पत्ता ताधे अग्गणिसेयादो णिसेयादो च उक्कस्सयं ट्टिदिपत्तयं ।
'उदयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स
तस्स उक्कस्सयमुदयट्टिदिपत्तयं । 'एवं णवुंसयवेदस्स । णवरि णवुंसयवेदोदयस्से
त्ति माणिदच्चाणि ।

(१) पृ० ४०० । (२) पृ० ४०२ । (३) पृ० ४०३ । (४) पृ० ४०४ । (५) पृ० ४०५ ।
(६) पृ० ४०६ । (७) पृ० ४१८ । (८) पृ० ४१९ । (९) पृ० ४२० । (१०) पृ० ४२१ ।
(११) पृ० ४२२ । (१२) पृ० ४२३ ।

जहण्ययाणि द्विदिपत्तयाणि कायव्याणि । 'सव्वकम्मार्णं पि अग्गद्विदिपत्तयं' जहण्ययमेओ पदेसो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज । मिच्छत्तस्स णिसेयद्विदिपत्तय-
मुयद्विदिपत्तयं च जहण्ययं कस्स ? 'उवसमसम्मत्तपच्चायदस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स
तप्पाओग्गकस्ससंकिलिट्ठस्स तस्स जहण्ययं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं
च । 'मिच्छत्तस्स जहण्ययमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ? जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेण
जहण्यएण तसेसु आगदो अंतोमुहुत्तेण सम्मतं पडिवण्णो । वेच्चावद्विसागरोवमाणि
सम्मत्तमणुपालियुम मिच्छत्तं गदो । तप्पाओग्गउक्कस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया
आवाहा तावदिमसमयमिच्छाइद्विस्स तस्स जहण्ययमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

'जेण मिच्छत्तस्स रत्तिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स सम्मतस्स
अधाणिसेओ कायव्ओ । णवरि तस्से उक्कस्सियाए सम्मतद्धाए चरिमसमए तस्स
चरिमसमयसम्माइद्विस्स जहण्ययमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'णिसेयादो च उदयादो च
जहण्ययं द्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्तपच्चायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइद्विस्स
तप्पाओग्गउक्कस्ससंकिलिट्ठस्स तस्स जहण्ययं । 'सम्मत्तस्स जहण्यओ अहाणिसेओ
जहा परूविओ तीए चेव परूवणाए सम्मामिच्छत्तं गओ । तदो उक्कस्सियाए
सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहण्ययं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।
'सम्मामिच्छत्तस्स जहण्ययं णिसेयादो उदयादो च द्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्त-
पच्चायदस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गकस्ससंकिलिट्ठस्स ।

अणंताणुबंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहण्ययं द्विदिपत्तयं कस्स ?
जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेण जहण्यएण पंचिदिए गओ । अंतोमुहुत्तेण सम्मतं पडिवण्णो ।
अंतोमुहुत्तेण पुणो पडिवदिदो । रहस्सकालेण संजोएऊण सम्मतं पडिवण्णो ।
वेच्चावद्विसागरोवमाणि अणुपालियुम मिच्छत्तं गओ तस्स आवल्लियमिच्छाइद्विस्स
जहण्ययं णिसेयादो अधाणिसेयादो च द्विदिपत्तयं । 'उदयद्विदिपत्तयं' जहण्ययं
कस्स ? एइंदियकम्मेण जहण्यएण तसेसु आगदो । तम्हि संजमासंजमं संजमं च
बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइंदिए गओ । असंखेज्जाणि
वस्साणि अच्चिद्धूण उवसामयसमयपचद्धेसु गलिदेसु "पंचिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण
अणंताणुबंधी विसंजोइत्ता तदो संजोएऊण जहण्यएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मतं
लद्धूण वेच्चावद्विसागरोवमाणि अणंताणुबंधिणो गालिदा । तदो मिच्छत्तं गदो ।
तस्स आवल्लियमिच्छाइद्विस्स जहण्ययमुदयद्विदिपत्तयं ।

'वारसकसायाणं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं' च जहण्णयं कस्स ? जो उवसंतकसाओ सो गदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च । अधाणिसेयद्विदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ? अबवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मणेण तसेसु उववण्णो । तप्पाओग्गुकस्सद्विदि बंधमाणस्स जहेही आबाहा तावदिमसमए तस्स जहण्णयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । अइक्कते काले कम्मद्विदिअंतो सइं पि तसो ण आसी । 'एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं ।' इत्थिणवुंसयवेद-अरदि-सोगाणमधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं जहा संजळणार्णं तथा कायव्वं । जम्हि अधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेव णिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं । उदयद्विदिपत्तयं जहा उदयादो भीणद्वियं जहण्णयं तथा णिरवयवं कायव्वं ।

'अप्पावहुअं । सव्वपयडीणं सव्वत्थोवमुक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं । उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । णिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं' विसेसाहियं । 'उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमसंखेज्जगुणं ।

जहण्णयाणि कायव्वाणि । सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहण्णयमग्गद्विदिपत्तयं । 'जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्तयं' अणंतगुणं । जहण्णयमुदयद्विदिपत्तयं असंखेज्जगुणं । 'जहण्णयमधाणिसेयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । 'एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं । अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवं जहण्णयमग्गद्विदिपत्तयं । जहण्णयमधाणिसेयद्विदिपत्तयमणंतगुणं । जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्तयं' विसेसाहियं । 'जहण्णयमुदयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । एवमित्थिवेद-णवुंसयवेद-अरदि-सोगाणं ।

तदो द्विदियं ति पदस्स विहासा समत्ता । एत्थेव पयडीय मोहणिज्जा एदिस्से मूलगाहाए अत्थो समत्तो ।

द्विदियं ति अहियारो समत्तो
तदो पदेसविहत्ती सच्चूलिया समत्ता ।

२ अवतरणसूची

पुस्तक ६

क्रमाङ्क	पृ०	क्रमाङ्क	पृ०	क्रमाङ्क	पृष्ठ
अ ४ अग्रप्रतिबुद्धे ओतरि	१४६	ब २ बंधेण होदि उदओ	८०	२ सम्मत्तुप्पत्ती वि य	१२८
ख ३ खवगे य स्त्रीणमोहे	१२६	स ५ सदा संप्रतीक्षयातिथि-	२८७		

सूचना—टीकाकारने पृष्ठ ६२ में 'प्रक्षेपकसंक्षेपेन' तथा पृष्ठ ६५ में 'बंधे उक्कड्ढदि' ये दो अंश उद्धृत किये हैं। पुस्तक ७ के पृ० २४५ में भी 'बंधे उक्कड्ढदि' इतना पदांश उद्धृत है।

३ एतहासक नामसूची

पुस्तक ६

पृ०	पृ०	पृ०			
अ अनंत जिन	१	य यतिवृषभभाण्डि	१०७	व व्याख्यानाचार्य भट्टारक	
उ उच्चारणाचार्य	१०७, ३८७	यतिवृषभभाचार्य			२४५
		१३५, ३०१, ३४०			

पुस्तक ७

पृ०	पृ०	पृ०			
आ आचार्य (सामान्य)		उ उच्चारणाचार्य	७, ८, ६३	य यतिवृषभभाण्डंत	६६
३ ३५२		च चूर्णिसूत्रकार	२५५, २६६, ३२५	यतिवृषभाचार्य	८
आचार्यभट्टारक	१०२	ज जिनेन्द्रचन्द्र	२३५	वीर (जिन)	३६६

४ ग्रन्थनामोल्लेख

पुस्तक ६

पृ०	पृ०	पृ०			
उ उक्चारणा	११४	च चूर्णिसूत्र	११४, ३८६	व वेदना	६, १३, ७५, ३८५
उपदेश (अपवाहजमास)	२६	म महाबन्धसूत्र	६१	वेदनादिसूत्र	२५०
				स सूत्र (वचन)	६२, ६५

पुस्तक ७

पृ०	पृ०	पृ०			
उ उच्चारणा	२७, ५०, ६४, १३३	च चूर्णिसूत्र	७, २७, ६३, ६७	घ वेदना	३६३
कदिवेदनादि चउवीस		ट द्विदिअंतिय	३६३	वेदना	५६, ६३, ६७
अशियोगद्वार	२६०				
क लुक्काकबन्ध	१६				

५ न्यायोक्ति

पुस्तक ६

पृ०

समुदाए पउत्ता सदा तदवयवेसु वि वट्ठंति । पृ० २०४

६ चूर्णिसूत्रगतशब्दसूची

पुस्तक ६

अ	अकम्म २६१, २६४, २६५, २६६	असंश्लेजदिभागमेत् २४६	उक्कस्सविंसोहि १२५
	अच्छिदाउअ ७२, १२४	असंश्लेजवस्साउअ ६६, १०४	उक्कस्सिय ३८६
	अट्ट २४६, २५३	अंतोमुहुत्तावसेस २६८	उत्तरपयडिपदेसविहत्ति २, ७२
	अयांत १५६	आ आउअ १२५	उदय २६८, २७४, २७६
	अयांताणुवंची २५६	आगद १२५, २४६, २६७, ३८४, ३८५	उदयावलिय १२५
	अयण २८८, ३८०	आटत्त २६८	उदयावलिया २०३, २४६, २५३
	अययादरजोग ३१७	आदि १६७, २५५, ३७६, ३८१, ३८४	उवट्टिद ७२
	अचट्टिदिगलया २४६	आदिय ३८६	उववयण २६८, २६९, ३८३
	अपच्छिम ७२, ७३, १६७, २६६	आबलियसमयअवेद २६१	उवसमिदाउअ ३८३
	अपच्छिमट्टिद्विखंबय १२५, २५५, २६८	आबलियसमयूणमेत् १६६, ३८१	उव्वेलियद्धा २०३
	अपजत्तद्धा १२४	आबलिया २६१, २६४, २६५, ३१७, ३७८, ३७९	उव्वेज्जिद २०३
	अपजत्तभववाह १२४		ए एहदिअ २४६
	अण्मुट्टिद ३८३ ३८५		एक १२५, १५६, २०३, २६७
	अभवसिद्धियपाओमा १२५, २६७, ३८३, ३८५	इ हत्ति ३१५, ३१७	एग १६३, १६७, २४५, २५५, ३७६, ३७९, ३८१, ३८६
	अभवसिद्धियपाओमा-	ई ईसाण ६१, १०४	
	जहयणय २४६	उ उक्कस्सग १५६, १६७	एगजीव ७२
	अभिवलं १२५	उक्कस्सजोग ३१५, ३१७	एगट्टिदिविसेस २५३
	अक्काद २४६	उक्कस्सपद २५३	एगफहय २५३
	अवगदवेद २६६	उक्कस्सपदेसतप्पाओमा १२५	एगसमय २६१
	अवणिद १२५	उक्कस्सपदेसविहत्तिय ८१	एत्तिय ३१६, ३७८
	अविच्छिज्जमायण १२५	उक्कस्सपदेससंतकम्म ८८, २१८, २५५	एत्थ ३१५, ३१७
	अवेद २६४, २६५, २६७, ३१६	उक्कस्सय ७३, ६१, ६६, १०४, ११०, ११३, १५७, २७४, ३८४	एव २४४, २६७, २७६, ३७३, ३८६
	असंश्लेज १५६		एवदिय ३७८
	असंश्लेजदिभाग ६६, १०४, १६२		

इस शब्दानुक्रमिकाके सर्वनाम शब्द और क्रियापद छूटे हैं। शेष पूरे शब्दोंका संग्रह है।

५५	७५, १२५, १५५, २४३, २४४, २६१, २६८, ३१७, ३७८, ३८१, ३८४
ओ ओषुकरस	३८१
ओषुकरसपदेससंतकम्म	३७६
क कद	१२५, २४३
कम	२५३, २६५, ३८३, ३८५
कम्म	१२५, २४६, २६१, २६८, ३८३
कम्मट्टिदि	७२, १२४, २०२
कम्मंस	३८६
कमाय	१०४, २०७, २४६, २५३, २६८, ३८३, ३८५
कमायकखवणा	३८३
कारण	१५७, १६३, २६३, २६६
काल	२४६
केत्तिय	२६३
कोष	११३
कोषसजलण	११०, १११, ३७७, ३७८, ३७९, ३८१, ३८२
ख खवग	३७७
खवणा	३८५
खवय	३८१
खंडय	३८
ग गद	१२४, १२५, २०२, २४६, ३८३
गलमाण	१२५
गलिव	१२५, २०३
गलंत	२४६
गुणसेदि	३७६
गुणियदकम्मसिअ	८१, ६१, ६६, १०४

घ घालमाणजहयणजोगट्टाण	२६१, ३०१
च च	२४४, २६७, २६६
चटु	१२५, २०२, २४६, २४६, २६७ ३८५
चटुचरिमसमय	२६४
चरिमट्टिदिलंडग	३७५
चरिमसमय	२६५, ३७५
चरिमसमयअणिल्लेविद	३०१, ३७७, ३८१, ३८६
चरिमसमयअभापवत्तकरण	३८३
चरिमसमयकोषवेदग	३७७, ३८१
चरिमसमयजहयणपद	२५५
चरिमसमयजहयणयफदय	१६७
चरिमसमयट्टिदिलंडय	३८६
चरिमसमयणुंसयवेद	२६८
चरिमसमयणोरइय	७३
चरिमसमयदेव	६१
चरिमसमयपुरिसवेदोदय-	
कखवग	२६१
चरिमसमयसवेद	२६४, २६५, ३०१, ३१५, ३१७, ३७३
चरिमावलिया	२६५, २६६
चुद	१०४
छ छ	३८६
छणशोकसाय	७६, ११०, ३८५
ज जदा	१२५, ३७८
जत्तिय	३०१
जत्तो	२६१
जहकलयागद	१५७
जहयण	२०३, २४६, २६७

जहयणग	१२५, ३७३, ३८३
जहयणजोगट्टाण	३१५
जहयणपदेससंतकम्मअ	१२४
जहयणय	१२५, १६२, २०२, २४६, २६७, २६८, ३६१, ३७७, ३८४, ३८६
जहयणसंतकम्म	३८१
जहा	३०१, ३७८, ३८२
जाद	१०४, ३८४, ३८५
जावि	११०, ११३, ११४, १२५, २०३
जाव	१६७, २५३, २५५, २७४, ३७६, ३८१, ३८४, ३८६
जीविदववय	२६८
जोगट्टाण	१२४, १२५, ३०१, ३१६
जोगट्टाणमेत्त	३१५, ३१७
ट टाण	१५६, २१८, २५३, २७४, ३८४
ट्याणपरूवणा	२४३
ट्टिदि	१२५, २४६
ट्टिदिलंडय	१६७, २४६
ट्टिदिविसेस	१५६, १५६, १६४, २०३
ण ण	२६६, ३८३
णवरि	२६८, २६१
णटुंसयवेद	६१ १०४ २६७, २६१
णटुंसयवेदमणुस्त	२६८
णिरतर	२१८, २५३, ३७४, ३८४
णियसेय	१२५
णोरइयमवग्गइय	७३
णो	२६१
त तत्तियमेत्त	३०१

तचो	२६१	दुपदेसुत्तर	१५६, २१८	पलिदोवम	६६, १०४,
तय २, ७३, १०४, १२५,		दुविह	२		२४६
२४६, २६८, ३७६, ३८५		दुसमयकालट्टिदिग	१२५	पलिदोवमट्टिदिअ	१०४
तथा	२०२	दुसमयकालट्टिदिय	२०३	पविट्टिल्लिय	३७६
तचो १०४, १२५, १५६,		दुसमयूषा	२६३, २६६,	पाण	२६१
१५७, २०२, २१७,			३१६, ३७८	पि १५७, २४५, २५३,	२६८
२५३, २६८, २७४,		देव	१०४		
३६१, ३८३, ३८५		दो	१६४, २४५, २६८,	पुण	१५६, १६२
तथा	२६७		२६६, ३१७	पुरिसवेद	१०४, ११०,
तप्याओमा	२७४	दोआवलिया	२६३, ३७८		२६१, ३७६ ३७८
तप्याओमाउक्कस	१२५	दोफइय	२६१	पूरिद	६६, १०४
तप्याओमाजहयण	१२५	दोभवमाहण	७३	फ	फळुग
तस	१२५, २०२, २४६,	प	पक्कित्त ८१. ८८, १०४,	फइय	१६४, १६६, १६७,
२६७, ३८५			११०, ११३, ११४		२४५, २५३, २५५,
तसकाय	७२, ३८३	पदमसमय	२६५		३७३, ३७६, ३७६,
तहा	३८२	पदमसमयअवेद	२६६		३८०, ३८१, ३८६
ताथे ११३, ११४, २०३		पदमसमयअवेदग	२६३	ब	बद्ध २६१, २६४, २६५,
नाव	२६७	पदमसमयसवेद	२६५		२६६, २६८, ३०१
ति	२१८, २५५, ३८१	पदमावलिया	२६५, ३७६	बहुवार	३८३
तिचरिमसमय	२६४	पद	२४६	बहुसो	१२५. २०२, २४६,
तिचरिमसमयसवेद	३१७	पटुप्पण	३१६, ३७८		२६७, ३८५
त्ति	२६८, २७४, २६४	पदेससमा	११०	बादरपुटावजीव	७२
तिपालदोवमिअ	३६८, २६१	पदेससंतकम्म	७३, ६१, ६६,	वारसकमाय	७६
तुल्ल	२६८		१०४, ११०, ११३,	म	मणुस
तुल्लजोग	२६८		११४, १२५, २०२,	मणुस	३८३
तेत्तीस	७२, ७३		२०३, २४६, २६७,	मद	१०४
द	दीह १२५, २०२, ३८३,		२६८, २६१, ३७७,	माण	११३
	३८५		३८३, ३८५ ३८६	माणमायासजलण	३८२
दुचरिम	२६५	पदेससतकम्मट्टाण	२६१,	माया	११४
दुचरिमसमय	२६४. ३८०		२६६, ३१७	मिच्छत्त	७२, ७३, ८१,
दुचरिमसमयअणिल्लेविद	२६६	पदेसविहत्ति	२		१०४, १२५, १६७,
दुचरिमसमयसवेद	२६४, ३१५, ३१७ ३७५, ३७६	पदेसुत्तर	१५६, २१७,		२०२, २६८
दुचरिमसमयसवेदावलिया	२६६		२५३, २७४	मिच्छत्तमंग	२५५
दुचरिमावलिया	२६६	पबद्ध	२६५	मूलपयडिपदेसविहत्ति	२
		पयार	२४३	ल	लद्ध १२५, ३८५
		परुवणा	२६३, २६७,	लडाउअ	३८३
			२६८, २६६	लोमसंजलण	११४, ३८३
		परुवेदव्व	२६६	व	वट्टमाण
					२५१

वाङ्म	१२४
वङ्मिद	१२४
वार	१२५, २०२, २४६, २६७, ३८५
वि	२४४
विण्टु	३७५
विदिय	१६४, २६४
विदियसमय	२६६
वितेस	१५६, २६८
वैल्लार्वाट्टिभागरोवम	१८५, २०२, २६८
वेल	३७७
वसमयपबद्ध	२६६
वैसागरोवमसहस्म	७२
वोच्चिण्ण	३७६
स समयपबद्ध	१५६, २६१, २६३
समयपबद्धमेत्त	१५७

समयूण	३७८
समयूणावलिममेत्त	२५३
सम्मत्त ण्ण	१०४, १२५, २०२, २४४, २४६, २६७, २६८
सम्मत्तद्ध	२६८, २६७, ३०१
सम्मामिच्छत्त	८१, ८८, २०२, २०३, २४३
सवेद	२६५, २६६
सव्व	२०२, २६६, ३१६
सव्वचिरं	२६८
सव्वत्थ	२६८
सव्ववहुअ	१२४
सव्वलहुं	१०४
मच्छुद्ध	२६८
सच्छुद्धमाण	२६८

संजम	१२५, २०२, २४६, २६७, २६८, ३८३, ३८५
सजमद्ध	३८५
संजमासजम	१२५, २०२, २४६, २६७, ३८३, ३८५
संतकम्म	१६२, २४५, २६७, २६८, ३७६, ३७७, ३८४
सतकम्मट्ठाण	३०१, ३७८
सागरोवमिअ	७२, ७३
सादिरेय	७२
सामित्त	५०
सांतर	३१६, ३७८
सुहमणिगोद	१२४, २०२
सेस	१२५, २०२, २४६
ह हदसमुपत्तिय	२४६
हेट्टिल्ल	१२५

पुस्तक ७

अइक्कंत	४४२
अइच्छिद	२५१, २५२
अग्गाट्टिदि	३७४
अग्गाट्टिदिपत्तय	३७४, ४०४, ४२०, ४२४, ४४६, ४४७, ४५०
अच्छिद	३४०, ३५४
अजहणण	३७३
अजहणणय	२७६
अज्झीण्णट्टिदि	२३६, २४८, २६५, २७०
अट्ट	२६४, ३५६
अट्टकसाय	२६६, ३२२, ४०३
अट्टपद	२७३, ३७३
अर्यांतकाल	२, २५, ५३

अणत्तगुण	७८, ८५, १११, १२०, १३०, ४४८, ४५०
अर्यांतगुणवधि	२६२, ३२८, ३५६, ४०३, ४३८, ४४१, ४५०
अणत्ताणुवाधमाण	७६, ८४, ६५, १०५, ११७, १२४
अणियोगदार	३६७
अणुक्कट्टिद	३७१
अणुक्कस्स	३०३
अणुक्कस्सदव्वकाल	५
अणुक्कस्समयदेसविहत्तिअ	२
अणुक्कस्सय	२७५
अणुपालिद	३३४

अणोक्कट्टिद	३७१
अणण	२७३, २७४
अणणदार	३७५, ४२४
अणणोवदेस	३
अतर	२५, २७, ५३, ३०८
अतो	४२१
अतोमुहुत्त	५, ३३४, ३४०, ३५४, ४०५, ४२१, ४३०, ४३८, ४४१
अतोमुहुत्तद्ध	३४६
अतोमुहुत्तसेस	३३४, ३४०, ३४६
अतोमुहुत्तावसेस	३४०
अतोमुहुत्तत्तर	३६४
अथ	४०५

अघट्टिदिय २८५
 अघवा ३
 अघाणितेअ ३७७, ३७८,
 ४३५
 अघाणितेय ४२१, ४३८,
 ४३६, ४४५
 अघाणितेयट्टिदिपत्तय
 ३६७, ३७१, ३७७
 ३७८, ३८२, ३८६,
 ३९५, ४०५, ४०६,
 ४२०, ४३०, ४३५,
 ४३७, ४४२, ४४६,
 ४४८, ४५०
 अघापवत्तसंकम ३८१
 अढ ३९४
 अघाणितेयमाण ७४.
 ८३, ९३ १०६, ११८
 अघण्डिम ३३४
 अघण्डिमट्टिदिसंखय
 २७६, २८७, २९२,
 २९५
 अघण्डिममणुस्सभवगाहण
 ३४६
 अघण्डिवदिद ३५४
 अघणितेस २५८
 अघ्याबहुअ ७४, ३५६,
 ३५६, ३६७, ४४६
 अण्डुट्टिद २६४
 अभवसिद्धियपाओग्मा
 ३३४, ४४२
 अभिसत्वं ३९२
 अरइ ३१०, ३५०, ३५४,
 ३५६, ३६१, ३६२,
 ४०४
 अरदि ८०, ८७, ९७,
 ११५, १२१, १३२
 ३५०, ३५१, ३५५.
 ४४५, ४५१

अवधु २५१
 अवधुवियप्य २६७, २७१
 अवहारकाल ३८१
 अवेदअ ४०४, ४०५
 अवेदय ३१०, ३११,
 असंखेज २, ३, -५, ५३,
 ३७७, ४४०
 असंखेजगुण ८३, ९२,
 ९३, १०३, १०५,
 १०७, १०९, ११३,
 ११५, ११७, ११८,
 १२०, १२४, १२६,
 १२६, ३५७, ३५८,
 ३६२, ३८१, ४४६,
 ४४७, ४४८, ४४९,
 ४५१
 असखेजदिभाग ३४०,
 ३५०, ३५४, ३८१
 असखुहमाण्य ३००
 असंजद ३३४
 असंजम २९६, ३३४
 ४०३
 अह ३११
 अहवा ३६२
 आ आगद २८६, २९६,
 ३४०, ३५०, ३५४,
 ४३०, ४४०
 आगय २७६, २९३
 आदत्त २८४, २९२
 आदि २६३
 आदिट्ट ३५३, ४०६
 आदेस २५२
 आबाधा २६०, २६५
 आबाधाडुसमयुत्तरमेत्त-
 ट्टिदिसंतकम्म २६६
 आबाहा २४६, २४७,
 २४८, २६१ २६३,
 २६६, २६७, २७०,
 २७१, २७२, ३७८,
 ३९४, ४०६, ४३०,
 ४४२

आबाहामेत्त ३७७
 आबाहामेत्तट्टिदिसंतकम्म
 २६८
 आबाहासमयुत्तरमेत्त २६६
 आलाव ३५६
 आवलिय ३०३
 आवलियउववयण ३२७
 आवलियवरिमसमय-
 असंखोहय ३०७
 आवलियपडिभग्मा
 ३४६, ३५४
 आवलियपदमसमय-
 असंखोहय ३०५
 आवलियमिच्छाइट्टि ३१६
 ४३६, ४४१
 आवलियवेदयसम्माइट्टि
 ३२१
 आवलियसमयमिच्छाइट्टि
 ३३३
 आवलियसम्मामिच्छाइट्टि
 ३२२
 आवलिया २४४, २४५,
 २५१, २५३, २६१,
 २६२, २६६, २६७,
 २७०, ३१२
 आवलियूण ३६०
 आसाण ३१२
 इ इत्थि ३५६, ४४५
 इत्थिवेद ८६, ९७, ११३
 १२०, १३०, ३०५,
 ३३६, ३४६, ३६२,
 ४२०, ४५१
 इत्थिवेदपुरिसवेदकम्मसिअ
 ४२१
 इत्थिवेदपुरिदकम्मसिय
 ३०५
 इत्थिवेदसंजद ४२१
 इदाणि २६७, ३८६
 इदि ३२२

उक्कङ्कण २३७, २४२,
 २४३, २४५, २४६,
 २४८, २६३, २६४,
 २६८, २६९, २७०,
 २७२, २७३, २७८,
 २८४, २८५, २८७,
 २८८, ३१२, ३२०,
 ३२२, ३२८, ३५६
 उक्कङ्गिद ३४६, ३७०
 उक्कस्स ६, ५३, ३७३
 उक्कस्सअ ३७८
 उक्कस्सइत्थिवेद ३४६
 उक्कस्सट्ठिदि ३५४
 उक्कस्सट्ठिदिपत्तय ३६७,
 ३६८, ३७२, ३७३,
 ३९९, ४००, ४०३,
 ४०४, ४१८, ४२०,
 ४२२, ४२४, ४२५,
 ४४०, ४४१, ४४२,
 ४५५, ४४७, ४४८,
 ४५१
 उक्कस्सपद ३९३
 उक्कस्सपदेसविहत्तिअ २
 उक्कस्सपदेसविहत्तिअंतर २६
 उक्कस्सपदेससंतकम्म ७४,
 ७५, ७६, ७८, ७९,
 ८०, ८१, ८२, ८३,
 ८४, ८५, ८६, ८७,
 ८८, ९०, ९१, ९२,
 ९३, ९४, ९५, ९६,
 ९७, ९८, ९९
 उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतर २५
 उक्कस्सय २३४, २७५,
 २७६, २७८, २७९,
 २८४, २८५, २८६,
 २८७, २८८, २८९,
 २९२, २९३, २९४,

२९५, २९६, ३००,
 ३०२, ३०३, ३०४,
 ३०५, ३०६, ३०७,
 ३०८, ३०९, ३११,
 ३५६, ३५७, ३७४,
 ३७७, ३७८, ३८२,
 ३८९, ३९५, ३९९,
 ४००, ४०३, ४०४,
 ४०६, ४०६, ४१८,
 ४२०, ४२१, ४२२,
 ४४६, ४४७
 उक्कस्सयट्ठिदिपत्तय ३६८
 उक्कस्ससंक्खोस ३४६, ३५४
 उक्कस्सिय ४३५, ४३७,
 उदअ ३६२
 उदय २३७, २७४, २७८,
 २७९, २८४, २८६,
 २८८, २८९, २९३,
 २९५, २९६, ३००,
 ३०२, ३०४, ३०६,
 ३०७, ३०८, ३०९,
 ३१९, ३२१, ३२७,
 ३३३, ३४०, ३४१,
 ३४६, ३५५, ३५६,
 ३५८, ३६१, ३६८,
 ३७०, ३७१, ३७३,
 ३७७, ४२१, ४३६,
 ४३८, ४४३
 उदयगुण-टिप्पिसअ ४०३
 उदयवज २८७, ३०८
 उदयादिणिक्खित्त ३५०
 उदयावलिय २८५, ३५१
 उदयावलियपविट्ठि २४२,
 २४९, २७३
 उदयावलियबाहिर २३६,
 २४३, ३५१
 उदयावलियगंतर २३९
 उदयावलिया २४३, २४७
 २५१, २५८, २८७,
 ३०८

उदियण २७४, ४००
 उदीरणोदय ३५९
 उवट्ठिद ३०७
 उवरिक्ख ३९४
 उववयण ३३४, ३४०,
 ३४६, ३५४, ३८९,
 ३९५, ४४२
 उववयणय ३३९
 उवसमसम्मत्तपञ्चुयद ३२०, ४२५, ४३६,
 ४३८
 उवसंतकसाअ ३२२,
 ३५०, ४४२
 उवसामअ ३१२
 उवसामणा ४०६, ४११
 उवसामयसमयपवद्ध ४०,
 ३५०, ३५४, ४४०
 उवसामिद ३५४,
 ४०६, ४२१
 उव्वेत्तिद १०४
 ऊ ऊणिय २४४, २४५,
 २४६, २४७, २४८,
 २५३, २६१, २६२,
 २६३, २६४, २६६,
 २६७, २७०
 ए एअ ४२४, ४४०
 एहंदिअ ९१, १२४,
 ३४०, ३५०, ३५४
 एहंदियकम्म ३५०,
 ३५४, ४४०
 एहंदियट्ठिदिसंतकम्म ४३०
 एहंदियसंतकम्म ४३८
 एक्क १०४, २४७, ३७४,
 ३७८, ३८२
 एक्केकट्ठिदिपत्तय ३७३
 एग २५१
 एगसमय २, ५३

एगादिपुस्तकिय	३७४	
एगोभीष्णट्टिदिय	२७५	
एतिअ	२६३	
एत्तिय	२७१	
पत्तो १३३, २३५, २७०, २७३ २७५, ३१२, ३५८, ३७३		
एयसमयाहिदआवाहा- चरिमसमयअणु- दियण	३६५	
एव २५१, २५२, २५८ २७१ २८६, ३०२, ३०३, ३०८, ३०९, ३१६, ३२१, ३२७, ३३३, ३३६, ३४६ ३५०, ३५६ ३७०, ३७१, ३६६, ४१८, ४३५, ४३०, ४४५		
एवाडिम	२६१, २७०	
एवादिगुण	३८२	
एवादिमाद	२६०	
एवादिमचरिमसमयपथद ३७७		
एवादिमसमयअणुदियण	३६४	
एवं ४, २६, ६०, २४६, २४८, २५१, २६०, २६३, २६८, २७३, ३०२ ३०३, ३२२, ३५६, ३५७, ३५८, ३७५, ४००, ४१८, ४२३, ४४४, ४५०, ४५१		
ओ ओकड्डण	२३७, २३६, २७६, २८४, २८५, २८७, २८८, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३५६	

ओकड्डण	३६२	
ओकड्डणदिचउ	३०५, ३०६	
ओकड्डणदिभीष्ण- ट्टिदियसानिच	३५६	
ओकड्डणदित	२६२, २६४ ३००, ३०३, ३२०, ३३४	
ओकड्डणदितगभीष्ण- ट्टिदिय	३५०	
ओकड्डण	३५०	
ओकड्डणद	३५०, ३७०	
ओकड्डणड्डण	३६१	
ओध ६६, १२३, ३११, ३५६		
क कद	३०८, ४०३	
कदम	२७०	
कम	२७७	
कम्म ४, २६, २३६, २८४, २८४, ३३४, ३६८, ३७०, ३७१, ३७३, ३७६, ४४२		
कम्मवखय	३३४	
कम्मट्टिदि	२४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २५३, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९, ३४०, ३६८	
कम्मट्टिदिअतो	४४२	
कम्मस ६०८, ३४६, ३५६		
कणाअ	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ४०२, ४२१, ४४०	
कसाय	२६४, २६५, ३५४, ४०५	
कसायकववणा	२६४	
कायव ५०, २३५, ३११, ३३६, ४०४, ४०५, ४२३, ४३५, ४४५, ४४७		

कारण	१०३, १०४
काल	२, ५०, १०४, ३५१, ३६२, ४४२
कालगद	३५०
किं	२३६, २४२, २४६, ३६८, ३७०, ३७१, ३७२
कीरमाण	३०८
केवचिरं	२
केवाडिगुण	३०८
कोष ७५ ७६, ८३, ८४, १२६, ३००	
कोधसंजलण	६०, ४०५
कोह ८४, ६३, ६४, ६१, ६८ १०७, ११०, १११, ११७, ११६, १२६, १३०	
कोहसजलण	४२०
ख खवअ	३०८
खवग	३
खवय ३०७, ३०९, ८१२	
खवेमाण	२८७
खवेमाणय	३०७
खवेत	२७६, ३००
ग गअ	३१२, ३४०, ३४६, ४०३, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०
गड	१-३
गद	२७६, २८८, २६३, २६६, २३४, ३४०, ३४६, ३५०, ३५४, ३६२, ३६४, ४००, ४३०, ४४१,
गदि	६०
गलंत	२८५
गलिद	४४०
गालिद	४४१
गुणिदकम्मसिअ	२७६, २८४, २८८, २६२, २६४, ३०८, ३३६, ४०३

गुणिवकर्मसिय	२७३, २८७, २९६, ३०३, ३०७, ३०९, ४२०, ४२२
गुणसेदि	२७९, २९६, ३३४, ४०३
गुणसेदिसीसय	२७९, २८८, २९३, २९६, ३००, ४००
च अ	२६, २४१, २५२, २५८, २७१, २७९, २८४, २८७, २८८, ३०२, ३०३, ३०८, ३०९, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३३४, ३४०, ३४६, ३५०, ३५४, ३५६, ३५९, ३६७, ३७०, ३७१, ३७३, ३९५, ३९९, ४१८, ४२०, ४२१, ४२४, ४२५, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४२, ४४५
चउ	३०२, ३०३, ३२८, ३३४, ३४०, ३५४, ४४०
चउन्विह	३७३
चउसंजलाय	३२२
चपुसमयाहिय	२६०
चदुसंजलाय	२६
चरिमद्विदिसंहयचरिम- समय	३००
चरिमसमअ	४३५ ४१७
चरिमसमयअनस्वीय-	
दंसणमोहणीय	२८६
चरिमसमयअपुञ्चकराय	३०९, ४०४

चरिमसमयअसंखुहमाणय	३०२, ३०३
चरिमसमयइरियवेद-	
कलवय	३०६
चरिमसमयइरियवेदय४२२	
चरिमसमयउदयद्विदि- पत्तय	४२०
चरिमसमयकोहवेदय४१९	
चरिमसमयणुंसयवेद-	
कलवय	३०८
चरिमसमयपुरिसवेदय	३०७
चरिमसमयसकसायलवग	३०४
चरिमसमयसम्माइद्वि४३५	
छ छ	३२२
छुरणोकाय	३०८, ३५७, ४०३, ४०४
ज जह	२४४, २४५, २४७, २४८, ३१०, ३११, ४०४, ४०५
जदि	२४६
जत्तिय	३७४, ३८९
जरय	३७३
जरेही	२६३, २६८, ४४२
जहयण	३, ५, ५३, ३५६, ३७३, ३८९, ४२३
जहयणअ	३३४, ३५०, ४३०, ४३७, ४३८, ४४०, ४४२
जहयणकाल	७
जहयणपदेससंतकम्म	१००, १०३, १०५, १०७, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२४, १२६, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३

जहयणय	२७, २७५, ३१२, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२७, ३३३, ३३४, ३३९, ३४०, ३६१, ३६२, ३७७, ४२१, ४२४, ४२५, ४३०, ४३५, ३३६, ४३७, ४३८, ४४९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४५, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०
जहयणय	२४६, २४७, २६३, २७०, २७१, २७२, ३९४
जहयणुककस्त	२, २५
जहा	१२३, २३४, २३७, ३५९, ३६७, ४०५, ४३७, ४४५
जहायिसेअ	४३७
जहायिसिय	३८२
जाद	३२२, ३३४, ३४६, ३५०, ३५४, ४४२
जाधे	२७९, २८५, २८८, २९३, २९४, ३०८, ३४६, ३५०, ४००, ४२१
जाव	२६०, २६३, २७१, ३३४, ३४०, ३५०, ३५४, ३७४, ३७७
जावदिय	२६७, ४३०
जीव	४३५
जोगट्टाय	३९२, ३९४
झ भीणद्विदिय	२३७, २३९, २४२, २४३, २४५, २४६, २४७, २६३, २६४, २६८, २६९, २७२, २७३, २७४, २७६, २७८, २७९,

२८४, २८५, २८६,
 २८७, २८८, २८९,
 २९२, २९३, २९४,
 २९५, २९६, ३००.
 ३०२, ३०३, ३०४,
 ३०५, ३०६, ३०७,
 ३०८, ३०९, ३१२,
 ३१९, ३२०, ३२१,
 ३२२, ३२७, ३२८,
 ३३३, ३३४, ३३९,
 ३४०, ३४१, ३४६,
 ३५१, ३५४, ३५५,
 ३५६, ३५७, ३५८,
 ३६१, ३६२, ४४५
 भीषमभीषा १३५
 ट ट्टिद . २३९
 ट्टिदि २४३, २४७, २५१,
 २५२, २५७, २५८,
 २६१, २६३, २६४,
 २६६, २६७, २६८,
 २६९, २७०, ३४०,
 ३४६, ३५१, ३७०,
 ३७१, ३७८, ३८२,
 ३९३, ३९४, ४०६
 ट्टिदिक्कंठय ३०२
 ट्टिदिपत्तय ४२०, ४२१,
 ४२३, ४३६, ४३८,
 ४३९, ४४५
 ट्टिदिबंध ४२१
 ट्टिदिसंतकम्म २६८, २६९
 ट्टिय २३९
 ठ ट्टिय ३६६
 थ थ २६, १०४, २४४,
 २६२, २७२, २७३,
 २७४, ३५९, ४४२
 थवरि ५, २६, १२३,
 २७१, ३०२, ३०३,
 ३१०, ३२२, ३६१,
 ३७७, ४०३, ४२०,
 ४२३, ४३५

थुं सववेद ८०, ८७, ९७,
 ११३, १२०, १३२,
 ३८७, ३३४, ३४०,
 ३४६, ३५९, ३६२,
 ४२३, ४४५, ४५१
 थुं सयवेदआबलिय-
 चरिमसमयअसंछोहय
 ३०७
 थुं सयवेदोदय ४३३
 थाणाजीव ५०, ५३
 थाम २३९, २४४, २४९,
 ३६८, ३७०, ३७१,
 ३७२
 थिक्कित्त ३५१
 थिग्गलिद ३३४, ३४०,
 ३५४
 थिदरिसण ३७८
 थियमा ३७७
 थिरयगइ १२३
 थिरयगदि ८२
 थिरवयव ४४५
 थिरतर २५१
 थिसित्त ३७०, ३७१, ३७४
 थिसिय ३९३, ४३८,
 ४२१, ४३६,
 ४३९, ४४५
 थिसोयाट्टिदिपत्तय ३६७,
 ३७०, ३९९, ४१८,
 ४२०, ४२४, ४२५,
 ४४२, ४४६, ४४८,
 ४५०
 थोदव्व ४, ७, २६, २७
 थोरइअ ३८९, ३९२
 थोरइय ३८९
 थो २५३, ३३९
 त तत्तिय २६८, ३७४
 - ततो ३७७, ३७८, ३८९
 तस्य ३४०, ३५०, ३५४,
 ३६७, ३७३, ४४२

ततो २६७, ३११, ३२८,
 ३३४, ३४०, ३४६,
 ३५०, ३५४, ३९४,
 ४०५, ४३७, ४४१
 तप्पाओमाउवकस्सय ३४१,
 ३९२
 तप्पाओमाउवकस्सकिलिट्ट
 ४३६
 तप्पाओमाउवकरिसय ३९३,
 ४३०
 तप्पाओमाओवरहस्स ३४०
 तापाओग्गुक्कस्सट्टिदि ४४२
 तप्पाओग्गुक्कस्सकिलिट्ट
 ४२५, ४३८
 तस ३४०, ३५०, ३५४,
 ४३०, ४४०, ४४२
 तथा १२३, २३४, ३५९,
 ४४५, २७९, ८८५
 ताथे २८८, २८९, २९३,
 २९५, ३०३, ३०८,
 ३५१, ४००, ४२१
 ताव ३४२, २४९, ३३४,
 ३४०, ३७४, ३७७
 तावदिमसमअ ४४२
 तावादिमसमयपवद्ध ३७७
 तावदिमसमयमिच्छाइट्टि
 ४३०
 ति २३५, २५१, २९५,
 २९६, ३००, ३०३,
 ३०५, ३०७, ३०८,
 ३२८, ३३९, ३५०,
 ३५१, ३५७, ३५८,
 ३६१, ३६२, ३६३,
 ३६७ ४०३
 तियिणवेद ३५८
 तिपलिदोवमिअ ३३४,
 ३३९
 तिसमयाहिय २४८, २६०
 तिसमयूया २७०

	त्ति	२५१, २५२, ३३५, ३४०, ३४५, ३५६, ४०३, ४२३
	तुल्ल	३५७, ३५८, ३६१, ३६२
	तेत्तीससागरोवमिअ	३५०
थ	थोव	३६१, ३६२, ३७६
व	दसवस्सहस्तिअ	३४०
	दंसणमोहणीय	२७६, २८४, २८७
	दंसणमोहणीयकववयगुण- सेदिलीसय	४०३
	दुगुल्ला	८०, ८७, ६८, ११५, १२१, १३२, ३१०, ३११, ३२२, ३५४, ४०४, ४०५, ४४४ ४५०
	दुसमयदेव	३५१
	दुसमयाहिय	२४५, २४८, २५८, २६२
	दुसमयाहियआवाहा- नारिमसमयअगुदियण	३६५
	दुसमयुत्तर	२७२
	दुसमयूण	२६७, २७०
	देव	३२२, ३४०, ३५०, ३५४, ४४२
	देवी	३४६
	देसण	३४०, ३४६, ३५०, ३५४
	देसणपुव्वकोडिसजम	३३४
	दो	२५१, ३७४, ४२१
प	पध्वस्साणमाण	७५, ८३, ६४, ११०, ११६, १३०
	पंथिदिअ	४३८, ४४१
	पडिमणा	३४६, ३५४
	पडिबण	३३४, ४३०, ४३६
	पडिबण	४३८

	पडुच्च	३
	पण	४०३, ४२१
	पटमणिसेयट्टिदि	४२१
	पटमसमयअसंजद	२६६
	पटमसमयएदिय	३४१
	पटमसमयदेव	२२, ४४२
	पटमसमयमिच्छाइट्टि	२७६, २६३, ३१२, ३२८, ४२५
	पटमसमयवेदयसम्माइट्टि	३२०, ४४६
	पटमसमयसम्मािमिच्छा- इट्टि	२८६, ३२२, ४३८
	पटमसमयसंजम	३३४
	पण्यारसकसाय	३५०
	पद	२३५, २३६
	पदधिकत्वेव	
	पदेस	३७४, ४२४
	पदेसमा	२४३, २४४, २४५, २४७, २७८, २५१, २५२, २५३, २५७, २५८, २६१, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९
	पदेसगुणहाणिट्टाणांतर	१०४
	पदेससंतकम्म	२३४
	पवद	२५१
	पर	२६५, २७०
	परुवणा	४३७
	परुविअ	४३७
	परुविद	३४६, ३५६
	पालिदोवम	३४०, ३५०, ३५४, ३८१
	पालिदोवमवणामूल	३७७
	पविट्ट	२८५, ३०३, ३५१
	पविस्समाण	२८५
	पविस्समाणव	३०३
	पहुट्टि	२७२

	पाय	३७७
	पि	१०४, २४५, २४६, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९, २६२, २६४, २६५, ३००, ३०२, ३०३, ३०५, ३०६, ३०७, ३२०, ३२८, ३३४, ३५१, ३५६, ३६६, ४००, ४२४, ४४२
	पुदवि	३८६
	पुण	२५३, २६३, २६४, २६७, २६८, २७०, ३७५, ३६२, ४२४
	पुणो	४३८, ४४१
	पुण्य	३०८, ४०६
	पुरिमाण	४०५
	पुरिसवेद	२६, ८१, ८८, ६८, ११२, १२०, १३०, ३०६, ३०७, ३२२, ४२०, ४४४, ४५०
	पुव्व	३४६
	पुव्वकोडाउअ	३३४
	पुव्वकोडि	३४०, ३४६, ३५०, ३५४
	पोमालपरियट्ट	२, २५, ५३
व	वंद	२४४, २५२
	वधमाण	४४२
	वधसमय	३३८
	वहुतो	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ३५६, ४४०
	वारसकसाय	४४२, ४५०
म	मय	८१, ८०, ६८, ११६, १२२, १२३, २१०, ३११, ३२२, ३५४, ४०४, ४०५, ४४४, ४५०
	भारदस्त्रिय	२८८

मव	३३४	लोग	३	८७, ८८, ९०, ९१,
भाण्डिदम्ब	४२३	लोम	७५, ७६, ८३, ८४,	९३, ९४, ९५, ९६,
मुजगार	१३३		९४, ९५, ९६,	९७, १०७, ११०,
म मगुस्मादि	१२३	१०७, ११० १११,		१११, ११२, ११३,
मगुस्स	३३४, ३४०,	११९, १२०,		११५, ११६, ११७,
	३५०, ३५४	१२६, १२९		११९, १२०, १२१,
मद	३२२, ४४२	लोमसंजलया	८३, ९०,	१२२, १२६, १२९,
माण	४१९		११६ १३३, ३५८	१३०, १३१, १३२,
माणसंजलया	८२, ८८,	लोह	१३०, ४१९	१३३, ३५७, ३६१,
	९८, ११२ १२२,	लोहसंजलया	१२२, ३०३	३६२, ४४६, ४५०
	१३२, ३०२	व	वट्टमाण्य	३०९, ४०४
माया ७५, ७६, ८२, ८३,		वट्टि	३७४, ३९३	विसेसुत्तरकाल
८४, ९४, ९५, ९८,		वस्स	४४०	३८९
११०, १११, ११७,		वा	२४८, ३७०, ३७३,	विहासा
११९ १२६, १२९,			३७४	२३५, ३६६
१३०, ४१९		वार	३२८, ३३४, ३४०,	वेङ्गावट्टिसागरोवम
मायाट्टिदिकंढय	३०३		३५०, ३५४, ४२१,	६,
मायासंजलया	९० ११३,		४४०	३२८, ३३४, ४३०,
	१२२, १३३, ३०३	वास	२४८	४३९, ४४१
मिच्छत्त	२, २५, ७८,	वासपुषत्त	३, २४८	वेदयमाण
	८५, ९६, १०७,	वि	२४३, २४४, २४५,	३५४
११७, १२६, २७६,			२४६, २८५, ३०२,	वेमाण्य
२७९, ३१२, ३२८,			३०३, ३०५, ३०७,	३५४
३४०, ३४६, ३५६,			३०८, ३३९, ३४०,	वेमाण्यदेवी
३५८, ३७४, ४००,			३४०, ३५७, ३५८,	३४६
४२४, ४३०, ४३५,			३६१, ३६२, ४०३,	स
४३९, ४४१, ४४७			४२०	सह
मिच्छत्तद्धा	३४०	विकट्टिद	३४०, ३४६	४४२
मिच्छत्तमंग	४०३, ४२०	विदिककं	२४४, २४५,	सकारण
र र ३१०, ३५०, ४०४,			२४६ २४७, २४८,	९९
			२६२, २६३, २६४	सक
रचिद	४३५	विदिय	४०६, ४२१	२४४, २४७, २५३
रवि	७९, ९६, ११५,	वियप्प	२५७, २५८,	संकमण
१२१, १३१, ३२२			२६१, २६६, २७०,	२३७, २७३,
रहस्सकाल	४३८		२७१, २७३	२७८, २८०, २८४,
रुत्तार	२६७, २७१	विसेसाहिय	७५, ७६, ७८,	२८५, २८७, २८८,
ल लद्ध	३३४ ३४०		७९, ८०, ८१, ८२,	३१२, ३२०, ३२२,
लमिडाउअ	३२८		८३, ८४, ८५, ८६,	३२८, ३५६

संजमासंजम	३२८, ३३४, ३४०, ३४०, ३४४, ४४०
संजमासंजमगुणसेदि	२७६, ३६६
संजमासंजम-संजमगुण- सेदि	२८८, २६२
संजमासंजमसंजमदंसण- मोहणीयन्त्रबण- गुणसेदि	२६६
संजोद्द	३२८
संदरिसणा	३७७
संजलण	४४५
संतकम्मट्टाण	२३४
सत्तम	३८६
समरा	२६६, २७०, २७३, ३११
समय	२५१
समयपवद्ध	३७४, ३७७, ३७८, ३८२
समयाहिय	२४३, २४४, २५१, २५३, २६२
समयाहियउदयावलिाया	२५७
समयुत्तर	२४७, २६४, २६६, २७०, २७१, ३७८

समयुत्तरट्टिदिसंतकम्म	२६८
समयुत्तरावलिाया	२५२
समयूण	२६१, २६६, २७६,
समुक्कित्तणा	३६७
सम्मत्त ५, २६, ७८, ८४, ६१, १००, १०४, ११६, १२४, २८४, ३२०, ३२८, ३३४, ३५४, ३५७, ४००, ४३०, ४३५, ४३७, ४३८, ४३९, ४४१, ४५०	
सम्मत्तद्धा	४३५
सम्मामिच्छत्त ५, २६, ७६, ८२, ६२, १०३, १०४, ११६, १२४, २८७, २८८, ३२२, ३५०, ४००, ४३७, ४३८, ४५०	
सम्मामिच्छत्तद्धा	४३७
सव्व	२४८, २६३, २८६
सव्वकम्म ५०, ५३, ४२४	
सव्वत्थोव ७४, ८२, ६१, १००, ११६, १२४, ३५६, ३५७, ३५८, ४४६, ४४७, ४५०	

सव्वपयडि	४४६
सव्वमोहणीयपयडि	३५६
सव्वलहुं	२७६, २८४, २८७
सव्वसंतकम्म	३०३
सागरोवम	२४८
सागरोवमपुधत्त	२४८
साधिरिय	६
सामित्त	२७५, ३११, ३२२, ३६७, ३७४
सुहुमण्णिओअ	३२८
सुहुमण्णिगोद	३४०
से	३५१
सेस	४, २६, ६०, २६८, २६९, २७६, ३१२, ३५७, ३५८, ३५९, ३६१
सोग	८०, ८७, ६७, १२१, १३१, ३१०, ३५०, ३५१, ३५५, ३५६, ३६१, ३६२, ४०४, ४४५, ४५१
ह	हस्स ७८, ८५, ६६, ११४, १२१, १३१, ३२२, ३१०, ३५०, ४०४, ४४४, ४५०
हेट्टिणिय	२६७

७ जयधवलान्तर्गतविशेषशब्दसूची

पुस्तक ६

अ अणुक्खसपदेसविहत्ति	२
अंतराह्यभाग	५
आ अउअभाग	५
इ इत्थिवेद	१०१

उ उक्कण्णामित्त	१०६
उक्खसपदेसविहत्ति	२
उत्तरपयडिपदेस- भागाभाग	५०

क कम्मट्टिदि ७३, ७४, ७७,	
	१३४
कसायभाग	५१
कोहसजलणदव्व	५६

कोहसंजलयाभाग	५५	द	दंस्वावरणीयभाग	५	मोहणीयभाग	५	
ग	गुणसंकम	८३	दुगु छाभाग	५२	र	रवि-अरदिअश्वोगादभाग	
	गोदभाग	५	पदेसभागाभाग	५०		५१	
छ	छेदभागहार	१७१	प	पयडिगोडुच्छा	१३६, १३८	ल	लोभसंजलयाभाग
ज	जहानखयागद	१५७		पुरिसवेद	१०१		लोहसंजलयादव
	जीवभागाभाग	५०	फ	फहय	१६३	व	विगिदिगोडुच्छा
ट	ट्टाण	१५७	ब	बादर	७३		वेदणीयभाग
	ट्टाणपरुवणा	१६६		बादरपुदविजीवआउअ	७४		वेदभाग
ण	याशावरणीयभाग	५	भ	भयभाग	५२	स	सत्तिट्टिदि
	णामभाग	५	म	माणसंजलयादव	५६		सम्मत्तभाग
	णोकसायभाग	२५		माणसजलयाभाग	५५		सम्भामिच्छत्तभाग
त	तसबंधगडा	६१		मायासंजलयादव	५६		सजमकाडग
थ	थावरबंधगडा	६१		मायासंजलयाभाग	५५	ह	हसस-सोगभाग
				मिच्छत्तभाग	५७, ६५		हदसमुप्यत्तिय

पुस्तक ७

अ	अधाखिसेवट्टिदिपत्तय	३७२	उदयट्टिदिपत्तय	२७३	खिसेवट्टिदिपत्तय	३७०	
	अप्यावहुअ	३६७	ओ	ओकडबणा	२३७	व	विहासा
आ	आदिट्ट	२४३	च	चदुगादिणिगोद	२	स	समुफित्तणा
	आदेश	२५२		चूलिया	३३६		सहाव
	आसाण	३११	ठ	ठिदिय	३६६		संकम
उ	उकडडणा	२३८	ण	णिच्चणिगोद	२		सामत्त
	उकसट्टिदिपत्तय	३६८					३६७

